

आवेला ठे, के जेना वांचवाथी वांचनारने तथा सांज. नारने अमंद एवां
आनंद उत्पन्न थाय ठे, ते आनंदनुं यथायोग्य वर्णन वचनवां अमारी कलम,
काम करी शकती नथी. अने आ ग्रंथ संस्कृतपरथी जे रासरूपें रच्यो ठे, ते
तो कवियें केवल संस्कृतजापाना अविज्ञातजनोनो महोठो उपकार करेलो
ठे. केम के ? जो आ रास न करे, तो संस्कृतना अविज्ञातजनोने श्री शांति
नाथना चरित्र वांचवानो लाज मली शके नहिं.

हवे आ ग्रंथने अमोयें ज्यारें ठापवानो विचार कखो, त्यारें ते ठापवाने माटें
प्रथम आग्रंथनी प्रत जोड्यें. तो पठी ते प्रतनो जे जे स्थलें मलवानो संजव
हतो, ते ते स्थलें अमोयें पत्र द्वारा तपास कराव्यो, अने वली आहिं मुंबइमां
पण प्रयासपूर्वक तपास कखो, परंतु कोइ पण स्थलथी तेनी एक पण प्रत
अमोने उपलब्ध थइ नही; मात्र जावनगरथी अमारा सुइसाधर्मिजाइ
जे शेठ कुंवरजी आपणंदजी तेउयें अमोने एक प्रत मोकली. अने पठी
एक प्रत अमारा घरेनां पस्तको शोधवाथी मली आवी. तेमां अमारा घरनी
प्रत शोध करेली होवाथा. पणी सुइ हती, परंतु ते प्रतमां प्रथमथी ते
चोथा खंमनी त्रीजी ढाल पयेंत न पत्रोज हतां नहिं, त्यारें तो ते जावनग
रथी आवेली प्रत उपरथीज अमोयें आ ग्रंथ यथामति संशोधन करावीने
ते चोथा खंमनी त्रीजी ढाल सुधी ठाप्यो ठे, माटें एक प्रतपरथी ठपावाथी
तेमां केटली एक नूलो रही गइहजो. तदनंतर तो अमोयें आ ग्रंथने वेहु प्रत
साथें मेलावी, तेनुं प्रयास पूर्वक यथावृद्धि संशोधन करावी ठाप्यो ठे.
तो पण आग्रंथमां दृष्टिदोषथी तथा कंपोस करनारनी नूलथी तथा अज्ञा
नथी जे कांइ नूल चूक रही गइ होय, तो तेने सर्वसाधर्मिजाइयोयें, मारी
पर सुधारी वांचवारूप रूपा करवी. अने वली हे सुइजनो ! संसारविटवणाने
वधारनार एवा बीजा कार्यामां व्यर्थ व्यन करतां आवा अमारा, संसारो
वेदक एवा उत्तम कार्यामां तन, मन धनथी उदार आश्रय आपवामां अमा
रा पिताना समयमां जेम वइपरिकर रहेता हता, तेम सांप्रततमयमां पण
रहेतो. एवी अमने पूर्ण आशा ठे. कारण के आवा ज्ञानवृद्धिकार्यने ठने
जन आपनारा जनोने ज्ञानदान समान पुण्यनी प्राप्ति थाय ठे. सुमनिजनेपु
किं सुहु विलेखनेन ॥ शुभं नृवात् ॥

॥ श्रावक. खीमजी जीमतिह माणक ॥

प्रस्तावना

आ जैनकथारत्नकोषनामा ग्रंथनो आठमो जाग ढापी अमोयें अमारा सर्व साधर्मी सुज्ञनाश्योनी समह्रमां सूकेलो ठे. जे जागमां सम्यग्दृष्टि समस्तस ज्ञानोने वांचवा योग्य एवो मुनिवर्य पंडित श्रीरामविजयजी विरचित शोलमा तीर्थकर जे श्री शांतिनाथ जगवान्, तेमनो मात्र एक रास दाखल करेलो ठे. कारण के जीवने उत्तम पुरुषोनां चरित्रो वांचवाथी तथा सांज लवाथी संसारनो निस्तार थाय ठे. आ रासना जूदा जूदा ठ खंनो ठे, तेमां श्रीशांतिनाथ जगवानना वारे नवनी सविस्तर कथाउ आवेली ठे. तेमज वली श्री शांतिनाथजीना मुख्यगणधर जे श्री चक्रायुध तेमना पण सर्वज्ञवनी कथाउ आवेली ठे. आ ग्रंथ एवो तो रमणीय ठे, के जेनी प्रत्येक ढालो, सरस एवा नव रसें करी संमिलित ठे, अने तेमां घणुं करीने तो स्थलें स्थलें वैराग्यकारक उपदेशोज आवेला ठे, के जेने ध्यान दश्ने वांचवाथी वाचकवृंदने संसारनुं असारपणुं समजाय ठे. अने तेथी तेमना अंतःकरणना परिणाम सुधरे ठे, अने पढी तेने सजतिनी श्रेणि प्राप्त थाय ठे. वली आ ग्रंथमां बीजी पण चित्तचमत्कारक मंग लकलश कुमार, तथा सुमित्रानंदादिक तथा पुण्यसार वगेरेनी अनेक कथाउ आवेली ठे. तेमज वली श्रावकना वार व्रतपरनी वार कथाउ आवेली ठे, तेनुं आहीं अति वर्णन न करतां सर्व ज्ञाश्योने हुं एटलीज जलामण करुं हुं, के ते सर्व कथाउ तेउयें पोतेंज पोतानी मेलें वांची तेनुं जे याथातथ्यस्वरूप ठे, समजवुं. आ रास, मुनिवर्य पंडित श्रीरामविजयजीयें पंडितश्रीअजित प्रज्ञसूरियें संस्कृत पद्यमां वनावेला श्री शांतिनाथचरित्र उपरथी रचेलो होय एम जागे ठे. कारण के ते संस्कृतग्रंथ अने आ ग्रंथ ज्यारें आपणें मेलवी वांचीयें ठेयें, त्यारें बहुशः वेदु ग्रंथनी अक्षरशः वात मलतीज आवे ठे. मात्र आ रासमां सहुने सारी रीतें समजी शकाय तेमाटें वैराग्यकारक कथाउमां तथा केटलाएक कविनजागमां, यत्किंचित् चरित्रग्रंथगत न बटां वधारेल ठे. तथा एवीज रीतें चैत्यवंदन स्तवन पण नवीनज वनावेलां ठे. आ रासमां प्रसंगोपात पृथक् पृथक् विकृत श्लोको तथा दोहा तथा सिद्धां ननी नाथाउ पण लीधेलीयो ठे. वली आ ग्रंथमां शब्दानुप्रास तो एवा उत्तम

॥ अस्य ग्रंथस्यातिसंक्षिप्तानुक्रमणिका ॥

- १ श्री शांतिनाथ जगवानना वार नवमांहेला पहेला नवमां श्रीशां
तिनाथजी श्रीपेणराजा थइ उपन्या, तेनुं सविस्तर चरित्र. १
२ दशविधधर्माचरण करनारने सुख प्राप्त थाय, तेविपे मंगलकलशकुमारक० ७
३ बीजे नवें श्री शांतिनाथजी उत्तरकुरुमां युगलिया देव थइ उपन्या. ३०
४ त्रीजे नवें श्रीशांतिनाथ जगवान् सौधर्मदेवलोकमां देव थइ उपन्या. ३२

॥ अथ द्वितीयखंडस्यानुक्रमणिका ॥

- ५ श्रीशांतिनाथना चतुर्थेनवप्रसंगार्थे हरि प्रतिहरि प्रमुखनुं चरित्र. ३३
६ चौथेनवें श्रीशांतिनाथजगवान्, अमित तेजाविद्याधर थया, तेनुं च० ४१
७ सांतरायधर्मे पालनथी सांतराय सुखप्राप्त थाय, तेमां मत्स्योदरक० ५५
८ पांचमे नवें श्रीशांतिनाथ प्राणतदेवलोकमां दिव्यचूलनामा देव थ० ८५

॥ अथ तृतीयखंडस्यानुक्रमणिका ॥

- ९ ठठे नवें श्रीशांतिनाथजी अपराजितनामैं बलदेव थया, तेनुं चरित्र. ८८
१० अल्पपणकपायसेवनथी जीवहुःखी थाय ठे ते पर मित्रानंदादिक क० ९०
११ संयमपालवामांकाचरणुं न राखवामां जिनपालने जिनरहित दृ० १२१
१२ त्वग्गत, अस्थिगत ने मज्जागत एवा धर्ममां नरसिंह राजानी क० १३३
१३ श्रीशांतिनाथ जगवान् सातमे नवें अच्युतें देव थइ उपन्या. १४३

॥ अथ चतुर्थेखंडस्यानुक्रमणिका ॥

- १४ आठमे नवें श्रीशांतिनाथजी वज्रायुधचक्री थइ उपन्या, तेनुं चरित्र. १४०
१५ विचारीकार्य करवामां आम्रनिपात्यादि दृष्टांतो, तेसांवीजी कथाउठे १५३
१६ वज्रायुधचक्रीने चक्र उत्पन्न थयुं ते तथा चक्रीपणानीसंपदानुं वर्णन. १७८
१७ पुण्यथी सुखप्राप्ति थाय ठे, तेमां पुण्यस्तार कुमार कथा. १८४
१८ चतुर्विध बुद्धिमांहेली आंत्पातिकी बुद्धिमां रोहकनी कथा. २०५
१९ श्री शांतिनाथजी नवमे नवें नवमयवेयकें देवता थया. २१६

॥ अथ पंचम खंडस्यानुक्रमणिका ॥

- २० दशमे नवें श्रीशांतिनाथ मेघराजा थया, तेनुं सविस्तर चरित्र. २१८
२१ पौषधशालामां पौषध करवा घेतैला मेघराजाना शरणमां आवेला
पारेवाने आपेला अन्नपदानविपे संवादरूपे अनेकमनोहर कथाउठे. २२६

- २२ धर्मथी आपत्ति दूर थाय ठे, अने सुखनी प्राप्ति थाय ठे, तेविषे
अन्यकथायुक्त गतजवमां शूरनामक थयेला वत्सराजनी कथा. २४ः
२३ अग्यारमे जवें श्रीशांतिनाथजी सर्वार्थसिद्धिमानमां देव थया. २६ः

॥ अथ पष्ठसंमानुक्रमणिका ॥

- २४ वारमे जवें पोतेंज श्रीशांतिनाथजी चक्री, तथा श्रीशोलमा तीर्थ
कर श्रीशांतिनाथ जगवान् थया तेमनुं मनोहर सविस्तर चरित्र. २६६
२५ विषयत्यागथी सुख प्राप्ति थाय, तेमां गुणधर्मकुमारनी कथा. ३१६
२६ कषाय त्यागना उपदेशमां नागदत्तनुं वृत्तांत. ३३६
२७ प्रथम प्राणातिपात व्रतना उपदेशमां यमपाशनी कथा. ३३९
२८ द्वितीय मृपावाद विरमण व्रत उपदेशमां जडश्रेष्ठिकथा. ३४३
२९ तृतीय स्थूलश्रद्धादानविरमणव्रतपर जिनदत्तकथा. ३४९
३० चतुर्थ मैथुनविरमण व्रत पर करालपिंगल पुरोहित कथा. ३५६
३१ पंचम परिग्रहपरिमाणव्रत उपदेशमां सुलसकथा. ३६४
३२ षष्ठदिशिपरिमाण व्रतपर स्वयंचुदेवकथा. ३८३
३३ सप्तम जोगोपजोग विरमणव्रतपर जितशत्रुतथा नित्य मंदिता कथा. ३८५
३४ अष्टम अनर्थदंमविरमण व्रत पर समृद्धिदत्तकथा. ३८८
३५ नवम सामायिक व्रतोपदेशमां सिंहश्रावक कथा. ३९१
३६ दशम देशावकाशिक व्रतोपदेशमां गंगदत्तनी कथा. ... ३९४
३७ एकादश पौषध व्रतोपदेशमां जिनचंड कथानकम्, ३९५
३८ द्वादश अतिथिसंविज्ञाग व्रतोपदेशमां शूरपालकथा. ... ३९८
३९ श्रीशांतिनाथजीनापुत्रचक्रायुधें दीक्षा लीधीने मुख्यगणधरथया. ४१५
४० मोहराजानुं तथा तेना सैन्यनुं वर्णन. अने जीव, संसारदुःख जोगवे
ठे, तेने ज्ञान प्राप्तिथी सुख थाय ठे, तेमां रत्नचूडनो दृष्टांत. ४१६
४१ श्रीशांतिनाथचतुस्त्रिंशदतिशवर्णन तथा तत्परिवारसंख्या कथन. ४२७
४२ श्रीशांतिनाथनुं मोक्षगमन, ते पढी देवादिकृत शोक तथा देवकृत
निर्हरणक्रिया, त्रिंशमोहस्थानविवेचन, कोटिशिलातीर्थमां चक्रा
युध मुक्तिगमन, तथा शांतिजिनस्तुति. ४३२
४३ श्रीशांतिनाथजीनावार जवना नाम निर्दश अने ग्रंथकारनी प्रशस्ति. ४३९
४४ स्त्रीयोने शिखामणना केटलाएक तूटा तूटा बोलो. ४४४

॥ अथ ॥

॥ पंक्ति श्रीरामविजयजी विरचित श्री शांतिनाथजगवाननो
रासप्रारंभः ॥

॥ तत्र ॥

॥ प्रथमखंडः प्रारभ्यते ॥

॥ दोहा ॥ सकल श्रेयवरदायिनी, मुनिवरवंदित जेह ॥ जिनपद
लक्ष्मी नित नमुं, आणी अधिक सनेह ॥ १ ॥ उजय अर्थ वाहन वृषे, सदा
विराजे जेह ॥ ते श्रीवृषभ प्रनू तणां, चरण नमुं गुणगेह ॥ २ ॥ अंत
रंग रिपुवर्गदल, जिण जित्युं कृणमांहि ॥ अजित स्वामि पमुहा नमुं,
ते जिन धरि उत्साह ॥ ३ ॥ महिमा महोटी जेहनो, सकल सुख दातार ॥
जवि मनोवांठित पूरवा, कामकुंज अवतार ॥ ४ ॥ कुशलवद्विवन सींचवा,
जे पुष्कर जलधार ॥ विश्वसेनकुल अवतत्या, सकलजंतु आधार ॥ ५ ॥
शांतिनाथ प्रभु शोलमा, गजपुरस्वामी देव ॥ वेहु पदवी धारक थया, सारे
सुर नर सेव ॥ ६ ॥ ते श्रीशांति जिणंदनो, सरस रतिक संबंध ॥ विस्तारें
करि वर्णवुं, द्वादश जव अनुबंध ॥ ७ ॥ गुण अनंत श्रीजिन तणा,
केम करि वर्णव्या जाय ॥ पण ते प्रभुनी जक्तिनुं, महोटीं मुळ सहाय
॥ ८ ॥ श्री सुमति सुगुरु विद्यानिधे, पदशुं एह रसाल ॥ ढालबंध श्री
शांतिनो, रासप्रबंध विशाल ॥ ९ ॥ नव नव जव चढती कला, शुक्ल
पद्म जिम चंद ॥ जिम कीथा तिम वर्णवुं, धरि मनमां आनंद ॥ १० ॥
जव पहेले श्रीपेण नृप, विलसी बहु संपत्ति ॥ ते विस्तारें हुं कहुं, सुणजो
जवि इक चित्त ॥ ११ ॥

॥ ढाल पहेली ॥

॥ स्वस्ति श्रीशाला ॥ ए देशी ॥ जंबुद्वीप अनूपम उपे, सकलद्वीप शृंगार ॥
मेरुमहिधर मध्य विराजे, लख योजन विस्तार ॥ जेमांहे जाजा शुभ आवासा,
वासधरा दोइ चार ॥ तेह नाणे अंतर अचंतर, नन्नियाम सुविचार
॥ १ ॥ यज्ञकामागमे ॥ नरहं हेमवर्धनि, द्रियासंति महाविदेहंति ॥ रम्म
गण रसावयं, एरवयं चैव वासाइ ॥ १ ॥ तेमांहे शुनरत जन बहु संयु

त, जरत नाम वरखित्तं ॥ जिनवर चक्रधरादिक नरवर, चरणवास सुपवि
 त्तं ॥ जरतजूमिचूपण गतदूपण, पत्तन बहुजनवासं ॥ रत्नपुरं पुरमां रत्नो
 पम, बहु मणि रयण निवासं ॥ २ ॥ वापी वप्र विहार विराजे, वाडी वन
 आराम ॥ सकललोकधनवंत विलासी, बहुआशा विश्राम ॥ ज्ञानी ध्यानी
 दांनी मानी, सज्जनजन सन्मान ॥ एहवुं नगर अनोपम उपे, इंदुपुरी उप
 मान ॥ ३ ॥ वारु नीति शुनरीति महामति, लक्ष्मीपति गुणधारी ॥ श्री
 पेणान्निध नामें चूपति, जाणे सुर अवतारी ॥ नीम कांत चूपति गुणधारे,
 नरवसहो नरसिंहो ॥ राजा राज्य करे अतुली बल, तेजे अकल अवीहो
 ॥ ४ ॥ तेह घर राणी गुणइंझाणी, जाणीती जगमांय ॥ रूपें रति राणी
 दोय पट्टराणी, वाहाली जीवित प्राय ॥ अजि सिंह आगल नंदिता जोडे, आ
 वंते अन्निधान ॥ विलसे ते साथें नृप जगनाथें, जोडी जोडी समान ॥ ५ ॥
 विलसंता जोगा पुण्यसंयोगा, एक दिवसने योग ॥ सुखसेजे सूती पुण्य
 पनोती, पहेली स्त्री नीरोग ॥ ऋतुधर्म सनाता तेज दिखाता, चंद सूर दोय
 इंद ॥ देखे उत्संगें क्रीडा करता, धरता अति आनंद ॥ ६ ॥ देखी
 सुपनंतर हर्ष निरंतर, हियडे गजगति गेल ॥ आवी पियुपासें मन उल्ला
 सें, मानुं मोहनवेल ॥ जय जय मुऊ स्वामी अंतरजामी, प्राण नाथ अवधार ॥
 सुहणे में दीठा लाग्या मीठा, चंद्र सूर्य दोय सार ॥ ७ ॥ तेहनुं फल स्वामी
 कहो रतिकामी, पूतुं वे कर जोडी ॥ सांजल मृगनयणी अमृत वयणी, फल
 जांखुं मन कोड ॥ होशे सुत सुंदर रूप पुरंदर, निजकुलदीपक दोय ॥ हरखी ते
 राणी ने सुणि वाणी, आवी मंदिर सोय ॥ ८ ॥ दोय गर्ज धरंती ते गुणवंती,
 सोहे अंग अपार ॥ जाणग उपगारी दोयने धारी, धरणीपरें गुणधार ॥
 शुन दोहला लाथे अंगज वाथे, साथे धर्मविचार ॥ शुनवेलाराणी गुणमणि
 खाणी, प्रसवे दोय कुमार ॥ ९ ॥ श्रीपेण नरिंदा धरे आनंदा, आवंतां दर
 वार ॥ वंदी ठोडावे गुणिजन गावे, बोले जयजयकार ॥ चिरं जीवो नंदन
 जग आनंदन, कोडाकोडि वरीस ॥ सोहव इम गावे हर्ष वधावे, देती बहु
 आशीप ॥ १० ॥ देखी दोय पुत्ता गुणसंयुत्ता, मत्ता हर्षनरेण, माता
 हुलरावे बलि धवरावे, स्तन ग्रहि निज करेण ॥ सुत नामें सुंदर गुणमणि
 मंदिर, इंदुपेण विंदुपेण ॥ चढती वय पामे बहुजन कामे, शोने रूपगणेण
 ॥ ११ ॥ हवे अष्टम वषें बहुले हर्षें, पाठविया दोय नंद ॥ निशालें सूडा

जिम ते रुडा, बुधें जेह अमंद ॥ रसग्रंथ अनुत्तर कला बहुत्तर, नणि
या नारे जेद ॥ देखी दोय जाया हरखी माया, वाथ्यो चित्त उमेद ॥१२॥
यौवन वय आया रूप सुहाया, मानुं दोय रतिकंत ॥ मावित्र मनोरथ करता
सारथ, राजलील विलसंत ॥ पहेली ए ढालें पुण्य विशालें, दाख्यो राज
विलास ॥ श्री सुमति सुगुरुनो शिष्य कहे नवि, सुणो शांतिजिनरास ॥१३॥
॥ दोहा ॥

॥ इण अवसरें नरतमां, मगधनाम शुच देश ॥ तेमां बहुरुधें नखो,
अचल नाम सन्निवेश ॥ १ ॥ वेदविचक्षण तिहां वसे, वारू वाडव एक ॥
धरणीजट नामें निपुण, सकल शास्त्र सुविवेक ॥ २ ॥ तस धरणी धरणी
परें, कृमावंतमां लीह ॥ नाम यशोमज्ञा वली, मीठी जेहनी जीह
॥ ३ ॥ पियुसार्थें सुख विलसतां, जन्म्या अंगज दोय ॥ नंदिचूति
श्रीचूति वेहु, रूप अनूपम सोय ॥ ४ ॥

॥ ढाल बीजी ॥

॥ श्रेणिक मन अचरिज थयो ॥ ए देशी ॥ ते द्विजना घरमां वसे, कपिला
नामें दासी रे ॥ आवी यौवनवेशमां, प्रेम कला सुविलासी रे ॥ १ ॥ वि
रुड विषयविडंबना ॥ ए आंकणी ॥ जो जो जगत विमासी रे ॥ विषयसमी
विषमी नहीं. महियल महोटी हांसी रे ॥ वि० ॥ २ ॥ रूप देखी दासी
तणुं, वाडव थयो विपरीतो रे ॥ वेदकला अलगी रही, मोहकलणमां खूतो
रे ॥ वि० ॥ ३ ॥ लोकलज्जा नवि जेखवी, मोहतणो वश लीनो रे ॥ शील
तजीने कुशीजिनी, थयो दासी आधीनो रे ॥ वि० ॥ ४ ॥ सुख विलसतां
तेहणुं, कपिला कुखनो जायो रे ॥ कपिल सुत त्रीजो थयो, जातिविही
न गवायो रे ॥ वि० ॥ ५ ॥ अंगज दोयने आदरे, वेदाध्ययन करावे रे ॥
जाति विहीन जाणी करी, कपिल नणी न नणावे रे ॥ वि० ॥ ६ ॥ मानहीन
मति आगलो, अलगो रहि एक चित्तें रे ॥ श्रवण मनन चिंतन करी,
शास्त्र जणे गुन रीतें रे ॥ वि० ॥ ७ ॥ सांजजतां सयली कला. शीख्यो
सकल विचारो रे ॥ वेदकलाकुशली थयो, मानयनी मतिधारो रे ॥ वि०
॥ ८ ॥ जाति अवज्ञाने नयें, नगर मूकी नीसरियो रे ॥ यज्ञमूत्र दोय
पारतो, माहा माहाण जिम बरियो रे ॥ वि० ॥ ९ ॥ विद्यामदमां माहा
जतां, संचरतो नृपीठें रे ॥ अनुक्रमें रत्नपुरें गयां, सुख पांम्यो ते दीठे रे

॥ वि० ॥ १० ॥ नगर निरीक्षणकारणें, जमतो कपिल कदापि रे ॥ सत्यकी पाठक तिहां वसे, द्विजवर अमल अपापीरे ॥ वी० ॥ ११ ॥ ठात्र जणावे ते बहु, कपिल गयो तस गेह रे ॥ वेद अर्थ पूढे घणा, अगम अगोचर जेह रे ॥ वि० ॥ १२ ॥ उत्तर नवि देई शक्यो, ठात्र सबल मति मंतो रे ॥ सत्यकी मन हरख्यो घणुं, मतिगुण देखि महंतो रे ॥ वि० ॥ १३ ॥ विद्यार्थी आदर लहे, विद्या सबल सखायी रे ॥ विद्या बंधु विदेशमां, विद्या दैवत सहायी रे ॥ वि० ॥ १४ ॥ यडुक्तं ॥ हर्तुर्याति न गोचरं किमपि शं पुष्पाति सर्वात्मना, ह्यर्थिन्यः प्रतिदीयमानमनिशं वृद्धिं परामृहति ॥ कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमंतर्द्धनं, येषां तान् प्रति मानमुद्यतजनाः कस्तैः सह स्पर्द्धते ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ योग्य जाणीने सत्यकी, कपिलने निजपद स्थापे रे ॥ विद्यागुण ए जीवने, बहु सुख पदवी आपे रे ॥ वि० ॥ १५ ॥ यडुक्तं ॥ गुणाब्धावादरः कार्यैः, किमाटोपैः प्रयोजनम् ॥ विक्रीयते न घंटान्नि, गावः क्षीरविवर्जिताः ॥ १ ॥ दोहो ॥ निर्गुण ठंमे अष्पणा, परपुङ्गे गुणवंत ॥ सिर धारिज्जे वण कुसुम, अंगज मल ठंमंत ॥ ३ ॥ पूर्वढाल ॥ पाठकगृहिणी जंबुका, तस पुत्री सत्यनामा रे ॥ कपिलने जाणी योग्यता, परणावी अजिरामा रे ॥ वि० ॥ १६ ॥ नाम अयुं ते नयरमां, कपिल कपिल सहु बोले रे ॥ पुण्यदशा जस पाधरी, ते नरने कुण तोले रे ॥ वि० ॥ १७ ॥ उपाध्याय हरख्यो घणुं, मुक्त नाग्यें ए मलियो रे ॥ पुत्री पुण्यवंती घणुं, सबल मनो रथ फलियो रे ॥ वि० ॥ १८ ॥ जग जीवाडण एहवे, वृषा क्रतु तिहां आवे रे ॥ सबल घटा घन मेलवी, जगमांहे जल वरसावे रे ॥ वि० ॥ १९ ॥ चिहुं दिजें चमके दामिनी, सबल सजल घन गाजे रे ॥ जलधारा वरसे घणुं, ताप जगतनो जांजे रे ॥ वि० ॥ २० ॥ इण अवसरें रयणी समे, नाटक देखण काजें रे ॥ कपिल गयो ते एकलो, वेठो जश्नें समाजें रे ॥ वि० ॥ २१ ॥ नाटक जोईने वव्यो, विरमी नहिं जलधारो रे ॥ मन चिंते इहां मनुष्यनो, नहिं कोई संचारो रे ॥ वि० ॥ २२ ॥ कोण अंगुक जीनां करे, वस्त्र सकल ऊतारी रे ॥ थई निरंगुक नीसखो, कक्षांतर सविधारी रे ॥ वि० ॥ २३ ॥ आवी निज घर आंगणे, अंगुक पहेरी अंगें रे ॥ घर पेसंतां सामुही, सत्यनामा मन रंगें रे ॥ वि० ॥ २४ ॥ अंगुक पियु आगल धर्यां, नूतन कपिल निहाली रे ॥ सुण वनिते मंत्रें करी,

कोरां वस्त्र जो जाली रे ॥ वि० ॥ २५ ॥ जलवाला उद्योतथी, देखी
अंग जलनीनुं रे ॥ मनमांहे चिंते ए सही, नहिं आचरण कुलीनुं रे ॥
वि० ॥ २६ ॥ नम्रपणे आव्यो इहां, धिक् एहशुं गृहवासो रे ॥ मंद रा
ग ते ऊपरें, नामा गुण आवासो रे ॥ वि० ॥ २७ ॥ वीवूं न पडे कंबळें, सहू
कहे ए वातो रे ॥ राम कहे वीजी ढालमां, जोई लेजो जातो रे ॥ वि० ॥ २८ ॥

॥ दोहा सोरठी ॥

॥ कपिल तणो हवे वाप, कर्मवर्गें थयो दूवलो ॥ प्रगटघां पूरव पाप,
झीण थयुं धन जेहनूं ॥ १ ॥ जोडीजें सो वार, राख्युं एह रहे नहिं ॥
खरचे कोइ शुन ठाम, जिम वाधे वमणुं वली ॥ २ ॥ यहुक्तं नैपथे ॥
पूर्वपुण्यविज्वव्ययसृष्टाः, संपदोविपदएव विमृष्टाः ॥ पात्रपाणिकमला
पणमासां, तासुं शांतिकविधिर्विधिदृष्टः ॥ १ ॥ पूर्वदोहा ॥ मूकी मननुं मान, पर
देशें ते संचखो ॥ जाणी कपिल सन्मान, रत्नपुरें आव्यो वही ॥ ३ ॥
थावत दीगो तात, दोडी लाग्यो पाउले ॥ नीळ्यो हियडे जात, हर्षे धरी
हेजालुवे ॥ ४ ॥ कोई मिप करिं सोय, जोजन अवसरें कंतने ॥ अलगो
वेगो जोइ, चित्त चमक्युं नामा तणुं ॥ ५ ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥

॥ नमणी खमणी नें मन गमणी ॥ ए देशी ॥ नामा कर जोडी कहे
वाच, सरराजी मुज नांखो साच ॥ शुं तुम अंगज एह के अवर, फूठ कही
तो हत्या द्विजवर ॥ १ ॥ हत्यापातक विहितो तेह, साचुं कहे सुण बहु
गुणगेह ॥ ए मुज दासीनो अंगजात, सांचनी समजी सघली वात ॥
२ ॥ धन आप्युं तिहां कपिल प्रवर, धरणीजट चाळ्यो निज नगर ॥ सत्य
नामा गइ नृपनी पासें, कर जोडीने एणि परें नामे ॥ ३ ॥ स्वामी तुं पंचम
लोकपाल, दीन अनाथ तणो रखवाल ॥ हुं दुःखणी नें अचला बाल,
कर कर स्वामी सार संजाल ॥ ४ ॥ यतः ॥ इर्वलानामनाथानां, बालवृद्ध
तपस्विनाम् ॥ अन्यायपरिचूतानां, सर्वेषां पार्थिवोगतिः ॥ २ ॥ ठप्पच ॥
रोपे तरु उतवात, बाल तरुवरने सींचे ॥ कंटक काटे वूर, सगल तरु
राखे वजें ॥ ऊंच नमाडे जाड, नूमि पडतां केइ रके ॥ जे फुल्यां बहु फुज,
ताम पण स्वाद न चकें ॥ एम अनेक माली तणा, गुण सघला अंगें धरे ॥
राम कहे ते नृपिति, सकल लोक संपति करे ॥ ३ ॥ पूर्वढाल ॥ जाति

हीन पति मुज कर चढियो, कोइक पूरव डुक्कत नडियो ॥ हवे एहशुं के
हवो रतिराग, मुज मनमां वसियो वैराग ॥ ५ ॥ ते माटें तुम पासैं आवी,
वात कहो तेनें समजावी ॥ जिम आ जन्म लगें हुं शील, पाळुं जेहथी
लहियें लील ॥ ६ ॥ श्रीपेणराय सुणी एम वात, तेज्यो कपिल जणी
साक्षात ॥ तुज गृहवासथी विरमी नार, विगतनेह ऊपर श्यो प्यार ॥
७ ॥ मूक तुं एहने जनकने गेह, पाळे शील सुनिर्मलदेह ॥ वलतुं बोले
कपिल विमासी, महाराज शी मांमी हांसी ॥ ८ ॥ प्राणप्रिया ए केम
मूकाय, ए विण घडी वरसां सो थाय ॥ राजन् जीवननी ए मूली, प्रीति
न जाये में उन्मूली ॥ ९ ॥ प्राण कहुं तो ए न कहाय, ए विण प्राण घणुं
सीदाय ॥ स्वामी वलि वलि शुं बोलावो, प्राणप्रियाने घर बोलावो ॥ १० ॥
कहे नामा वलतुं मन मेली, ए साथें नवि करवी केली ॥ जो नहिं मेहले
किमही एह, अनलशरण करशुं आ देह ॥ ११ ॥ राजन कपिल जणी
एम जांखे, केम माटीपणे एहने राखे ॥ मन मोती जांग्यां ठे जेह, कहो
किण परें संधाये तेह ॥ १२ ॥ मुज मंदिरमां रहेसो एह, पुत्रीपरें सांजल
ससनेह ॥ वात सुणी विलखो अइ वलियो, पण मनमां कोपें कलक
लियो ॥ १३ ॥ नामा रहे राणीनी पासैं, पाळे शील अखंम उछासैं ॥
राम कहे त्रीजी ढाल मजार, धन्य जे राखे निज आचार ॥ १४ ॥ स० ॥ १५ ॥

॥ दोहा ॥

॥ विमलबोध इण अवसरें, सूरीश्वर जगवंत ॥ बहु परिवारें परवखा,
चूमंमल विचरंत ॥ १ ॥ पावन करता पाउले, अवनितल मुनिराज ॥ जे
अगाध जवसिंधुना, तारण तरण जहाज ॥ २ ॥ समितियें समिता साधु
जी, साचा जेहना वास ॥ दास कखो कंदर्पने, न पड्या आशापास
॥ ३ ॥ रत्नपुरीनें परिसरें, देवरमण उद्यान ॥ ते मुनि आवि समोसखा,
श्रुतज्ञानी जगवान ॥ ४ ॥ सुणि आगमन मुनीशनुं, लोकमुखें नरराज ॥
मुनिवर वंदन नीसखो, लेई सबलो साज ॥ ५ ॥ विधिगुं वंदी साधुनें,
त्रिविधें अइ उजमाल ॥ निसुणे अमृतस्राविणी, मुनिदेशन सुरसाल ॥ ६ ॥

॥ ढाल चौथी ॥

॥ चेतन चेतो रे चेतना ॥ ए देशी ॥ मानवजव सबलो लेई, डलहो
दश दृष्टांतें रे ॥ मूकी रे निडा मोहनी, धर्म करो एकांतें रे ॥ १ ॥ जवि

यण जावें रे सांजलो ॥ ए आंकणी ॥ श्रीजिनवरनी वाणी रे ॥ दुर्जनवोधीने
 दोहिली, मीठी अमिय समाणी रे ॥ ज० ॥ १ ॥ दोष अढारथी वेगला,
 अरिहंत प्रभु आराधो रे ॥ सेवो सुगुरु सुसाधुजी, आतमधर्मने साधो
 रे ॥ ज० ॥ २ ॥ एक असंयम टालीयें, दुविध धर्म आदरियें रे ॥ पर
 हरियें त्रण दंमने, चित्तमां चार न धरियें रे ॥ ज० ॥ ४ ॥ पंच निवारी
 हो पंचने, करि सबला मन साथें रे ॥ पंचाराधनथी करो, पंचमगति सुख
 थाओ रे ॥ ज० ॥ ५ ॥ पट उपरें करुणा करो, पट लोचें नवि चजियें रे ॥
 काढो पट्क मिथ्यात्वतुं, पट् वेरीनें दलीयें रे ॥ ज० ॥ ६ ॥ सातनो
 जय नवि संपजे, सातने नाणे दिलमां रे ॥ सातमांहे नवि ऊपजे,
 धर्म शिवसुख पलमां रे ॥ ज० ॥ ७ ॥ आठ जणी उन्मूलियें, आठनें
 कीजें अलगा रे ॥ अठम पुढवीनां सुख लहे, जे ए धर्मगुं वलम्या रे
 ॥ ज० ॥ ८ ॥ नवविध वाडि विज्ञेपथी, धरियें शील सुरंगो रे ॥ नव
 निधि सहेजें रे संपजे, परजव शिवसुखयोगो रे ॥ ज० ॥ ९ ॥ दशविध
 धर्म समाचरो, आणी मन वैरागो रे ॥ मंगलकलश तणी परें, धन्य ते नर
 माहाजागो रे ॥ ज० ॥ १० ॥ तव श्रीपेण नरेश्वरु, बोले वे कर जोडी
 रे ॥ जगवन् मंगलकलशनो, कहो संबंध गुण जोडी रे ॥ ज० ॥ ११ ॥
 एकमना जवि सांजलो, एह सरस संबंध रे ॥ बोधी ढालमां माहामुनि,
 कहे देशन अनुबंधो रे ॥ ज० ॥ १२ ॥ उपकारी अणगारजी, जवि
 जन हितना रागी रे ॥ कहेजे श्रीपेण आगलें, वात सबल वैरागी रे ॥ ज० ॥ १३ ॥

॥ दोहा ॥

॥ श्रीजिनवरपदकज नमी, धरि मनमां आनंद ॥ मंगलकलश कुमा
 रतुं, कहुं चरित्र सुखकंद ॥ १ ॥ नयरी अवंती अति जली, अमरपुरी
 अवतार ॥ गढ मढ मंदिर गोजती, वाव्य सरोवर नार ॥ २ ॥ वैगसिंह
 नामें जलो, गुणनिष्पन्न जत नाम ॥ राजा राज्य करे तिहां, सुंदर गोचा
 धाम ॥ ३ ॥ ते नयरीमांहे वसे, धनें धनद उपमान ॥ नामें धनदत्त
 शेवजी, सकलकलानो जाण ॥ ४ ॥ जाणो जीव अजीवने, सत्य शील
 सुविनीत ॥ जक्तिवंत गुरु देवनो, पाले शील सुरीन ॥ ५ ॥ सत्यनामा
 नामें जली, शीजकुंज तूपदेह ॥ जामिनी तिज जजोरुं, राखे अविचल

नेह ॥ ६ ॥ सुख सघलां ते अनुजवे, पंच विषय वर जोग ॥ पण सुत
नहिं कांइ तेहनें, सबल कर्म संयोग ॥ ७ ॥

॥ ढाल पांचमी ॥

॥ नाना सूडा हो, वात सुणो एक मीठी ॥ ए देशी ॥ एक दिवस ते श्रोत
ना चित्तमां, सुतनी चिंता पेठी ॥ कर जोडी कामिनी एम पूढे, पीयुनी
पासैं वेठी ॥ १ ॥ प्रीतम प्यारा रे, वात कहो मन मूकी ॥ ए आंकणी ॥
अविनय आज जगें पियु तुमचो, नवि कीधो कांइ चूकी ॥ प्री० ॥ २ ॥
श्रोत कहे नाखी नीशासो, कामिनी सुत विण शूनुं ॥ रात दिवस ए वेदन
मनमां, बीजुं नहिं कांइ ऊणुं ॥ प्री० ॥ ३ ॥ यडुक्तं ॥ अपुत्रस्य गृहं शून्यं,
दिशः शून्या ह्यवांधवाः ॥ मूर्खस्य हृदयं शून्यं, सर्वशून्यं दरिद्रता ॥ १ ॥
॥ पूर्वढाल ॥ वलतुं विनता कहे सुण कंता, शी चिंतो ए चिंता ॥ जावी
जाव टले नहिं कोइ, रहियें मन निश्चिंता ॥ प्री० ॥ ४ ॥ यडुक्तं ॥ प्राप्त
व्योनियतिवलाश्रयेन योऽर्थः, सोवश्यं जवति नृणां शुनोशुनोवा ॥ नूतानां
महति कृतेपि हि प्रयत्ने, नाजाव्यं जवति न जाविनोस्ति नाशः ॥ २ ॥
पूर्वढाल ॥ धर्म जगतमां सवि सुखकारी, करे धरी एकतारी ॥ जेहनी
ठाया सुरतरु सरिखी, वांठित फल दातारी ॥ प्री० ॥ ५ ॥ यतः ॥ धर्म
सिंधोर्धुवा सिद्धि, द्युम्नप्रद्युम्नयोरपि ॥ दुग्धोपलंजे सुलजा, संपत्तिर्दधि
सर्पिपोः ॥ ३ ॥ पूर्वढाल ॥ देवगुरुनी जक्ति करीजें, दान सुपात्रें दीजें ॥
परिगल वित्त पामी अलवेसर, शुचतामें वावीजें ॥ प्री० ॥ ६ ॥ यतः ॥
व्याजे श्याद्विगुणं वित्तं, व्यवसाये चतुर्गुणम् ॥ क्षेत्रे शतगुणं प्रोक्तं,
पात्रेऽनंतगुणं जवेत् ॥ ४ ॥ पाकारेणोच्यते पापं, त्रकारस्त्राणवाचकः ॥
अक्षरद्वयसंयोगे, पात्रमुक्तं मनीषिभिः ॥ ५ ॥ पूर्वढाल ॥ एम करतां
जो सुत नवि थाज्ञो, परजव निर्मल होज्ञो ॥ देवगुरुनी जक्ति जलि परें, पाप
पंकज सवि धोज्ञो ॥ प्री० ॥ ७ ॥ मुज मनडे मनमोहन वसियो, अनुजव
रस अति मीठो ॥ जेह अनंते कालें प्रीतम, कहिये में नवि दीठो ॥ प्री०
॥ ८ ॥ वात सुणी विनतानी वारु, गइ विकलता मनथी ॥ वचन कहे
प्रीतम ए साचुं, हरख्यो हुं हवे तनथी ॥ प्री० ॥ ९ ॥ मंदिर मालीनें ते
डीने, धन आपीने पोष्यो ॥ प्रतिदिन परमेश्वर पूजानें, कुसुम जणी संतोष्यो ॥
प्री० ॥ १० ॥ पोतें श्रोत जई तस वाडी, जावे फूल प्रजातें ॥ गृहजिन

पूजी जिन मंदिरमां, जाये मननी खांति ॥ प्री० ॥ ११ ॥ पंचानिगमें
 त्रण त्रण निसिही, दशत्रिक जाणी उरमां ॥ परमेश्वर आगल परकासे,
 चैत्यवंदन जिन घरमां ॥ प्री० ॥ १२ ॥ अथ चैत्यवंदन ॥ परमेश्वर परमा
 तमा, पावन परमिष्ठ ॥ जय जगगुरु देवाधिदेव, नयणें में दिष्ठ ॥ अचल
 अकल अविकार सार, करुणारस सिंधु ॥ जगतीजन आधार एक, निःका
 रण बंधु ॥ गुण अनंत प्रभु ताहरा ए, किमही कल्या न जाय ॥ रामप्रभु
 जिनध्यानथी, चिदानंद सुख थाय ॥ १ ॥ निजरूपें शिवस्थानकें, इव्यें पण
 तिमही ॥ नाम स्थापना जेदथी, प्रगट जगमांही ॥ अध्यातमथी जोडियें,
 निक्षेपा चार ॥ तो प्रभुरूप समान जाव, पामे निरधार ॥ पावन आतमनें
 करे ए. जन्म जरादिक दूर ॥ ते प्रभु पूजा ध्यानथी, राम कहे सुखपूर
 ॥ ३ ॥ इति चैत्यवंदन ॥ पूर्वढाल ॥ शक्रस्तव पत्रणे कर जोडी, जाव
 धरी निज मनमां ॥ स्तवन करे प्रभुतुं लेखवतो, निज आतमनें धन्यमां
 ॥ प्री० ॥ १३ ॥ अथ स्तवन ॥ राग सारंग ॥ मन मोह्युं प्रभु गुणठानमां ॥
 काल अनंत न जाण्यो जातो, मोहसुराके पानमां ॥ म० ॥ १ ॥ एकें
 डिय वि ति चउरिंडियमां, काल गयो अज्ञानमां ॥ हवे कोइक पुण्योदय प्रग
 व्यो, आय मिलो प्रभु ध्यानमां ॥ म० ॥ २ ॥ अंतर जर्म गयो सवि दूरें,
 तत्त्व सुधारसपानमां ॥ प्रभु तुम दृष्टि जई मोहि ऊपर, अंतर आतम
 शानमां ॥ म० ॥ ३ ॥ दरस सरस देख्यो जिनजीको, लग्न लगी तुज
 ज्ञानमां ॥ केवल कमलाकंत रुपानिधि, उर न देखो जिहानमां ॥ म० ॥
 ४ ॥ अशरणशरण जगत उपगारी, परमातम शुचि दानमां ॥ राम कहे
 तुम आण नवोचव. धारी नयर प्रमाणमां ॥ म० ॥ ५ ॥ इति साधरण
 जिनस्तुतिः ॥ पूर्वढाल ॥ एम गुनध्यानें जिनगुण शुणतां, सुणतां सजुरु
 वाणी ॥ पात्रें दान दिये जजे जावें, धनदत्त धन गुणखाणी ॥ प्री० ॥ १४ ॥
 धर्म प्रजावें शासनदेवी, तुष्ट थई एम बोले ॥ आप्यो सुत वर जेठ विचारे,
 नहिं कोइ धर्मनें तोले ॥ प्री० ॥ १५ ॥ सत्यजामा रयणीयें दीतुं, मंगल
 कलसत्रुं सुदणुं ॥ मन चिंतें कतरजे महारुं, वांजणीतुं सहि महेणुं ॥ प्री०
 ॥ १६ ॥ संपूरण नव मामें प्रसव्यो, सुत सुंदर सोजागी ॥ पंचमी ढालें राम
 विजय कहे, धर्म करो बटजागी ॥ प्री० ॥ १७ ॥ सर्व गाया ॥ १२७ ॥

॥ दोहा ॥

॥ सुतजन्मोत्सव बहु कस्यो, खरची डव्य अपार ॥ सुपन जणी अनि
धा ठवे, मंगलकलश कुमार ॥ १ ॥ पंचधावें पाली जतो, बीज तणो जिम
चंद ॥ माय ताय मन वद्धहो, जीवन नयणानंद ॥ २ ॥ सुत हुज
रावे हर्षेणुं, थापी निज उत्संग ॥ दे आशीष एणी परें, माता मनने रंग ॥
३ ॥ चिरं जीवो मुज नानडा, वाहाजेसर सुकुमार ॥ तुज अला वद्धा जइ
पडो, खारा समुड मजार ॥ ४ ॥ श्रयो पंच वरष तणो, पाठवियो नीशाल ॥
मूकी विकथा गुरु कने, शास्त्र जणे उजमाल ॥ ५ ॥ निज उद्यमगति
सुगुरु, चिंता रहित सुदेह ॥ विनय शास्त्र जणवा तणां, कारण सधलां
एह ॥ ६ ॥ यतः ॥ आचार्य पुस्तक निवास सहाय वासो, बाह्या इमे पठन
पंचगुणा नराणाम् ॥ आरोग्य बुद्धिविनयोद्यमशास्त्रांगा, अन्व्यतराः पठन
पंचगुणा जवंति ॥ १ ॥ पूर्वदोहा ॥ जणि प्रवीण पोढो श्रयो, आठ
वरसनो जाम ॥ वाडी जातां जनकनी, सार्थे चाव्यो ताम ॥ ७ ॥ सार्थे
जइ लाव्यो कुसुम, पूज्या श्रीजिनराज ॥ प्रतिदिन लावे जइ तिहां, फुल
सेवानें काज ॥ ८ ॥ वाडीमां जइ एकलो, लावे कुसुम सुवास ॥ कहेण
न माने तातनुं, हियडे जिनगुणवास ॥ ९ ॥ एम चिहु दिन वीत्या पठी,
एक दिवसनें योग ॥ जेह थयुं ते सांजलो, शुज जावीने नोग ॥ १० ॥

॥ ढाल ठठी ॥

॥ केसरवरणो हो, काढ कसुंबो ॥ माहारा लाल ॥ ए देशी ॥ जंबू छीपें हो,
दक्षिण जरतें ॥ माहारा लाल ॥ चंपा नामें हो, अंगें वर्ते ॥ मा० ॥ तिहां सुर
सुंदर हो, राजा राजे ॥ मा० ॥ नामें गुणावली हो, राणी ठाजे ॥ मा०
॥ १ ॥ पुत्री रूडी हो, तेहनी जाइ ॥ मा० ॥ त्रैलोक्यसुंदरी हो, विधि
निपाई ॥ मा० ॥ रूपें सारी हो, रंजा हारी ॥ मा० ॥ गजगति सारी हो,
मोहनगारी ॥ मा० ॥ २ ॥ तनु सुकुमाली हो, अंग निहाली ॥ मा० ॥
सुर नर मोहे हो, मुखडुं जाली ॥ मा० ॥ वैण सुंहाली हो, नागण काली
॥ मा० ॥ मदमतिवाली हो, वाणी रसाली ॥ मा० ॥ ३ ॥ जर यौवनमां
हो, जामा आवी ॥ मा० ॥ राजसजामां हो, राय बुलावी ॥ मा० ॥
पुत्रीनेहें हो, मन बंधाणो ॥ मा० ॥ चिंती नृपति हो, मन सपराणो ॥ मा०
॥ ४ ॥ आपुं अलगी हो, तो दरिसण उजहो ॥ मा० ॥ कृण न खमाये

हो, एहनो विरहो ॥ मा० ॥ राणी साथें हो, एम निरधारी ॥ मा० ॥
 तेढ्यो मंत्री हो, सुबुद्धि विचारी ॥ मा० ॥ ५ ॥ तुज अंगजने हो, आपुं वेटी
 ॥ मा० ॥ बहु धन साथें हो, गुणनी पेटी ॥ मा० ॥ राजन् मूको हो,
 एह ठगाइ ॥ मा० ॥ सरखा सरखी हो, होवे सगाइ ॥ मा० ॥ ६ ॥ हुं तुज
 पायक हो, तुं मुज स्वामी ॥ मा० ॥ जोडी न जुगति हो, कहुं शिर नामी ॥
 मा० ॥ सरिखा कुजगुं हो, संबंध कीजें ॥ मा० ॥ यश जगमांहे हो, स
 वलो लीजें ॥ मा० ॥ ७ ॥ यतः ॥ कुजं च शीलं च सुनायता च, विद्या च
 वित्तं च वपुर्वयश्च ॥ वरे गुणाः सप्त विलोकनीया, स्ततः परं चाग्यव
 शा द्वि कन्या ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ राजन बोले हो, मनहुं राजी ॥ मा० ॥
 तोवलि एहमां हो, गुं करे काजी ॥ मा० ॥ एह उखाणो हो, साचो जाणी
 ॥ मा० ॥ बोळ न बोळो हो, अन्हगुं ताणी ॥ मा० ॥ ८ ॥ पुत्री देवी हो,
 अश्य अमारें ॥ मा० ॥ मनमां चिंते हो, सचिव तिवारें ॥ मा० ॥
 व्याघ्रतटीनो हो, न्याय ए आव्यो ॥ मा० ॥ न रहे राजा हो, में सम
 जाव्यो ॥ मा० ॥ ९ ॥ रति रंजासी हो, रायनी तनया ॥ मा० ॥ मुज
 सुत कुष्टी हो, सवलो अन्या ॥ मा० ॥ योग वेहुनो हो, कहो किम म
 लगे ॥ मा० ॥ अथवा नावी हो, कहो केम टलगे ॥ मा० ॥ १० ॥ अ
 थवा कुलनी हो, देवी साथी ॥ मा० ॥ करगुं कारज हो, में मति जाधी
 ॥ मा० ॥ मानी वातज हो, ते घर वलियो ॥ मा० ॥ नृप राणीनो हो,
 चांठित फलियो ॥ मा० ॥ ११ ॥ मंदिर थावी हो, देवी समरी ॥ मा० ॥
 हरख्यो जाणी हो, थावी अमरी ॥ मा० ॥ पूठे कारण हो, किम सं
 नारी ॥ मा० ॥ सुत मंदिरमां हो, कोटी नारी ॥ मा० ॥ १२ ॥ गुं पू
 वेहुं हो, करगे नीरोगी ॥ मा० ॥ ठानो राख्यो हो, बहु दिन रोगी ॥
 मा० ॥ जांखे देवी हां, कर्म जे कीथां ॥ मा० ॥ चीकण रसनां हां,
 न जाये लीथां ॥ मा० ॥ १३ ॥ यतः ॥ कृतकर्मकृत्यानास्ति, कल्पकां
 दिशतैरपि ॥ अथवाप्येव चोक्तव्यं, कृतं कर्म गुणागुणम ॥ ३ ॥ आरो
 दनु गिरिशिखरं, समुद्रमुखांघ्र्य यानु पातालम ॥ त्रिधित्तिवित्ताकरमाजं,
 फलति कपालं न नृपालः ॥ ४ ॥ नमस्यामां देवान्नु इतविप्रेस्तपि
 चशगा. विधिर्नयः नोपि प्रतिनियतकर्मकफलदः ॥ फलं कर्मापन्नं य
 दि किममरेः किं च विधिना, नमस्तत्कर्मन्यो विधिर्नपि नयेत्यः प्रजगति ॥

॥ ५ ॥ पूर्वढाल ॥ मंत्री बोले हो, केम कुलदेवी ॥ मा० ॥ काम न आवे
हो, बहु दिन सेवी ॥ मा० ॥ देवी बोले हो, नहिं अम जोरो ॥ मा० ॥
सो बहुवेला हो, एह निहोरो ॥ मा० ॥ १४ ॥ कहो तो आपुं हो, एक नर
आणी ॥ मा० ॥ कररो चिंतित हो, कारिज जाणी ॥ मा० ॥ सचिव प
रंपे हो, वात ए वहेली ॥ मा० ॥ देवी तुमने हो, करवी सहेली ॥ मा०
॥ १५ ॥ तव कहे देवी हो, नगरनी बहारें ॥ मा० ॥ तुज अश्वप वेसे हो,
लाबुं तेवारें ॥ मा० ॥ पुरने छारें हो, बाले वेशें ॥ मा० ॥ ते नृपकन्या हो,
परणी देशे ॥ मा० ॥ १६ ॥ गइ कुल देवी हो, एहबुं जांखी ॥ मा० ॥
वात ए चित्तमां हो, सचिवें राखी ॥ मा० ॥ वाध्यो उजम हो, ढाल ए
ठही ॥ मा० ॥ रामें दाखी हो, रागें मीठी ॥ मा० ॥ १७ ॥ सर्व गाथा १५२
॥ दोहा ॥

॥ हवे हर्षे वीवाहनां, मांमे अति मंमाण ॥ राय सचिव महोटे मनै,
धुरवेढोल निशाण ॥ १ ॥ सामग्री सखरी सजी, मंरुप अतिहि अनूप ॥
थंन थंन मणि पूतली, सोहे अतिहि सरूप ॥ २ ॥ अश्वपाल नर तेडिनै
ठानो निज आवास ॥ वात कही धुरथी सवे, मंत्री मन उह्वास ॥ ३ ॥
जे कोइ आवे तुम कनें, बालक नवले रूप ॥ तेहने तुमैं इहां लावजो,
जेद न जाणे नूप ॥ ४ ॥ हवे कुलदेवी सचिवनी, जावी जाणी कंत ॥
आवी उजेणी पुरी, हियडे हर्ष धरंत ॥ ५ ॥ फूल लेइ वाडीयकी, मार्गें
बलतां ताम ॥ आकाशें कजी रही, देवी बोले आम ॥ ६ ॥ फूल लेइ जाये
अठे, जे बालक निजगेह ॥ राजसुता पाणिग्रहण, जाडे कररो तेह ॥ ७ ॥
वात सुणीनै चिंतवे, जइ कहुं जनकने आज ॥ घेर गयो तव वीसखो, बल
ग्यो गृहने काज ॥ ८ ॥ बीजे दिन तिमहिज सुणी, चिंते जाम कुमार ॥
महेब्यो उपाडी वातुले, चंपावनह मजार ॥ ९ ॥

॥ ढाल सातमी ॥

॥ सुण मेरी सजनी, रजनी न जावे रे ॥ ए देशी ॥ आव्यो चंपा नय
री पासें रे, मनमां मंगलकलश विमासे रे ॥ कुण ए नगरी कुण ए
वाडी रे, केणें आय्यो मुजने उपाडी रे ॥ १ ॥ नमतां थाक्यो सरोवर
दीतुं रे, पाणी पीधुं टाहुं मीतुं रे ॥ सरोवर पाळें वड एक अलगो रे, तिहां
जइ दर्ननी दोरें बलगो रे ॥ २ ॥ अस्तंगत थयो रवि तिण बेला रे,

कुमर विचारे कर्मनी लीला रे ॥ जोइ ज्वलित अतल उतरियो रे. तिण
 दिशें चाव्यो शीतें ठरियो रे ॥ ३ ॥ अथागच्छक नर बहु तापे रे, आव्यो
 कुंवर तास समीपें रे ॥ हांसी करता ते नरने जाणी रे, सांकेतिक नर
 बोव्यो वाणी रे ॥ ४ ॥ आव्य तुं मुज पासें वत्स वहेलो रे, मंदिर
 माहरे थाइश सोहिलो रे ॥ एम कही आव्यो मंदिर तेह रे, सांप्यो मंत्रीने
 करी नेह रे ॥ ५ ॥ अशन वसन आप्यां मन गमतां रे, नाव नक्तियें
 करी जुगते जुगतां रे ॥ चिंते कुंवर कारज कोइ रे, स्वारथ विण आदर
 नवि होइ रे ॥ ६ ॥ यतः ॥ वृहं क्षीणफलं त्यजंति विहगाः, गुष्कं सरः
 सारसाः, पुष्पं पर्युषितं त्यजंति मधुपा दग्धं वनांतं मृगाः ॥ निर्द्व्यं
 पुरुषं त्यजंति गणिका डष्टं नृपं सेवकाः, सर्वः स्वार्थवशोजनोत्तरमते
 नो कस्य कोवद्वनः ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ कुंवर पूठे कारज दाखो रे, मं
 दिरमां किम ठानो राखो रे ॥ गुं मुज साथें काम तुम्हारे रे, मनमां
 महोटी त्रांति हमारे रे ॥ ७ ॥ सचिव कहे ए चंपानयरी रे, सुर
 सुंदर नृप जीत्या वेरी रे ॥ नाम सुबुद्धि तस प्रधानो रे, हुं तुं कारज
 सुण सावधानो रे ॥ ८ ॥ नृपपुत्री मुज पुत्रने आपी रे, परणी आपो
 रतिरसव्यापी रे ॥ कुमर जणे श्यो पाड चढावो रे, अंगजने कां नवि
 परणावो रे ॥ ९ ॥ तेह कहे मुज सुत ठे कोढी रे, कर्म तणी गति विष
 मी पोढी रे ॥ कुमर कहे कीधुं अविचारुं रे, पर्यागतनुं जल उतासुं रे
 ॥ १० ॥ कुण एवो मूरख अविचारी रे, परणी आपे परने नारी रे ॥
 मंत्री मुज कुज नहिं आचारो रे, कां बहु बोली लळा हारो रे ॥ ११ ॥
 कूप उतारी वरतनें कापे रे, जे परणी अवरने आपे रे ॥ ते माटें न
 करुं ए कामो रे, इण वाटें परजव नहिं ठामो रे ॥ १२ ॥ यतः ॥ मित्र
 शोदी रुतग्रध, स्तेयी विश्वासघातकः ॥ चत्वारः कर्मचांमालाः, पंचमो
 जातिसंजवः ॥ १ ॥ हस्ते नरकपालं तु मदिरामांसजहणी ॥ जानुः प्रवृत्ति
 चांमाली, केनेपं दीयते ठटा ॥ २ ॥ मित्रशोदी रुतग्रध स्तेयी विश्वास घा
 तकः ॥ स्वार्थे च नत्परोयोद्दि, तेनेपं दीयते ठटा ॥ ३ ॥ पूर्वढाल ॥ मंत्री
 बोले लो न करीश एह रे, तो हुं मारीग नहिं नयेह रे ॥ कुमर जणे
 मरवाहुं इख दूणहुं रे, पाण इख महोदुं मुज लंतनहुं रे ॥ १३ ॥ यतः ॥
 लोचनेद्रुणेन किं पिशुनना चयस्ति किं पातकः, सत्तपं चेतपमा च किं

शुचिमनोयद्यस्ति तीर्थेन किम् ॥ सौजन्यं यदि किं निजैः स्वमहिमा यद्यस्ति
 किं मन्त्रैः, सद्दिया यदि किं धनैरपयशोयद्यस्ति किं मृत्युना ॥ ५ ॥ पूर्व
 ढाल ॥ खज उपाडी मारण धायो रे, वचमां पुरुषे मंत्री साह्यो रे ॥
 समजाव्यो मान ए वयण रे, नहिं इहां कोइ ताहरो सयण रे ॥ १४ ॥
 कुमरे देवती वाणी संजारी रे, जावि जाण्युं मन निरधारी रे ॥ मन पाखें
 मानी ए वात रे, हरख्यो मंत्री साते धात रे ॥ १५ ॥ वजडावे नोवत
 निशाण रे, बोले वंदीजन कव्याण रे ॥ गाये गोरी गीत सुजाण रे, चिरं
 जीवो कुंवर कुजजाण रे ॥ १६ ॥ हर्ष धरी कुंवर न्हवरावे रे, नूपण वस्त्र
 नें पहेरावे रे ॥ सहु कहे धन जिण माडीयें जायो रे, बहु दिवस अमें
 दरिसण पायो रे ॥ १७ ॥ हरख्यो साजन वृंद विशेषी रे, कुमरतणुं
 मुखपंकज देखी रे ॥ सातमी ढालें वात वखाणी रे, आखर वहेरो
 ढालें पाणी रे ॥ १८ ॥ सर्व गाथा ॥ १७८ ॥ गाथा तथा श्लोक ॥११॥

॥ दोहा ॥

॥ कुमर कहे कर जोडीने, मंत्रीसरनें ठेक ॥ को न करे ते में कछुं,
 वात सुणो हवे एक ॥ १ ॥ जे आपे मुजने नृपति, अर्थ गरथ जंमार ॥
 ते सवि लेछुं हुं सही, एम कीधो निर्धारि ॥ २ ॥ वस्तु उजेणी मारगें,
 लेई आपजो सर्व ॥ सचिवें सघळुं मानियुं, मनमां थइ निर्गर्व ॥ ३ ॥
 जगदिवस आव्यो निकट, वाज्यां मंगलतूर ॥ वरत्या उत्सव बहु परें,
 सहुमन आनंदपूर ॥ ४ ॥

॥ ढाल आठमी ॥

॥ देशी सोहेलानी ॥ हवे कुलवंती नारी, मज्जन करावे मंगलकलशनें
 जी ॥ लेइ उर उपर सार, निर्मल जल नरे सोवन कलशने जी ॥ १ ॥
 पहेरावे सुकुमाल, अंगें अनुपम वस्त्र सोहामणां जी ॥ दीपे सुंदर वेप,
 नूपणनूपित अंग रलियामणां जी ॥ २ ॥ वेसारी गजखंध, फूलतो
 चाले कोतल आगलें जी ॥ सावेला सें वड, वाघे केसरीये आगें चले
 जी ॥ ३ ॥ टोले मलि मलि थोक, थोकें थोकें करे एम वातडी जी ॥
 त्रैलोक्यसुंदरी धन्य, विधिना ए सरखी जोडी घडी जी ॥ ४ ॥ पग पग
 नाचे पात्र, यात्र करेवा जन बहु उलढ्यां जी ॥ उंचां करि करि गात्र,
 दरिसण देखण न गणे गजघटा जी ॥ ५ ॥ बहु आंवर एम,

आव्या नृपति गृहनें आंगणे जी ॥ हर्ष धरी मनमांहे, सासूर्यें पोंख्या
 घरने वारणे जी ॥ ६ ॥ वेठा मायरामांहे, त्रैलोक्यसुंदरी मन हरखी
 घणुं जी ॥ वरियो कुमर सुरंग, रायें आप्युं घन धन नूपणुं जी ॥ ७ ॥
 कर नवि मूके कुमार, रायें पूढ्युं शी मन कामना जी ॥ आपे पंच
 तुरंग, चपलगति पाणी पंथना जी ॥ ८ ॥ माग्युं आप्युं राय, हर्ष
 हुठ विवाह सोहामणो जी ॥ देखी कन्यारूप, कुमर थयो मनमांहे दया
 मणो जी ॥ ९ ॥ कीधुं सबज अकाज, कुमरी अमरी सरखी पद्मिणी जी ॥
 केम कोढीनें हाथ, देतां निर्गमणे दिन नामिनी जी ॥ १० ॥ इम चिंत
 वतो तेह, मंदिर आव्यो बहु आमंवरें जी ॥ देखी पियु चलचित्त, कुमरी
 चमकी हियडा चीतरें जी ॥ ११ ॥ इंगित जाणी नाव, केड न मूके
 कुमरी तेहनी जी ॥ मनमांहे दिलगीर, रागें रंगाणी मींजी जेहनी जी ॥
 १२ ॥ मंत्री राय दिये मान, देहचिंताने मिष करी नीसखो जी ॥ जल
 जारी लेइ नारि, चाली लावे घुंघट वीसखो जी ॥ १३ ॥ जेह कहुं पण
 तेह, दीठो शून्यमनें उजो रह्यो जी ॥ सोंपीयो तमने देह, नूख तृषा के
 ठे मुफने कहो जी ॥ १४ ॥ हा ना न कहे रे कांइ, मन जाणी मोदक
 मगाविया जी ॥ कुंवर चाखी रे लेइ, अवसर वचन कहे रस नावियां जी
 ॥ १५ ॥ दोहो ॥ मीठा ए मोदक जला, खातां जांगे नूख ॥ पण नीर
 उजेणीतुं मजे, तो सवि थाये सुख ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ चिंते राज
 कुमार, गुं ए जाणे उजेणी नीरने जी ॥ अथवा तिहां कोइ दीस, गयो
 होणे घर मात त्यां वीरने जी ॥ १६ ॥ जलें कीधुं मुख शुद्ध, वीडुं आप्युं
 हाथे कंथने जी ॥ आव्यो मंदिर सोय, विनता बोले लही चल चित्तनें
 जी ॥ १७ ॥ केम पियु थें दिलगीर, वात कहो मनमां होवे जिसी
 जी ॥ इखे उदर मुज जोर, एम कही देहचिंता उच्यो धसी जी ॥
 १८ ॥ विनता रही विश्वास, जल लेइ केडेंथी जाणुं वही जी ॥ ते पहाँ
 च्यो ततकाल. वस्तु उजेणीपंथें जिहां रही जी ॥ १९ ॥ रथ आरोपी
 वस्तु, चार तुरंगम जोडें जोतखा जी ॥ बांध्यो पूठें रे एक, चाव्या तुरत
 तिहांथी पाधरा जी ॥ २० ॥ पूढे पंथीने पंथ, कुमर वेठो रथ निर्जयपणे
 जी ॥ घोडा दिवस मजार, कुमर पहतो नगरें आपणे जी ॥ २१ ॥

पुण्यें सीधुं रे काज, आठमी ढालें रामविजय कहे जी ॥ पुण्य करो नवि लोक, इह नव परनव जेहथी सुख लहे जी ॥ ११ ॥ सर्व ॥ १० ५

॥ दोहा ॥

॥ मात पिता मंगल तणां, जांखर जूरि थयांह ॥ सुतनी सुध जाधी नहिं, केता दिवस गयाह ॥ १ ॥ मंदिर दीगो आवतो, रथ वेगो गुणवंत ॥ राजकुमार कोइ अम घरे, रथ खेडी आवंत ॥ २ ॥ वाखो प्रण न रह्यो किमे, थरहो आव्यो जाम ॥ मात पितायें उंजख्यो, निज अंगजने ताम ॥ ३ ॥ हीयडुं हरखे हेजशुं, दुःख दोहग टलियांह ॥ मात पिताने पुत्र ए, बहु दिवसें मलीयांह ॥ ४ ॥ अंक बेसारी पुत्रनें, रज लूहे घणे नेह ॥ सुत नवरावे माडली, आंसूने नीरेह ॥ ५ ॥ वात कही सघली तिणें, धूरि हूंती ससनेह ॥ हरख्यां मात पिता घणां, पुण्योदय लहि तेह ॥ ६ ॥ हवे त्रैलोक्यसुंदरी तणो, नवि निसुणो अवदात ॥ परण्या पूर्वे जे थयो, कहुं सविस्तर वात ॥ ७ ॥

॥ ढाल नवमी ॥

॥ देशी मधुकरनी ॥ राजकुंवरी केहें गइ, नवि दीगो निज कंत हो ॥ सुंदर ॥ मन विलखाणी महासती, नयणें नीर जरंत हो ॥ सुं ॥ १ ॥ कर्म न बूटे आपणां ॥ ए आंकणी ॥ दीजें केहने दोष हो ॥ सुं ॥ परण्यो प्रीतम परहरी, केम गयो विण रोष हो ॥ सुं ॥ क ॥ २ ॥ पहेरावे निजपुत्रनें, मंगलकलशनो वेप हो ॥ सुं ॥ राजकुमरी पासें मोकव्यो, सूवाने सन्निवेश हो ॥ सुं ॥ क ॥ ३ ॥ आव्यो शय्या उपरें, कुमरीयें दीगो जाम हो ॥ सुं ॥ कुत्सितरूपें कोढीयो, ऊवक उनी थइ ताम हो ॥ सुं ॥ क ॥ ४ ॥ प्राणप्रिये केम वेगलां, जइ ऊनां इण वार हो ॥ सुं ॥ आवो रमो सुखसेजमां, तुं मुज प्राण आधार हो ॥ सुं ॥ क ॥ ५ ॥ वलतुं कहे सा सुंदरी, मूढ विमासी बोल हो ॥ सुं ॥ तुं कोण दुं कोण एम सही, कहीयें न वचन निटोल हो ॥ सुं ॥ क ॥ ६ ॥ पूर्वे दुष्कृत आचखां, फल पास्यो गो तास हो ॥ सुं ॥ मूक दुःशीलपणुं इहां, नहिंतर लहिश विनाश हो ॥ सुं ॥ क ॥ ७ ॥ अतः पंडत्वमिंद्रियहेदं, दौर्भाग्यं च नवे नवे ॥ नवेन्नराणां स्त्रीणां चा, न्यकीयासक्तचेतसाम् ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ रहे अजगो मुजथी सही, सो परनारी संग हो ॥ सुं ॥ मुज पियुनयरी उळेणिमां,

रास वस्यो मनरंग हो ॥ सुं० ॥ क० ॥ ७ ॥ वासञ्चवनथी ससंच्रमें,
 गहिर आवी तेह हो ॥ सुं० ॥ दासी समीप उनी रही, पूठे ते सस्नेह
 हो ॥ सुं० ॥ क० ॥ ए ॥ केम स्वामिनी उतावलां, मुख न समाये श्वास
 हो ॥ सुं० ॥ प्रीतमथी केम उजगी, नाखो इम निःश्वास हो ॥ सुं० ॥ क०
 ॥ १० ॥ नहिं मुऊ वल्लन इहां कने, दीसे कोढी कोय हो ॥ सुं० ॥
 नाह गयो किहां माहरो, कहे एम सुदती रोय हो ॥ सुं० ॥ क० ॥ ११ ॥
 रात्रि गई रवि कगीयो, गइ पीयर ते बाल हो ॥ सुं० ॥ वात सुणावी
 मातनें, सुणि कठी चित्त जाल हो ॥ सुं० ॥ क० ॥ १२ ॥ राजसनामांहे
 आवियो, मंत्री कुबुद्धिनिधान हो ॥ सुं० ॥ श्यामवदन नीचे मुखें, वो
 लाव्यो राजान हो ॥ सुं० ॥ क० ॥ १३ ॥ केम तुमें आमण दूमणा, कहो
 मंत्री मन मेलि हो ॥ सुं० ॥ हर्षने ठामें खेद श्यो, करोयथारुचि केलि हो
 ॥ सुं० ॥ क० ॥ १४ ॥ राजन् अवली कर्मनी, गति दीसे असहाय हो
 ॥ सुं० ॥ विधि प्रतिकूल थयो यदा, सो जग कीजें उपाय हो ॥ सुं० ॥
 क० ॥ १५ ॥ यडुक्तं माघे ॥ प्रतिकूलतामुपगतेहि विधौ, विफलत्वमेति
 बहु साधनता ॥ अवलंबनाय दिनचर्तुरन्नून्न पतिष्यतः करसहस्रमपि ॥
 ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ कृत उदयें आवे सही, विणु कृत नावे कोय हो ॥ सुं० ॥
 खेद किश्यो करवो इहां, कर्म करे सो होय हो ॥ सुं० ॥ क० ॥ १६ ॥
 यतः ॥ उदयति यदि जानुः पश्चिमायां दिशायां, प्रचलति यदि मेरुः शीततां
 याति वह्निः ॥ विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां, तदपि न चलतीयं
 नाविनी कर्मरेखा ॥ २ ॥ तथाचान्यदप्युक्तं ॥ गाथा ॥ रे जीव सुह इहेसु,
 निमित्तमित्तं परं वियाणाइ ॥ सकयफलं जुंजंतो, कस्त मुहा कुप्पसि प
 रस्त ॥ ३ ॥ पूर्वढाल ॥ राय कहे मंत्री कहो, दुःखनुं कारण मुऊ हो
 ॥ सुं० ॥ अंतर श्यो मुऊ आगलें, प्रकासो निज गुऊ हो ॥ सुं० ॥ क० ॥
 १७ ॥ प्रीति तिहां पडदो, किश्यो पडदो तिहां कृण प्रीति हो ॥ सुं० ॥ हेजे हियडुं
 खोजियें, एहिज प्रीतिनी रीति हो ॥ सुं० ॥ क० ॥ १७ ॥ यडुक्तं ॥ ददाति
 प्रतिगृह्णाति, गुप्तमाख्याति पृच्छति ॥ जुंक्ते नोजयते चैव, पद्धिं प्रीति
 लक्षणम् ॥ ४ ॥ पूर्वढाल ॥ नाखी निसासो ते कहे, राजन् जे करे
 देव हो ॥ सुं० ॥ तिहां नहिं जोरो केहनो, कृत नोगवीयें सदैव हो ॥
 सुं० ॥ क० ॥ १८ ॥ तुम पुत्रीनी संगतें, मुऊ अंगज गुणवंत हो ॥ सुं०

॥ विण्ठी काया कोढथी, फरसनो दोष महंत हो ॥ सुं० ॥ क० ॥ ३० ॥
 कुलखंपण ए कुंवरी, कां ए विधाता दीध हो ॥ सुं० ॥ देव कुमर सम
 कंतनें, जेणीयें कोढी कीध हो ॥ सुं० ॥ क० ॥ ३१ ॥ वात सुणी वि
 लखो थयो, आव्यो मंत्री आवास हो ॥ सुं० ॥ जामाता देखी करी, हुउ
 मनमांहि उदास हो ॥ सुं० ॥ क० ॥ ३२ ॥ कर्म ए कोढी थयो, पण
 पुत्री शिर दोष हो ॥ सुं० ॥ एह चढयो अति आकरो, कीजें केहो रोष
 हो ॥ सुं० ॥ क० ॥ ३३ ॥ राय कहे मंत्री सुणो, कीधूं में सबल अकाज
 हो ॥ सुं० ॥ जोरें आपी अंगजा, तुऊ सुत विणठो आज हो ॥ सुं० ॥
 क० ॥ ३४ ॥ दोष नहिं कांहिं राजनो, नहिं कांहिं वडूनो वांक हो ॥ सुं०
 ॥ त्रण जुवनमांहे वालियो, कर्म आमो आंक हो ॥ सुं० ॥ क० ॥ ३५ ॥
 माटें कहुं बुं स्वामीने, रीप न करशो कोय हो ॥ सुं० ॥ पुत्रीनी पेरें पालशुं,
 कर्म करे ते होय हो ॥ सुं० ॥ क० ॥ ३६ ॥ कर्मवशें सहुने मनें, वात
 वसी तेणि वार हो ॥ सुं० ॥ वहाली पण वैरण थइ, कोइ न ले तस
 सार हो ॥ सुं० ॥ क० ॥ ३७ ॥ एक अलाशे मंदिरें, रहे ते अवला बाल
 हो ॥ सुं० ॥ चिंते ए मातुं मरणथी, मुऊ माथे ए आल हो ॥ सुं० ॥
 क० ॥ ३८ ॥ नवि सुणो नवमी ढालमां, कहुउ कर्मजंजाल हो ॥ सुं० ॥
 रामविजय कहे कोइने, कदिये न दीजें आल हो ॥ सुं० ॥ क० ॥ ३९ ॥

॥ दोहा ॥

॥ त्रैलोक्यसुंदरी चिंतवे, विरुउ कर्मविजास ॥ मुऊ माथे आवी
 पड्यो, वेसी रहे उदास ॥ १ ॥ मुऊनें मूकीने गयो, वालम नवल सनेह
 ॥ अवगुण कोइ दाख्यो नहिं, साले मुऊने तेह ॥ २ ॥ वली माथे सबलुं
 चढ्युं, कोढी तणुं कलंक ॥ थइ सहुने अलखामणी, कर्मवशें हुं रंक
 ॥ ३ ॥ यतः ॥ कुमुदवनमपथि श्रीमदंजोजखंद, स्त्यजति मुदमुलूकः
 प्रीतिमांश्चक्रवाकः ॥ उदयमहिमरश्मिर्याति शीतांशुरस्तं, हतविधिललि
 तानां ही विचित्रोविपाकः ॥ १ ॥

॥ ढाल दशमी ॥

॥ काची कली अनारकी रे हां ॥ ए देशी ॥ पूरवजव में आचखां रे
 हां, कोइक डुरित कठोर ॥ कर्म विडंवना ॥ ए आंकणी ॥ तेह उदय आव्यां
 इहां रे हां, पियु गयो मूकी निठोर ॥ क० ॥ १ ॥ के में दूध विठोहियां रे हां,

स्तन पीतां लघु बाल ॥ क० ॥ उंदरबिल जले पूरियां रे हां, के पाड्यां
महुआल ॥ क० ॥ १ ॥ अवनगुण अठता काठिया रे हां, परने दीधां आल
॥ क० ॥ के वली शीलनी खंमना रे हां, कीधी कर्मचंमाल ॥ क० ॥ ३ ॥
यतः ॥ कुरंम रंमत्तण डुपगाइ, विलित निंदू विसकन्नगाइ ॥ जम्मंतरे खंमि
य सीलनावा, नाउण कुआ दढसीलनावा ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ के पशु
पंखी मनुजना रे हां, कीधा बालविठोह ॥ क० ॥ के सुत शोक्यनी ऊपरें
रे हां, विरुठ विमास्यो डोह ॥ क० ॥ ४ ॥ के वली दव देवराविया रे
हां, वनमाहे धरि हूंश ॥ क० ॥ के तुह कारिज आपणे रे हां, कीधा देवगुरु
सूस ॥ क० ॥ ५ ॥ इत्यादिक कहो कुण लहे रे हां, ज्ञानी विण नवि
वात ॥ क० ॥ ते उदयेंज थयां इहां रे हां, माहरे माय ने तात ॥
क० ॥ ६ ॥ अथवा पियु उक्केणमां रे हां, होशे नहिं संदेह ॥ क० ॥
मोदक अवनसर हितनणी रे हां, नाम कहुं गुणगेह ॥ क० ॥ ७ ॥ धीरज
धरे मनमां सती रे हां, चिंते चित्त उपाय ॥ क० ॥ मले मुजने जो बालहो रे हां,
तो टलशे डुरित अपाय ॥ क० ॥ ८ ॥ एक दिन सिंह सामंतने रे हां, तेडयो
मंदिरमांहे ॥ क० ॥ वात कही सवि मूलथी रे हां, निसुणी धरी उत्साह
॥ क० ॥ ९ ॥ सिंह कहे सुणो स्वामिनी रे हां, म धरो मन जंजाल ॥ क० ॥
वात कहिश जइ रायने रे हां, होशे मंगलमाल ॥ क० ॥ १० ॥ लहि
अवनसर जइ वीनवे रेहां, सुणो राजन् मुज वाण ॥ क० ॥ कष्टें पडी तुमची
सुता रे हां, अबला बहु गुणखाण ॥ क० ॥ ११ ॥ आलापन सन्मानता
रे हां, दूर रहो माहाराज ॥ क० ॥ वाक्य श्रवणमात्रें प्रभु रे हां, तनुजा
अरज निवाज ॥ क० ॥ १२ ॥ अश्रुजलाविल लोचनें रे हां, चूप कहे सुण
सीह ॥ क० ॥ वांध्यां उदय आवे वही रे हां, वीरुई कर्मनी लीह ॥ क० ॥
१३ ॥ प्राणप्रिया ए मुज सुता रे हां, थइ कलंकित देह ॥ क० ॥ इष्ट
अनिष्ट थई घणुं रे हां, कहियें कोने एह ॥ क० ॥ १४ ॥ पण रूठे निज
आतमा रे हां, नवि प्रनवियें लोक ॥ क० ॥ आवी कहे इहां कने सुखें रे
हां, मन इच्छित सो शोक ॥ क० ॥ १५ ॥ अनुमति लइ आवी कहे रे हां,
त्रैलोक्यसुंदरी ताम ॥ क० ॥ तात वेप नरनो दीयो रे हां, करुं मनचिंतित
काम ॥ क० ॥ १६ ॥ सिंह कहे कारण वशें रे हां, स्त्री ग्रहे नरनो वेप ॥
क० ॥ राजकुलें ए योग्यता रे हां, राय दीयो आदेश ॥ क० ॥ १७ ॥

सोंप्यो सिंह सामंतने रे हां, तस रक्षाने काज ॥ क० ॥ कुमरी कहे सुणो तातजी रे हां, जाउं उक्तेणी आज ॥ क० ॥ १७ ॥ कारण कहीश दुं आ वीने रे हां, आगलथी शी वात ॥ क० ॥ दोष न लागे वंशने रे हां, तेम करो इम कहे तात ॥ क० ॥ १८ ॥ सैन्य सहित लेइ सिंहने रे हां, ति हांथी कीध प्रयाण ॥ क० ॥ शोध कारण निज कंतनी रे हां, सुंदरी सु गुण सुजाण ॥ क० ॥ १९ ॥ नावें नवियण सांजलो रे हां, मनोहर दशमी ढाल ॥ क० ॥ राम कहे धन्य जगतमां रे हां, जे रहे मनडुं वाल ॥ क० ॥ २० ॥

॥ दोहा ॥

॥ हवे अविहन्न प्रयाणथी, चालंतां निर्जीक ॥ आख्यां केटले एक दिनें, नयरी उक्तेणी नजीक ॥ १ ॥ वैरसिंह नृप सांजली, लोक मुखें एम वात ॥ आवे नयरें आपणे, चंपानृपनो जात ॥ २ ॥ दल लेइ साहामो चव्यो, वैरसिंह नूपाल ॥ तेडी लाव्यो कुंवरनें, नयरमांहि उजमाल ॥ ३ ॥ स्वा गत पूठे कुमरने, देई बहु सन्मान ॥ कोण कारण अयुं आवडुं, जांखो सु गुणनिधान ॥ ४ ॥ तुम नगरी निरखण तणो, हतो बहू मन कोड ॥ तिय कारण अमें आविया, कुमर कहे मद मोड ॥ ५ ॥ राजन कहे जलें आविया, अम घर पावन कीध ॥ सप्तचूमि आवासमां, नृप ऊतारो दीध ॥ ६ ॥ राजसुता तिहां तो रहे, साथ सबल दलपूर ॥ दे आदेश सेवक जणी, प्रह उगमते सूर ॥ ७ ॥

॥ ढाल अग्यारमी ॥

॥ रामचंद्रके वाग, चांपो मोरी रह्यो री ॥ ए देशी ॥ तेडी सेवक तेह, कुमरी एम नणे री ॥ निरखो नीरतुं ठाम, जइनें यत्न घणे री ॥ १ ॥ पूर्वदिशें एक स्वामि, ठे जलठाम जलूं री ॥ बहुजंतु विश्राम, नूशिर ति लक मनूं री ॥ २ ॥ लहिनृपनो आदेश, जलमारग निवसे री ॥ चर्या देख ए काज, कुमरी मन उद्वसे री ॥ ३ ॥ जल पीवानें काज, एक दिन ते निरखे री ॥ जाता ह्यवर पंच, मनसायें परखे री ॥ ४ ॥ ए मुऊ तातें दीध, ह्य देखी हरखी री ॥ सीधां वांछित काज, चिंते ते निरखी री ॥ ५ ॥ सेव कनें कहे आम, एह स्वामी तणो री ॥ नाम ठाम निरधार, मुऊ आगे ए नणो री ॥ ६ ॥ विनति करी कहे तेह, धनदत्त जेठ तणो री ॥ मंगल कलश कुमार, एहज स्वामी सुणो री ॥ ७ ॥ सिंह जणी कहे वात, एह

कुमर तेडो री ॥ जेम ह्यनो संबंध, सांजलीयें निमो री ॥ ७ ॥ लेखशाला
 यें ताम, जातो तेह जाणी री ॥ अध्यापक संघात, प्रीति करी ताणी री ॥
 ८ ॥ एक दिन जोजन काज, ठात्र सहित आवासें ॥ अध्यापक आणंद,
 तेज्यो मननें उध्वासें ॥ १० ॥ साथें निहाली नाथ, हियडे घणुं हरखी
 री ॥ जेम चकोरी चंड, उलसे चित्त परखी री ॥ ११ ॥ मांमे सोवन
 थाल, आदरे प्रीति घणी री ॥ प्रीतमने निज पास, बेसारे सुगुणी री ॥
 १२ ॥ बीजणे ठोले वाथ, जोजन जलां प्रीसे री ॥ देखी प्रिय मुखचंद,
 अंतर दील हींसे री ॥ १३ ॥ बीजाने सामान्य, गौरव जक्ति करे री ॥
 ते देखी सद्गु वाल, मनमां अणखधरे री ॥ १४ ॥ एवडुं एहने मान, का
 रण को न लहे री ॥ पंक्तिनेदनुं दुःख, मनडामांहे दहे री ॥ १५ ॥
 जमी कवथा वलि तेह, सद्गुथी अवल शिरें री ॥ क्षौमयुगल पियु काज,
 आपे हर्षे जरें री ॥ १६ ॥ अध्यापकनें एम, वात कहे सुविचारी ॥ ए
 तुम सघला ठात्र, मांहे माहापण जारी ॥ १७ ॥ जे होय ते मुज आज,
 वात कहो एक सारी ॥ ते निसुणी मुज चित्त, हर्षे लहे संजारी ॥ १८ ॥
 क्रोधतणे वश तेह, बोव्या सद्गु एम त्राडी ॥ कहेजे मंगल एह, जक्ति करी तुमें
 जाडी ॥ १९ ॥ बोव्या मंगल ताम, रहो तुमें सद्गु अलगा री ॥ जक्ति
 करी ते माटें, गुं आवो वलगा री ॥ २० ॥ जक्ति करे सो वार, जिहां मन
 मान्युं हुवे री ॥ परने न करे कोय, टग मग साहामुं जुवे री ॥ २१ ॥
 सामन मानी वात, कहोने तेह परी री ॥ सांजलियें एक चित्त, प्रीतें रीति
 खरी री ॥ २२ ॥ एकादशमी ढाल, वात कही रढियाली ॥ हवे मंगल
 मन मेलि, कहेजे वात रसाली ॥ २३ ॥ सर्व गाथा ॥ २४ ॥ श्लोक २५
 ॥ दोहा ॥

॥ अध्यापक आनंदीयो, सांजली शिष्टना बोल ॥ मंगलनें कहे
 वत्स तुमें, दाखो वात अमोल ॥ १ ॥ मंगल चिंते चित्तमां, त्रेलोक्यसुं
 दरी एह ॥ मुज कारण नरवेप धरि, आवी नहिं संदेह ॥ २ ॥ धन धन
 एहनी चातुरी, राख्यो जिणें निजधर्म ॥ मुज जेवो पापी नहिं, कीधुं
 जेणें विकर्म ॥ ३ ॥ कहेवा लाग्यो कुमर ते, कल्पित के अनुचूत ॥ कुमरी
 कहे अनुचव तणी, वात कहो अचूत ॥ ४ ॥ धुरदूती मांमी सकल, दाख्यो
 सकल संबंध ॥ यावत मंत्री काढीयो, तिहां जगें सवि अनुबंध ॥ ५ ॥ हर्षित दुः

सा सुंदरी, सांजली प्रीतम बोल ॥ रोम रोम तन उद्धस्युं, आज अधिक रंगरोज ६
॥ ढाल वारमी ॥

॥ मुखने मरकजडे ॥ ए देशी ॥ कृत्रिमकोप करीनें जी ॥ कुमरी एम
चांखे ॥ ग्रहो ए मिथ्याजापीनें जी ॥ सहुकोनी साखें ॥ एहवुं जूतुं केम
बोले जी ॥ कु० ॥ नहिं ए कोइ नरनें तोले जी ॥ स० ॥ १ ॥ तेने ग्रह
वा सेवक धाया जी ॥ कु० ॥ तव वालक सवि उजाया जी ॥ स० ॥ ते
ग्रही गृहमांहे आण्यो जी ॥ कु० ॥ ते समज्यो मनमांहि जी ॥ स०
॥ २ ॥ उत्तम आसन वेसारी जी ॥ कु० ॥ कर जोडी रही सा नारी
जी ॥ स० ॥ कहे सिंहने ए मुऊकंत जी ॥ कुं० ॥ ए आवी मित्यो एकांत
॥ स० ॥ ३ ॥ आज मनोवांठित सवे फलियां जी ॥ कु० ॥ प्राणजीवन
मुऊने मजिया जी ॥ स० ॥ आज जीवित जन्म प्रमाण जी ॥ कु० ॥
मुऊ त्रूथ्या श्री जिनजाण जी ॥ स० ॥ ४ ॥ मन संशय सिंहज जाणी
जी ॥ कु० ॥ जइ जुवे अवर सहिनाणी जी ॥ स० ॥ नाजन मुकतां
ते दीधां जी ॥ कु० ॥ नामांकित असली सीधां जी ॥ स० ॥ ५ ॥ जइ
जोयो ते सवि दीठो जी ॥ कु० ॥ मन संशय सघलो नाठो जी ॥ स० ॥
धनदत्त शेंठने कहे जाणी जी ॥ कु० ॥ ए तुम सुतनी धणीयाणी जी ॥ स० ॥
६ ॥ सुणी वातने शेंठ उजाणो जी ॥ कु० ॥ आवे तिहां श्वास नराणो जी ॥
स० ॥ धरि रूप रमणीनुं आगें जी ॥ कु० ॥ आवी श्वसुरने पाये लागे
जी ॥ स० ॥ ७ ॥ आवे नयर नरेश्वर रंगें जी ॥ कु० ॥ जोवा मजियां बहु उठ
रंगें जी ॥ स० ॥ पंचसाखें राजकुमारी जी ॥ कु० ॥ थइ रही मंगल
घरनारी जी ॥ स० ॥ ८ ॥ पसरि बहु नयरें वात जी ॥ कु० ॥ धन्य कुमरी
एह सुजात जी ॥ स० ॥ नरवेप देइने चाव्यो जी ॥ कु० ॥ सिंह निज न
यरी नणी आव्यो जी ॥ स० ॥ ए ॥ निज नृपति आगल आवी जी ॥
कु० ॥ सवि वात कही समजावी ॥ स० ॥ धन्य मुऊ तनया चतुराइ जी
॥ कु० ॥ अहो जूठ सचिव धीछाइ जी ॥ स० ॥ १० ॥ प्रीतियें न रहे
ठानुं पाप जी ॥ कु० ॥ नवि दीजें पर उपताप जी ॥ स० ॥ पठी करखुं
एहने मावो जी ॥ कु० ॥ एक वार जमाइने तेडावो जी ॥ स० ॥ ११ ॥
सिंह मूकीने तेडावे जी ॥ कु० ॥ दंपती दोय चंपा आवे जी ॥ स० ॥
नृप सामो आव्यो आपें जी ॥ कु० ॥ बहु मान जमाइने आपे जी ॥

स० ॥ ११ ॥ गजवरखंधें वेसारी जी ॥ कु० ॥ असवाव संघातें नारी
 जी ॥ स० ॥ पुरमां आवे असवारी जी ॥ कु० ॥ तिहां खलक मढ्यां
 नर नारी जी ॥ स० ॥ १२ ॥ सहु जंपे ए चिरंजीवो जी ॥ कु० ॥
 कुंवर ए कुलनो दीवो जी ॥ स० ॥ सघलो ए मंत्री वंक जी ॥ कु० ॥
 दीधुं कूडुं कोठी कलंक जी ॥ स० ॥ १४ ॥ नव इज्जत एणें हारी जी
 ॥ कु० ॥ बोले पुरजन व्यवहारी जी ॥ स० ॥ मंदिर आव्यो कुलनाण जी
 ॥ कु० ॥ तव वाग्यां ढोल निशाण जी ॥ स० ॥ १५ ॥ नृप सचिवनें कीधो
 काठो जी ॥ कु० ॥ कखो हुकम तलारने माठो जी ॥ स० ॥ कुण चोर
 तणो रखवाल जी ॥ कु० ॥ बोले एम वाल गोपाल जी ॥ स० ॥ १६ ॥
 फल पाम्यो प्रत्यह एह जी ॥ कु० ॥ दीधुं आल सतीने जेह जी ॥ स० ॥
 महोकम माखो तव मूठें जी ॥ कु० ॥ गडदा पाटू पड्या पूठें जी ॥ स० ॥ १७ ॥
 तिहां मंगलकलश विचारे जी ॥ कु० ॥ सहु निजकृतने अनुसारें जी ॥ स० ॥
 निजआतम दोष विजावे जी ॥ कु० ॥ इहां पर ते निमित्त कहावे जी ॥
 स० ॥ १८ ॥ यडुकं ॥ रे जीव सुहडहेसु ॥ १ ॥ अप्पा चेव दमेअवो, अप्पा
 हु खलु डुदमो ॥ अप्पा दंतो सुही होइ, अस्सि लोए परढय ॥ २ ॥ पूर्वढाल ॥
 मुऊ वेठां जो ए हणाय जी ॥ कु० ॥ अनुकंपाव्रत डुःखाय जी ॥ स० ॥
 सहु जीवने जीवित प्यारुं जी ॥ कु० ॥ कही नृपने एने उगारुं जी ॥ स० ॥ १९ ॥
 यडुकं ॥ अमेध्यमध्ये कीटस्य, सुरेंद्रस्य सुरालये ॥ समा च जीवित्ताकां
 द्या, समं मृत्युजयं द्वयोः ॥ ३ ॥ अन्यदर्शनेपि ॥ योदद्यान्मेरुवत्स्वर्णं, क
 र्त्तनां चैव वसुंधराम् ॥ एकस्य जीवितं दद्या, न च तुल्यं युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ पूर्व
 ढाल ॥ कहे नृपने प्रलु अवधारो जी ॥ कु० ॥ सचिव उपरें कोप निवारो
 जी ॥ स० ॥ मुऊ उपरें महेर करीजें जी ॥ कु० ॥ मंत्रीने जीवित दीजें
 जी ॥ स० ॥ २० ॥ धन्य उपगारी तेह जी ॥ कु० ॥ अवगुणी उपरें धरे नेह
 जी ॥ स० ॥ कही वारमी ढाल विचारी जी ॥ कु० ॥ गुणवंतनी जाउं व
 जिहारी जी ॥ स० ॥ २१ ॥ सर्वगाथा ॥ ३२२ ॥ गाथा तथा श्लोक ३२
 ॥ दोहा ॥

॥ नृपनामाता आयहें, तेड्यो मंत्री तेह ॥ जा मूक्यो तुऊ जीवतो,
 पण इण पुर न रहेह ॥ १ ॥ निजनगरीधी नीसखो, सचिव तेह मतिहीन ॥
 जग सघलुं ए जाणजो, उदयतणे आधीन ॥ २ ॥ उदये आवे कर्मनें,

महोटा मति मुंजाय ॥ गयो परदेशें वापडो, पण कोइ न दीये ठाय ॥ ३ ॥
 मान रहित मेलो मनें, मेली घरनुं राज ॥ करि परघरनी चाकरी, उदर
 नरेवा काज ॥ ४ ॥ हवे नृप मंगलकलशनें, थाप्यो सुतने ठाम ॥ जुवो अ
 जव गति पुण्यनी, पुण्यें सीके काम ॥ ५ ॥ तेडाव्यां तेहनां तिहां, मात पिता
 तेणिवार ॥ सहु परिवारें परवख्यो, विलसे सुख संसार ॥ ६ ॥ एहवे दीधी वथा
 मणी, वनपालक मतिमंत ॥ यशोचइ मुनि उपवनें, समवसखा गुणवंत ॥ ७ ॥
 ॥ ढाल तेरमी ॥

॥ वारी मोरा साहेवा ॥ ए देशी ॥ नृप सुंदर सांजली हो राज, रीज्यो
 धर्मने राग ॥ वारी मोरा साधुजी ॥ ए आंकणी ॥ श्रीगुरुवंदन नीसखो
 हो राज, आज अजव लह्यो लाग ॥ वा० ॥ १ ॥ तारण तरण नवांबुधि
 हो० ॥ जगमां जेम ऊहाज ॥ वा० ॥ पंचानिगम ते साचवी हो० ॥
 वांदे श्री मुनिराज ॥ वा० ॥ २ ॥ दल देखी दिल उल्लस्युं हो० ॥ दे दिल
 जर उपदेश ॥ वा० ॥ धर्म करो धिंगड धसी हो० ॥ यौवन वय सुविशेष
 ॥ वा० ॥ ३ ॥ जर कुट्टी यौवन शशो हो० ॥ काल आहेडी नित्त ॥ वा० ॥
 धर्मी विना धर्मज नहिं हो० ॥ कुशल किहांशी मित्त ॥ वा० ॥ ४ ॥ वेहु
 पिशून वच्चे जूपडुं हो० ॥ जाइ उजाणो काल ॥ वा० ॥ वहेती वारें
 शोधीयें हो० ॥ धर्म अइ उजमाल ॥ वा० ॥ ५ ॥ रखे प्रमादने वश
 पडो हो० ॥ धर्म ते शुद्ध स्वजाव ॥ वा० ॥ अशुद्ध अनादिनी चेतना
 हो० ॥ मोह्यो मोहविजाव ॥ वा० ॥ ६ ॥ दृष्टिविपर्यय अइ रह्यो हो० ॥
 पर उपरें निज जाव ॥ वा० ॥ निजवस्तु ए जाणो नहिं हो० ॥ देखी रहो
 चेतनजाव ॥ वा० ॥ ७ ॥ शुं पुजलने वश पळ्या हो० ॥ ए कोण कोण
 तुम रूप ॥ वा० ॥ निज घर तजी परघर रमो हो० ॥ शुं चतुराई रूप ॥
 वा० ॥ ८ ॥ मन मानी गुरुदेशना हो० ॥ आव्यो नववैराग्य ॥ वा० ॥
 कहे श्रीगुरु तारो मुने हो० ॥ आज लह्यो में लाग ॥ वा० ॥ ९ ॥ कहेगुरु
 देवाणुपिया हो० ॥ करीयें नवि परमाद ॥ वा० ॥ जावसंधी नमतां
 लही हो० ॥ चाखो अनुभवस्वाद ॥ वा० ॥ १० ॥ आवी मंगलकलशने
 हो० ॥ सोंपीने निजराज ॥ वा० ॥ राजन संयम आदखो हो० ॥
 आतम साधन काज ॥ वा० ॥ ११ ॥ पंच समिति सूधा यति हो० ॥ क
 मावंत अणगर ॥ वा० ॥ शुद्ध निरीह तप आदखो हो० ॥ करता उग्र

विहार ॥ वा० ॥ १२ ॥ गुरु आणा शिर पाघडी हो० ॥ धारी राखे सार
 ॥ वा० ॥ विषय न वांढे पा घडी हो० ॥ हुं तेहनी बलिहार ॥ वा० ॥ १३ ॥
 जे संयम सुख आगलें हो० ॥ सुर सुख पण तिलमात ॥ वा० ॥ नर देव पण
 नित्य जेहनां हो० ॥ चरण नमे परजात ॥ वा० ॥ १४ ॥ यडुक्तं ॥ तण
 संथार निविष्टो, मुणिवरो जग राग गयमोहो ॥ जं पावइ मुत्तिसुहं, किचो
 तय चक्रवट्टीवि ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ शुद्ध चरणाराधनथकी हो० ॥
 सुरसुंदर रुपिराज ॥ वा० ॥ सुगति लही सिद्धक दशा हो० ॥ जिहां सुख
 मोज समाज ॥ वा० ॥ १५ ॥ हवे पाले निजराजने हो० ॥ मंगलकलश
 नरेश ॥ वा० ॥ राज्यें वणिकने थापीयो हो० ॥ निसुण्युं अपर पुरेश ॥ वा०
 ॥ १६ ॥ दल लेइ ते आविया हो० ॥ राज्य लेवाने काज ॥ वा० ॥ मंगल
 नृप चढती कला हो० ॥ वश कीर्थां सहु राज ॥ वा० ॥ १७ ॥ पुण्यदशा
 जस पाधरी हो० ॥ मंगलमाला थाय ॥ वा० ॥ पदपद पामे संपदा हो० ॥
 मन धारे ते उपाय ॥ वा० ॥ १८ ॥ ढाल जणी ए ते रमी हो० ॥ पुण्यो
 दयनी वात ॥ वा० ॥ धन्य जेहनी धर्म करी हो० ॥ रंगाणी सवि धात
 ॥ वा० ॥ १९ ॥ सर्व गाथा ॥ ३१९ ॥ गाथा तथा श्लोक ॥ ३३ ॥

॥ दोहा ॥

॥ सुख जोगवतां अनुक्रमें, त्रैलोक्यसुंदरी साथ ॥ सुत जन्म्यो एक सुं
 दरु, उत्सव करे धरनाथ ॥ १ ॥ आनंद धरी अंगज तणुं, यशशेखर अजि
 धान ॥ सज्जन संतोषी घणुं, थापे ते राजान ॥ २ ॥ जिनमंदिन पृथिवी
 करी, खरची बहु धन कोडि ॥ नक्ति करे जिनवर तणी, प्रणमे वे कर
 जोडि ॥ ३ ॥ इव्यनक्ति विरचे जली, जावनक्ति अनिलाख ॥ वरसप्रत्ये
 साहम्मी निमित्त, खरचे धन केइ लाख ॥ ४ ॥ जिनगुरु जिनमत संघनी,
 नक्ति जेद ए चार ॥ आदरतां उज्ज्वल हुवे, समकितनो आचार ॥ ५ ॥
 समरथ सुत आगल थयो, राजधुरंधर धीर ॥ प्रजापाल पाले प्रजा,
 पर सुख कायर वीर ॥ ६ ॥ इण अवसर तिहां आविया, श्री जयसिंह
 मुनीश ॥ अचनीपति वंदन चव्यो, साथें सबल जगीश ॥ ७ ॥ गुरु वांढी
 निसुणे नृपति, देशन अमृतवाण ॥ कथा रसिक संवेगनी, निर्वेदनीव
 खाण ॥ ८ ॥ देशन अंतें पूठीयुं, नृप पूरव अवदात ॥ गुरु झानी जांखे
 प्रगट, पूरव जवनी वात ॥ ९ ॥

॥ ढाल चौदमी ॥

॥ देशी विंदलीनी ॥ क्षेत्र नरत शुन ठामें, पुर धरणीप्रतिष्ठित नामें
 हो ॥ राजन सुण वाणी ॥ वीपमी एकर्मकमाणी हो ॥ रा० ॥ १ ॥ तस घरे कांता
 कुलपुत्रक एक, सोमचंशनिध सुविवेक हो ॥ रा० ॥ २ ॥ तस घरे कांता
 श्री देवी, रूपें अमरीना जेहवी हो ॥ रा० ॥ ३ ॥ दंपती दोय प्रीति पनोतां,
 सुख विलसे सुर सम जोतां हो ॥ रा० ॥ ४ ॥ श्रावक जिनदेव संघातें,
 तस प्रीति वनी एकांतें हो ॥ रा० ॥ ५ ॥ नखमांस तणी परें पाले, नेह नि
 विड वेहू संजाले हो ॥ रा० ॥ ६ ॥ धनहूते पण जिनदेव, परदेश जावा
 यइ टेव हो ॥ रा० ॥ ७ ॥ कहे मित्रनें हुं अन्य देश, जाइश व्यापार उदेश हो
 ॥ रा० ॥ ८ ॥ पण मुज धन राखो पासें, वावरजो क्षेत्र उल्लासें हो ॥ रा० ॥
 शुनपात्रें जो वावीजें, परचवसंबल पामीजें हो ॥ रा० ॥ ९ ॥ यहुक्तं ॥ व्याजे
 स्याद्विगुणं वित्तं, व्यवसाये चतुर्गुणम् ॥ क्षेत्रे शतगुणं प्रोक्तं, पात्रेऽनंतगुणं
 नवेत् ॥ १ ॥ नैपधेऽपि ॥ दानपात्रमधमर्णमिहैकयाहि कोटिगुणितं
 दिविदायि ॥ साधुरेति सुकृतैर्यदि कर्तुं, पारलौकिककुलीदमसीदत् ॥ २ ॥
 पाकारेणोच्यते पापं, त्रकारस्त्राणवाचकः ॥ अह्नरद्वयसंयोगे, पापमाहुर्म
 नीषिणः ॥ ३ ॥ पूर्वढाल ॥ आपी दशसहस्र दीनार, परदेश चव्यो व्या
 पारें हो ॥ रा० ॥ ४ ॥ हवे सोमचंश विचारे, धन्य धन्य एहनो अवतार हो
 ॥ रा० ॥ ५ ॥ मुज हाथे बहु धन दीधो, एणें जन्म कृतारथ कीधो हो
 ॥ रा० ॥ ६ ॥ तो कांशक मुज उमेरी, खरचुं शुनठाम सवेरी हो ॥ रा० ॥ ७ ॥
 पुजल मूर्च्छा कतारी, प्रशंसे तेहनी नारी हो ॥ रा० ॥ ८ ॥ वेहु बांधी पुण्यनी
 राशि, सुख विलसे निज आवास हो ॥ रा० ॥ ९ ॥ एक ज्ञानामें नारी,
 श्रीदेवीने ते प्यारी हो ॥ रा० ॥ १० ॥ नंदशेठ सुता गुणखाणी, देवदत्तनी ते धणी
 याणी हो ॥ रा० ॥ ११ ॥ तस पीयुनें अंगें रोग, थयो कुष्टनो पूरव नोग हो
 ॥ रा० ॥ १२ ॥ देखी जडा दुई दिलगीर, नयणें जरे आंसू नीर हो ॥ रा० ॥ १३ ॥
 श्रीदेवी साथ साहेली, करे वात वेहु मन मेली हो ॥ रा० ॥ १४ ॥ कोइ कर्म तणी
 गति विषमी, मुज कंथनें वेदन न शमी हो ॥ रा० ॥ १५ ॥ तव हांसीमां
 श्रीदेवी, बोली तुज संगत एहवी हो ॥ रा० ॥ १६ ॥ तुज सेव्ये ए व्याधि वलगी,
 जा उठ मुजयी अलगी हो ॥ रा० ॥ १७ ॥ सुणी जडा नीचे वयणें,
 जोई रही जरते नयणें हो ॥ रा० ॥ १८ ॥ मनहुं थयुं मांहे दूणें, सखीयें

मुज दीधुं महेणुं हो ॥ रा० ॥ १३ ॥ मन खेद उपन्यो जाणी, श्रीदेवी
 बोली वाणी हो ॥ रा० ॥ मत खेद करो मुज वहाली, में हांसीयें कखुं तुज
 आली हो ॥ रा० ॥ १४ ॥ अइ सुप्रसन्न मनमां तेह, पहेती पोतानें गेह
 हो ॥ रा० ॥ माही पण चाली आमी, हांसीमां वात विगाडी हो ॥ १५ ॥
 हांसी सम नहिं कोइ पाप, जांखे त्रिखुवनपति आप हो ॥ रा० ॥ बंधाये
 सात नें आठ, हांसीमां कर्मना गठ हो ॥ रा० ॥ १६ ॥ यडुक्तं मागमे ॥
 जीवेणं जंते हस्तमाणे कइ कम्म पवडिउ बंधएवा ॥ गोयम सत्तविह
 बंधएवा, अठविह बंधएवा ॥ ४ ॥ पूर्वढाल ॥ उत्तमने हस्तबुं वारु, वेहु
 समयमां एम निरधाखुं हो ॥ यडुक्तं ॥ अइरोसो अइ तोसो, अइहासो
 डुळयो हि संवासो ॥ अइ उप्पड आवेसो, पंच गुरुं अपि जहुयंति ॥ ५ ॥
 पूर्वढाल ॥ नवि करीयें कोनी हांसी, जेहथी जग होवे खासी हो ॥ रा०
 ॥ १७ ॥ एम आले आले जीव, बांधे परचव करे रीव हो ॥ रा० ॥
 सोमचंड अने श्रीदेवी, साधुनी संगति सेवी हो ॥ रा० ॥ १८ ॥ कखुं
 पुण्य ते आहुं आवे, पहेले सुरजोकें जावे हो ॥ रा० ॥ पंच पळ्योपमत्तुं
 आय, दोय सुर थयां सुंदरकाय हो ॥ रा० ॥ १९ ॥ सोमचंड चवी तुं
 तेह, थयो जूमिपति गुणगेह हो ॥ रा० ॥ त्रैलोक्यसुंदरी सारी, पहेली श्री
 देवी नारी हो ॥ रा० ॥ २० ॥ परधनें पुण्य कीधुं जारी, तिणें परएयो जाडे
 नारी हो ॥ रा० ॥ हांसीमां कलंक चढाव्युं, ते आ नवें उदयें आव्युं
 हो ॥ रा० ॥ २१ ॥ निसुणी श्रीगुरुनी वाणी, मन मोहदशा मूंजाणी हो
 ॥ रा० ॥ ए चौदमी ढालवखाणी, कहे रामविजय धन्य नाणी हो ॥ रा० ॥ २२ ॥

॥ दोहा ॥

॥ बांदी कर जोडी कहे, तारो श्री गुरुराज ॥ नवजलमांहे मुज मित्यो,
 दर्शन तुज जहाज ॥ १ ॥ पतित जणी पावन करो, थो प्रभु मुजने दी
 ह ॥ मनमां सुधी धारवी, सद्गुरु ताहरी शीख ॥ २ ॥ गुरु कहे देवाणु
 प्पिया, तेम करियें मन ताम ॥ ए अनादि प्रतिबंधमां, नवि पडियें घर
 काम ॥ ३ ॥ गुरु बंदी मंदिर चळ्यो, विनता सहित नरिंद ॥ राज्य छव्यो
 निज तनुजने, मनमां धरि आनंद ॥ ४ ॥

॥ ढाल पन्नरमी ॥

॥ वीर सुणो भोरी विनति ॥ ए देशी ॥ यगज्ञेखर आणा लही, नृप

चाल्यो हो संयमने काज ॥ बलि जयसिंह मुनीशने, कहे आपो हो मुऊ सं
 यम राज ॥ १ ॥ बलिहारी गुणवंतनी ॥ नृप मांमे हो व्रत साथें नेह ॥ कुमति
 कुटिल नारी तजी, नजे समता हो सुंदरी गुणगेह ॥ व० ॥ २ ॥ दीख
 ग्रही नवतारिणी, गुरुसाथें हो विचरे मुनिहंस ॥ ध्यान विमल मोती चूणे,
 मतिहंसी हो साथें शुन वंश ॥ व० ॥ ३ ॥ समयजलाशयने तरे, लख
 जेदें हो जड चेतनजाव ॥ अनुजव चंचुस्वजावथी, नय धारण हो पकू उ
 ज्ज्वलजाव ॥ व० ॥ ४ ॥ शुद्ध आहारें मन रमे, निर्दूषण हो नीरें संतोष ॥
 गुरुआणायें चालतां, मन वाधे हो वैराग्यनो पोष ॥ व० ॥ ५ ॥ त्रैलोक्य
 क्यसुंदरी साधवी, करे किरिया हो गुरुणीनी साथ ॥ व्रत आराधे ऊजलां,
 मन आपुं हो जेणें निज हाथ ॥ व० ॥ ६ ॥ अंतें अणसण आदरी,
 वेदु पद्मोतां हो पंचम सुर ठाम ॥ त्रीजे नवें शिवसुख लह्यां, धर्म तारे
 हो नवि निसुणो आम ॥ व० ॥ ७ ॥ कीधो कराव्यो ए सही, अनुमोद्यो
 हो आपे शिव धर्म ॥ त्रिकरण योगें आदस्यो, मनचिंतित हो पूरे शिव शर्म
 ॥ व० ॥ ८ ॥ श्रीपेण नृप एम सांजली, गुरुदेशने हो वृण्यो मनमांहे ॥
 समकित शुद्ध अंगीकरी, श्रावक व्रत हो ग्रहे मन उत्साह ॥ व० ॥ ९ ॥
 मुनि वंदी मंदिर बल्या, मन सूधे हो पाले आचार ॥ जीवदया पाले नली,
 देशमांहे हो वरतावी अपार ॥ व० ॥ १० ॥ व्यसन निवारे वेगलां, मन
 वारे हो विषयें सुविशेष ॥ आतमने उज्ज्वल करे, न लगावे हो कांइ का
 ली रेख ॥ व० ॥ ११ ॥ चेतन शुक्लपद्मी थयो, तस संगतें हो अजिनं
 दिता नार ॥ धर्म नज्यो नगवंतनो, जे साथ्यो हो आपे नवपार ॥ व० ॥
 १२ ॥ नइकजावपुं लहे, अजिनंदिता हो राणी नृपसंग ॥ उत्तम संगति
 गुण करे, पत्तर पण हो तरे तुंव प्रसंग ॥ व० ॥ १३ ॥ एहवे कोसंबी
 धणी, बलिराजा हो बलीयो नूपाल ॥ श्रीमतीकूखें उपनी, श्रीकांता हो
 पुत्री सुकुमार ॥ व० ॥ १४ ॥ यौवनवय आवी नली, मोहरायने हो
 रमवानुं ठाम ॥ जोड न आवे तेहनी, जगतीमां हो जोतां कोइ ठाम ॥
 व० ॥ १५ ॥ श्रीपेण सुत इंद्रपेणने, योग जाणी हो सवले परिवार ॥
 स्वयंवर साहमी मोकली, आवी उतरी हो वनमां तेणी वार ॥ व० ॥
 १६ ॥ पन्नरमी ढाल पूरी थइ, नवि सुणजो हो नावें उजमाल ॥ रामवि
 जय कहे तेहनां, नाम लीजें हो जेहने धर्मनी ढाल ॥ व० ॥ १७ ॥ ३७१ ॥

॥ दोहा ॥

॥ रूपवती कुमरी घणुं, निरखी वेहु कुमार ॥ मनमथने ते वशें पड्या,
वाध्या विषय विकार ॥१॥ निरखी निरुपम नायका, विषमी कुंची जेम ॥
वेठी अंतर जायगा, जेथुं तालक प्रेम ॥ २ ॥ चित्त वेहु बंधव तणां, एक
डव्य अनिलाष ॥ नेह रहित नीरस थयो, लीली जेहवी लाख ॥ ३ ॥
विषयें विनय तज्यो परो, विडुपेण कहे एम ॥ मकरिश आशा एहनी,
जो तुं वांढे हेम ॥ ४ ॥

॥ ढाल शोलमी ॥

॥ हरिया मन लाग्युं ॥ ए देशी ॥ वे बंधव अमरप चढया, देवरमण
उद्यान रे ॥ विषयें मदमाता ॥ तुं तुंकारें आवीया, विहु ते योड युवान रे
॥ वि० ॥ १ ॥ लाज न आणी कुल तणी, न गण्यो जन अपवाद रे
॥ वि० ॥ एक तरुणीने कारणें, मांमथो एम संवाद रे ॥ वि० ॥ २ ॥
लाज तजी अलगी तेणें, नाख्या हथीयारें हाथ रे ॥ वि० ॥ चटपटमां
खटपट थड, आव्या वाथो वाथ रे ॥ वि० ॥ ३ ॥ योध जुंमा धड धडहडे,
कायर कंपे प्राण रे ॥ वि० ॥ कोड न ढोडावी शके, मजिया राणो राण
रे ॥ वि० ॥ ४ ॥ कामणगारी कामिनी, शुं कीधुं एणें एह रे ॥ वि० ॥
जोतां वेहु बंधवतणो, उमी गयो एम नेह रे ॥ वि० ॥ ५ ॥ वात सुणी
श्रीपेणजी, वारणने असमठ रे ॥ वि० ॥ चित्त चिंते ए उपन्यो, विषयथकी
अनरठ रे ॥ वि० ॥ ६ ॥ धिक् धिक् ए लंपटपणुं, धिग् धिग् विषय विला
स रे ॥ वि० ॥ युवती रूपें जगतमां, मोहनूपें थखो पास रे ॥ वि० ॥
७ ॥ तिलमात्र सुख विषयतणुं, दुःख मेरु उपमान रे ॥ वि० ॥ विष
यविलुक्षां मानवी, अंगें न वळे वान रे ॥ वि० ॥ ८ ॥ शव्यसमा जिनवर
कह्या, काम आशीविष तुय रे ॥ वि० ॥ जे एहथी विरम्या सही, ते नर
स्यण अमूल्य रे ॥ वि० ॥ ९ ॥ माहापण एहनुं क्यां गयुं, किहां गयो कु
लआचार रे ॥ वि० ॥ निर्लज ए लाजे नहिं, विषय पड्यो धिक्कार रे ॥
वि० ॥ १० ॥ जे पुज्ज नासे सडे, धर्मसंयोग वियोग रे ॥ वि० ॥ ते उ
पर मूर्छा इती, अहो अनादिनो रोग रे ॥ वि० ॥ ११ ॥ यडुंकं ॥ एता
नि तानि धनयोवनगर्वितानि, हाराईहारमणिनूपुरसंचितानि ॥ वस्त्रात्र
पानशयनासनलाजितानि, नूमो लुठंति कुपितानि कळेवराणि ॥ १ ॥

अन्यदप्युक्तं ॥ विकलयति कलाकुशलं, हसति शुचिं पंथितं विडंबयति ॥ अधर
यति धीरपुरुषं, कृणेन मकरध्वजोदेवः ॥ ११ ॥ लीलावतीनां सहजाविलासा,
स्तएव मूढस्य हृदि स्फुरंति ॥ रागोनलिन्याहि निसर्गसिद्ध, स्तत्र च्रमत्येव
मुधा पडंङ्खिः ॥ ३ ॥ पूर्वठाल ॥ कलहथकी विरम्या नहिं, लाज्यो मन नूपाल
रे ॥ वि० ॥ एणें कुपुत्रें आदस्यो, निर्मल वंशविटाल रे ॥ वि० ॥ १२ ॥
केम देखाडिश लोकने, मुख दरवारें वेसी रे ॥ वि० ॥ मरण जळुं मुऊने
इहां, धरने खूणे पेसी रे ॥ वि० ॥ १३ ॥ राणी आगल जइ कहुं, धरे
परमेष्ठी ध्यान रे ॥ वि० ॥ विपमिश्रित लेइ कमलनें, सूंघे मरण निदान रे
॥ वि० ॥ १४ ॥ काल कस्यो श्रीषेणजी, राणी दोय पण तेम रे ॥ वि० ॥
सत्यजामा चोथी वली, जूठ अनरथ एम रे ॥ वि० ॥ १५ ॥ उत्तर कुरुमां उ
पन्यां, युगलपणे ते चार रे ॥ वि० ॥ एक नृप प्रथम प्रिया तनु, बीजी बीजी
द्विजनार रे ॥ वि० ॥ १६ ॥ एहवे चारण मुनिवरु, गगनें आव्यो कोय रे
॥ वि० ॥ देवरमण उद्यानमां, जिहां जूजे ठे दोय रे ॥ वि० ॥ १७ ॥
अहो उत्तम कुल उपन्या, चरमशरीरी होइ रे ॥ वि० ॥ एम केम लज
वाता नथी, करता कुकरम दोइ रे ॥ वि० ॥ १८ ॥ एह कुचेष्टित तुम
तणुं, देखी पितर परलोक रे ॥ वि० ॥ पहोता पण जाण्युं नहिं, धीक्
तुम माहापण फोक रे ॥ वि० ॥ १९ ॥ अनृणपणुं कीधुं नळुं, थया
तरुणीना थार रे ॥ वि० ॥ मरणहेतु मावित्रने, थया तुमें मूढ गमार रे
॥ वि० ॥ २० ॥ शब्द सुणी साधु तणो, चित्त आव्युं तव ठाम रे ॥ वि० ॥
युद्ध तजी वेहू जणा, जांखे मुनिने आम रे ॥ वि० ॥ २१ ॥ साचो शो
लमी ढालमां, विपमो विपय जंजाल रे ॥ वि० ॥ रामविजय कहे ते जला,
जेणें टाव्यो ए जंजाल रे ॥ वि० ॥ २२ ॥ सर्व गाथा ॥ ४०७ ॥ श्लो० ४१

॥ दोहा ॥

॥ तुं अमने तारक मळ्यो, निःकारण जगबंधु ॥ युद्ध करंतां तारिया, पडता
नवजल अंधु ॥ १ ॥ अशरण शरण तुमें थया, वली अनाथना नाथ ॥ आ
वीने अम ऊपरें, कृपा धरी मुनिनाथ ॥ २ ॥ वांदीने दोडी चव्या, आव्या तेह
आगार ॥ पितर देखी धरणी ढव्या, चाली आंसूधार ॥ ३ ॥ रोता हियडे
फाटते, करे विलाप अपार ॥ धार न खंचे नयण दो, जेम जाइव जल
धार ॥ ४ ॥ हा हा हा ए गुं थयुं, अमथी सबल अकळ ॥ केम कुकर्म

ए बूढुं, वांध्युं अमें-निर्लेळ ॥ ५ ॥ मव्यो सहू परिवार तव, शोकाकुल
ततकाल ॥ स्वामी तें माया तजी, कुण करणे संजाल ॥ ६ ॥ गया विदेशें
वाहुडे, वाहला कोइक वार ॥ पण इण वाटें जे वव्या, ते न मले विजी
वार ॥ ७ ॥ प्रेतकार्य करि पितरनां, आणी मन अंदोह ॥ राज दीये गोत्री
जणी, मव्यो विषयनो मोह ॥ ८ ॥ एहवे आव्या सांजली, धर्मरुचि
अणगार ॥ जे अगाध नवसिंधुना, सूधा तारणहार ॥ ९ ॥

॥ ढाल सत्तरमी ॥

॥ साहिवा मोतीडो रे हमारो ॥ ए देशी ॥ आव्या दोय कुमर वंदेवा,
करे मुनि चरणनी सेवा ॥ साधुजी अमने अच तारो, मोहना मुने पार
उतारो ॥ अमें अपराधी पापें नरिया, तुमें निरुपाधिक गुणना दरिया
॥ सा० ॥ मो० ॥ १ ॥ अमें शब्दादिक गुण व्यासंगी, तुमें तेहना सुपने नहिं
संगी ॥ सा० ॥ मो० ॥ अमें क्रोधादिक कपायें नडिया, तुमें उत्तम गुणताणे
चडिया ॥ सा० ॥ मा० ॥ २ ॥ अमें मदमातंगनें वश पडिया, नवि तुमें ते
तिलमात्र आजडीया ॥ सा० ॥ मो० ॥ अमें अशरण अविनीत अजाण,
तुमें जगशरण विनीत सुजाण ॥ सा० ॥ मो० ॥ ३ ॥ कीधी कमाइ अमें
अति खोटी मुनिवरजी तुम पदवी महोटी ॥ सा० ॥ मो० ॥ नव अ
जिनंदी अमें बुपावी, तुमें पट कायना नहिं परितापी ॥ सा० ॥ मो०
॥ ४ ॥ अमो ते इंधियें विषय राच्या, तुमें अनुभव सुखमां रह्या माच्या
॥ सा० ॥ मो० ॥ कीधी वात अमें अति काची, तुम किरिया निःक
लंक ने साची ॥ सा० ॥ मो० ॥ ५ ॥ पतित अमें पुरुषारथ हीणा, तुमें
पावन गुणज्ञान अहीणा ॥ सा० ॥ मो० ॥ हवे तुम चरणे आवी व
जग्या, एक पलक नवि रडेगुं अजगा ॥ सा० ॥ मो० ॥ ६ ॥ द्यो दीक्षा
करो पावन काया, तो अमें जितनिशाण वजाया ॥ सा० ॥ मो० ॥ ७ ॥ मुनि
वर कीधो उग्र विहार, पाले चार माहाव्रत सार ॥ सा० ॥ मो० ॥ तप न
पीयां अति झुकर गाढां, राखे रूढी चारित्र राढा ॥ सा० ॥ मो० ॥ ८ ॥ सहे
परिसह तापने टाढ, खड खड हिंमतां वाजे हाढ ॥ सा० ॥ मो० ॥ चढीया
गुणश्रेणी आरोही, मुनिवर अकल अवीह अकोही ॥ सा० ॥ मो० ॥ ९ ॥
वाध्या उपशम गुणना जोरा, नाठा झुट मदादिक चोरा ॥ सा० ॥ मो० ॥

नवपद्मव दुः संयमवाडी, समताजल सींचतां जाडी ॥ सा० ॥ मो० ॥
 ॥ १० ॥ वेदु मुनि निजगुणथी वाधे, साधन साधु ग्रहीनें साधे ॥ सा०
 ॥ मो० ॥ अप्रमत्त जूमि निरधारी, मोह ऊपरें कीधी स्वारी ॥ सा० ॥ मो०
 ॥ ११ ॥ जाग्यो मोह सबल नडवाह, चेतन जाति चढ्यो उत्साह ॥ सा०
 ॥ मो० ॥ क्लीणमोह गुणठाणें आवी, अंतर्मुहूर्त्त स्वारी टकावी ॥ सा० ॥
 मो० ॥ १२ ॥ ठेद करे आवरण वेदुनो, चेतन चढी तेरम गुण लीनो
 ॥ सा० ॥ मो० ॥ प्रकढ्यो केवलनाण विजास, जासक लोकालोक प्र
 काश ॥ सा० ॥ मो० ॥ १३ ॥ जय जय शब्द करे सुरराजी, देव निशाणें
 रह्युं अज गाजी ॥ सा० ॥ मो० ॥ वेदु मुनिवर केवल कृदि लाधी, अंतें
 सिद्धदशा तें साधी ॥ सा० ॥ मो० ॥ १४ ॥ हवे श्रीषेणादिक द्योय
 युगल, त्रण पढ्य आयु पालीने विमल ॥ सा० ॥ मो० ॥ तिहांथी चवि
 सौधमें चार, त्रीजे नवें सुरसुख लह्यां सार ॥ सा० ॥ मो० ॥ १५ ॥ ढाल
 सत्तरमी सुणतां प्यारी, शांति प्रच्छु गुण गाउं विचारी ॥ मो० ॥ सा० ॥ श्री
 गुरु सुमतिविजयनो शिष्य, राम कहे प्रणमो निश दीस ॥ सा० ॥ मो० ॥ १६ ॥

॥ राग धन्याश्री ॥

॥ आतमा चित्तुं चेत चातुरपणे, धर्म विण कोऽ दूजो न जगमां ॥
 धर्म ते शुद्ध सहजातमा आपणो, तारणे ते सही तुज वगमां ॥ आ०
 ॥ १ ॥ निज उपादानथी निमित्त वल पामीयें, धर्म अविरुद्ध सुविशुद्ध
 लेशी ॥ निमित्त शुभ तेह जन संकथा जाणजो, तुरत ते नक्तनें सुक्ति
 देशी ॥ आ० ॥ २ ॥ माहरे मन घणी नक्ति शुणवा तणी, शांति प्रच्छु
 रास रसनाधिकारें ॥ तेहनो खंद पहेलो थयो पुण्यथी, सांजलो नवि
 यणो निर्विकारें ॥ आ० ॥ ३ ॥ आगलें सरस रस शांतिजिनरासमां,
 तास रचना रचीशुं नक्षेरी ॥ वात विकथा तजी चित्त समता नजी,
 सांजलो ढोढो निंदा अनेरी ॥ आ० ॥ ४ ॥ सत्तर पंचाशीए राजनगरें
 रही, आदिजिन चरण सुपसाय साथ्यो ॥ श्री सुमति सुगुरुतणुं सान्निध्य
 रामनें, आज आनंदनो पोष वाध्यो ॥ आ० ॥ ५ ॥ सर्वगाथा ॥ ४३४ ॥
 गाथा तथा श्लोक ॥ ४१ ॥ इति पंक्ति श्री रामविजयविरचित श्री शांति
 जिनबंधे प्राकृतप्रबंधे सुकृतसंधे पूर्वजवानुबंधे मंगलकलशचरित्रे प्राकृतघादश
 नवनिबंधे नवत्रयवर्णननामा प्रथमः खंदः संपूर्णः ॥ १ ॥

॥ अथ द्वितीयखंरुस्य प्रारंभोऽयं ॥

॥ दोहा ॥

॥ अरिहंत सिद्ध नमूं वली, आचारिज उवधाय ॥ साधु सकल प
रमेष्टिपद, नजियें नित सुखदाय ॥ १ ॥ बीजो खंरु रचूं हवे, सरस
कथा अधिकार ॥ शांतिनाथ नववर्णना, करतां नव निस्तार ॥ २ ॥ सुर
लोकें सुख नोगवे, मनोवांठित वर योग ॥ नाटक वद् वत्रीशमां, नित
नित नवला नोग ॥ ३ ॥ वैमानिक सुख नोगवे, ते चारें पुण्यवंत ॥
चवी कीहां ते अवतरे, ते दाखुं विरतंत ॥ ४ ॥

॥ ढाल पहेली ॥

॥ देशी चोपाईनी ॥ जंबूद्वीपें नरत मजार, वैताढ्य नामें पर्वत
सार ॥ पहोलपणे जोयण पञ्चास, उंचपणे पचवीश विलास ॥ १ ॥ राजे रजत
तणो गिरि तेह, कपर सोहे जिनवर गेह ॥ पुण्यवंतने वसवा ठाम, उ
त्तरश्रेणें पुर अनिराम ॥ २ ॥ नामें रथनूपुर चक्रवाल, रुद्धें सोहे जाक
ऊमाल ॥ विद्याधर सुखीया सहु कोय, दुःखीयो नामें न वसे कोय ॥
३ ॥ साते सुख जिहां वासो वसे, धर्मी सहु धर्में उद्वसे ॥ साते सुखनां
दाखुं नाम, काव्यथकी सुणजो मन ठाम ॥ ४ ॥ काव्यं ॥ नीरोगत्वं न न
वति रूपं चाऽप्रवासी तथैव, वासोनित्यं स्वजनसहितो निर्णयस्थानकेषु ॥
लक्ष्मीः कांता तदनुसुजगा संगतिः श्रेष्ठपुंसां, चित्तं शुद्धं विमलक
पया सप्तधा सौख्यमेतत् ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ तिण नगरी विद्याधर धणी,
ज्वलनजटी नामें बहुगुणी ॥ विद्यावंत वारू सुविवेक, वायुवेगा तस गृहि
णी एक ॥ ५ ॥ लवणिम रूप गुणें उंपती, शोल शृंगारें ते शोचती ॥ त
द्यथा ॥ श्लोक ॥ आदौ मङ्गलचारुञ्जालतिलकं नेत्रांजनं कुंमलं, ना
सामोक्तिकहारचारुकुसुमं ऊंकारवन्नूपुरम् ॥ अंगे चंदनलेपकंचुकमणिह
डावलीघंटिका, तांबूलं करकंकणं चतुरता शृंगारकाः षोडश ॥ २ ॥
पूर्वढाल ॥ ए सोले ऊपर शिरदार, नारीनें लळा आचार ॥ ६ ॥
लळावंती ने माहासती, रूपें दासी कीथी रति ॥ अर्कसुपन सूचित
सुत जण्यो, अर्ककीर्ति नामें बहु जण्यो ॥ ७ ॥ यौवन वय सहु मन जा
वियुं, सुवराज पद शोनावीयुं ॥ तदनंतर एक पुत्री जणी, चंडलेखा सू

चित बहुगुणी ॥ ७ ॥ स्वयंप्रजा नामें सा दुः, वृद्धिमती यौवन वय लही ॥
 अजिनंदन जगनंदन द्योय, ननचारी वंदे मुनि सोय ॥ ८ ॥ निमुणी
 धर्मतणी देशना, लाधी समकितनी वासना ॥ पर्वदिनें पौषध अनुसरे, त्रण्य
 काल जिनपूजा करे ॥ ९ ॥ एक दिन जिनपूजा आदरी, नमण तणुं
 जल लेऽ कुमरी ॥ जनकसमीपें आवी चंग, बेसारी तेहनें उठरंग ॥ १० ॥
 जोई रूप वाध्यो मन हर्ष, पुत्री परणावा उत्कर्ष ॥ वंढे जऽ तप पारणुं
 करो, उत्तम कारजने आदरो ॥ ११ ॥ तेज्या मंत्रीश्वर गतशोक, वर
 जोवो पुत्रीने योग्य ॥ आप आपणी मति अनुसरी, उत्तर आपे नृपनें
 फरी ॥ १२ ॥ एक वोव्यो सुकृत अजिधान, मंत्रीश्वर बहुबुद्धिनिधान ॥
 राजन् जेहनो वारो आज, तेहने परणावो माहाराज ॥ १३ ॥ रत्नपुरें
 महोठो चूपाल, अश्वघ्रीव त्रिहु खंम रखवाल ॥ प्रतिविष्णु तेहनें दीजियें,
 परणावी लाहो लीजियें ॥ १४ ॥ अपर कहे उत्तरश्रेणीयें, प्रचंकरा नगरी
 तेणीयें ॥ मेघधनाजिध महोठो संत, मेघमालिनी केरो कंत ॥ १५ ॥
 विद्युत्प्रज सुत वेढो वली, ज्योतिर्माला ठे निर्मली ॥ तस सुतने ए पुत्री
 योग्य, तस पुत्री आपण सुत योग्य ॥ १६ ॥ अपर कहे स्वयंवरने करो, पुत्री मन
 माने ते वरो ॥ सुणी विचार विसर्ज्यां तेह, राजनपहोतो आपण गेह ॥ १७ ॥
 एकदिन नैमित्तिक आवियो, संजिन्नश्रोत्र नृप वोलावियो ॥ कहो मुज
 पुत्री वरनी वात, जो जाणो ज्योतिप साहात ॥ १८ ॥ हवे कहेज्ञे ते वात र
 साल, बीजे खंम पहेली ढाल ॥ रामविजय चांखी मन रली, आगल वातज
 ठे अति जली ॥ १९ ॥ सर्व गाथा ॥ २० ॥ गाथा तथा श्लोक ॥ २१ ॥

॥ दोहा ॥

॥ कहे नैमित्तिक रायने, वारू वयण विलास ॥ पोतनपुर नृपति जलो,
 नाम प्रजापति जास ॥ १ ॥ तस अंगज उत्तम सबल, त्रिष्ट अचल वे
 वंधु ॥ वासुदेव बलजऽ ते, याज्ञे गुणमणिसिंधु ॥ २ ॥ अश्वघ्रीव
 प्रत्ये सही, हणजे ते मदमत्त ॥ एहवुं साधुमुखें सुणुं, तेतुं माने सत्य ॥
 ३ ॥ तुमने अधिपति थापजे, विद्याधर शिरदार ॥ तस पटराणी होयजे,
 स्वयंप्रजा वर नार ॥ ४ ॥ एतुं लग्नवले लहुं, साधु तणे वयणेह ॥ देजो शावासी
 मुने, जब देखो नयणेह ॥ ५ ॥ नृपति मन संतोषियो, सन्मान्यो देवज ॥
 नक्तियें करी वोलावियो, नरपति सबल गुणज ॥ ६ ॥ हवे दूत मारीचि

प्रत्ये, पाठवीयो तिण ठाय ॥ पोतनपुर पढोतो तुरत, जाइ विन
वियो राय ॥ ७ ॥

॥ ढाल बीजी ॥

॥ आठ टकानो कंकणो रे ॥ नणदल ॥ थरकी रही मोरी वांद् ॥ कंकण मोल
लीयो ॥ ए देशी ॥ दूत कहे कर जोडीने रे ॥ साहिवा ॥ सुण प्रजापति स्वामि ॥
वारू वयण सुणो ॥ ज्वलनजटीनो मोकळ्यो रे ॥ सा० ॥ हुं आव्यो शुन
काम ॥ वा० ॥ १ ॥ स्वयंप्रजा नामें जली रे ॥ सा० ॥ कुमरी गुणनी खाण
॥ वा० ॥ तुम तनुज त्रिष्टुने रे ॥ सा० ॥ देवा वांठे राण ॥ वा० ॥
२ ॥ सरखे सरखी जोडली रे ॥ सा० ॥ हजे कोडी कल्याण ॥ वा० ॥
दूत सन्मानी वालीयो रे ॥ सा० ॥ मान्युं ए वचन प्रमाण ॥ वा० ॥
३ ॥ इण अवसरें प्रतिविष्णुजी रे ॥ सा० ॥ अश्वयीव नरिंद ॥ वा० ॥
शोल सहस्र नृपालनो रे ॥ सा० ॥ नायक धरणी इंद ॥ वा० ॥ ४ ॥ चढ्यो
अहमेवें आकरो रे ॥ सा० ॥ नहिं कोइ मुज समान ॥ वा० ॥ सहु किंकर
मुज आगले रे ॥ सा० ॥ हुं त्रिहु खंरु सुलतान ॥ वा० ॥ ५ ॥ तनमद धनमद
आकलो रे ॥ सा० ॥ यौवनमद उन्माद ॥ वा० ॥ धींगो थइ धरा नोगवे रे
॥ सा० ॥ वीढ्यो नूप गरद ॥ वा० ॥ ६ ॥ मान चढ्युं अंस तेहने रे ॥ सा० ॥
पूठे एकदिन तेह ॥ वा० ॥ मोत होजे कोथी मुने रे ॥ सा० ॥ कहे
नेमित्तिक एह ॥ वा० ॥ ७ ॥ वलतुं कहे नेमित्तियो रे ॥ सा० ॥ मत आणो
ममदोप ॥ वा० ॥ हणजे तारा दूतने रे ॥ सा० ॥ जे चढियो जर रोप
॥ वा० ॥ ८ ॥ शाल विणामे सिंहलो रे ॥ सा० ॥ ताहरी सीम मजार
॥ वा० ॥ हणजे हाथे तेहने रे ॥ सा० ॥ ते तुज मारणहार ॥ वा० ॥
९ ॥ वात सुणी कोपें चढ्यो रे ॥ सा० ॥ फेडुं तेहनुं ठाम ॥ वा० ॥
सामुं कुण जाली शके रे ॥ सा० ॥ पाहुं तेहनी माम ॥ वा० ॥ १० ॥
इण अवसर कानें सुण्या रे ॥ सा० ॥ वलीया वंधव वेह ॥ वा० ॥ स्त्रे
आगल जातां थकां रे ॥ सा० ॥ विहणे मुजने एह ॥ वा० ॥ ११ ॥
करुं परीक्षा एहनी रे ॥ सा० ॥ पहेली वांधुं पाज ॥ वा० ॥ बैरी व्याधि
नेदियें रे ॥ सा० ॥ ऊगतां तत्काल ॥ वा० ॥ १२ ॥ सहेजें मलवानें मियें
रे ॥ सा० ॥ मोकलियो एक दूत ॥ वा० ॥ चंरुवेगाजिय आकरो रे ॥ सा० ॥ पोत
नपुर तेह पदुन ॥ वा० ॥ १३ ॥ नाटक जोवानें मली रे ॥ सा० ॥ चावी राज

कुली ठत्रीश ॥ वा० ॥ इणवेलामां राउलो रे आवी, दूत नमावे शीश ॥
 वा० ॥ १४ ॥ रायने शंका उपनी रे आव्यो, प्रतिहरिनो केम दूत ॥ वा० ॥ नाटक
 जंग कख्यो एणें रे आवी, कोप्या दोय नृपपूत ॥ वा० ॥ १५ ॥ ते सन्मानी चा
 लियो रे पाठो, मद मूंठे वल घालि ॥ वा० ॥ पूठें आवी दो जणा रे आठो,
 महोकम कूव्यो जालि ॥ वा० ॥ १६ ॥ नाटक जंग अपराधिया रे धोडी, किहां
 जाइश हवे नाशि ॥ वा० ॥ वात सुणी राय आवियो रे दोडी, मूकाव्यो
 ए दास ॥ वा० ॥ १७ ॥ राय खमावे दूतने रे घहेला, ए दोय वाल स
 जाव ॥ वा० ॥ घर आणी संतोषियो रे वहेलो, प्रतिहरि जय मन जावि
 ॥ वा० ॥ १८ ॥ आव्यो दूत उतावलो रे वनमां, विहितो अमरपजाव
 ॥ वा० ॥ समय आगल आवीने रे जनमां, जांखे ते सजाव ॥ वा० ॥
 १९ ॥ राय प्रजापति सारिखो रे ॥ सा० ॥ नहिं कांदिं तेहनो दोप ॥ वा० ॥
 पण तस अंगज ऊगता रे ॥ सा० ॥ विष अंकूरा जास ॥ वा० ॥ २० ॥
 वात सवे राय सांजली रे चित्तमां, चिंते अंतरगूढ ॥ वा० ॥ मौन धरीने
 ते रह्यो रे कृत्यमां, मतिमूंज्यो दिअूढ ॥ वा० ॥ २१ ॥ जावीजाव टले नहिं
 रे जवियां, निसुणो बीजी ढाल ॥ वा० ॥ धन्य मुनि टाव्यो जेणें रे विरुठ,
 महोटो मदजंजाल ॥ वा० ॥ २२ ॥ सर्व गाथा ॥ ५३ ॥ श्लोक ॥ २ ॥

॥ दोहा ॥

॥ शालहेत्र प्रतिविष्णुनें, ठे बहु निज परिजोग ॥ तास उपड्व नित्य
 करे, सिंह सबल बलयोग ॥ १ ॥ तस चोकी चोपे करे, प्रतिवर्षे राजान ॥
 द्वारें बहुपरिवारयुत, नृप आदेश सुजाण ॥ २ ॥ तिण वर्षे वारक
 विना, वाजिथीव नृपत्त ॥ हुकम प्रजापतिने करे, मूकी दूत तुरत्त ॥ ३ ॥ चित्त
 मां चिंता उपनी, दूतथकी थयुं काम ॥ कखुं कुकर्म अविचारिनें, उदयें
 आव्युं आम ॥ ४ ॥ यतः ॥ सहसा विदधीत न क्रिया, मविवेकः परमापदां
 पदम् ॥ वृणुते हि विमृश्यकारिणं, गुणजुब्धाः स्वयमेव संपदः ॥ १ ॥
 काज विचारीनें करे, रहे तेउनी लाज ॥ अति उत्सुक उतावला, ते
 विणसाडे काज ॥ ५ ॥ यइकं ॥ सुगुणमपगुणं वा कुर्वता कार्यजातं,
 परिणतिरवधार्या यत्नतः पंक्तिने ॥ अतिरजसकृतानां कर्मणामाविपत्ते,
 नैवति हृदयदाही शय्यतुल्योविपाकः ॥ २ ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥

॥ किसके चेले किसके पूत ॥ ए देशी ॥ आव्या सनामां बंधव जोडी, प्र
 एमे पितरना पद कर जोडी ॥ बलवंत वे ॥ केम दीसो चिंतातुर आज,
 नांखो ते अमनें माहाराज ॥ दिलजे होइ ॥ १ ॥ कहे जनक सुणो पुत्र
 सुजाण, कुलदीपक कुल अंबर जाण ॥ व० ॥ विण वारे तेहुं ययुं आज,
 तेणें जावुं चोकीने काज ॥ दि० ॥ २ ॥ राज विराजो निज आवास, हु
 कम करो अमने उह्वास ॥ व० ॥ ए वनचारी पशु अवतार, ए उपर गुं
 थया असवार ॥ दि० ॥ ३ ॥ चाल्या बलीया बंधव दोइ, जगमां दैव करे
 ते होय ॥ व० ॥ नाग्य बली तेजें तेजाल, चाले जिम मयगलनी
 चाल ॥ दि० ॥ ४ ॥ शालक्षेत्रना कहे रखवाल, अहो तुम न मव्या
 कोइ नूपाल ॥ व० ॥ गुं तुम निज जीवित नहिं काज, जे एकला आ
 व्या ठो आज ॥ दि० ॥ ५ ॥ नहिं साह्य ने नहिं परिवार, सिंह संघातें
 युद्ध विचार ॥ व० ॥ रे रे शोर करे शो गमार, करथी देखाडो वनचार
 ॥ दि० ॥ ६ ॥ देखाडयुं पर्वतनुं द्वार, मांहे सूतो सिंह दुशियार ॥ व० ॥
 रथ वेसी आव्या तेणि वार, कानें सुण्यो रथनो चित्कार ॥ दि०
 ॥ ७ ॥ ऊठयो आलस मोडी अंग, पंचानन करवाने जंग ॥ व० ॥
 मुख विकाशयुं उपाडी फाल, आव्यो गुफा वाहिर उजमाल ॥ दि० ॥ ८
 ॥ देखी ते पदचारी सिंह, रथ मूकयो अलगो नरसिंह ॥ व० ॥ देखी नि
 रायुध ते भृगनाथ, खड्गरत्न मूके चूनाथ ॥ दि० ॥ ९ ॥ केसरी चिंते
 अचरिज एक, मुऊ पासें आवे ए एक ॥ व० ॥ वीजुं पदचारी मुऊ जेम,
 जींती जागे कही ए केम ॥ दि० ॥ १० ॥ त्रीजुं मूके आयुद्ध दूर, ए
 हना मनमां अमरप चूर ॥ व० ॥ मुऊ अवगणना करे निःशंक, काहुं म
 रोढी एहनो वंक ॥ दि० ॥ ११ ॥ उठजी नज हरि दीधी दोट, चावी
 हरि शिर करवा चोट ॥ व० ॥ कलें कर क्षेपी मुख बज पोठ, हाथे साही
 हरिना होठ ॥ दि० ॥ १२ ॥ नाख्यो विदारी जोतां तंत, जीरण गाटक
 परें बलवंत ॥ व० ॥ रोपें कलेवर थरके तास, सारधि कहे सुण सिंह दतासु
 ॥ दि० ॥ १३ ॥ मत माग्यो जाणे सामान्य, निह तुं नरनिह बोद्ध सुवान ॥ व० ॥
 निहें सिंह ह्मण्यो नहिं दोष, मत आपो मनमांहे रोष ॥ दि० ॥ १४ ॥
 सुणी बात न धर्यां युद्ध प्राण, मरण लही नरकें गयो दीन ॥ व० ॥

चर्म लेइ हरिनुं गुणवास, मोकलावे प्रतिहरिनी पास ॥ दि० ॥ १५ ॥
 कहेवाडे माने मुज पाड, सिंहतणां में पूखां लाड ॥ व० ॥ जम्य वेठे
 हवे कूर ने जात, मुज सान्निध्य म धरिश प्रतांत ॥ दि० ॥ १६ ॥ नि
 सुणी वैरीनां वयण कठोर, मनमांहे डुहवाणो जोर ॥ व० ॥ अंतर अ
 नल प्रज्वलियो पूर, चिंते हणवा ते वेहु शूर ॥ दि० ॥ १७ ॥ पुण्यदशा
 जस चढती होय, गुं करे वैरी साहामुं जोय ॥ व० ॥ आव्यो पोतनपु
 रनी हजूर, हर्षे वाज्यां तव जय नूर ॥ दि० ॥ १८ ॥ हवे नवि सुणजो
 अधिकार, आगल वधज्ञे बहु विस्तार ॥ व० ॥ वीजे खंमै त्रीजी ढाल, विरुठ
 क्रोध वडो चांमाल ॥ दि० ॥ १९ ॥ सर्वगाथा ॥ ७७ ॥ श्लोक ॥ ४ ॥

॥ दोहा ॥

॥ वाजिग्रीव इण अवसरें, स्वयंप्रजा सुकुमार ॥ रमणी निरुपम सां
 नली, वाध्यो विषयजंजाल ॥ १ ॥ मानिनी ए मोहनलता, मनमानी
 सुखदाय ॥ ज्वलनजणी कहे तुज सुता, मुज सीताव परणाय ॥ २ ॥
 सुखिणी थाज्ञे तुज सुता, वली पामिश बहु मान ॥ रस रहेज्ञे आपण
 अधिक, ए वातें म करिश कान ॥ ३ ॥ यत्किंचित् उत्तर कही, वाढ्यो चर
 राजन ॥ पोतन पुर त्रिष्टुने, परणावी प्रबन्न ॥ ४ ॥ वात नली अथवा बुरी,
 पटकणें दुइ जेह ॥ पसरे पण्हारी मुखें, ढांकी न रहे तेह ॥ ५ ॥ यतः ॥
 खंमण पीसण जलवहण, वाहर नूमि गयांह ॥ देवजुवण पप्पड वणण,
 रसगोठी महिलांह ॥ ६ ॥ पण वधज्ञे ए वातथी, आगल बहु संताप ॥
 अश्वग्रीव मागी हती, पण परणावी नहिं वाप ॥ ७ ॥ सेवक मुख प्रतिहरि सुणी,
 परणावी सा वाल ॥ त्रिष्टुजणी सामीजइ, कठी अंतर जाल ॥ ८ ॥ विषयथकी
 वाध्यो घणो, नारीतणे निमित्त ॥ कोप चढयो जाणे नहिं, कोण शत्रु कुण
 मित्र ॥ ९ ॥ जगमां नारी सम नहिं, अवर कोइ जंजाल ॥ विषयविलुद्धां
 मानवी, पडियां मोहने जाल ॥ १० ॥ समजाव्यो समजे नहिं, मंत्रीश्वर वय
 णेह ॥ वली अज्ञानें आवस्यो, नवि निरखे नयणेह ॥ ११ ॥ यडुक्तं ॥
 एकं हि चक्षुरमलं सहजोविवेक, स्तद्धन्निरेव सह संवसतिर्द्वितीयम् ॥ एतद्व्यं
 जुवि न यस्य स तत्त्वतोऽथ, स्तस्यापमार्गचलने खलु कोऽपराधः ॥ १२ ॥
 यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शिक्षा तस्य करोति किम् ॥ लोचनान्यां विहीनस्य
 दर्पणः किं करिष्यति ॥ १३ ॥

॥ ढाल चोथी ॥

॥ देशी कडखानी ॥ कोप चढे क्रूरलोचन कहे शूरमां, सचिव धसि
 ऊठ उहां जाउं पहेला ॥ दोय ते छुटनें ज्वलन त्रीजा जणी, बांधी मुसके
 इहां लाउं वहेला ॥ १ ॥ जोयजो विपयथी विपम गति नीपजे, विपय
 नडिया वढे एम घेटा ॥ विपयथी सुरवरा नरवरा खेचरा, नारि आगे रह्या
 जेम चेटा ॥ जो० ॥ २ ॥ दूत आव्यो वही पोतनपुर सही, मद चढयो
 बोल बोले अटारो ॥ मुठ वल घालतो शत्रु दल पाडतो, वांकडो बांधि केडें
 कटारो ॥ जो० ॥ ३ ॥ रे सुतारत्न मूकी निजस्वामीने, ज्वलन किम रंकने
 हाथे दीधुं ॥ रत्नतुं गण प्रचुरेव पुहवीतले, नीचनुं वाक्य निसुण्युं न
 सीधुं ॥ जो० ॥ ४ ॥ यतः ॥ मणिर्मेदिनी चंदनं दिव्यहेति, वरं वामनेत्रांगजो
 वाजिराजः ॥ विना नूचुजं कोहि नोक्तुं समर्थो, गृहे युज्यते नैव चान्य
 स्य पुंसः ॥ ४ ॥ ज्वलन कहे दूत सुण एह साचुं कहुं, स्वामी जाणी सुता
 एह दत्ता ॥ बोल तुं पाधरे निजधरा ए नहिं, कां सहे अन्यथा चरणलत्ता
 ॥ जो० ॥ ५ ॥ कुमर कहे दूत वाचाल दीसे जलो, जा कहुं जीवतो जीव लेई ॥
 पारकी नारी आशा करे ताहरो, स्वामि मरजे अखूटेज एही ॥ जो० ॥ ६ ॥
 जाणुं मरवा तणी होंश दीसे घणी, जे अकाजे न लाजे न वूजे ॥ आवियो
 फोटणकाल तुज स्वामीनो, तो सही एहवी बुद्धि सूजे ॥ जो० ॥ ७ ॥ दूत
 आठो थयो तुरत पाठो गयो, स्वामी आगे सहू वात गाई ॥ वात सुणि
 कवीयो सवल शिर चाटको, तुरत गेडी निशाणें दिवाई ॥ जो० ॥ ८ ॥ हल
 हल थाउं हथियार अहि सावदा, सवल विद्याधरो करो सजाई ॥ तुरत
 पदोंच्यो जइतेह पोतनपुरें, देखतां खेद नाख्यो उमाई ॥ जो० ॥ ९ ॥ आवीचा
 तरवरा सेन्यणुं परिवखा, नयर पोतनपुरें तेह वेला ॥ सिंहजित सामुहो
 आची अडियो हठी, दोट दीधी कखा जेल जेला ॥ जो० ॥ १० ॥ देखी
 जडवाय नाठा सहू वापडा, ऊडि आकाश पाठा तिथाव्या ॥ कुमर
 आव्या नगरजीत फने करी, सधव भातंगमोती वधाव्या ॥ जो० ॥
 ११ ॥ त्रिष्टु उर अचल घेहु खेचरें परवखा, आविया श्वसुरगेदें जमाई ॥ कंत
 मयंप्रजा कुमरीनो आवियां, घर घरे बांटे सहूए वधाई ॥ जो० ॥ १२ ॥
 सामुहो आवियो शत्रु निसुणी तदा, आप हयघीर कीधी चढाई ॥ जाख
 अहेनालो गज हयवरा हिसता, कोडि नव अश्वणुं आव्यो धाई ॥ जो० ॥

१३ ॥ धडहडे धरणि नीशान तव गडगडे, नूर रणतूर ते सबल वाजे ॥
 शब्द कालह तणा अतिहि वीहामणा, गुहिर वैताढयना कुहर गाजे ॥
 जो० ॥ १४ ॥ सैन्य अणीयें मळ्यां लोह तव उठव्यां, नाट नट कोटि
 नट दपट दीनी ॥ लटपटी आविया चटपटीमांहे ते, रुधिरकर्दम मही
 घोर कीनी ॥ जो० ॥ १५ ॥ युद्ध विद्याधरा साथ वाजे सहिं, होंश पूरी
 वडे सैन्य शूरा ॥ स्वामी गयवर चढ्या शिर वकारे जला, माहरा वीर वेदु
 पस्क पूरा ॥ जो० ॥ १६ ॥ बहुत विद्यावलें रूप कीयां घणां, छुष्ट वैताल
 सर्पादि जाणी ॥ फोज पाठी हठी त्रिष्टष्ट अचल तणी, आवि स्वामीलगे
 ते उजाणी ॥ जो० ॥ १७ ॥ जागीयुं सैन्य निज देखि कोपें चढयो, आ
 प रथ वेसीने धींग धायो ॥ पाठल कोटि नट ऊठले आवता, मानुं महेराण
 ए पूर आव्यो ॥ जो० ॥ १८ ॥ पग जणी जोर आव्युं सवे कायरा, हाक
 वीरो तणी ताम वागी ॥ गयण गयण खलहल्यां, देव दानव मळ्या, आज
 सबली हलां आय लागी ॥ जो० ॥ १९ ॥ रथ चढी आवी साहामो अड्यो
 प्रतिहरि, दोय रिपु सामुहा आवि मलिया ॥ दल वेदु पासें देखे तमासो
 तिहां, धन्य राणीजाया एह वलीया ॥ जो० ॥ २० ॥ दिव्य हथियार धाव्या
 तदा मेघ जिम, प्रतिहरि घनथकी ताम वृठी ॥ राय परजापति सुत नवल
 लीलथी, शस्त्र ठेदी पडी ते अपूठी ॥ जो० ॥ २१ ॥ चक्र समखुं तदा
 राय हयग्रीवजी, समर रे समर जे इष्ट ताहरे ॥ नय दिखाडे किश्यो
 लोहना खंमनो, चक्र मम मूक वलतुं वकारे ॥ जो० ॥ २२ ॥ मूकियुं
 चक्र तेणें मान मनमां धरी, कोपथी हाथ उपरें नवाडी ॥ आवि त्रिष्टष्ट
 नी पास ते पुण्यथी, तिहां रघुं तुंवथी वहु ताडी ॥ जो० ॥ २३ ॥
 चक्र लेइ करें कहे हयग्रीवनें, मान्य मुज आण जा तुज मूक्यो ॥ ते कहे
 मरण जलुं वेरी नमवाथकी, नवि नमुं प्रतिहरि एम कूको ॥ जो० ॥ २४ ॥
 मूकीयुं चक्र शिर ठेदी आव्युं करें, प्रतिहरि नरकनी वाट लीथी ॥ प्रयम
 हरि एम उदघोषणा सुर करे, त्रिष्टष्ट शिर कुसुमनी वृष्टि कीथी ॥ जो० ॥
 २५ ॥ साधियो खंम त्रिहुं नरत चूमी तणा, सर्व नर असुरनां वृंद साथें ॥
 वाम जुज अग्रगुं कोटि शिल उदरी, पट्ट अनिपेकें कीनो सनाथें ॥ जो० ॥
 २६ ॥ राज्य धरा जागवे पुण्यवलीया थकी, ढाल चोथी कही खंम वीजे ॥
 राग आशावरी जातिकहखे सही, राम कहे पुण्यथी कोन सीजे ॥ जो० ॥ २७ ॥

॥ दोहा ॥

॥ ज्वलनजणी वैताढयनुं, विद्याधरस्वामिन् ॥ आपे अति कलट धरी,
त्रिहु खं अधिपत्त ॥ १ ॥ अर्ककीर्त्तिने आदरें, ज्योतिर्माला नाम ॥
वियुत्प्रन्न जगिनी जणी, परणावी तिण ठाम ॥ २ ॥ अति आमंवरें आ
विया, निज नयरी नरसिंह ॥ वेहु बांधव सुख नोगवे, पुण्यें अकल अवीह
॥ ३ ॥ यहुक्तं ॥ तावच्चंडवलं ततोयह्वलं तारावलं नूवलं, तावद्योगनि
योगमंत्रमहिमा तावत्कृतं पौरुषम् ॥ तावत्सिद्धयति वांठितार्थमखिलं तावद्जनः
सङ्गनो, यावत्पुण्यमिदं नृणां विजयते पुण्यक्षये क्षीयते ॥ १ ॥ शोल
सहसमां भूलगी, स्वयंप्रजा वर नारि ॥ सुख विलसे संसारनां, प्रियणुं
रति अनुकार ॥ ४ ॥ हवे पहेला सुरलोकथी, श्रीपेणादिक चार ॥ जिहां
आवीने अवतरे, ते दाखुं अधिकार ॥ ५ ॥

॥ ढाल पांचमी ॥

॥ नदी यमुनानुं रे तट रलीयामणुं ॥ ए देशी ॥ चवि सुर लोकथकी
श्रीपेणजी रे, नव चोथे अवतार ॥ अर्ककीर्त्ति विद्याधर मंदिरे रे, ज्योतिर्माला रे
नारी ॥ १ ॥ सांजलजो नव शांतिजिणंदनो रे ॥ ए आंकणी ॥ नवि राखी
मन ठाम ॥ गुण गातां सुणतां गिरुआ तणा रे, सीजे वांठित काम ॥ सां०
॥ २ ॥ दीगो तेजे अमित रवि रातमां रे, सुपनें माहासुखकार ॥ नव
मसवाडे सुत जनम्यो सही रे, प्राची जेम दिनकार ॥ सां० ॥ ३ ॥
तेजे जलामल तनु देखी करी रे, हरख्यां दंपती द्योय ॥ नाम ठवे सालन
संतोषिने रे, अमिततेजा गुण जोय ॥ सां० ॥ ४ ॥ सुत हुजरावे माढी
हर्षणुं रे, धरती अधिक जगीश ॥ चिरं जीवो मनमोहन माहरा रे,
कोडा कोडि वरीस ॥ सां० ॥ ५ ॥ ज्वलनजटी इण अवसरें आदरे रे,
अनितंदन मुनिपास ॥ देशन सुणी व्रत गुणरयणें नखुं रे, मोढी निविड
नवपाश ॥ सां० ॥ ६ ॥ धलीया यइ मुनिसार्थें नीसण्या रे, हुं वलि
हारी रे तास ॥ लेखवीयो इंडजाल समोवडें रे, जेणें नव पुज्जवास
॥ सां० ॥ ७ ॥ सत्यनामा तदनंतर उपनी रे, ज्योतिर्मालानी कूस्य ॥
तारकपुत रयणी मुहणुं जही रे, जागी सा गतडुःख ॥ सां० ॥ ८ ॥ शुच
वेला राणी रयणीसमे रे, प्रसवी सुता सुकुमार ॥ नाम सुतारा स्थाप्युं
तेहनुं रे, मोहनवेलि रसाल ॥ सां० ॥ ९ ॥ तरुणपणुं पामी सा कुंवरी

रे, यौवन रूप सुरंग ॥ मात पिताने वाहाली जीवथी रे, रमे जस अंगें अ
 नंग ॥ सां० ॥ १० ॥ स्वयंप्रजानी कुखें उपन्यो रे, अजिनंदितानो रे जाव ॥
 दीगो श्रीअजिपेक ते सुपनमां रे, वाध्यो हर्ष अतीव ॥ सां० ॥ ११ ॥
 जन्म्यो हरि उत्सव हर्षे करे रे, नाम श्रीविजयकुमार ॥ विजयजड
 नामें बीजो हुउ रे, रूपें देवकुमार ॥ सां० ॥ १२ ॥ नारायण मंदिर
 सिंहनंदिता रे, ज्योतिःप्रजा अजिधान ॥ स्वयंप्रजानी कूखें उपनी रे,
 पुत्री रूपनिधान ॥ सां० ॥ १३ ॥ अनुक्रमें यौवन वय आवी जली रे,
 ज्योतिःप्रजा रतिरूप ॥ स्वयंवर मांमयो तेहने कारणें रे, तेडाव्या बहु
 नूप ॥ सां० ॥ १४ ॥ मंमप रचीया अति महोटे मनें रे, अति उंचा रे
 आकाश ॥ मंमप स्थंज रची मणिपूतली रे, करती नाटक खास ॥
 सां० ॥ १५ ॥ अर्ककीर्ति इण अवसर मोकले रे, सचिव नारायण
 पास ॥ ते कहे स्वामी सुण मुज स्वामीनी रे, एक सुंदर अरदास ॥ सां०
 ॥ १६ ॥ नामें सुतारा मुज पुत्री जली रे, आवी यौवन वेप ॥ ते इहां
 आवे स्वयंवर कारणें रे, जो होवे स्वामी आदेश ॥ सां० ॥ १७ ॥ नारा
 यण कहे इहां आवो सुखें रे, नहिं अंतर अम कोय ॥ वाहाली
 वेला आवे वालहो रे, तो मन हर्षित होय ॥ सां० ॥ १८ ॥ सचिवें
 आवी वात सर्वे कही रे, अर्ककीर्ति उजमाल ॥ सार्थें सुतारा लेइ संचरे
 रे, सुत सार्थें तत्काल ॥ सां० ॥ १९ ॥ आव्यो पोतनपुर कतावलो रे,
 हरि दीधूं बहु मान ॥ मंगलशब्द बंदीजन उच्चरे रे, जाट करे रे कल्याण
 ॥ सां० ॥ २० ॥ मंमप वेठा बहु राजेश्वरा रे, विष्णु अने बलदेव ॥ मं
 मप आवी वे कुमरी जली रे, जिहां वेठा नरदेव ॥ सां० ॥ २१ ॥ ज्योति
 प्रजायें पूरवनेदधी रे, अमिततेजाने रे कंठ ॥ वरमाला स्थापी वरियो
 जलो रे, आणी मन उत्कंठ ॥ सां० ॥ २२ ॥ श्री विजयकुमार तणे
 कंठें ठवे रे, कुमरी सुतारा रे माल ॥ उजय संबंध अयो एम जाणीने रे,
 हरख्यो चित्तमां नूपाल ॥ सां० ॥ २३ ॥ सन्मानी नृप पाठा बालिया
 रे, निज निज कुमरी विवाह ॥ वेहु राजवीर्ये कीधो रंगशुं रे, खरची इव्य
 उत्साह ॥ सां० ॥ २४ ॥ कुमरी मूकी वधूनें लेइने रे, अर्ककीर्ति निज
 धाम ॥ आव्यो ढाल थइए पांचमी रे, सुख विलसे शुज ठाम ॥ सां० ॥ २५ ॥

॥ दोहा ॥

॥ सुख नोगवतां अनुक्रमे, त्रिष्टुष्ट हरि ते पीठ ॥ काल करीने ऊपन्यो, नर
कावास अपइष्ट ॥ १ ॥ सुख नोगवतां बहु परें, अर्ककीर्ति नूपाल ॥ व्रत
लीधुं देइ राज्य सुत, मूकी मोहजंजाल ॥ २ ॥ अचल बंधु नेहें घणो,
रुदन करे तजि लाज ॥ जाई अणवोव्यांथकी, एम केम सरशे काज ॥ ३ ॥
हसी बोलो मुज बालहा, मूको रीप अलग्ग ॥ निपट निहेजा थायतां,
न रहे जेह एकंग ॥ ४ ॥ संस्कार करवा न दे, न मरे मारो वीर ॥ जे
कोइ मूठ कहे, तस हणवा धाय धीर ॥ ५ ॥ यडुक्तं ॥ तीर्थकरणां सा
भ्राज्यं, सपत्नीवैरमेव च ॥ वासुदेववलस्नेहः, सर्वेन्योप्यतिरिच्यते ॥ १ ॥
बंधव हुंकोण आगलें, कहीश मननी वात ॥ समजाव्यो समजे नहीं, नेहें
रंगी धात ॥ ६ ॥ नेहो कहवि न किज्जइ, अह किज्जइ रयण कंबल सरिष्ठो ॥
अहि एव धोयमाणो, सहावरंगं न ठंमेइ ॥ २ ॥ जाण अजाण थई रह्यो,
मोहें घेखुं मन ॥ सहि जाखुं बंधव मूठ, ज्यांरे विरतुं तन्न ॥ ३ ॥
प्रेतकार्य करि बंधुनुं, मोहवशें बलदेव ॥ उन्नतुं मन निजराज्यथी, शी पु
जलनी सेव ॥ ७ ॥ श्रीश्रेयांस जिनवर तणा, स्वर्णकलश अजिधान ॥
आचारिल मुनि परवखा, समवखा उद्यान ॥ ८ ॥ अचल चव्यो वंदण
जणी, साथें लइ परिवार ॥ मुनि वंदी देशन सुणे, जेहथी नव निस्तार ॥ १० ॥

॥ ढाल ठठी ॥

॥ राग नट ॥ मोह संगतें विगरी हे मति जनकी, स्वर्ग मृत्यु पाताल त्रिहुं
जगतमें, सबल छुहाइ फरत उनकी ॥ मो० ॥ ए आंकणी ॥ दंसणमोह
चरण दोय चेहें, स्थिति जारी हे सबल जिनकी ॥ रोकी सजाव विजावमें
येरी, चेतन चाल अनादिनकी ॥ मो० ॥ १ ॥ दोरत दोरत फिरत पवन
ज्युं, हाथ न आवी दशा मनकी ॥ दिनमें राग विराग तजत हे, आतप
गंही ज्युं मास सावनकी ॥ मो० ॥ २ ॥ धन रमणीके विषयसें रातो, जेसें
मधुमाखी बनकी ॥ मदमातो चीतर ज्यों सूतो, खबर परे नहिं रथतनकी
॥ मो० ॥ ३ ॥ तीन तार गले राग ए नाची, तांकेकी जोटी गहि लोचनकी ॥
उंच नीच घर अंगण एणें, टहील मगाइयें ज्युं वंचनकी ॥ मो० ॥ ४ ॥
धन्य जिणें मोह महामल जौंत्यो, पूरित दशा नाठी उंगणकी ॥ सो शुद्ध
तम आतम पदवी, चटियो श्रेणि लही गुणकी ॥ मो० ॥ ५ ॥ मोह अ

न्माद जीपे सो शूरो, एह वाणी गणधर जिनकी ॥ कहे मुनि अचल अच
 ल गुण ध्यावो, तजि चंचलता ए निज मनकी ॥ मो० ॥ ६ ॥ ॥ दोहा ॥
 ॥ मोह समो वैरी नहीं, काम समुं नहिं दुःख ॥ अनल नहिं कोइ
 क्रोध सम, ज्ञान समुं नहिं सुख ॥ १ ॥ कहो प्रभु ते मुज बंधवें, कुण
 गति लाधी एण ॥ सत्तम पुढवीयें उपन्यो, गुरु कहेकर्म वशेण ॥ २ ॥
 विष्णु वीर तुजसी दुइ, गति एहवी गंचीर ॥ अचल विलाप करे घणा,
 हियहुं न धरे धीर ॥ ३ ॥ कहे गुरु देवाणुपिथा, न करो खेद लगा ॥
 चरम जिणेसर वीर तुज, होशे जरत मजार ॥ ४ ॥ निसुणी आनंद उ
 पन्यो, आवी नयर मजार ॥ राज्य देइ श्रीवियजने, लीधो संयमजार ॥
 ॥ ५ ॥ सूधो संयम आदरे, पाले निरतिचार ॥ मोह तजे संवर नजे,
 चाले शुद्ध आचार ॥ ६ ॥ हवे श्रीविजय नरेश्वरु, पोतनपुरहुं राज ॥
 पाले अतिरूडी परें, करे धर्मनां काज ॥ ७ ॥ गोयमनें जिनवीर पर्यपे
 ॥ ए देशी ॥ एक दिवसें श्रीविजय नरेसर, वेतो पर्यदा पूरी रे ॥ राजकुली
 ठत्रीशे आगल, ऊजा सबल सनूरी रे ॥ १ ॥ सुण राजेश्वर अरज अमा
 री ॥ ए आंकणी ॥ आव्यो एक परदेशी रे ॥ नैमित्तिक तुम मलवा हेतें, कहे
 प्रतिहार उदेशी रे ॥ सु० ॥ २ ॥ हुकम कखो आव्यो दरवारें, करमां पुस्तक
 लेई रे ॥ जय नृपति नरसिंह सबल दल, वेतो आशिप देई रे ॥ सु० ॥ ३ ॥
 कहे नृपति मुज आगल जांखे, वात शुजाशुज जाणे रे ॥ कहे नैमित्तिक सवि
 जाणुं पण, न कहाये इण टाणे रे ॥ सु० ॥ ४ ॥ नृप आग्रहथी ते एम
 जांखे, आजथी सातमे दिवसें रे ॥ पोतनपुरस्वामीनें मस्तकें, सहसा
 विद्युत् पडशे रे ॥ सु० ॥ ५ ॥ वज्राहत एम सकल सजा कहे, रे नैमि
 त्तिक हीणा रे ॥ नृपशिर विद्युत् तव तुज शिर गुं, पडशे कर्मविहीणा रे ॥
 सु० ॥ ६ ॥ शो मुज दोष ए ज्ञानें जांखी, वात निर्वल राजननी रे ॥ जो
 कहो ठो तो मुज शिर याशे, वृष्टि तदा सोवननी रे ॥ सु० ॥ ७ ॥ रा
 जन बोले रे नैमित्तिक, एह सबल किहां शीख्यो रे ॥ ते कहे वलदेव
 संघातें, श्रीगुरु मुजने दाख्यो रे ॥ सु० ॥ ८ ॥ नण्यो आगम आघ्राय
 नली परें, वात सकल तेणें जाणुं रे ॥ थयो पडिवाई आव्यो इहां किय,
 खसीयुं मुज गुणठाणुं रे ॥ सु० ॥ ९ ॥ पद्मिनी खंमं जनकस्वतानी
 पुत्रीगुं विवाहो रे ॥ लेइ दीक्षा मेव्यो तदनंतर, आव्यो इहां उस्ताहो रे

॥ सु० ॥ १० ॥ यौवन रूप रसीली देखी, सुऊ मन मन्मथ चलीयो रे
 ॥ चारित्र चूकी धन कारण हुं, आव्यो कर्म ए बलियो रे ॥ सु० ॥
 ११ ॥ सहु मन मानी वात ए साची, हा हा हवे शुं थारो रे ॥ बुद्धियें व
 लीया मंत्री बहु मलिया, आय उपाय विमासे रे ॥ सु० ॥ १२ ॥
 एक कहे नृपनें राखीजें, यानारूढ ए जलमां रे ॥ यानपात्र जांगे तो
 शी गति, तेणें राखीजें स्थलमां रे ॥ सु० ॥ १३ ॥ बीजो कहे वै
 ताढ्य शुफामां, पति राखीजें यत्नें रे ॥ त्रीजो कहे साहुं पण हुं तुम, नवि
 अनुमोदूं मतने रे ॥ सु० ॥ १४ ॥ जे कीजें शुच हेतें कारज, ते होये
 कष्टनुं हेतु रे ॥ द्विजसुतनो संबंध कहुं इहां, सुणजो तुमें एक चित्तें रे ॥ सु०
 ॥ १५ ॥ द्विजसंबंध कहेजो मंत्री, न टले जावी जाव रे ॥ बीजे खंरु
 ढाल ए ठी, राम कहे अजिराम रे ॥ सु० ॥ १६ ॥ सर्व गाथा ॥ १७ ॥
 ॥ दोहा ॥

॥ जोरावर नवितव्यता, जोर न चाले कोय ॥ बलियो इहां कणे को
 नहीं, हृदय विमासी जोय ॥ १ ॥

॥ ढाल सातमी ॥

॥ कोइ जलो राह वतावे रे ॥ ए देशी ॥ विजयपुरें नयरें एक नि
 वसे, बाडव इंसोम नामें हो ॥ ज्वलनशिखा तस घरणी तरुणी, दं
 पति दोय रति कामें हो ॥ १ ॥ कोइ नियति तणी गति न्यारी हो, नि
 यति करे ते कोई न करे, सुणो जाइ हृदय विचारी हो ॥ ए आंकणी ॥
 नृशिख नामें नंदन तेहनो, कखो महोठो उठेरी हो ॥ जनक गयो
 परलोकें तेहवे, कर्मनी रीति अनेरी हो ॥ को० ॥ २ ॥ तेणें नयरें
 एक राक्षस आव्यो, करे मानवसंहार हो ॥ नित्यप्रत्ये एक माणस सं
 कडपी, कखो तेहनो उपचार हो ॥ को० ॥ ३ ॥ राजदुकम तिण राह
 में मान्यो, सघले वात सुणावी हो ॥ नाम लखी बहु गोला जरिया, नि
 त्यप्रत्ये एक चढावी हो ॥ को० ॥ ४ ॥ एक दिन ने द्विजसुतनें चारे,
 जननी रोवा लागी हो ॥ एक आधार ए देव न सांस्यो, कोण करम गति
 लागी हो ॥ को० ॥ ५ ॥ आसनगृहस्थित नृपनें करुणा, आवी कहे
 निर्धारी हो ॥ रे अशरण अवज्ञा मत रोवे, लेखुं अमें कगारी हो ॥
 को० ॥ ६ ॥ द्विजसुत राजनेवरु जइ टोवां, राक्षस आगल लेई हो ॥

अपहरियो सांकेतिक अमरें, गयो निजमातनें देई हो ॥ को० ॥ ७ ॥
 राक्षसजयथी गिरिनी गुफामां, द्वार शिजा देई आडी हो ॥ मूके सुतनें
 तेह विजुद्धी, यत्न करीने माडी हो ॥ को० ॥ ८ ॥ ते द्विजसुतनें रातें ग
 लियो, जमते अजगरें नारी हो ॥ निसुणो जाई कर्म कमाई, शुं करे नर
 ने नारी हो ॥ को० ॥ ९ ॥ यदुक्तं ॥ उदयति ॥ १ ॥ प्राप्तव्योनियतिवला
 श्रयेण योऽर्थः ॥ २ ॥ ए उपनय दाख्यो मंत्रीश्वर, त्रीजे नियति अनुसारी
 हो ॥ रामविजय कहे सुणो नवि प्राणी, जुठ तमें युक्ति विचारी हो
 ॥ को० ॥ १० ॥ दोहा ॥ चौथो चतुर कहे वली, जे वोखुं ते साच ॥
 पण पोतनपुरईश्वरें, ए नैमित्तिक वाच ॥ १ ॥ कीजें पोतनपति
 अवर, तस शिर विद्युत्पात ॥ पडजो स्वामी उगरे, मानी सधले वात
 ॥ २ ॥ नैमित्तिक कहे ए निपुण, मंत्रीश्वर शिरताज ॥ निजपति राखेवा
 सबल, वात वतावी आज ॥ ३ ॥ हुं पण ए कहेवा नणी, आव्यो हुं
 इण ठाम ॥ सात दिवस जगें नियमयुत, स्वामी रहो निज धाम ॥ ४ ॥
 रहो रहो रे जादव रीति नथी ॥ ए देशी ॥ कहे राजेश्वर सुणो मंत्री
 श्वर, एह वात केम कीजें रे ॥ परप्राणें निज प्राण उगारे, तेहने अधम
 कहीजें रे ॥ क० ॥ १ ॥ मर नामें दुःख पामे मानव, किम जाणी
 तस हणीयें रे ॥ तेहथी आप हणायो वारू, परजवें जय नवि गणीयें रे
 ॥ क० ॥ २ ॥ यदुक्तं वसुदेवहिंमे ॥ हतूण परप्पाणो, अप्पाणं जो करे
 इ सप्पाणं ॥ अप्पाणं दिवसाणं, कएण एासेइ अप्पाणं ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥
 सकलधर्ममां प्रथम अहिंसा, जांखी जिनवरग्रंथें रे ॥ दुहवे आप न प
 रने दुहवे, ते मुनि सूधे पंथें रे ॥ क० ॥ ३ ॥ तथाचोक्तं ॥ हिंसा त्या
 ज्या नरकपदवी सत्यमाजापणीयं, हेयं स्तेयं सुरतविरतिः सर्वसंगान्नि
 वृत्तिः ॥ जैनोधर्मोयदि न रुचितः, पापपंकायनेच्यस्तेच्यः सर्वैर्जटिति निवृ
 त्तिः सर्वदा सर्वथैव ॥ २ ॥ पूर्वढाल ॥ शुं ए प्राण सदा स्थिर रहेजो, आ
 खर एक दिन मरवुं रे ॥ पर हणीयें निज प्राणनेमाटें, श्या उपर ए क
 रवुं रे ॥ क० ॥ ४ ॥ जीव एक उगारी तिण विणु, पडह अमारी वजाव्यो
 रे ॥ हिंसक जे जगमां अवतरिया, तेणें निजवंश लजाव्यो रे ॥ क० ॥
 ५ ॥ नेह न दृष्टि विना सुख धनविणु. नारी विणु गृह जेम रे ॥ विप्र वेद
 विद्या विणु उपशम, विणु विद्या वजी तेम ॥ रे ॥ क० ॥ ६ ॥ शूर शस्त्र

विष्णु नारी पति विष्णु, जेम जग शोच न पावे रे ॥ तेम मंत्रीश्वर धर्म तृषा
 विष्णु, कोई काम न आवे रे ॥ क० ॥ ७ ॥ पुनरपि मंत्री मज्जि मन चिंते, ए
 हमां नहिं कांइ काचुं रे ॥ तेहमांहे एक वोव्यो चातुर, कहुं तुमने हुं साचुं
 रे ॥ क० ॥ ८ ॥ यरूपडिमा अग्निपेक करीजे, काष्ठमयी एक आणी
 रे ॥ देवत अनुजावे नवि पडशे, तिहां विद्युत् एम जाणी रे ॥ क० ॥
 ९ ॥ जो पडशे तो नविन वनावी, थापीशुं तिण ठामें रे ॥ सुरप समान
 नृपनें राखेवा, ते तिम कीधुं काम रे ॥ क० ॥ १० ॥ नृप पौषध धरी
 श्रीजिनमंदिर, वेठो ध्यानें लीणो रे ॥ पंच परमेश्वर चिंतन करतां, नहिं
 मन खेद अदीणो रे ॥ क० ॥ ११ ॥ सिंहासन यरूप पडिमा स्थापी, सेव
 करे सहु खांतें रे ॥ सातमे दिवसें गगनघन उमट्यो, दुर्ज तिम चपलापातो
 रे ॥ क० ॥ १२ ॥ विणठी यरूपडिमा नृप कुशलो, रह्यो सहुजन मन
 हरख्यो रे ॥ जयजयकार थयो ते पुरमां, गणक खरो एम परख्यो रे ॥ क०
 ॥ १३ ॥ पौषध पारी नृप घर आव्यो, नैमित्तिक सत्काख्यो रे ॥ वृष्टि थइ
 तस शिर सोवननी, वस्त्राचरणें जाख्यो रे ॥ क० ॥ १४ ॥ विघन टव्युं नृपनुं
 अति सबहुं, सातमी ढाल ए गाई रे ॥ बीजे खंरुं रामविजय कहे, अवि
 चल पुण्य सखाई रे ॥ क० ॥ १५ ॥ सर्व गाथा ॥ २०८ ॥

॥ दोहा ॥

॥ निजपुरमां उत्तव हुवा, घर घर मंगलमाल ॥ पूजा रचावे जिनघरे, सत्तर
 जेदि सुविचार ॥ १ ॥ दिन दोहेला उधरे, धन खरचे लख कोडि ॥ पडह अ
 मारी तणा वली, वजडावे मन कोडें ॥ २ ॥ नगरमांहे सहुकी सुखी, नहिं इः
 खीनुं नाम ॥ अमिततेज इण अवसरें, आव्यो तेंणें ठाम ॥ ३ ॥ जगिनीने
 मलवा जणी, देखी उत्तव एह ॥ पूत्रे ए कारण कवण, हर्ष तणुं सस्नेह
 ॥ ४ ॥ जगिनी मुख सवि सांजली, सनामांहे नृपाल ॥ वेहू राजेश्वर
 मत्या, फली मनोरथमाल ॥ ५ ॥ अमिततेज देवज्ञानें, आपे बहु धन
 मार ॥ पंच दिवस रही आवीवा, फरी निज नयर मजार ॥ ६ ॥

॥ ढाल आठमी ॥

॥ गमवरणी कांइ आणी रे ॥ ए देवी ॥ एक दिवस श्रीविजय नरेसर,
 वन जोया नीसरीयो रे ॥ मृगनयणी रमणी संपानें, साय सबल परवरियां रे
 ॥ १ ॥ बाहाली मोहनणी ए लीजा रे. जाण अलाण यज्ञे विलमे. वंष

ती दोय रसीजां रे ॥ वा० ॥ ए आंकणी ॥ क्रीडा करतां वन संचरतां,
 नाह रमणी ग्रहि हाथे रे ॥ रतिकारक रसमेल बनावे, मन्मथ वेदुने सा
 थें रे ॥ वा० ॥ ३ ॥ इण अवसरें कंचनमृग देखी, मनहरणी एम बोले
 रे ॥ प्राणजीवन मुज लागे प्यारो, ए मृग अमृत तोलें रे ॥ वा० ॥ ३ ॥
 आणी आपो मुजने प्रीतम, ए मन रमण कुरंगें रे ॥ नेह जखो नृपकेडे
 उजाणो, रंज्यो राणी रंगें रे ॥ वा० ॥ ४ ॥ जिम जिम नृप केडें उजाये,
 तिम तिम दोडी जाये रे ॥ नृप नारी मूकीने अलगो, पहतो श्वास जराय
 रे ॥ वा० ॥ ५ ॥ प्राणप्रिया कर्कोट अहि मशी, गाढस्वरें पोकारी रे ॥ प्राण
 जीवनजी वहेला आवो, ल्यो मुजने जगारी रे ॥ ६ ॥ स्वामी वाहार
 करो विनतानी रे ॥ ए आंकणी ॥ शी वालेसर विलंबनी वेला, कां वहेला
 नथी वलता रे ॥ आवो उजाईने अलवेसर, जो ठो मनना मलता रे ॥
 स्वा० ॥ ७ ॥ ठो अंतरजामी आतमना, तो शुं घणुं कहेवाडो रे ॥ करी उपा
 य कमलदल नयणा, मरती मुज जीवाडो रे ॥ स्वा० ॥ ८ ॥ शब्द सुणी
 विनतानो आव्यो, दोडी अबला पासें रे ॥ खमा खमा तुजने एम जांखे,
 राय जराणो श्वासें रे ॥ स्वा० ॥ ९ ॥ कृण एकमां अबला मूर्खाणी,
 नृप उत्संगें लीधी रे ॥ नयण निमित्त्य रही जब युवती, तव नृपें हा हा
 कीधी रे ॥ स्वा० ॥ १० ॥ मूर्खागत थइ धरणें ठलियो, मोह महा रिपु
 ठलियो रे ॥ नृप चेतन पाम्यो बहु कष्टें, प्रेम पयोधि उहलियो रे ॥
 स्वा० ॥ ११ ॥ महारे तो दूजी नहिं वद्वन, वाहाली सुतारा राणी
 रे ॥ तुज परण्या पूर्वे में वीजी, नारी न कोइ दिल आणी रे ॥ स्वा० ॥ १२ ॥
 हे मानिनि एम मान न कीजें, बोल हसीने दीजें रे ॥ विण वाकें केम
 आडो लीजें, तुज विरहें तन ठीजे रे ॥ स्वा० ॥ १३ ॥ हे गुणवंती हसी
 बोलंती, गुण अणीयाले नयणें रे ॥ मुज सामुं निरखो वणे हेजें, शुं जांखुं
 बहु वयणें रे ॥ स्वा० ॥ १४ ॥ विरहव्यथा जगमां अति विरुइ, प्रीतिनी
 रीति अटारी रे ॥ बाहिर शीतल अंतर कनी, प्रीतिअग्निगति न्यारी रे
 ॥ स्वा० ॥ १५ ॥ राय विमासे ए जीव्याथी, मरण जनुं ए साथें रे ॥ ए
 मूके पण हुं नवि मूकुं, कोल दीयो में हाथे रे ॥ स्वा० ॥ १६ ॥ राय
 रचावी चिता अति महोटी, तिण अवसरें तिहां आय रे ॥ नजमारग
 खेचर दोय दोब्बा, जिहां पोतन पुराय रे ॥ स्वा० ॥ १७ ॥ शुं मोह्यो

मायाने रूपें, जल मंत्री तेणें नांटी रे ॥ थर थर ध्रुजंती तिण वेला, माया
सुतारा नाठी रे ॥ स्वा० ॥ १७ ॥ राय कहे ए गुं मुळ नांखो, चिरं जीवो
अम स्वामी रे ॥ कर जोडी कहे खेचर बलतुं, निसुणो अंतरजामी रे
॥ स्वा० ॥ १८ ॥ अमिततेजनो ठों नेमित्तिक, संजिन्नश्रोत्र उत्कर्षे रे ॥
सुतगुं ज्योतिर्वनमां रमवा, चाव्या वेहु अमें हपें रे ॥ स्वा० ॥ १९ ॥
मारगमांहे सुतारा दीठी, आठमी ढाल एम नांखी रे ॥ वीजे खंरु रामवि
जय कहे, नृप सुणो धीर मनराखी रे ॥ स्वा० ॥ २० ॥ सर्वगाथा ॥ २३ ॥ ५ ॥

॥ दोहा ॥

॥ चमरचंचा नयरी तणो, अशनिघोष उद्धंत ॥ तेणें सुतारा अपहरी,
जही जातां अमें दिठ ॥ १ ॥ आमा आवो बालहा, बालेसर बलवंत ॥
महेलावी मुळने करो, नाथ सनाथ महंत ॥ २ ॥ अमिततेज बंधव
हुं तो, जननीजाया वीर ॥ बाहार करो बहेनी तणी, गिरुआ साहस धीर
॥ ३ ॥ इत्यां वयण सुणी तेहनां, जही सुतारा तेह ॥ दोडी जइ
रोक्यो अमें, बलियो दूतो जेह ॥ ४ ॥ रे पापी अम स्वामिनी, बहेन
सुतारा लेइ ॥ केम जाइश हवे जीवतो, मेल के युद्ध करेइ ॥ ५ ॥ कखुं
सुतारायें तदा, अलं प्रयासें पंथि ॥ वेताली मोहित्त पियु, समजावो
जइ तेथ ॥ ६ ॥ अमें आव्या उतावला, तुम्ह राखवा काज ॥ नाठी
सुतारारूपिणी, वेताली माहाराज ॥ ७ ॥ चिंता मत करशो मनें, करगुं
चिंतित काज ॥ आवो अम स्वामी नगर, बधर्गे तुम्हारी लाज ॥ ८ ॥
खबर कहावी मातने, नृप चाव्यो ते साथ ॥ रथनूपुर पुर आवियो, श्री
विजयो नरनाथ ॥ ९ ॥

॥ ढाल नवमी ॥

॥ बाबा किसन पुरी ॥ ए देगी ॥ अमिततेज ऊचयो गुणवंत, देखी श्रीवि
जयानिव संत ॥ १ ॥ जो जो सजन मल्या, आज मनोरथ मफल फल्या
॥ ए आंकणी ॥ पूठगुं केम चिंतानुर आज परकाशां मुळने महाराज ॥ जो ०
॥ २ ॥ नांख्यो तिणें सयलो अचदात, अमिततेज कोप्यो सुणि वात ॥ जो ०
॥ ३ ॥ जेणें कीधुं ए काम कुचेत्र ॥ पायरोनेत्र कसं रणक्षेत्र ॥ जो ०
॥ ४ ॥ मनमां बाप्यो अमरपूर ॥ अशनिघोष नाखुं चक्रचूर ॥ जो ०
॥ ५ ॥ मोकलियां शिखरी एक दूत ॥ चमरचंचा पद्दंतो यइ नून ॥

जो० ॥ ६ ॥ रे कीधुं तें निर्लेज अकाज ॥ परनारी लेइ आव्यो आज
 ॥ जो० ॥ ७ ॥ परशय्या परदार परान्न, परमंदिर परवसन निदान ॥
 जो० ॥ ८ ॥ मूरख हृदय विमासी जोय, ए पांचे आपणां नवि होय ॥
 जो० ॥ ९ ॥ पररमणी नवि निरखे कंच ॥ तो तेहनें मुख शोणे मूळ
 ॥ जो० ॥ १० ॥ तुळ सरिखा जे जगमां छुट्ट, ते तिर्येच विण शिंग ने पुट्ट ॥
 जो० ॥ ११ ॥ परनारी लावंतां तूळ, मति सघली तारी गइ मूळ ॥ जो०
 ॥ १२ ॥ पण तारो ईहां नहिं वंक, मल्यो नथी कोइ सबल त्रिवंक ॥ जो०
 ॥ १३ ॥ पण जाणुं तुं सुण चूपाल ॥ आव्यो ठे तुळ फीटण काल ॥
 जो० ॥ १४ ॥ पण मुळ स्वामी ठे वडनाग्य ॥ आप सुतारा पाये लाग्य
 ॥ जो० ॥ १५ ॥ अशनिघोष कोप्यो अति जोर ॥ दूत प्रत्ये कहे व
 यण कठोर ॥ जो० ॥ १६ ॥ लाव्यो सुतारा जुज बलयोग, रयण नहिं
 ए रंकनें नोग्य ॥ जो० ॥ १७ ॥ शय्या वसन अने तांबूल, नारी शस्त्र र
 यण बहुमूल ॥ जो० ॥ १८ ॥ नोगवे जगमां वीर जे होय ॥ मूरख हृदय
 विमासी जोय ॥ जो० ॥ १९ ॥ मुळ पासिंधी नारी आश ॥ करतो ले
 हशे अंतें विनाश ॥ जो० ॥ २० ॥ रहे वेठो मन राखी ठाम, कहेजे
 दूत न घाले हाम ॥ जो० ॥ २१ ॥ तुळने शुं मारुं कंगाल, जेम आव्यो
 तेम वहेलो चाल ॥ जो० ॥ २२ ॥ वल्यो दूत थइ जैरव रूप, पति
 आगें कहे वात स्वरूप ॥ जो० ॥ २३ ॥ वीजे खंमं नवमी ढाल ॥ पूर्व
 वैरतणो जुठ ढाल ॥ जो० ॥ २४ ॥ श्री सुमति सुगुरुनो कहे कवि राम, जगमां
 वैर न कीजे आम ॥ जो० ॥ २५ ॥ सर्व गाथा ॥ २६ ॥ श्लोक तथागथा ॥ २३ ॥

॥ दोहा ॥

॥ वचन सुणी वैरी तणां, सबल सजाई कीध ॥ विकट कटक नट
 मेलिया, ठोर नगारे दीध ॥ १ ॥ बहु राजेश्वर संचखा, धर धरके दल
 नार ॥ कंत सुतारानो दुठ, तरत तिहां अस्वार ॥ २ ॥ तुरत जाइ पहाँचो
 तुमें, चमरचंचा ल्यो घेरि ॥ सबल विद्याधर सैन्यगुं, करो अरिने जेर ॥ ३ ॥
 ज्येष्ठ पुत्रगुं साधवा, जागुं हिमगिरि आज ॥ परविद्या उठेदिनी, माहाज्वाला
 माहाराज ॥ ४ ॥ शीघ्र आवि मलगुं अमो, अने सबल सुत साथ ॥ जागु
 कनें कहे जावथी, सिद्ध करो चूनाथ ॥ ५ ॥ पिता पुत्र हिमगिरि जइ, साधे
 विद्या सार ॥ हवे श्री विजयनरेंडजी, चढिया बहु परिवार ॥ ६ ॥

॥ ढाल दशमी ॥

॥ चित्रोडा राजा रे ॥ ए देशी ॥ राणीना जाया रे, चढी चपल उजा
या रे, दल पूरे सिधाया, आया चौपगुं रे ॥ १ ॥ गयण गाजे रे, निशाण
अवाजे रे, घन फोज विराजे, ऊंची उमती रे ॥ २ ॥ नयरी ते वेरी रे,
रणजेरी नफेरी रे, सिंधूडे स्वर रूडे, जागे शूरिमा रे ॥ ३ ॥ रिपु आयो जाणी
रे, मूके सुत वाणी रे, देई ठोर निसाणे, ते चढिया घणा रे ॥ ४ ॥ बल
शूरमां चढिया रे, आवी तिहां अडिया रे, दलपूर संघातें, आघडीया तदा
रे ॥ ५ ॥ अशनिघोप केरा रे, सुत सवल जलेरा रे, एक एकपें शूरा,
आव्या सामुहा रे ॥ ६ ॥ सुत अमिततेजाना रे, नहिं जगमां ठाना
रे, अति सवल युवाना, आगल ते हूवा रे ॥ ७ ॥ जररोप नराणा रे,
लहि स्वामी आणा रे, आवी साहामा मंमाणा, युद्धने कारणें रे ॥ ८ ॥
रण लाग्यो मातो रे, नट रीपें रातो रे, एक मास उजातो, तिहां जाण्यो
नहिं रे ॥ ९ ॥ नवि कोई हारे रे, वच्चें कोई न वारे रे, एम हुठ संहार, बहु
सुनटां तणो रे ॥ १० ॥ वेरीसुत नाठा रे, कर देखी काठा रे, आव्या तेह
त्राठा, अशनिघोप आगलें रे ॥ ११ ॥ दल देखी जाग्यो रे, जगडो बहु लाग्यो
रे, आव्यो आपगुं आयो, रण मेदानमां रे ॥ १२ ॥ मातुं दल जोई रे, नाठा
सहु कोई रे, सुत अमिततेजाना, पाठा उंसखा रे ॥ १३ ॥ श्री विजय सवाई
रे, आव्यो तव धाई रे, मांढो मांढे लागि लढाई, घणी वेहुने रे ॥ १४ ॥
लड खजने धायो रे, श्रीविजय उमाह्यो रे, रिपुशिग दीयो घायो, ते वेरी दोय
हुया रे ॥ १५ ॥ दोय ठेदे विज्ञेपें रे, तव चारज देखे रे, एम वाघे अलेखे,
वेरी वांकडो रे ॥ १६ ॥ नृप चित्त विमासे रे, केम ए जीताज्ञे रे, ए तो
सवल तमासे, वात आवी पठी रे ॥ १७ ॥ शोचे एम जाम रे, अमित
तेज ताम रे, तिऊ विद्यायें आव्यो काम. लवे सगुं रे ॥ १८ ॥ तस माया
नियारी रे, बल देखी चारी रे, न रद्दी अस्वारी, कनी रिपु तणी रे ॥ १९ ॥
रिपुकेहें उजाणी रे, विद्या सपराणी रे, तुमने देउं आणी, ए पापी जुउं रे
॥ २० ॥ अइ विद्या केहें रे, जाणुं ठाम ए फेडे रे, न रक्षो तेह नेहें, उ
जाणो घणुं रे ॥ २१ ॥ पामें जिनहुवनें रे, बल कंवली चरणो रे,
पेठो लड धरणो, ते कतावलो रे ॥ २२ ॥ देवी बली आवी रे, कायुं ने सम
जापी रे, एम आण मनावी, वेहु बलि ए मव्या रे ॥ २३ ॥ पुणें जय पायो

रे, खंम वीजे गायो रे, ढाल दशमी त्रिष्टनो जायो, तीहां जींतियो रे ॥१४॥

॥ दोहा ॥

॥ अमिततेज मारीचने, कहे एणी परें जास ॥ नगरमांहे जाउ
तुमें, वहेन सुतारा पास ॥ १ ॥ तेडी जावो अम कनें, अचलमुनिनी
पास ॥ जीतनगारां देइ वड्यो, जावुक सहित उखास ॥ २ ॥ नगरीमें
वलनइ मुनि, पासें आव्या नूप ॥ प्रथम गया जिनदेहरे, निरखे देव स्वरूप
॥ ३ ॥ निराकार जिनरूपनी, स्तवना करे अनूप ॥ जय युगादि जिन
वर विजो, जय जय अकल अरूप ॥ ४ ॥ नमी स्तवी जिनराजने, आवे
सजुरु संग ॥ मुनि देखी मन ऊपन्यो, सबल धर्मनो रंग ॥ ५ ॥ गुरु
वंदे गुरुनक्तिशुं, गिरुथा ते गुणवंत ॥ मुनिवर देखीने थया, तेहनां शीतल
मन्न ॥ ६ ॥ शील अखंमित ते सती, नारी सुतारा ठाम ॥ पूंठल आवी
पद्मिनी, निरुपम गुणनुं धाम ॥ ७ ॥ ते निरखी हर्षित दुआ, पति बांधव वेहु
प्रेम ॥ मन विकस्युं तन उल्लस्युं, जिनगुरुदर्शनें क्हेम ॥ ८ ॥ दिये दे
शन मुनिवर हवे, नविक जीव हितकाज ॥ नवदव ताप शमाववा,
जिम पुष्कर घनगाज ॥ ९ ॥

॥ ढाल अग्यारमी ॥

॥ विमल केवली एक रे ॥ ए देशी ॥ केवली अचल मुणिंद, कहे न
वियण सुणो ॥ निज आतमं निर्मल करो ए ॥ १ ॥ काढो मेल अनादि,
मांहे जे नखो ॥ नव अनंत जेलो कखो ए ॥ २ ॥ जमो आवरणी जीव,
नव चोगानमां ॥ ज्ञांति विविध भ्रमनूलमां ए ॥ ३ ॥ जाणे सार असार,
अस्थिरने घर कहे ॥ एम विपर्ययमां पड्यो ए ॥ ४ ॥ पीडे दोय विकल्प,
राग नें छेप ए ॥ अरति वधारण आकला ए ॥ ५ ॥ महोटा ए परमाद, आठ
मांहे कख्या ॥ कथला जग एहना घणा ए ॥ ६ ॥ कुण पावत जग दुःख,
न हूतो कुण सुखी ॥ जो जग ए नडता नहीं ए ॥ ७ ॥ एक पेटमां दोय,
दोय वली अन्यमां ॥ चार थाये वली चोगुणा ए ॥ ८ ॥ एहनो बहु वि
स्तार, बांधे नव घणो ॥ धन्य बलिया जिणें वश कख्या ए ॥ ९ ॥ कोटि
कटक नट जीते, सगमां एकजो ॥ पण दोय जींते ते जलो ए ॥ १० ॥ ए
जीत्ये सवि जीत्या, वाजी जीवनी ॥ एम अनंतनाणी कह्युं ए ॥ ११ ॥
अशनिघोप नृपाल, सुण। मन समजीयो ॥ धिक् में कुल मैलुं कख्युं ए ॥

११॥ न कखुं आतमकाज, गुण गलिया सवे ॥ बलीया पण मुज्जमां किखुं
 ए ॥ १३ ॥ गुरुसाखें अपराध, रे खामे तेहने ॥ रोप रखे मन राखता ए
 ॥ १४ ॥ केवललोकालोक, नासक प्रभु कह्यो ॥ राग केम ए ऊपरें ए
 ॥ १५ ॥ नहिं मुज्ज पापनी बुद्धि रे, महेली मायिकने ॥ एहनें में ग्रहि आणीने
 ए ॥ १६ ॥ कहेरो नाणी वात रे, ढाल अग्यारमी ॥ बीजे खंरुं ए दुई ए ॥ १७ ॥

॥ दोहा ॥

॥ रत्नपुरें पूरव नवें, गुरु कहे ए श्रीपेण ॥ अमिततेज नृपति हतो,
 वज्रियां नाम्यवशेण ॥ १ ॥ कपिल नाम द्विज तुं हुउं, सत्यनामा
 तुज्ज नारि ॥ नवचोगें इहां अवतरी, सती सुतारा सार ॥ २ ॥ कपिल
 जीव बहु नव नमी, कोइक नव अज्ञान ॥ तप करिने इहां अवतख्यो,
 अशनिघोष राजान ॥ ३ ॥ पूरव नव संबंधथी, राग विना हरि एह ॥
 गतरागी पूरव नवें, तेषें तुं मंदसनेह ॥ ४ ॥ अमिततेज निज नव चरित,
 निस्तुणी कहे मन कोड ॥ धन्य ज्ञानी तुम ज्ञाननें, प्रणमुं वे कर जोडि
 ॥ ५ ॥ के हुं नव्य अनव्य तुं, नांखो मुज्ज मुनिराज ॥ नवसायरमां तुं
 मव्यो, तारण तरण जहाज ॥ ६ ॥

॥ ढाल वारमी ॥

॥ ताहारो शहेर जलो थोधाणो ॥ राजा जी ॥ ए देशी ॥ नांखे अचल मु
 नीश्वर वाण ॥ राजा जी ॥ नाग्य महोठानो तुं धणी जी ॥ इहांथी नव नवमे
 गुणखाणि ॥ रा० ॥ होशो जिनेश्वर बहु गुणी जी ॥ १ ॥ नव एके पं
 चम चक्री ॥ रा० ॥ षोडशमो जिनवर बली जी ॥ तिहां श्री विलया
 जिध नृप ॥ रा० ॥ पहेलो सुत मन रली जी ॥ २ ॥ कगी घाती कर्मनो
 अंत ॥ रा० ॥ थाशो तुमें तिहां केवली जी ॥ गुण गाशे तुज्ज धरी रंग
 ॥ रा० ॥ समवस्तरण सुर नर मली जी ॥ ३ ॥ एम निस्तुणी ज्ञानीनी
 पास ॥ रा० ॥ द्विल उल्लखुं कजट घणे जी ॥ ग्रहि श्रावक व्रत मन शुद्ध
 ॥ नाणीजी ॥ जइयें तुमारें नामणे जी ॥ ४ ॥ कहे अशनिघोष मुनिराज
 ॥ ना० ॥ तारो दो मुज्ज करुणा करी जी ॥ हुं तो थाक्यो नवमां जोर
 ॥ ना० ॥ चउगतिमां फेरा फरी जी ॥ ५ ॥ तुमो जाणो सयली वात
 ॥ ना० ॥ जे तुम आगल दाखवुं जी ॥ तेनो मातनी आगल आवि ॥
 ॥ ना० ॥ जेम मोशाजनुं नांखवुं जी ॥ ६ ॥ इवे आव्यो तुमारी पास ॥

स्वामी जी ॥ आश धरी हियडे घणी जी ॥ मुज तारशो ए विश्वास ॥ ना० ॥
 क्हायिक समकितना धणी जी ॥ ७ ॥ कहे केवली जेम मन ठाम ॥
 ना० ॥ तेम कीजें निश्चल थई जी ॥ साँपी सुतनें निज साम्राज्य ॥ ना० ॥
 अशनिघोषें दीक्षा ग्रही जी ॥ ८ ॥ वलि स्वयंप्रजा बहु नारी संघात,
 चरण ग्रहे केवली कने जी ॥ पाले पावन पंचाचार ॥ मुनिजी ॥ चरण करण
 गुणें एकमनें जी ॥ ९ ॥ हवे वांदी नृप दोंय विशेषें, निज निज नयरें
 आविया जी ॥ करे देवपूजा गुरु नक्ति सुवेपें, सहु जन मनमां जाविया
 जी ॥ १० ॥ दिये दीन दुःखीनें दान अलेखे, नक्ति करे जिनमंदिरें जी ॥
 पाले श्रावकनो आचार अशोषें, सुख विलसे वरमंदिरें जी ॥ ११ ॥ एक
 दिवस अमिततेज राय ॥ राजाजी ॥ उज्ज्वल एक जिनगृह करे जी ॥ मांहे
 स्थाप्या आदि जिणंद, ते दीठे चित्तडुं ठरे जी ॥ १२ ॥ नित्य नक्ति करे
 प्रनात ॥ रा० ॥ अष्टप्रकारी उज्ज्वल मनें जी ॥ कहे चैत्यवंदन कर जोडी
 ॥ रा० ॥ जाव जले उल्लसित मनें जी ॥ १३ ॥ अथ चैत्यवंदन ॥ ठप्पय ॥
 जय सामी निज देव, जय अतिशय गुणधारी ॥ जय पारंगत परम रूप, अ
 विचल अविकारी ॥ जय अध्यात्म जावधर्म, अकलंक अमायी ॥ ज्ञानकला
 पूरण धणी, प्रभुताई पाई ॥ परमात्म प्रेमें नमुं ए, प्रह ऊगमते सूर ॥ अ
 मिततेज प्रभुध्यानथी, दिन दिन चढते नूर ॥ १ ॥ सिद्ध निरंजन नाथ
 नाम, धाता पुरुपोत्तम ॥ बुध अलख शंकर सदा, पर ब्रह्मा सत्तम ॥ चिदा
 नंद चेतन कहो, वली आदि अनादि ॥ अव्यय अक्षय ने अरुज, प्रभु
 पूर्णानंदी ॥ एम अनेक नामें करी ए, तुम ध्यातां कल्याण ॥ राम कहे सुर
 धेनुथी, अधिक तुम्हारी आण ॥ १ ॥ अथ स्तवन ॥ राग केदारो ॥ आवां मुज मन
 धाम जिनजी ॥ आ० ॥ जेदथी एम रह्या अलगा, केम सरे अम काम ॥ जि०
 ॥ आ० ॥ १ ॥ सम अमारा तुमें न मानो, हाथ न जालो दाम ॥ नेह
 नजरें न कोइ निरखो, वीतराग तुम नाम ॥ जि० ॥ आ० ॥ २ ॥ हुं सरागी
 राग तोरे, मोहीयो गुणग्राम ॥ कोइ हरि हर वंच माने, कोइ ने मन राम
 ॥ जि० ॥ आ० ॥ ३ ॥ तुंही तुंही तुंही तुंही, जाप जपतां ग्राम ॥ केइ
 शुनरागें तखा एम, कहुं केता स्वामि ॥ जि० ॥ आ० ॥ ४ ॥ लहे सरागी
 जावथी, वीतरागता परिणाम ॥ तेहनें शी खोट जस शिर, तुंही आतमराम
 ॥ जि० ॥ आ० ॥ ५ ॥ इति स्तवनं ॥ एम स्तवतां केते काल ॥ मुनि जी ॥

ननमारग दोय आविया जी ॥ जाणी कतरीया जिनचैत्य ॥ मु० ॥ प्रभु
स्तवना करि जाविया जी ॥ १४ ॥ आवी वंदे अमिततेजराय ॥ नगीनो ॥
कहे स्वामी देशना दीयो जी ॥ वीजे वारमी ढालें श्री सुमति कविनो, राम
कहे ए रस पियो जी ॥ १५ ॥ सर्वगाथा ॥ ३४३ ॥ श्लोक तथा गाथा ॥ १३ ॥

॥ दोहा ॥

॥ मुनिवर जाणी योग्यता, परकासे निज धर्म ॥ वस्तु विजावातीत
जे, क्लेश रहित आत्म ॥ १ ॥ सामग्री लई दोहिली, मत बांधो अंत
राय ॥ एह निरंतर आदरे, चिदानंद सुख धाय ॥ २ ॥ मन कुविकल्पें जे
करे, सांतराय सुख तास ॥ जिम मत्स्योदरनें थयो, अंतर सहित विजास
॥ ३ ॥ अमिततेज कहे कुण विजो, मत्स्योदर हुठ तेह ॥ कृपा करीने
वाखवो, तस प्रबंध गुणगेह ॥ ४ ॥ मुनिवर जांखे तेहनो, सरस संबंध
रसाल ॥ निमुणो नवि जावें करी, धर्म उपर ए ढाल ॥ ५ ॥

॥ ढाल तेरमी ॥

॥ प्रभुजी प्रसन्न होजो ॥ ए देशी ॥ क्षेत्र नरत अमरावती सरिखो,
नयर कनकपुर निरखो हो ॥ जांखे सजुरु वाणी, मीठी अमिय समाणी,
गरुआ गुणमणि खाणी, निमुणो चित्त हित आणी ॥ नविका धर्म करे
जो ॥ १ ॥ नामें कनकधर तिहां माहाराजा, सबलप्रतापें ताजा हो ॥
घरणी तस गुणरंजा, दीठे होय अचंजा, कनकश्री गतदंजा, देवने ते
हुजंजा ॥ रमणी पुणें लही जो ॥ २ ॥ श्रेष्ठ रत्नस्तार नामें सोजागी,
तिहां निवसे बडजागी हो ॥ व्यवहारी गुणवंतो, पोढो पुण्यपनोतो, राज
झारें समोतो, धर्म उपर दृढचेतो ॥ वारू सुखविलसे जो ॥ ३ ॥ रत्नचूजा
रमणीनो जायो, कुंवर कुलमां सवायो हो ॥ नामें धनद कहायो, कुलदी
पक कुल आयो, महु साजन मन जायो, रूपें मयण दरायो ॥ वारू तनय
अने जो ॥ ४ ॥ तिहजनामें फिनव एक महोढो, तिहां निवसे दिस खोढो
हो ॥ जूझारी शिरदार, सेवे ने अनाचार, एक दिन हाण्यो गमार, आब्यो
देवी झुवार ॥ जांखे शीप धरी जो ॥ ५ ॥ रुहुं नुऊ देवकुंजें हुं देवी, कां
धन नापे नुं सेवी हो ॥ बहेजी प्रगट अइनें, आपे धन मुऊ बहीनें, नहिं
तर गाल देइनें, जाणुं इहांथीलेइनें ॥ बजतुं देवी कहे जो ॥ ६ ॥ हुं ताइ
रे आपे मुऊ आइयुं, के हुं तें नृइमांले पाइयुं हो ॥ आब्यो हो इलपले

तो, पाठो जा वलवलतो, कोपें ते कलकलतो, पठर छेइ उच्चलतो ॥ देवी
 एम बोले जो ॥ ७ ॥ मूकि दीयो ए वयणना चटका, न करावो मूर्ति शत
 कटका हो ॥ देवी जाणो ए माठो, दीसे हियडानो काठो, जांजे मूर्ति
 वांठो, कांइक देइने ठांटो ॥ देवी जीति लहे जो ॥ ८ ॥ आप्यो रे एक
 कागलीयानो कटको, बोव्यो कितव अग्निनो नटको हो ॥ रे रे गुं करंरंम,
 इण पत्रने खंम, देवी कहे सुण लंठ, एहथी होइो घमंम ॥ सांजल वात कहुं
 जो ॥ ९ ॥ देजो गाथा तेहने सार, आपे जे सहस दिनार हो ॥ निसु
 णी हियडामां हरख्यो, कागल रयण ज्युं परख्यो, आव्यो चहुटे उत्कष्यो,
 कौतुक जोवाने सरिखो ॥ जांखे गाथा ए लेजो ॥ १० ॥ लोक कहे गुं गा
 थानुं मूल, कहे सहस दिनार अमूल हो ॥ सांजली मुह मचकोडे, वलतुं
 साटुं न जोडे, कुण करे एहनी होड, धूर्त्तने शिर मोड ॥ कोइ मुह न मांमे
 जो ॥ ११ ॥ जमियो पुरमांहे आखो दाहाडो, लोक कहे ए पवाडो हो ॥
 मलिया सांजनी वेला, कुमर धनद अलवेला, ते वेहु थया जेला, पूठे
 वात सलीला ॥ कारण ए गुं ठे जो ॥ १२ ॥ गाथा एहे वांची धन
 कुमार, करे चित्तमांहे विचार हो ॥ नाइ साचुं ए नांख्युं, न टले विहियें
 जे लेख्युं, प्रत्यह नजरें में देख्युं, वयण न जाय उवेख्युं ॥ गाथा साची ठे जो
 ॥ १३ ॥ गाथा ॥ जंचिय विहिण लिहियं, तंचिय परिणमे सयल लोयस्स ॥
 इय जाणेवि दुधीरा, विदुरेवि न कायरा हुंति ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ देइ सह
 स दीनार ने लीधी, गाथा हो वांचे प्रसिद्धि हो ॥ ढाल तेरमी नांखी,
 बीजे खमें हो आखी, राम कहे चित्त राखी, सुणजो सज्जन साखी ॥
 जविका धर्म करेजो ॥ १४ ॥ सर्वगाथा ॥ ३६६ ॥ श्लोक तथा गाथा ॥ १४ ॥
 ॥ दोहा सोरठी ॥

॥ चिंते धनद कुमार, गाथा बहु मूली मली ॥ लखमूर्ते पण एह,
 मुजने मलवी दोहिली ॥ १ ॥ वांचे वारं वार, करमां लेई पत्रिका ॥ उर
 उपर जिम हार, तिम ते राखी हृदयमां ॥ २ ॥ एहवे डुर्जन कोय,
 रत्नसार आगल कहे ॥ तुम सुत मूरख जोय, आगल ए गुं राखो ॥ ३ ॥
 परवर चंजन केइ, खल दीसे जगमां घणा ॥ देखे पण न कहेइ, लीजें
 तेहनां नामणां ॥ ४ ॥ यहुकं ॥ दोहा ॥ एक माखी अरु डुष्ट नर, देखां
 इणके ज्ञान ॥ अकाज पराये कारणें, हठ करी तजे पराण ॥ १ ॥ शत्रुके मन

की डुष्टता, देखत उपजत लाज ॥ चांवे उठेडे आपणो, परबंधनके काज
॥ ५ ॥ पूर्वदोहा ॥ क्रोध चराणो श्रेठ, कहे पुत्रने पापीया ॥ कीधी में ताहारी वेठ,
हवे जा महोलेंधी परो ॥ ६ ॥ शातादायी पूत, पण कुपुत्त रूडो नहिं ॥ शाला
गुनी नव्य, पण तस्करपूरी कशी ॥ ७ ॥

॥ ढाल चौदमी ॥

॥ धन. मुज वेला आज, अचिरानो नंदन जिनजी नेटगुं जी ॥ ए देशी ॥
सांजनी वचन धनंद, मन विलखाणो घरथी नीसखो जी ॥ गाथा अर्थे
विचार, धारे रे दिलमां ए मुज आशगो जी ॥ १ ॥ शी चिंता तुज जीव,
सायें कमाई आवे आपणी जी ॥ रखे मान करतो रे जीव, ताप किस्यो
रे परनी तापणी जी ॥ २ ॥ चाव्यो धरि एक तार, नीरस्तरोवर निरख्युं
आगलें जी ॥ नाही पीधुं रे नीर, विशामो लीधो जइ वडतरुतलें जी ॥
३ ॥ धिक् धिक् क्रोध चंमाल, सार न कीधी पाठी पुत्रनी जी ॥ रखे
मन आय कंगाल, जोय विचारी गाथा सूत्रनी जो ॥ ४ ॥ जिम जिम
सांजरे जाव, तिम तिम गाहा दिलमांहे धरे जी ॥ अर्थे अमृत रसजाव,
ध्यान धारायें पीतां दिल ठरे जी ॥ ५ ॥ धरि अरिहंतनुं ध्यान, तरुतलें
सूतो करिने साथरो जी ॥ म करो कोइ गुमान, अथिर पदारथ गुं मनमां
धरो जी ॥ ६ ॥ रात्रि व्याध अचाण, आव्यो रे जाण्युं वनचर ठे इहां जी ॥
ताकी नाख्युं रे वाण, वेध्युं रे पगमां सूतो ठे जिहां जी ॥ ७ ॥ आवे
जेद्वे रे व्याध, तेहवे रे जाग्यो मुखें गाहा जणे जी ॥ धिक् धिक् चिंते
रे व्याध, पंघी में हणीयो सूतो भ्रम धणे जी ॥ ८ ॥ पगे जागी अपरा
ध, व्याध खमावे में मातुं कयुं जी ॥ वांघे वण पटबंध, कुमर निवारे
मुज एणें सयुं जी ॥ ९ ॥ जा तुं ताहरे रे ठाम, काम नहिं कोइ गाथा
माहुरें जी ॥ कग्गो सघलां रे काम, वाट जोतां हगे वेर ताहरे जी ॥
१० ॥ कुण आपे सुख दुःख, आप कमाइए आवे उदे जी ॥ लागी तग्य ने
सुख, वेदन नाधी कहां कोने वदे जी ॥ ११ ॥ थय प्रजातें रे तेह, मृग्यां
रे आयी पृद्वी तल पध्यां जी ॥ मृत जाणी रे नारंरु. चंचे घदीने
आकाशें उध्यां जी ॥ १२ ॥ पदोतो वरिधि छीप. नारंरु मृग्यो जइ शुन
ध्यानकें जी ॥ नरुण करवाने जाम, चाहे जीवंतो जाण्यो अघ्यानकें
जी ॥ १३ ॥ उठी गयो रे नारंरु, शीतल रायें तन चेतना वजी जी ॥

कोण आण्यो मुज आंही, कोण दशा ए इहां आवी मली जी ॥ १४ ॥
जीव म आइश नीरु, सहस दिनारें जे गाथा लही जी ॥ धर तेहनो मन
जाव, शोच न लावे दिलमांहे सही जी ॥ १५ ॥ ऊठयो धरी मन धीर,
नीर जोवानं चाव्यो जेटले जी ॥ नहिं कोइ मनुष्य प्रचार, नयर निहाले
उठस तेटले जी ॥ १६ ॥ अस्थिर ए घरना रे मोह, मूकीनें नाठां
दीसे मानवी जी ॥ गुं हगें कारण एह, कर्म तणी गति दीसे अचिनवी
जी ॥ १७ ॥ जोतां एक जलकूप, निरखीनें हरख्यो दिलमांहे घणुं जी ॥
जल आकर्षी रे पीथ, सुखीयुं थयुं रे तन मन तेह तणुं जी ॥ १८ ॥
फल कदलीनां रे आणि, कीधी कुमारें प्राणनी धारणा जी ॥ रहियो
नयरथी दूर, रात एकांतें धर्मने धारतो जी ॥ १९ ॥ तिमिर पसखुं अति
घोर, शीतनो जोरो पवनथकी थयो जी ॥ उरतो टाठें रे गाढ, निकटगिरि
ने उपकंठें गयो जी ॥ २० ॥ मेली बहुलां रे दारु, अग्नि उपाई कीधुं
उतापणुं जी ॥ एकलडो वनमांहि, उदयें आवे रे कीधुं आपणुं जी ॥
२१ ॥ प्रात समय थयो एम, नूमि थइ अग्नियें सोवनमयी जी ॥ चिंते
शेवनां पूत, सोवनद्वीप सुण्यो ते में सही जी ॥ २२ ॥ हरख्यो हियडा
सजार, कंचन कीजें हवे हरखें करी जी ॥ कीधो इंट संघात, माटी लेइने
सन ऊजम धरी जी ॥ २३ ॥ अग्नि तणे रे संयोग, कंचन तेहनुं जाचुं
नीपज्युं जी ॥ करे फल फूल आहार, जो जो नवियो फल हवे पुण्यनुं जी ॥
२४ ॥ बीजे खंभें रे ढाल, चौदमी दाखी अति रलियामणी जी ॥ राम कहे रे
रसाल, जाव धरीनें सांजलजो गुणी जी ॥ २५ ॥ सर्वगाथा ॥ ३९८ ॥ श्लोक ॥ १५
॥ दोहा ॥

॥ एकदिवस गिरिकुंजमां, नमतां नाग्यवशेण ॥ रत्नसमुच्चय दीठडो,
हृदय नखुं हरखेण ॥ १ ॥ आण्यां तिहांथी ते घणां, राख्यां सोवन पास ॥
कुंवर देखि उल्लसित थयो, मेल्यो बहुधनराशि ॥ २ ॥ प्राणवृत्ति तिहां कणे करे,
सुंदर फल लेइ आवि ॥ रहे समाधें ते द्वीपमां, कुंवर सरल स्वजाव ॥ ३ ॥
हवे नवियेण तुमें सांजलो, सुख दुःख फल अधिकार ॥ नाग्यथकी जे
नीपजे, सरसकथा विस्तार ॥ ४ ॥

॥ ढाल पन्नरमी ॥

॥ हांजा मारु घडी एक करहो जुकाव हो ॥ ए देशी ॥ एणें अवसरें

तिहां आवियो ॥ सुणो नवि ॥ सार्थवाह सुदत्त हो ॥ प्रवहण साधे
 घणां लीयां ॥ सु० ॥ सोवनदीप पदुत्त हो ॥ १ ॥ कर्म अजवगति बांध्युं
 विविध मति, उट्ये आवे अति आकरं ॥ सु० ॥ कर्म कोणं न कलाय हो
 ॥ ए आंकणी ॥ वंदर आव्युं जाणीने ॥ सु० ॥ जल इंधणनें काज हो ॥
 लोक सवे तिहां कतरौ ॥ सु० ॥ जलसंचय कगे आज हो ॥ क० ॥
 २ ॥ बहु नर सार्थे आवीयो ॥ सु० ॥ सार्थवाह सुजाण हो ॥ नर जल जोवा
 नीसखा ॥ सु० ॥ मलियो धनद गुणखाण हो ॥ क० ॥ ३ ॥ जलस्था
 नक तेणें वावड्युं ॥ सु० ॥ मलियां माणस वृंद हो ॥ जल जीवन जग
 मां वडुं ॥ सु० ॥ जल विण श्यो आनंद हो ॥ क० ॥ ४ ॥ यडुक्तं ॥ पृथि
 व्यां त्रीणि रत्नानि, जलमन्नं सुनापितम् ॥ सूटेः पापाणखंमेपु, रत्नसंज्ञा
 विधीयते ॥ १ ॥ पूर्वदाल ॥ सार्थवाह त्यां आवियो ॥ सु० ॥ धनदें
 कखो प्रणाम हो ॥ आलिंगी वेहू मल्या ॥ सु० ॥ पूतयुं कुगल तणें ताम
 हो ॥ क० ॥ ५ ॥ कंचन रयण ए कोण तणां ॥ सु० ॥ धनदें कही
 सवि वात हो ॥ सुऊ नवरें पहांचाडजो ॥ सु० ॥ दरख्यो निसुणा अत्र
 दात हो ॥ क० ॥ ६ ॥ रयण सोवननी इष्टका ॥ सु० ॥ गणी सोंपे
 तेणि वार हो ॥ प्रवहणमांहे लेइ धरी ॥ सु० ॥ धन अनरय करनार हो
 ॥ क० ॥ ७ ॥ चित्त चव्युं ते जेठनुं ॥ सु० ॥ धन मेजुं जगमांदि हो ॥
 एक हणो एह माहकं ॥ सु० ॥ नहिं कोइ वीजो आंदि हो ॥ क० ॥ ८ ॥
 शान करे सेवक जणी ॥ सु० ॥ नाखो ए कूपमजार हो ॥ प्रवहणमां
 आवो वही ॥ सु० ॥ धिक् धिक् लोचविकार हो ॥ क० ॥ ९ ॥ लोच न
 सुं दुःख को नहिं ॥ सु० ॥ लोच वडो जगमूल हो ॥ लोचवजें दुइ जी
 नरो ॥ सु० ॥ नवनवमां मद्यो भुल हो ॥ क० ॥ १० ॥ सेवक धनद
 जणी कडे ॥ सु० ॥ नुं जल ताणी आप हो ॥ अहांनिष नुऊ अन्याय
 हो ॥ सु० ॥ ए अमचो दुःख काप हो ॥ क० ॥ ११ ॥ कव्याने उद
 गारो ॥ सु० ॥ धनद आव्यो तत्काल हो ॥ पाप करंतां पाषांया ॥ सु० ॥
 निर्जेन न लाजे चंमाल हो ॥ क० ॥ १२ ॥ कृपकंठे ने आवियो ॥ सु० ॥
 अवनर लइ अविनीन हो ॥ मांदि तेलीने नाय्यायां ॥ सु० ॥ जुई जुई
 उधनी रीत हो ॥ क० ॥ १३ ॥ दिश्रामवानी पाषांया ॥ सु० ॥ जग
 तां शाम ए नीय हो ॥ रत्ने चिहुंगति संस्कारमां ॥ सु० ॥ लोच कलाप

ए कीच हो ॥ क० ॥ १४ ॥ पडतां गाथा चित्त धरे ॥ सु० ॥ इहां नहि
कोइनो दोष हो ॥ कूपमेखल ऊपर पड्यो ॥ सु० ॥ न धरे जीवमां शोष
हो ॥ क० ॥ १५ ॥ दीतां पावडीयां तिहां ॥ सु० ॥ कौतुक दीसे कोय
हो ॥ नीचो थइने ऊतखो ॥ सु० ॥ आगल पहाँच्यो सोय हो ॥ क० ॥
१६ ॥ मनमांहे विस्मय पामतो ॥ सु० ॥ पन्नरमी बीजे ढाल हो ॥
रामविजय कहे रंगगुं ॥ सु० ॥ वारू वात रसाल हो ॥ क० ॥ १७ ॥

॥ दोहा ॥

॥ आगल जातां देखीयुं, देवल एक विशाल ॥ शोना अति दीसे नली,
मोहन जाक ऊमाल ॥ १ ॥ ते मांहे दीठी तिहां, चक्रा नामें देवि ॥ जिन
शासन रखवालिका, सुर नर सारे सेव ॥ २ ॥ चरण नमी चक्री तणां, ऊनो
वेहु कर जोडी ॥ हर्षेगुं स्तवना करे, मान रहित मद मोडि ॥ ३ ॥ अथ चक्रे
श्वरी स्तुतिः ॥ राग टोडी ॥ जय जय तुं चक्री अमरी रे, श्रीआदीश्वर पद
पंकजमें, रसिक वसे तिम ज्युं चमरी रे ॥ ज० ॥ ए आंकणी ॥ गरुडासन वेठी
गुणवंती, सुर नर कोडि सदा समरी रे ॥ जे तुज ध्यान धरे एक चित्तें, तस
घर फूले तुरंग करी रे ॥ ज० ॥ १ ॥ चक्रायुध विपमुं कर लीधुं, डुष्ट निवा
रण साची सुरी रे ॥ वावन वीर रहे तुज आगें, कर जोडी करे सेव खरी
रे ॥ ज० ॥ २ ॥ हुं अनाथ तुज चरणें आयो, कर उपगार तुं महेर करी
रे ॥ विहि नडियो दुःखकूपें पडियो, हवे मुज वांठित यो उदरी रे ॥ ज०
॥ ३ ॥ कर जोडी रह्यो दास हुं तोरो, मात मया कीजें सखरी रे ॥ हवे
मुज शरण ए चरणज तोरां, एसी करो ज्युं नासे अरि रे ॥ ज० ॥ ४ ॥ इति
चक्रेश्वरीस्तुतिः ॥ पूर्वदोहा ॥ नक्त वचन एम सांजली, देवी थई प्रसन्न ॥
वत्स माग्य जे वर रुचे, बोले इम सुवचन ॥ ४ ॥ तुज दीठे मुज सवि
मळ्युं, फली मनोरथ माल ॥ मात नवानी शंकरी, तुज दर्शन देवि रसाल ॥ ५ ॥

॥ ढाल शोलमी ॥

॥ कंत तमाकू परिहरो ॥ ए देशी ॥ पंच रतन आपे खरां, देवीधरी कल्लट ॥
मोरा लाल ॥ फल दाखे तस रुयडां, धनद सुणे परगट ॥ मो० ॥ १ ॥ जो जो
नवि फल पुण्यनां ॥ ए आंकणी ॥ पुण्यें वांठित थाय ॥ मो० ॥ पुण्य करो रे
प्राणीया, इह परजवें सुखदाय ॥ मो० ॥ जो० ॥ २ ॥ प्रयम रयण सौजाग्य
दे, बीजे लक्ष्मीराशि ॥ मो० ॥ रोग हरे त्रीजुं वली, चांथे विषनो नाश

॥ मो० ॥ जो० ॥ ३ ॥ कष्ट निवारे पांचमुं, एम कही देवी वाच ॥
 ॥ मो० ॥ अदृश्य अइ चका सुरी, कुंवरें मान्युं साच ॥ मो० ॥ जो० ॥ ४ ॥
 आगल दीठी कुंवरें, व्रणसरोहणी एक ॥ मो० ॥ लीधी जंघा ठेदीने, स्थाप्यां
 रतन विवेक ॥ मो० ॥ जो० ॥ ५ ॥ व्रणसरोहणीयें थयो, साजो ते
 निज अंग ॥ मो० ॥ आगल पुर पातालमां. देखी वाध्यो रंग ॥ मो०
 जो० ॥ ६ ॥ हाट विराजे चदूवटे, मंदिर उंजा उंज ॥ मो० ॥ निर्मानुप
 शूनी पढी, चिहुं दरवाजे पोल ॥ मो० ॥ जो० ॥ ७ ॥ धैर्य धरीने चाली
 यो, जोवा पुरमां ख्याल ॥ मो० ॥ देखीने थयो दूमणो, नगर जलुं वेहा
 ल ॥ मो० ॥ जो० ॥ ८ ॥ चङ्कं ॥ वसुधानरणं पुरुषः. पुरुषानरणं हि चोत्तमा
 लक्ष्मीः ॥ लक्ष्म्यानरणं दानं, दानानरणं सुपात्रं च ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ राजसुवन
 एक देखियुं, पेठो जोवा तेह ॥ मो० ॥ सातमी नूमियें साहसी, चढीयो
 कंचो गेह ॥ मो० ॥ जो० ॥ ९ ॥ एक पासं पलंगमां, वेठी अत्रजा वाल ॥
 मो० ॥ नवयोवन थावी जली, मोहनरूप रसाल ॥ मो० ॥ जो० ॥
 १० ॥ अणियाली जस थांखडी, मातुं कमलदल दोय ॥ मो० ॥ व्रमुह
 व्रमर वासो वसे, मोह्यो रमणी जोय ॥ मो० ॥ जो० ॥ ११ ॥ कठीनें कची
 यई, कामणगारी नारि ॥ मो० ॥ आसन आप्युं वेसवा, कीधी घणी मनोहार
 ॥ मो० ॥ जो० ॥ १२ ॥ नयण सज्जणे नेदधी, निरखे कुमर स्वरूप
 ॥ मो० ॥ बोले वाला तुम तणुं, कदो आगमन स्वरूप ॥ मो० ॥ जो० ॥
 १३ ॥ जज्ञातम निधि जाग्यना, इहां आब्या अणजाण ॥ मो० ॥ जय
 सवजो इहां ठे घणो, केम करी राखशां प्राण ॥ मो० ॥ जो० ॥ १४ ॥
 कुमर कदो जय केदनो, ते दाखो मुक वात ॥ मो० ॥ शून्य नगर
 दीमे किर्युं, शो तुमचो अवदात ॥ मो० ॥ जो० ॥ १५ ॥ धैर्य रूप गुणें
 थणुं, रंजी वनुग बाल ॥ मो० ॥ कदो पुरुषोत्तम मादरी, वान सुणां वाचा
 ल ॥ मो० ॥ जो० ॥ १६ ॥ सुणां जगें नृनामिनी, निलक तिलकपुर
 ख्यात ॥ मो० ॥ नाम महेंइ मद्रामति, नृपति तिहां मुक तात ॥ मो० ॥
 जो० ॥ १७ ॥ स्त्रीमाडिये सवळें माली, परिजियो मुक तात ॥ मो० ॥
 एदवे कोइएक व्यंतरे, आनी कही त्यां वान ॥ मो० ॥ जो० ॥ १८ ॥
 गजान पुरगजव नणो, हुं तुक मित्र सुजाण ॥ मो० ॥ तुं मुक वदाजो
 जीवियी, कदो कामज गुणखण ॥ मो० ॥ जो० ॥ १९ ॥ जय नांजो येगी

तणो, कीजें मुज साहज ॥ मो० ॥ वैरी थाये पाधरा, पालुं अखंमित
 राज ॥ मो० ॥ जो० ॥ १० ॥ व्यंतर कहे सुण वालहा, इहां नहिं मा
 हरुं जोर ॥ मो० ॥ मुजहूंती वली ए घणा, शौर्ये सेविता चोर ॥ मो० ॥ जो०
 ॥ ११ ॥ लोक सहित मुज तातने, आण्यो एणे ठाम ॥ मो० ॥ वैरी
 राख्या वेगला, इहां कीधो विश्राम ॥ मो० ॥ जो० ॥ १२ ॥ वास्युं नय
 र पातालमें, कूपमांहे जस मार्ग ॥ मो० ॥ वीजुं वाहिर पुर कखुं, डुरस्त
 जोई नूचाग ॥ मो० ॥ जो० ॥ १३ ॥ लोक बहु इहांकण वस्यां, चिहुं
 दिशि जलनिधि पूर ॥ मो० ॥ आवे बहु वाहाण नखां, अन्न इंधण इहां
 चूरि ॥ मो० ॥ जो० ॥ १४ ॥ एहवे इहांकणे आवीयो, राहस अति
 विकराल ॥ मो० ॥ कर्म संयोगें कूपमां, पेठो ते चांमाल ॥ मो० ॥ जो०
 ॥ १५ ॥ सहुजनने नक्षण करी, वाहिर आव्यो तेह ॥ मो० ॥ वाहाण
 वेसीने सहु, नाठां मूकी गेह ॥ मो० ॥ जो० ॥ १६ ॥ शून्य कखां वेदू
 तिणें, नगर माहा विपरीत ॥ मो० ॥ कर्मकथा कहेतां थकां, धूजे माहरुं
 चित्त ॥ मो० ॥ जो० ॥ १७ ॥ मुज दुर्जागिणी देखतां, थयो बहुनो संहार
 ॥ मो० ॥ राखी मुजने एकली, पापी प्रेम विकार ॥ मो० ॥ जो० ॥ १८ ॥ दुःख
 म धर रे मानिनी, तुजवरवानी आश ॥ मो० ॥ परणीने दिन सातमे, करणुं
 नोग विलास ॥ मो० ॥ जो० ॥ १९ ॥ वीजे खंमें शोलमी, ढालें कुमरी वात ॥
 मो० ॥ राम कहे ते नवि चले, जे दीतुं जगतात ॥ मो० ॥ जो० ॥ २० ॥
 ॥ दोहा ॥

॥ आज थयो दिन सातमो, कुमरी चांखे तास ॥ होशें पापी आ
 वतो, मारे माणस वास ॥ १ ॥ तेमाटे तुमने कहुं, र्हेजो मन दुशि
 यार ॥ नहिंतर मंदिर मूकीनें, रहो अलगा इण वार ॥ २ ॥ धनद कहे
 सुजगे सुणो, नहिं मुज एहनी नीति ॥ मुज हाये ए पापीयो, लहेजें मरण
 अनीति ॥ ३ ॥ पाके चूप कुमंत्रिथी, कालें फल परिपाक ॥ रोग पचे लं
 घनथकी, पापी कर्मविपाक ॥ ४ ॥

॥ ढाल सत्तर्मी ॥

॥ ताहेरो गुण मान्यो राज ॥ ए ठेगी ॥ तिलकसुंदरी कहे साद्रिवा रे,
 ॥ रहो ठाना हो राज ॥ तस दाखुं मृत्यु उपाय ॥ मोरे मन मान्या हो राज ॥
 विद्यापूजन कारणे रे ॥ रहो ॥ ते वेसे ठे इण ठाय ॥ मो० ॥ १ ॥ ध्यान

धरे रे निश्चल थइ रे ॥ रहो० ॥ ते चूके नहिं तिल मात ॥ मो० ॥ खह यहो
 मुऊ जनकहुं रे ॥ रहो० ॥ तुमें करजो एहनो घात ॥ मो० ॥ २ ॥ वात करे
 रे एम वेहु जणां रे ॥ रहो० ॥ नेउनी नेहें रंगाणी धात ॥ मो० ॥ एहवे
 एक शत्रु लेइने रे ॥ रहो० ॥ ते आव्यो नीच विख्यात ॥ मो० ॥ ३ ॥
 दीने बण वीरामणो रे ॥ रहो० ॥ उंचो ताडनो बीजो नाग ॥ मो० ॥
 हड हड हसतां एम कहे रे ॥ रहो० ॥ आज आगल आव्यो जाग ॥
 मो० ॥ ४ ॥ शत्रु मृक्युं पडतुं रे तिहां ॥ रहो० ॥ जइ वेगो जपवा जाप ॥
 मो० ॥ बुद्धि ने बल वेहु शुं करे रे ॥ रहो० ॥ जव आवी लागे पाप ॥
 मो० ॥ ५ ॥ ग्यण प्रजावं तेहने रे ॥ रहो० ॥ नवि जोवे छुष्ट निहाल ॥
 मो० ॥ खह उपाडी ने आवीयो रे ॥ रहो० ॥ रे रे जोजे छुष्ट संजाल ॥
 मो० ॥ ६ ॥ जाणुं हसे ए मुऊने रे ॥ रहो० ॥ मुऊ शुं हणरो ए कंगाल
 ॥ मो० ॥ घहेलसफाडमां रह्यो रे ॥ रहो० ॥ करवालें लणुं गलनाल ॥
 मो० ॥ ७ ॥ पहोंचाओ यममंदिरें रे ॥ रहो० ॥ एम आवी पदोतुं पाप
 ॥ मो० ॥ सामथी विवाह तणी रे ॥ रहो० ॥ ते सघली लीधी आप ॥
 मो० ॥ ८ ॥ विघ्न गयुं वेला कली रे ॥ रहो० ॥ शुज वेला धनद कुमार
 ॥ मो० ॥ तिलकसुंदरी परणी तिहां रे ॥ रहो० ॥ पुएयें होवे जव
 जयकार ॥ मो० ॥ ९ ॥ दंपती दोय दिल जर रमे रे ॥ गंग माणो दो
 राज ॥ करे दिल खोजीने वात ॥ माहरो गुण मानो हो राज ॥ नवल सनेहा
 साहिया रे ॥ रं० ॥ मुऊ दाखो तुम श्रवदात ॥ मा० ॥ १० ॥ कामिनी
 आगल कंठजी रे ॥ रं० ॥ कहां मूलयकी संबंध ॥ मा० ॥ वात सुणी
 विस्मय लही रे ॥ रं० ॥ बंधाणी प्रमने बंध ॥ मा० ॥ ११ ॥ दिन केना
 एक तिरां गरी रे ॥ रं० ॥ लेइरामा रतननी गशि ॥ मा० ॥ सार वस्तु लीधी
 घणी रे ॥ रं० ॥ ने आवे कूपनी पास ॥ मा० ॥ १२ ॥ चरण नमी
 यजातणे रे ॥ सुणो भाता दो ॥ करे सखना प्रमने पूर ॥ मा० ॥
 मुऊ दर्शनथी माहरे रे ॥ सु० ॥ वाणुं वमणुं नूर ॥ थइ सुख शाना
 हो ॥ १३ ॥ चरण शरण एक ताहरां रे ॥ सु० ॥ मुऊ लीडनी वंजण
 हार ॥ थइ० ॥ साधिभ्य करजो श्रवमरे ॥ सु० ॥ तुं निगधार आधार ॥
 थइ० ॥ १४ ॥ आव्या कूपनी मंगल रे ॥ सुणो प्राणी हो ॥ बीजे ग्ये
 मनरमी राज ॥ मनशिन प्राणी हो ॥ राम करे गोकरी रे ॥ सु० ॥ आगल

संबंध रसाज ॥ म० ॥१५॥ सर्व गाथा ॥४७७॥श्लोक तथा गाथा ॥१६॥
॥ दोहा ॥

॥ आव्या कूपनी मेखला, दिलनर दंपती द्योय ॥ जे तिण अक्सरें नी
पन्हुं, ते निसुणो सहु कोय ॥ १ ॥ प्रवहण कोइ परदेशनुं, आव्युं तेणें
द्वीप ॥ जल इंधणने ऊतखां, वंदर जाणी समीप ॥ २ ॥ आव्या जलने
जोवतां, कूपकंठ नर केइ ॥ जल आकर्षण दोरिका, मूके हर्ष धरेइ ॥ ३ ॥
धनदें दोरि ग्रही तदा, बोव्यो एम वचन ॥ कूपथकी काढो मुने, महोटा
तुमें माहाजन ॥ ४ ॥ तिणे जइ निजपतिने कहुं, देवत्तने आम ॥ आवो
स्वामि उतावला, ठे उपकारनुं काम ॥ ५ ॥ ते आव्यो दोडी तिहां, मांची
वांधी दोर ॥ धनद कुमरनें काढीयो, देवदत्त करि जोर ॥ ६ ॥ सार्थवाह
दीगो सखर, सुंदर वेप अवल ॥ रे सज्जन तुं कोण ठे, निर्मल रूप नवल ॥ ७ ॥
केम पडियो ए कूपमां, धनद कहे एक वार ॥ प्राण प्रिया पण माहरी,
कूपमांहे निर्धार ॥ ८ ॥ अवर वस्तु पण ठे घणी, कूपमध्ये महाराज
काढीने कहेणुं पठी, वात सकल मुज आज ॥ ९ ॥

॥ ढाल अढारमी ॥

॥ हुं दासी राम तुमारी ॥ ए देशी ॥ देवदत्त कहे सुविचारी, तुमें काढो
परणी प्यारी ॥ सवि वस्तु निकासी सारी, ते दीगी सुंदर चारी रे ॥ १ ॥ जवि
का लोचन करजो ॥ लोचन कर जोजी ॥ ए आंकणी ॥ ठे अंतें ए दुःख दाइ,
माया विपवेल सहाइ ॥ तृष्णा तरुणीनो चाइ, रह्युं एहथी जग लपटाइ रे ॥ न०
॥ २ ॥ पूठे सार्थवाह तिवार, कहो तुमचो हवे अधिकार ॥ द्योय ना
ह रमणी निरधार, केम पडियां कूप मजार रे ॥ न० ॥ ३ ॥ ए नरत तणो
हुं वासी, हुं जातें वणिक विलासी ॥ धन उपराजण उल्लासी, चव्यो द्वीप
कटाह विमासी रे ॥ न० ॥ ४ ॥ देवयोगें प्रवहण जांग्युं, एक फलक
करें मुज लाग्युं ॥ दंपती द्योय पास्यां ताग, जाध्युं ए वंदर जाग्य रे ॥ न०
॥ ५ ॥ जल जोतां ए कूप दीगो, मनमांहे लाग्यो मीगो ॥ नारी पग तिहां
लपट्यो, जोतां मनडो करी धीगो रे ॥ न० ॥ ६ ॥ नारी केडें उजाइ आइ,
पडतुं महेड्युं में धाइ ॥ कूपमेखल ऊपरें जाइ, पडियो हुं पुण्य सखाइ रे
॥ न० ॥ ७ ॥ जलदेवी थइ सुप्रसन्न, आप्यां अम वसन रतन्न ॥ कहे प्रव
हण वेसी जतन, तुमें जाजो पुरप रतन रे ॥ न० ॥ ८ ॥ अम जाग्य

तुमें इहां आया, मनोवांछित सुख अमें पाया ॥ तुम दर्शन अधिक
 सुहाया, जिम चंड चकोरा न्यायारे ॥ ज० ॥ १० ॥ कहे सारथे वाहू हरामी, अमें द्वीप
 कटाहने पामी ॥ आया नरतयकी मुन कामी, जागुं निजनयरे धामे रे
 ॥ ज० ॥ १० ॥ आबो तुमें अम संघाते, ल्यो वस्तु बली नहु सारथे ॥
 जनुं कीधुं ए जगनाथे, तुम साथ मल्यो अम पंथे रे ॥ ज० ॥ ११ ॥
 पहांचाढो धनद कहे अमने, जाग ठां देखुं तुमने ॥ करगुं तुम सेवा सु
 मने, मत मानजो कहुं कुमने रे ॥ ज० ॥ १२ ॥ देवदत्त कहे उत्क
 र्ण, अमें माणासना तुं परखी ॥ तुम्ह सेवा सेवा सरखी, करगुं अमें
 हियडे हरखी रे ॥ ज० ॥ १३ ॥ बंदु वेठा वहाण मांही, चाव्यां प्रवहण
 वत्साहि ॥ नारी देखी मत मांही, चिते ते धूरत गाह रे ॥ ज० ॥ १४ ॥
 रमणी ते रूपरसाली नरयोवनमांहे जाली ॥ गजगति चाले मतवाली, मृगन
 यनी तनसुकुमाली रे ॥ ज० ॥ १५ ॥ मानुं मन्मथनी ए परणी, दगुं तेदने
 जेणे ए परणी ॥ करुं ए सारथे सुख करणी. रे विषया दुर्गतिनी स
 रणी रे ॥ ज० ॥ १६ ॥ हवे गांजनजो नवि जाई, जुठ विषयवकी
 शुं थाइ ॥ विषयी पण अधिक कहावे, विषयामति प्रीति नसावे रे
 ॥ ज० ॥ १७ ॥ खंन वीजे अदारमी दाल, जग महोठो विषयनो जाल ॥
 कहे राममुनि उजमाल, जग विषय वडो चंमाल रे ॥ ज० ॥ १८ ॥

॥ दोहा ॥

॥ लोचें पळ्यो कामें नळ्यो, देखी धन उर नारि ॥ देवदत्त निज
 चिनमां. आरत करे अपार ॥ १ ॥ धन रमणी ए एकलो. केम जेइ
 वाडो सुंव ॥ नारुं दरियामां गयो, केडें वहार न वुंव ॥ २ ॥ ए तरणी
 ए माल सवि, चाडो मुक्त आधीन ॥ परमेश्वर मुक्त पाथरो, करगुं काज
 अदीन ॥ ३ ॥ छुटे धनद कुमागुं, जट पट मांमी जोर ॥ नरलयणें तिणें
 नवि वासुं, तेदुं तदय कठोर ॥ ४ ॥ सकल जन जाणे नदि. दुर्जननी
 गनि जान ॥ चाव्य न जाणे उरगनी, विण हुजंगनी जाति ॥ ५ ॥

॥ दाल उंगणीगमी ॥

॥ जोइजो परेन भुंभळो रे लो ॥ ए देशी ॥ धनदत्त सल सारथे मल्यो रे लो,
 वात करे मन मेळि रे ॥ सुगुण नर ॥ नुम अजियां दुख विनये रे लो, आज नथी
 रंग रे ल रे ॥ सु० ॥ १ ॥ गजगति नदि कीजिये रे लो ॥ ए आंकणी ॥ लो

करे वानां लाख रे ॥ सु० ॥ मीमो थइ आवी मले रे लो, फल किंपाकनी
 साख रे ॥ सु० ॥ ख० ॥ २ ॥ एक दिवस रयणी समे रे लो, देहचिंता स
 जाव रे ॥ चतुर नर ॥ वेतो मांची ऊपरें रे लो, आव्यो वैरी दाव रे ॥ च०
 ॥ ख० ॥ ३ ॥ जोइ अवसर तेणें पापीये रे लो, कापी दोर तुरंत रे
 ॥ च० ॥ करतां एम धीये नहीं रे लो, पापी काम डुरंत रे ॥ च० ॥ ख०
 ॥ ४ ॥ लडथडतो पड्यो उठली रे लो, सायरमांहे कुमार रे ॥ च० ॥
 गाथा दिलमांहे सांजरी रे लो, जीव दुउं दुशियार रे ॥ च० ॥ ख० ॥ ५ ॥
 जावी जाव टले नहीं रे लो, इहां नहिं केहनो वांक रे ॥ च० ॥ कर्म
 वशें सहु जीवडो रे लो, कोण राजा कोण रंक रे ॥ च० ॥ ख० ॥ ६ ॥
 सोर करी ऊठयो सही रे लो, जुवो निहाली कोय रे ॥ च० ॥ माणस प
 डियो सिंधुमां रे लो, शब्द सुण्यो इम सोय रे ॥ च० ॥ ख० ॥ ७ ॥ ऊचकि
 उठी सा सुंदरी रे लो, नवि देखे निज कंत रे ॥ च० ॥ ध्रसक पड्यो तव ध्रा
 सको रे लो, विंढडियो प्राणनाथ रे ॥ च० ॥ ख० ॥ ८ ॥ हाथे हियडुं कूट
 ती रे लो, रोती अबला बाल रे ॥ च० ॥ दुःख जर ठाती फाडती रे लो, उ
 लटी विरहनी जाल रे ॥ च० ॥ ख० ॥ ९ ॥ हा बालम मूकी गयो रे लो,
 केम दुःख सायरमांहे रे ॥ च० ॥ सोर सुणी तिहां आवियो रे लो, देवदत्त
 सारथवाह रे ॥ च० ॥ ख० ॥ १० ॥ कृत्रिम रुदन करी कहे रे लो, गुं ए थयो
 उतपात रे ॥ च० ॥ हा मित्र तुज्जे केम थयो रे लो, सायर ऊंपापात रे
 ॥ च० ॥ ख० ॥ ११ ॥ मुखें रोवे हियडे हसे रे लो, पापीमां शिरदार रे ॥ च० ॥
 मुख मीमो धीमो हिये रे लो, ए खलना आचार रे ॥ च० ॥ ख० ॥ १२ ॥
 प्राणप्रिया नवि रोइयें रे लो, रोये तन कुमलाय रे ॥ च० ॥ देव प्रते चाले
 नहिं रे लो, देव करे ते थाय रे ॥ च० ॥ ख० ॥ १३ ॥ वचन सुणी चतुरा
 चकी रे लो, ए पापीनां काम रे ॥ च० ॥ हा हा मुज्जे हवे सही रे लो,
 लेइ जाओ निज ठाम रे ॥ च० ॥ ख० ॥ १४ ॥ शील रतन केम राखणुं
 रे लो, किम रहेशे कुजलाज रे ॥ च० ॥ हा हा देव अटारडो रे लो, ए
 गुं कीधुं अकाज रे ॥ च० ॥ ख० ॥ १५ ॥ सारथपति कहे बालही रे
 लो, तुज पिगु गयो पर लोक रे ॥ च० ॥ हवे मुज्जे अंगीकरो रे
 लो, शीयो मूअानो शोक रे ॥ च० ॥ ख० ॥ १६ ॥ चिंते ए माटीपणे रे
 लो, करओ शील विनाश ॥ च० ॥ काल विलंबने कारणें रे लो, उत्तर बालुं

खास रे ॥ च० ॥ ख० ॥ १७ ॥ यहुकं ॥ कृणेन लन्यते यामो, यामेन
 लन्यते दिनम् ॥ दिनेन लन्यते कालः, कालः कालोचविष्यति ॥ १ ॥ पूर्व
 ढाल ॥ मुक्त पियु भरवानो नहिं रे लो, रयणतणे प्रसाद रे ॥ च० ॥ तो
 उत्तर कहि कारिमो रे लो, करुं एहने आहाद रे ॥ च० ॥ ख० ॥ १७ ॥
 तट जइ पुरना स्वामिनी रे लो, लहि अनुमति सहु साख रे ॥ च० ॥
 वयण तुमारुं मानछुं रे लो, हरख्यो एम सुणी जाप रे ॥ च० ॥ ख० ॥
 १९ ॥ निसुणो धनद तणी कथा रे लो, ओता बीजे खंरु रे ॥ च० ॥
 ढाल कही उंगणीशमी रे लो, लेहरो मुक अखंरु रे ॥ च० ॥ ख० ॥ २० ॥
 ॥ दोहा ॥

॥ पुर जइ नृपने संतोकछुं, धन देई असमान ॥ चिंतित करछुं आ
 पाछुं, चिंते ते अज्ञान ॥ १ ॥ पण जाणे नहिं वापडो, परडोहें केम
 काल ॥ सिद्ध थाये संसारमां, जेह्यी प्रभु इतराज ॥ २ ॥ हवे धनद
 जलनिधि पख्यो, पूर्वजग्र कोइ यान ॥ फलक वही थाव्युं करे,
 अहो अहो पुण्यनिदान ॥ ३ ॥ ते अतलंधी चालियो, कछोलें जोलंत ॥
 पंचम दिवसें ते धनद, निजपुर निकट पहुंत ॥ ४ ॥ तट देखी हरख्यो
 हिये, जांभे नयणें जाम ॥ मत्स्य महोटे फलके सहित, गळ्यो अचिंतित ताम
 ॥ ५ ॥ अहो विषमी गति कर्मनी, कोणें कली नवि जाच ॥ जे जे मनमां
 चिंतीये, ते ते निष्फल थाय ॥ ६ ॥ नरकोपम पडियो तदा, मत्स्य उदर
 मां तेह ॥ चिंते ए छुं नीपन्हुं, कर्मवशें मुक्त एह ॥ ७ ॥ कष्ट ह्मण मणि त
 मण्णें, ते मत्स्य भीवरें बह ॥ उपकंठें थाण्यां तुगत, द्विधा विदारण कीच
 ॥ ८ ॥ उदरमध्ययी नीतयो. देखी दिव्य कुमार ॥ जलें नवरावी
 तेहनें, मूक्यो राजडवार ॥ ९ ॥

॥ ढाल वीशमी ॥

॥ हारिं नरवा रे गइती नदी यमुनानां नीर जो ॥ ए देवी ॥ हारिं तव
 पूत्रे राजा अचरित वाली यात जां, जाइ मुक्त नांग्याने ए तुमची कथा रे लो ॥
 हारिं केम गइयो मत्स्य उदरमां तुं सुकुमार जां, केम सदेवाणी तव
 जीतें व्यथा रे लो ॥ १ ॥ हारिं तव कुमार फदे राजन जनहुं छुं जोर जो,
 बांध्यां रे फकडनिं कसें जीवटो रे लो ॥ हारिं एकेक प्रवेशें कर्म अनंती
 आठ जो, यनीजायी नीडायां रयां अनुदिन जडी रे लो ॥ २ ॥ हारिं मे

अनुनविया सुख दुःखना बहुल विपाक जो, ते कहेतां नावे रे किमही
 ठेहडो रे लो ॥ हारे हवे शुं नांखुं तुज आगल हुं राजान जो, पण संक्षेपें
 सांजल आणी नेहडो रे लो ॥ ३ ॥ हारे हुं चढियो गर्थनें अर्थें प्रवहण
 मांहि जो, नांग्युं रे जरदरिये वाहन वेगलुं रे लो ॥ हारे एक लाध्युं फलक फप
 लकमांहे आव्यो पार जो, मस्यें रे उपकंठें महोटे मुज गव्यो रे लो ॥ ४ ॥
 हारे ते धीवर हणियो हुं उगरियो आम जो, आणीने तुम आगल मुजने
 रजू कखो रे लो ॥ हारे ते निसुणी नूपति चिंते चित्तमां आम जो, नावी रे जोरावर
 जगमांहे ठखो रे लो ॥ ५ ॥ हारे हवे सोचननीरें नवरावी नरनाथ
 जो, नेहें रे निज पासें राख्यो तेहने रे लो ॥ हारे तस सन्मानी मत्स्योदर
 दीधुं नाम जो, चाहे रे सहु जिम आपाढें मेहने रे लो ॥ ६ ॥ हारे
 तव राजा बोले व्यो कोइ लायक काम जो, लीधुं रे पद तेणें थगिधरनुं
 नजुं रे लो ॥ हारे जस तूठयो राय अपावे पान जो, तेहने एवुं आपे
 कारिज ऊजलुं रे लो ॥ ७ ॥ हारे एम दिवस गया केता इक नयर मजार जो,
 सांजल जो हवे मूकी विकथा वातने रे लो ॥ हारे हवे पहेलुं प्रवहण
 जिहां बहु धन राशि जो, आव्या रे तिण वंदर जोरे वायने रे लो ॥ ८ ॥
 हारे तव बुटी नाल धडो धड थयो अवाज जो, जाण्युं रे पुरमां परदेशी
 आविया रे लो ॥ हारे तव हरख्यो मनमां मत्स्योदर गुणवंत जो, आवे
 जो मुज वैरी तो अमें फांविया रे लो ॥ ९ ॥ हारे हवे लेइ उपायन साथें
 सबल परिवार जो, आव्यो रे दरवारें नृपति नेटवा रे लो ॥ हारे सेवक
 विनवियो जइ नमियो नरनाथ जो, आव्यो रे तुम नयरें दुःखहुं मेटवा
 रे लो ॥ १० ॥ हारे अवनपति आप्यां बहुजां आदर मान जो, मत्स्यो
 दर मन साथें निज कुल उजख्युं रे लो ॥ हारे तिहां देखी धनद सुदत्त
 थयो सशंक जो, सुखहुं रे ऊंखाणुं ते कुमरें उजख्युं रे लो ॥ ११ ॥
 हारे तिहां ऊठ्या आमण दूमण थइनें गेठ जो, राथें रे अपाव्युं वीहुं
 पाननुं रे लो ॥ हारे तिहां कुमर गयो आपेवा हाथो दाथ जो, जोइने
 उंगलियुं पासुं माननुं रे लो ॥ १२ ॥ हारे में नारव्यो कूपें दुःखरूपें
 जलपूर जो, आव्यो रे मुज आगल ए केम एकजां रे लो ॥ हारे नाइ जो
 जो नारी कर्म तणो ए जाग जो, हाथे रे नवि हणियो हुं थयो वं अकजां
 रे लो ॥ १३ ॥ हारे ते आव्यो नास्ती पुरवासीनी पास जो, पृष्ठे रे

नृपपाने थगिधर कोण ठे रे लो ॥ हारे गुं एवहुं एदने राय तणुं सन्मान
 जो, के म्रकती के नेमां कांदिं नूननगुण ठे रे लो ॥ १४ ॥ हारे तिणे मांकी
 शाय्यो सवलो तस थवदात जो, धनद सही मनमाहे तस निशें थयो
 रे लो ॥ हारे हवे चिंते छुष्ट दिवामां हलुइ यात जो, धननो रे अति
 लोनी नीचमति हुठ रे लो ॥ १५ ॥ हारे नवि बीजे खंम राग थखंम
 एह जो, नांवी रे ए बीगमी ढाल सोहामणी रे लो ॥ हारे श्री छुमनि
 मुगुरुनो रामविजय कहे थाम जो, जगमाहे दुःखदायी लोच दशा
 घणी रे लो ॥ १६ ॥ सर्वे गाथा ५५४ ॥ श्लोक तथा गाथा मली १७ ॥

॥ दोहा ॥

॥ इण थवसर राजाननो, गावक गीतरति नाम ॥ आख्यां जाणी
 सार्थपति, तेणें कव्यो प्रणाम ॥ १ ॥ गीत गाये उंचे स्वरे, गीठ्यां
 थापे दान ॥ तेडि एकांतें तेहने, नांवे शैठ थजाण ॥ २ ॥ जो मुक
 एक कारज करो, तो थापुं बहु धन ॥ ते कहे कर जोडी थमे, करगुं
 तुम्ह वचन ॥ ३ ॥ राय थगीधरने जइ, बोलावो करि वंधु ॥ रुके राजा
 तेहने, जेम थाये प्रतिबंध ॥ ४ ॥ वचन कबूल करी तिहां, पहातो नृ
 पती पान ॥ धनहूंती सवि संपजे, सहुये धनना दान ॥ ५ ॥

॥ ढाल एकबीशमी ॥

॥ कानुटो हवे वेण वजाये रे ॥ ए देशी ॥ गावक जइ दरवारें कना,
 गावे गीत रत्ताज ॥ माइल ताल नफेरी नेरी, रमजम बीण विगाल ॥ गाव ०
 ॥ १ ॥ गुण गावे सहुनें मन जाये, वंची जेई टैक ॥ गजन नुक विण
 कोइ थवग्ने, नवि जाचुं सुधिवेक ॥ गा ० ॥ २ ॥ तूतो राजा धन मणि
 माणिक, थापे रुप धरीने ॥ ने नवि इठे पान थपावो, थमने मंदर क
 रीने ॥ गा ० ॥ ३ ॥ कर उंचो करी पान थपाये, गजन रंग रत्ताजो ॥ न
 रुकां लोक कहे गावहने, राजा सवज वमीजो ॥ गा ० ॥ ४ ॥ मत्स्योदर
 आथ्यो जन पाने, गोई वजग्यो कहे ॥ जा वंधव नुं कम गिताइ,
 जाये एम थइये लेते ॥ गा ० ॥ ५ ॥ पर एम कम चाले गीनाणे, सुख्य नुं न
 नरी जाया ॥ नुं एक बीजी बांद नगीना, रुपे नवि मेजुं राया ॥ गा ०
 ॥ ६ ॥ एटजा जिन थजगो नुं गहियो, थवं में सुखें पायो ॥ चिरं
 जीव नुं पंधर नोगा, थाल थचिंन्यां थपायो ॥ गा ० ॥ ७ ॥ राजा था

गलसहु मन विस्मय, पामीने एम बोले ॥ फट मूरख तें सवल विटाव्या,
 नहिं कोय तारे तोलें ॥ गा० ॥ ७ ॥ रे रे शुं साचुं ए नांखे, के वली अ
 थवा कूडुं ॥ मत्स्योदर कहे सुणो माहाराजा, ए सवि नांखे रूडुं
 ॥ गा० ॥ ८ ॥ जो जो हवे बुद्धें करी उत्तर, कहेवो कुंवर वाले ॥ वलपें
 बुद्धि कही बलवंती, जे उपजे तत्कालें ॥ गा० ॥ १० ॥ राजन एह नय
 रमां अमचो, जनक पिता मातंग ॥ प्रभु आगल नित्य गुण गावाने, आ
 वंतो मन रंग ॥ गा० ॥ ११ ॥ तेहने घेर द्योय दयिता रूडी, ते वेहुना
 अमें जाया ॥ अण मानीती मुज माता तेणें, मुज वाणी न सुहाया ॥ गा०
 ॥ १२ ॥ एहनी माता हूती वहाली, ए पण वद्वन गाढो ॥ एक दिन
 जनकने करुणा आवी, बोल दियो मुज टाढो ॥ गा० ॥ १३ ॥ पंच र
 यण लेइ मुज जंघामां, जनकें क्हेप्यां जाणी ॥ वत्स विपम वेलायें ए तुं,
 काढे मन हित आणी ॥ गा० ॥ १४ ॥ राजन सघले अवयव एहने,
 रयण अमूलक क्हेपी ॥ वेहु सुत पासें प्रीति पटंतर, कीधो सुमतिने रोपी
 ॥ गा० ॥ १५ ॥ जो नवि मानो तो मुज परगट, जोवो नयण निहाली ॥ जंघा
 ठेदी पंच रयण ते, देखाड्यां संजाली ॥ गा० ॥ १६ ॥ रायतणे मन
 वात वसी ए, सेवकनें कहे जालो ॥ अंग विदारी रयण लेइने, सघलां मुज
 देखाडो ॥ गा० ॥ १७ ॥ गीतरति जाण्युं गति विगडी, मलियो ए मा
 थानो ॥ में जाण्युं ठेतरशुं एहने, न रह्यो दंन ए ठानो ॥ गा० ॥ १८ ॥
 धसिया सेवक तस जालेवा, ते कहे मुजने मूको ॥ धन कारण में कूड कसुं
 ए, स्वामी सवल हुं चूक्यो ॥ गा० ॥ १९ ॥ शेठ सुदत्त अठे परदेशी, तेणें
 ए वात करावी ॥ सोवन इंट समपीं मुजनें, लोनें घणुं ललचावी ॥ गा०
 ॥ २० ॥ राय मत्स्योदर साहामुं जोई, पूठे वात ए साची ॥ ते बोव्यो
 सुण तुं राजेश्वर, ए पण कांदिं न काची ॥ गा० ॥ २१ ॥ उजय वातनो
 मेल मले किम, कहे मुज आगल साचुं ॥ मुज मननो ए संशय वारो,
 साचे मारग साचुं ॥ गा० ॥ २२ ॥ सुण राजेश्वर ए वहाणमां, अष्ट सहस्त
 प्रमाण ॥ सोवन संघाटक ठे माहारा, तेहमां नहिं विनाण ॥ गा०
 ॥ २३ ॥ रयण अठे वली तेहची वृणां, एक सहस्त्रें ऊणां ॥ ते संघा
 टक मुज नामांकित, ए साचां सवि वयणां ॥ गा० ॥ २४ ॥ वात सुणी

एकविंशती दालें, द्वाख्यो नृप मनमांय ॥ बीजे खंमं रामविजय कहे,
जुठें सिद्धि न थाय ॥ गा० ॥ १५ ॥ सर्व गाथा ॥ ५७४ ॥ श्लोक तथा गाथा १७
॥ दोहा ॥

॥ मातंगवृद्धी मगाविया, संघाटक नृप चार ॥ द्विया कराव्या जीतरें, धन
दनाम सुविचार ॥ १ ॥ रोपें चढ्यो राजा कहे, सेवकने तेणि वार ॥ वधनृमं
लेइ जाइने, कगे वेहुने ठार ॥ २ ॥ कृपावंत कुमर बडो. लागी नृपने पाय ॥
ठांडाव्या ते जीवता, उत्तम नीच न थाय ॥ ३ ॥ यहुकं ॥ न चवति
चवति च न चरं, चवति चिरं चेतफलं विनं वदति ॥ कोपः सत्पुरुषाणां, तुल्यः
स्नेहेन नीचानाम् ॥ १ ॥ श्रं व न होये जीवडे, जीविं न होय श्रं व ॥ सज्जन
ते हुर्जन नांदे, जो धरती होय श्राज ॥ ४ ॥ सज्जन ऐसा कीजियें,
जेसा पाणी कोश ॥ पगहूती जो ठेजीयें, तोही नाणे रांप ॥ ५ ॥ सज्जन
जाई मनावियें, जो रुते लो वार ॥ सज्जननो एक कृण नजो, मूरखनो
जमवार ॥ ६ ॥ जो रुते गुणवंतने, तोहे जे छुःख मोट ॥ एक न देजे देव तुं,
हुर्जन नाथें गोठ ॥ ७ ॥ संगति कीजें सज्जनां, जेदुषी नांजे जीड ॥ उठी
संगति नीचकी, नवी कपाई पीड ॥ ८ ॥ वाद् वाद् सद्गुको करे, महोठो ए
गुणवंत ॥ अचगुण ऊपर गुण करे, तेहज कद्रियें संत ॥ ९ ॥

॥ दालवात्रीशमी ॥

॥ देशी मृगानयणीना गीतनी ॥ ए वणिकने काठो कीथो राज, धन
माल कजातीने लीथो राज ॥ चवि पुण्य तणां फल जांजो ॥ मालसौप्यो
धनदने द्वाये राज, मनाप्यो ते नरनाथे राज ॥ न० ॥ १ ॥ पूवे हनुं धणुं
मान राज, वली बाधुं बद्दु मन्मान राज ॥ न० ॥ जग कव्याणां कहेवाये
राज, गुण वेहें पूजा थाये राज ॥ न० ॥ २ ॥ कहे राजन वात प्रयासो राज,
मांनो मृगयुं तोदासो राज ॥ न० ॥ कहे कुमर तृणो नृमीश राज, नांखें
मुक चरित जमीश राज ॥ न० ॥ ३ ॥ हुं तुम नयनो वामी राज, ग्ल
रारनो सुत सुविलासी राज ॥ न० ॥ नामें हुं धनद कमार राज, बद्दु
मान पितानां प्यार राज ॥ न० ॥ ४ ॥ एकदिन एक गाथा सीरी राज,
देउ नरान हीनार में लीरी राज ॥ न० ॥ मृगताते हीरी गज राज, चादयो
पय्यो ननकाज राज ॥ न० ॥ ५ ॥ तेथी वाप्यो पय्येरा राज, धीप्यो
प्यारो पनदेरा राज ॥ न० ॥ नामें उपाठी मूक्यो राज, सोवन हीपें जइ

हृक्यो राज ॥ ज० ॥ ६ ॥ तिहां कंचन रयण निपायुं राज, तेणें शेठनुं
 चित्त ललचायुं राज ॥ ज० ॥ नाख्यो मुने कूप मजारी राज, परण्यो तिहां
 राजकुमारी राज ॥ ज० ॥ ७ ॥ नाखीने ए वलियो राज, देवदत्त आवी
 ने मजियो राज ॥ ज० ॥ कूपमांहेथी मुज्जने काढ्यो राज, नरदरिये वरत
 एणें वाढ्यो राज ॥ ज० ॥ ८ ॥ पडतां महोटे मत्स्यें गलियो राज, इहां
 आव्यो मनोरथ फलियो राज ॥ ज० ॥ तिलकसुंदरी महारी राज, देवदत्तें राखी
 प्यारी राज ॥ ज० ॥ ९ ॥ जाग्ययोगें जो इहां आवे राज, तो माहरो
 जोरो फावे राज ॥ ज० ॥ सुण स्वामी गुणमणिखाणी राज, में जांखी
 कर्म कहाणी राज ॥ ज० ॥ १० ॥ सुणी राजा विस्मय पाय्यो राज, सब
 जो तुज पुण्य सहायो राज ॥ ज० ॥ रहे नृपगेहें वडजागी राज, हवे
 पुण्यदशा शुच जागी राज ॥ ज० ॥ ११ ॥ तिहां देवदत्त सार्थवाहो
 राज ॥ मलवा आव्यो सोत्साहो राज ॥ ज० ॥ मव्यो नृपने रंगें आवी
 राज ॥ केम टाव्युं टले जे जावी राज ॥ ज० ॥ १२ ॥ उलखियो धनद
 कुमारें राज, रह्यो ठानो गुप्ताकारें राज ॥ ज० ॥ नृप पूठे कुशल सवाया
 राज, कुण देशथी शेठजी आया राज ॥ ज० ॥ १३ ॥ वली सार्थें ए
 कुण नारी राज, किम वेंढारो गुण सारी राज ॥ ज० ॥ कहे शेठ
 कटाहथी आव्यो राज, व्यापारें बहु धन पायो राज ॥ ज० ॥ १४ ॥
 वलतां जलनिधिमां पाई राज, एकाकी ए चित्त सुहाई राज ॥ ज० ॥
 करि वस्त्राचरण विनूपा राज, हुं लाव्यो इहां निर्दोषा राज ॥ ज० ॥ १५ ॥
 हवे तुम अनुमति आज राज, होशे मुज धरणी माहाराज राज ॥ ज० ॥
 लेइ तुम आणा कृत्य कीजें राज, तो सहुमां सुयश वरीजें राज ॥ ज०
 ॥ १६ ॥ निसुणी नृप चित्त विचारे राज, शी वात कही धूतारे राज
 ॥ ज० ॥ कहे नृप जो तुजनें ए चाहे राज ॥ तो करो कारज उत्साहें
 राज ॥ ज० ॥ १७ ॥ कहे तिलकसुंदरी स्वामी राज, नृपतिनें महोटी
 स्वामी राज ॥ ज० ॥ पररमणी परने हाथे राज, किम दीजें अनाथना
 नाथें राज ॥ ज० ॥ १८ ॥ ए करणी जगमां चूंढी राज, परनारी
 नरकनी कूंढी राज ॥ ज० ॥ केम आगल रहीने अपावो राज, मुं ठे
 तुम नरकें जावो राज ॥ ज० ॥ १९ ॥ करे पाप करावे जेह राज,
 अनुमोदे त्रीजो तेह राज ॥ ज० ॥ ए त्रणे कहा गुणचोर राज,

नदिं एउंनै नरक विण ठोर राज ॥ ज० ॥ २० ॥ सुणि मन लजवाणो
 राणो राज, बोजे बहु गोप जराणो राज ॥ ज० ॥ तुज आशय लेवा
 माटे राज, हुं बोव्यो बोल ए घाटे राज ॥ ज० ॥ २१ ॥ कुण ए तुज
 एद्वं जांखे राज, मुज आगे कदो सह साखें राज ॥ ज० ॥ कहे सुंदरी
 सुणो सह कोई राज, ए जेहवो नीच न कोई राज ॥ ज० ॥ २२ ॥ नवि
 एद्वतुं मुख जोईजे राज, परझोही दूर करीजे राज ॥ ज० ॥ नरदरिये
 मुज पति नाख्यो राज, में जिम तिम आयो राख्यो राज ॥ ज० ॥ २३ ॥
 कहे जगमां केम रहेवाय राज, एम मंजाणो अन्याय राज ॥ ज० ॥ ते
 माटे मुज सूकावो राज, एहने रुडे समजावो राज ॥ ज० ॥ २४ ॥
 एम निमुणी गहिया केई राज, दग अंगुल मुहमां देई राज ॥ ज० ॥
 जुठ माहुकार कदाई राज, करे एद्वी कर्मकर्माई राज ॥ ज० ॥ २५ ॥
 एम बीजे खंमे गाई राज, टाल बाबीगमी सुखदायी राज ॥ ज० ॥ कहे
 राम करो कोई वातुं राज, पण कीधुं न रहे वातुं राज ॥ ज० ॥ २६ ॥ ॥ ६ ॥ १ ॥ ॥
 ॥ दोहा ॥

॥ निजकसुंदरी नृपनें, जांखे ये कर जोटि ॥ नृप आवेजे ताहरं, क
 यन करिज मन फोड ॥ १ ॥ एद्वं में जांख्युं हतुं, राखण बीज रतन्न ॥
 ते में महामं जाज्युं, सुधुं करी जतन्न ॥ २ ॥ ते माटे करवो हवे, ध
 नज शरण मुज देह ॥ सुं वालम विण जीवुं, शो धन ऊपर नेह ॥ ३ ॥
 कहे नृपति मग्या तणुं, मादम म कर तुजाण ॥ पराणो प्रीतम तुज
 जणी, देखाहुं इण ताण ॥ ४ ॥ वलतुं बोजे गा मती, तुमें पृथिवी प्रति
 पाज ॥ जेठ परे अमतां हुतां, नवि गोत्रो परचाज ॥ ५ ॥ राजन कहे
 शयपुं किन्युं, तुं मुज घेटी तुय ॥ पण देखाहुं तुजनें, इहां निज कंच
 ममुल ॥ ६ ॥ किदांथो ते मुज बलदो, जे नाख्यो जजधिमजार ॥
 एद्वमति यो मुज शनजती, कर प्रवेम निर्धार ॥ ७ ॥ राजद्रुक्रमयी क
 डिधां, शीटां देगा राज ॥ सुंदरी नजरें निरखजे, ए तलागे जनांग ॥ ८ ॥
 ॥ टाल जेवीगमी ॥

॥ जगजगदानी देवी ॥ निजकसुंदरी निरखीनें, निरखीने मनमादे एम
 निमादे ॥ ते राज ॥ ए प्रीतम शीठे मारको, मादगो पण इहां आख्यो
 जोगे केम मनादे ॥ जो राज ॥ १ ॥ धनद करे न्यानी एहतां, एहतां

स्वामी होशे जेह शूने मंदिर आव्यो ॥ हो० ॥ निज वीतकनी वात
 डी, वातडली निज केरी कहिनें जस समजाव्यो ॥ हो० ॥ २ ॥ खड्ड
 दियो एणें जेहनें, जेहनें एणें शान करी मंदिरमांहे राख्यो ॥ हो० ॥
 जेणें वलीये राक्षस जणी, राक्षसनें रंजाडी हणीने दूरें नाख्यो ॥ हो०
 ॥ ३ ॥ परणी जेणें ए पद्मिनी, पद्मिनीने परणीनें रंगें वातो कीधी
 ॥ हो० ॥ इत्यादिक अंतरंगनी, सहिनाणी सघली साची दीधी ॥ हो०
 ॥ ४ ॥ मन विकस्युं तन उल्लस्युं, उल्लसियां अंतरनां कूपल हैडे ह
 रखी ॥ हो० ॥ दुःख दोहग दूरें गयां, दूरें गयां सवि दुःखडां जोवे निरखी
 निरखी ॥ हो० ॥ ५ ॥ नृप आदेशें ऊनी रही, ऊनी रही जइ जोडें प्रेमदा
 गुणनी खाणी ॥ हो० ॥ धन धन दंपती जोडली, जोडी ए घणुं जीवो सुं
 दर रूप समाणी ॥ हो० ॥ ६ ॥ राज दुकम दुउं एहवो, एहवो जेणें
 कीधूं तेहनें तुरत खपाडो ॥ हो० ॥ उपकारी नर आवियो, आव्यो ते
 उजाई हणतां वचमां आडो ॥ हो० ॥ ७ ॥ धन धन तेहनी माडली,
 माडलीयें जेणें जायो नरमां रयण समाणो ॥ हो० ॥ अपराधी ठोडा
 वियो, ठोडाव्यो जनमांहे सघले सहैर गवाणो ॥ हो० ॥ ८ ॥ सज्जन
 अतिहि दूहव्यो, दूहव्यो पण नाणे हिचडे मंश केवारें ॥ हो० ॥ ठेयो
 जेयो वंशनें, वंशनी स्वर मीठो बोले वायु जेवारें ॥ हो० ॥ ९ ॥ अगर
 अग्निमां खेपियो, खेप्यो पण शुजगंधें सदुकोनें संतोपे ॥ हो० ॥ चंदन जो
 घसीयें घणुं, घणुंये तो पण सहेजें शीतलतानें पोपे ॥ हो० ॥ १० ॥ वस्तु
 जिये सहु आपणी, आपणली केम होवे जे परनी लीध उधारी ॥ हो० ॥
 सहु कहे धमें जय दुवे, जय दुवे परचुवती मुख न जोवे जाली ॥ हो०
 ॥ ११ ॥ हुं बलिहारी तेहने, तेह तणी परतरुणी परधनयी जे न्यारा
 ॥ हो० ॥ ते सज्जन मन माहरे, महारा ते मनमांहे लागे अतिहि प्यारा
 ॥ हो० ॥ १२ ॥ यतः ॥ परदारपरड्व्य, परशोहपराड्युखः ॥ गंगाऽप्याह
 कदाप्येप, मामहो पावयिष्यति ॥ १ ॥ यः परवादे मूकः, परनारीवक्रवीह
 रोऽप्यंधः ॥ पंगुः परधनहरणे, स जयति लोके महापुरुषः ॥ २ ॥ रदें
 नृपदत्त आवासमां, आवासें दोय रहेतां एक दिवस बहु नेहें ॥ हो० ॥
 आण जही नरवर तणी, नरवरना सेवकशुं आवे जनकनें गेहें ॥ हो० ॥
 ॥ १३ ॥ वीजे खंमं त्रेवीशमी. त्रेवीशमी ए दाजें धन रमणी सवि

पामी ॥ ह्रीं ॥ रामविजय कहे पुण्यथी, पुण्यथी सुखमांहे न रहे कांइ
खामी ॥ ह्रीं ॥ १४ ॥ सर्व गाथा ॥ ६४१ ॥ श्लोक तथा गाथा मली ॥ २७ ॥
॥ इहा ॥

॥ रत्नसाग्ने मंदिरें, आव्यो कुमर मुजाण ॥ राज्यमान जाणी करी,
शेठ दिचे बहु मान ॥ १ ॥ मांमयुं आसन घेसवा, आगत स्वागत कीध ॥
तुम आवे आ दिवसमां, सवलो जाहो जीध ॥ २ ॥ धन्य दुडं दुं धन्यमां,
तुम आवे माहाराज ॥ प्रगव्यां पूरव चवतणां, पुण्य अमारां आज
॥ ३ ॥ चिंते मन कारण किर्युं, अंगण आव्यो एह ॥ केम समाये वापलो,
मुळ मोकरनें गेह ॥ ४ ॥ शेठ कहे फरमावियें, जे मुळ लायक काम ॥
कुमर कहे तुम तातजी, केम उर्वल तनु आम ॥ ५ ॥ नीशासो नाखी
कहे, शेठ सवल दिलगीर ॥ अंगज अमें रियावियो, गयो विदेजें वीर
॥ ६ ॥ तुम दीठे ते सांजयो, अम जीवित आधार ॥ एम कहि रुदन
करे घणुं, नयण न खेंचे धार ॥ ७ ॥ कारण मांमनिं कयुं, घुरिहूती
समजाय ॥ जाणुं तुमें तेहज तही, पण में केम कहेवाय ॥ ८ ॥

॥ ढाल चौवीशमी ॥

॥ आचो आवो रे शामलीया कांइ चालो ॥ ए वेशी ॥ रहो रहो रे
पिताजी कांइ रहो, ते हुं तुम अंगज जळ्यां ॥ तुम शीख न मानी में नि
गुणें, एम कहीनें पाय पड्यो सुगुणें ॥ १ ॥ आचो आवो रे तुनजी नानकडा,
॥ ए आंकणी ॥ तुम पाखें सहियां बहु दुःखडां ॥ एम कहीने सुत्र पिता म
लीया, बहु दिवस तणा विरहा टलिया ॥ आ० ॥ २ ॥ जइ जननीने देजें
मनियो, कहे आज मनोग्य तरु फलियो ॥ में नयणें दीठी मुळमाठी, मोरी
आंग्व कमल जिम कयाठी ॥ आ० ॥ ३ ॥ जननी पणे जाग्यो मोजाणी,
कहे मा मुळ आज दया जागी ॥ पणे दिवमें तुम दर्शन पायो, महारो
आज दिवस जेवें आचो ॥ आ० ॥ ४ ॥ वेतारें न्याजे सुतनें, न्यगगवे
आंतु जल तेननें ॥ भागटी मन नेहें घणुं जीनुं, मुण्य निरगवे फरिफरि सुन
जीनुं ॥ आ० ॥ ५ ॥ नम्य नान कळो नुमची सखरी, अम दुःखडां हूर
घयां गिहरी ॥ गिलां नेंद्रेणें मनि वात करी, तुल मझामुं भागटी जोड
रही ॥ आ० ॥ ६ ॥ करे गिनति नूर पामें जायें, मुळ नयणुन नेठी
जायें ॥ जइ गज इवारें अरुज करी, तुल नेठी लावे एणें घरी ॥ आ०

॥७॥ गजवरनें स्वयें वेसारी, नृप साथें कीधी असवारी ॥ बहु लोक खलक
 मलियो जोवा, वलगाडि वत्स न रहे दोवा ॥ आ० ॥ ७ ॥ कोइ कामिनी
 पिरसंती धाई, उमंते अंबर ऊजाइ ॥ परवाल चढावीनें केडें, कोइ का
 मिनी जोवाने हींमे ॥ आ० ॥ ८ ॥ एक आवे फूठे हाथे धसी, ऊजातां
 उंढण जाय खसी ॥ एक आवे ऊमंती कवरी, मनुं मुखकज ऊपर ए च
 मरी ॥ ९ ॥ एक अलते रंजीते करणा, पहेरे साडी उंढे चरणा ॥
 एक कुंकुम विंदी दे गालें, काजलनो विंडु दिये जालें ॥ आ० ॥ १० ॥
 रहि रत्नसपणे पियुनी जोडें, कर ऊंचा करी आलस मोडे ॥ एक सुंदरी
 सामुं हेज धरी, मत्स्योदरने जोवे फरीय फरी ॥ आ० ॥ ११ ॥ तिहां
 मलिया बहु माणसवृंदा, वाजे वाजींतर नवनव ठंदां ॥ शेंठ महाजन
 आगें रंग नरिया, अंगें पहेस्या वाधा केसरीया ॥ आ० ॥ १२ ॥ सद्दु
 बोले मुख जय जय वाणी, धन धनदकुमर ए धणियाणी ॥ धन्य जननी
 जेणें कुंवर जायो, कुल अंबर ए दिनमणि आयो ॥ आ० ॥ १३ ॥ एम
 आमंवरें निज घर आया, सद्दु साजन जन मनमें जाया ॥ बहु साथें
 नृपति रंग रली, मंदिरमांहे वेठा सुजन मली ॥ आ० ॥ १४ ॥ करे
 सेवा शेंठ नरेश्वरनी, मुऊ करुणा थइ परमेश्वरनी ॥ मुऊ अंगण जे
 नृपति आयो, नरि मोती थाल ए वधायो ॥ आ० ॥ १५ ॥ एहवे आय्यो
 मालाकार, नृप आगल फूल धर्यां सार ॥ उत्संगें राजकुमर वेठो, लिये
 फूल करी निज कर हेठो ॥ आ० ॥ १६ ॥ जव नाकें वास लिये सारी,
 तव कुंवर ऊठयो पोकारी ॥ जुठ जुठ रे सेवक थइ वहेला, ए फूलमांहे
 ठे शी रे वला ॥ आ० ॥ १७ ॥ तव जोवे सूक्ष्म नजरें करी, मांहे देखे
 इयल अति निखरी ॥ ए राजसर्प सद्दु एम बोले, एहनुं विप नहिं कोइने
 तोलें ॥ आ० ॥ १८ ॥ इणे दीसे राजकुमर मश्या, नृप मनमांहे डख
 जोरें वस्यो ॥ धाउ धाउ रे तेडो गारुडी, एम बोळ्यो राजा आरडी ॥
 आ० ॥ १९ ॥ कहे गारुडी ए अमयी न वळे, ए मश्या कुंवर अहि
 सवले ॥ जोतां ततकण मूर्त्ती आवी, न टले जे टाळ्युं कोइ जावी ॥ आ०
 ॥ २० ॥ कहे धनद करो तुमें शी चिंता, महाराज रहो थइ निश्चिंता ॥
 तिहां गंठ्युं देविदत्त मणि नीर, तव ऊठयो कुंवर वड वीर ॥ आ० ॥ २१ ॥
 राव कीधी दर्ष वधामणी, वयी प्रीति मत्स्योदरखुं घणी ॥ निजमंदिर

आव्यो नरवरु, मुख विलसे धरि जेम सुरवरु ॥ आ० ॥ १३ ॥ हवे
मत्स्योदर विलसे जोगा, निजनारीशुं लहि गुन योगा ॥ दीये दीन दुःखी
ने अनुकंपा, गुनरीते विचरे निःकंपा ॥ आ० ॥ १४ ॥ ढाल वीजे खंभे
चोवीशमी, कहे रामविजय साकर समी ॥ गुन उदय यदा आवी मजे,
तव एणी परे सवि चिंतित फले ॥ आ० ॥ १५ ॥ सर्वगाथा ॥ ६७४ ॥ श्लोक ॥ १७ ॥

॥ दोहा ॥

॥ राजकुमर थोचन लहुं, सकल कलानो जाण ॥ मत्स्योदरसाथे धणो,
राखे नेह सुजाण ॥ १ ॥ जाणे एणे जीवित दिहुं, उपकारी शिरताज ॥
मत्स्योदर आवे यदा, तव आधुं चाले काम ॥ २ ॥ एक दिन रयवाडी
चढयो, गज बेसी नृपनंद ॥ पुरमांहे एक धवल गृह, दीतुं नयनानंद
॥ ३ ॥ शूरराजनी पुत्रिका, श्रीपेणा इति नाम ॥ कुमरे दीठी क्रीडती, सो
धगवाहे ताम ॥ ४ ॥ रूपे रति दासी करी, चंचल गति सुकुमार ॥ मृगनय
णी मनमोहनी, फूजी सुरतरु माल ॥ ५ ॥ गति चूली ग्यो कुमरजी,
सुरति रहि न लगार ॥ मन वेधुं मन्मथ सुनट, नयणवाण सविकार
॥ ६ ॥ गौरंगी ते गोरडी, काजेजानी कोर ॥ कोरीने पेठी वचें, जुलम
करे ते जोर ॥ ७ ॥ मन विण जइ पाठो बल्यो, वनदूती नृपजात ॥
घर आव्यो पण कोइतो, न गमे तस संवात ॥ ८ ॥ कुमरीना मनमां नहिं.
ते कपर लवलेश ॥ पण ते मूरख एकजो, रागे सहे कलेश ॥ ९ ॥

॥ ढाल पञ्चीशमी ॥

॥ महेतोजी खणावे वावडी ॥ ए देशी ॥ लहि मित्रमुखें ते वातडी,
नृपति मंत्री बोलावे रे ॥ शूर समीपें मोकल्यो, जइ वात सवे समजावे रे
॥ १ ॥ जगत मोह्यो विषयनी वासना ॥ ए आंकणी ॥ सवि जीव विषय
ना दासो रे ॥ सुर नर पण करे अहोनिश, मनमांहे विषयनी आशो रे
॥ ज० ॥ २ ॥ शूर कहे सवे स्वामीतुं, तुमें ए आवी गुं दाख्युं रे ॥ राज
हुकम शिर कपरें, अमें वयण तुमारुं राख्युं रे ॥ ज० ॥ ३ ॥ कहे कुमरी जां
तुमें आपशो, तां पलकमां प्राणने काही रे ॥ नाखीश पण दुं नहिं वरुं, ए राज
कुमर एम त्राडी रे ॥ ज० ॥ ४ ॥ मंत्रीने मनमांहे कपन्यां, ए वात सुणी
ने विपाटो रे ॥ कुमरी तां इचे नहिं, जुठे राजकुमर उन्मादो रे ॥ ज०
॥ ५ ॥ मंत्री कहे मादाराजनें, नहिं ते कन्यानां रागो रे ॥ नयण सुण्युं

में एहवुं, जेहथी उपजे वैरागो रे ॥ ज० ॥ ६ ॥ राय कहे नृपनी कनी,
 परणावुं अपर सुकुमारी रे ॥ शुं नीमोही ऊपरें, मोही रह्यो अंग निहाली
 रे ॥ ज० ॥ ७ ॥ कुमर न माने वातडी, कामिनीयें कामण कीधुं रे ॥
 मांहे पेशी माहरुं, एणें तन मन चोरी लीधुं रे ॥ ज० ॥ ८ ॥ विण प
 राणे अन्न न वावरुं, पालव साह्या विण पाणी रे ॥ पीवूं नहिं पण में
 कखुं, नहिं ऊपर बोलो वाणी रे ॥ ज० ॥ ९ ॥ जुठ वात सबल बांधे पडी,
 वेहु पासैं हठीजां एह रे ॥ पासैं रही पीलाइयें, सुण मंत्रीश्वर गुणगेह
 रे ॥ ज० ॥ १० ॥ कन्या नवि माने वापनुं, मुज कहण न माने पुत्र रे ॥
 एम हठ लीधे आकरे, केम मंमाज्ञे घरसूत्र रे ॥ ज० ॥ ११ ॥ एहवे म
 त्स्योदर आवियो, कहे स्वामी सचिंता दीसो रे ॥ शे कारण मुज आगलें,
 प्रकासो ते अवनीशो रे ॥ ज० ॥ १२ ॥ समजावो जइ तुम मित्रनें,
 हठीयें हठ लीधो गाढो रे ॥ शीखामण देई करी, एहनी खटक हैयेथी
 काढो रे ॥ ज० ॥ १३ ॥ धनद कहे सुणो मित्रजी, श्यो एकपखो ए नेह
 रे ॥ ए चंचल तरुणी कारणें, कांइ सबल दजाडो देह रे ॥ ज० ॥ १४ ॥
 ॥ ढाल ॥ नदी यमुनाके तीर, उमे दोइ पंखीयां ॥ ए देशी ॥ सांचल मित्र
 कहुं, तुज आगल वीनती ॥ रखे मन राखो राग, रमणीनो एक रति ॥ ए
 रमणी रमणीय, देखाडी जातिनें ॥ चोरी ले चित्तमाल, लजावे जा
 तिनें ॥ १ ॥ नाखे मुख निःश्वास, न आवे निंडडी ॥ उलस वालस
 थाय, के ऊक नहिं एक घडी ॥ मन्न रहे मलवानें, रात्रि दिवस रडी ॥
 उंधमांहे तस ध्यानें, ऊठे आरडी ॥ २ ॥ पामे अयस्या कंप, अने अम
 स्वेदनी ॥ मूर्च्छा ग्लानि बलक्य, लघुता मेदनी ॥ अवयुण एम अनेक,
 देखीता ऊपजे ॥ ते तरुणीनी संगतें, गुण श्यो नीपजे ॥ ३ ॥ जण जण
 सैंती प्रीति, न कीजें प्रेमनी ॥ निखर कसोटी एह के, आतम हेमनी ॥ घा
 दशमो ठायासुत, वेठो तेहनें ॥ पररमणीनी लालच, लागी जेहने ॥ ४ ॥
 नावे तस विश्वास, न ईजत खलकमें ॥ परियागतनुं पाणी, उतारे
 पलकमें ॥ रात्रि दिवस गलियोमां, हींमो हेरतो ॥ हिवडामां दुर्ध्याननी,
 माला फेरतो ॥ ५ ॥ राती देखावे रंग ज्युं, कणयरनी कजी ॥ विफरी करे
 विपरीत, के बाघण ज्युं बली ॥ व्याधि महानिर्नाम के, मदिरा दृष्टिकी ॥ तेहवुं

ते ठे काम, रीति माहाकष्टकी ॥ ६ ॥ संकट विपम सम राज, हूँती पंथ
जाणीयें ॥ त्रिक तजवा एक पंथ, मांहे मन आणीयें ॥ पर विनता
विधवा निज, गणिका नारिथी ॥ पंथ होवे धन्य तेह जे, विरम्या चा
रथी ॥ ७ ॥ सात व्यसनमां दोय, कहरां ठे नारिनां ॥ ग्रंथमांहे वली
चार, नरकनां वारणां ॥ तेमांहे पण बीजूं, एह कहुं सही ॥ एम जोतां
ए वातनी सघले ना कही ॥ ८ ॥ धनद कहे सुण कुमर, कनकप्रज
चूपना ॥ मूकी थो हठ एह, घटे नहिं रूपना ॥ राम कहे नवि शीख,
सुणीयें इकमना ॥ मूको विपयनी टेव, जिहां अवगुण घणा ॥ ९ ॥
इति शीखामणकडी ॥ पूर्वढाल ॥ कहे राजकुमर उत्तर हवे, सुणो
मत्स्योदर मन राखी रे ॥ दोष नहिं ए वातमां, जे परणीजें सहु साखी रे
॥ ज० ॥ १५ ॥ वहेला थइ हवे मुजनें, परणावो ए कनी सारी रे ॥ वारं
वार गुं दाखवुं, तुमें महोटा ठो उपकारी रे ॥ ज० ॥ १६ ॥ मति
आरत जाणी तेहनी, मणिसमरणथी ततकाल रे ॥ चित्त फळुं कुमरी
तणुं, वरवानें थइ उजमाल रे ॥ ज० ॥ १७ ॥ तव शूर कहे नृप
आगलें, तुम सुत ऊपर रजियातो रे ॥ स्वामी सुता थइ माहरी, सुणि
हरख्यो साते धातो रे ॥ ज० ॥ १८ ॥ लग्न लेइ ऊतावलां, विवाह कख्यो
मनरंगें रे ॥ धन बहुलुं रायें तिहां, खरच्युं मन धरिउठरंगें रे ॥ ज० ॥
॥ १९ ॥ कहे धनद कुमरनें राजवी, तुमें उपकारी शिगताजो रे ॥ जी
वित्त आप्युं पुत्रनें, साखां अम वांठित्त काजो रे ॥ ज० ॥ २० ॥ बीजे
खंभें पचवीशमी, ए ढाल कही मुनि रामें रे ॥ सज्जन ते जगमां सही,
जे अवसर आवे कामें रे ॥ ज० ॥ २१ ॥ सर्वगाथा ॥ ७१३ ॥ श्लोक ॥ २० ॥

॥ दोहा ॥

एक दिवस नृपनें शिरें, शूलव्यथा अति जोर ॥ थइ आवी तेणें अति
घणां, करे महीपति सोर ॥ १ ॥ रोग निवारण मणियकी, धनदें कख्यो
करार ॥ नृप मान्यो सुतथी अधिक, जाणी तस उपकार ॥ २ ॥ इण
अवसर तिण नयर वन, शीलंधर अजिधान ॥ मुनिवर आवी समो
सग्या, वात सुणी राजान ॥ ३ ॥ बहु पग्वारें वांइचा, आवे धनद स
मेत ॥ वांइनें वेठा सये, मुनि कहे संकेत ॥ ४ ॥

॥ ढाल ढवीशमी ॥

॥ आज सखि शामलीयो ॥ ए देशी ॥ अथवा ॥ राग मारु ॥ कहे मुनि
 वरजी हितकारी, तुमैं धर्म करो नर नारी ॥ एतो प्रवहणनी परें तारे,
 नवसायर पार उतारे ॥ १ ॥ एहनी वांहे वलग्या जेह, सुख सादि
 अनंत लह्यां तेह ॥ जे ए सुखमां रह्या माता, ते नरनें वेहु नवें शाता
 ॥ २ ॥ सागार अने अणागार, विहुं जेदें कह्यो निर्धार ॥ कारण शिव
 पदनां दोय, परं पर अनंतर जोय ॥ ३ ॥ मन साथें कलंक लगावे, तो
 दुःख मिश्रित सुख पावे ॥ महणाक परें ते माटे, निःकलंक करो
 सुख साटे ॥ ४ ॥ कहो स्वामी कवण महणाक, तुमैं जांखो अनोपम
 वाक ॥ गुरु कहे जरतें शुन ठाम, एक रत्नपुराजिध गाम ॥ ५ ॥ नि
 वसे शुनदत्त व्यवहारी, तस नारी वसुंधरा सारी ॥ तस कूख सरोवरें
 जायो, महणानिध पुत्र सुहायो ॥ ६ ॥ ते आव्यो यौवन रंगें, परण्यो
 रमणी सुख संगें ॥ रहे जामिनीगुं नित्य चीनो, जाये यौवन पूर नदीनो
 ॥ ७ ॥ एक दिन रयनी असवारी, पद्दोतो उद्यान मजारि ॥ तिहां रंग
 रसें सह्यु रमिया. मंरुप वेस्तीनें जमीया ॥ ८ ॥ फरी चाव्या वन जोवानें, मुनि
 कनो दीठो ध्यानें ॥ रह्यो चंपक तरुनी ठाया, मुनि कंचन वरणी काया
 ॥ ९ ॥ प्रभुगुं एक तान लगाया, नहिं मन ममता ने माया ॥ मन आनंद
 अधिको पाया, वंध्या मुनिवरना पाया ॥ १० ॥ मुनि ध्यान संपूरण
 कीधो, उपदेश यथोचित दीधो ॥ शुद्ध देव धर्म गुरु तत्त्व, समकित मा
 रग ए सत्य ॥ ११ ॥ समकित सुरवृद्ध अमूल, वैमानिक सुख जस
 फूल ॥ शिवपद फल आपे साचो, समकित गुणमां नवि राचो ॥ १२ ॥
 नहिं ए उपरांत रतन्न, एहनां घणां करजो यतन्न ॥ नहिं एहथी वंयव
 दूजो, दरिसण गुणने नवि पूजो ॥ १३ ॥ क्योपशम विचार, वेदक द्वायिक
 गुण सार ॥ सास्त्रादन पंचम जाणुं, समकितना जेद वखाणुं ॥ १४ ॥
 मिश्र समकित मिथ्या मोह, अणाचार सबल बलि जोद ॥ एसातना क्य
 उवसमथी, द्वायिक उपशम लहंती ॥ १५ ॥ वेद कह्यो ए चरम प्रदेगं,
 सास्त्रादन वमते देगें ॥ प्रदेगें वेदन हूंतें, खयोवसम कसुं जगवंतें ॥ १६ ॥
 ए सहित थोडोद्दी धर्म. आराव्यो दे शिवगर्म ॥ महणाक सुणी प्रतिवृष्टो,
 समकित आवक व्रत लीधो ॥ १७ ॥ गुरु वांटी आव्यो निजपुरमां, जिन

धर्म वस्यो निज उरमां ॥ मंदाव्यो जिन प्रासाद, खरचे धन मन आ
ह्लाद ॥ १७ ॥ बहु धननो व्यय ययो जाणी, कर्म तस मति मूंजाणी ॥
जाण्युं थोडे थारो आबुं, खरचंतां न जोयुं पाबुं ॥ १८ ॥ नांग्यो उ
त्साह ठरीने, वेतो संतोप करीने ॥ वली लोकाग्रहथी कदापि, प्रतिमा
जिननी लेइ स्थापी ॥ १९ ॥ स्थापीने प्रतिष्ठा करावी, लीधो जाहो धनने
वावी ॥ वली एक दिन चिंते हीणो, मन ध्यान शुद्धमां लीणो ॥ २० ॥
धन चौथो जाग ए धर्म, करवो एम कळुं शास्तरमें ॥ ए तो अधिक इहां खर
चाणुं, फलजे के नहिं शुं जाणुं ॥ २१ ॥ एम संशय मनमां धरतो, जिन
पूजादिक आदरतो ॥ एक दिन मुनियुग घर आव्युं, कठीने तेणें पडि
लाच्युं ॥ २२ ॥ वलिया बलतुं मन नाव्युं, फल दीतुं नहिं कांइ फाव्युं ॥
मळें मेळूं देखी मील, तेणें कीधी डुगंठा अवील ॥ २३ ॥ हा हा
माहा पण चूके, कोर्ने कर्म न मूके ॥ वली कीधो पश्चात्ताप, मुळ म
होदुं लाग्युं पाप ॥ २४ ॥ ए निर्मल अंग सदाइ, मुळनें माठी मति
धाई ॥ एम अशुच ने शुच वेहु वांधी, रुदि सुवनपतिनी लाधी ॥ २५ ॥
चवीनें ययो धनद कुमार, जेम वांध्युं तिम लखुं सार ॥ मन ऊहापोह
करंत, लखुं जातिसमरण तंत ॥ २६ ॥ कहे मुनिनें जोडी हाथ, जग
व्ही अनाथनो नाथ ॥ मुळ वीतक सघली वात, तुमें परकाशी नली
जांति ॥ २७ ॥ तुम ज्ञान तणी वलिहारी, नव पडतो राख्यो उपगारी ॥
लेखुं दीक्षा तुम पासें, माय तावनें पूठी उल्लासें ॥ २८ ॥ मुनि वंदी
आव्यो गेह, ढाल ठवीगमी कहि एह ॥ रामविजय कही खं वीजे,
धन्य जे गुरुवचनें रीजे ॥ २९ ॥ सर्वगाथा ॥ ३० ॥ श्लोक तयागाथामली ॥ ३१ ॥

॥ दोहा ॥

॥ मत्स्योदर आवी कहे, पितर नणी कर जोडि ॥ अनुमति आपो
मुळनें, संयम लदुं मन कोडि ॥ १ ॥ मात पिता कहे जातने, जिदां तुं
निदां अमें साथ ॥ वाट जोवंतां आवियो, घणे दिहाडे हाथ ॥ २ ॥
नृपति पण निरुणी कहे, वाहाला विण श्यो चास ॥ हे उपगारी ताहगे,
हं घटी न महेलें पास ॥ ३ ॥ कनकप्रज निज कुमरने, वेसाखो नृप राज ॥
पांते राज थइ नीलगां, संयम लेवा काज ॥ ४ ॥ धनद धनायद पुत्रनें,

सौंपी घरनो नार ॥ मात पिता नारी सहित, वरवा निर्वृति नार ॥ ५ ॥
बहु परिवारें परवस्था, आव्या श्रीगुरु पास ॥ ऊजा कर जोडी कहे,
दीक्षा द्यो गुणराशि ॥ ६ ॥

॥ ढाल सत्त्यावीशमी ॥

॥ रूपज देव मोरा हो ॥ ए देशी ॥ अब मोहि तारो हो, दयानिधि पार
उतारो हो ॥ नवनयथी हुं ऊजग्यो, आव्यो तुम नेरो हो ॥ अ० ॥ दयानि० ॥
॥१॥ नाथ मुनि पट्कायना, कीजें मुने चैरो हो ॥ तारक जाणीनें सही,
मन मान्यो मेरो हो ॥ ६० ॥ २ ॥ स्वामि अनादिनी मूढता, हूँती हुं
घेखो हो ॥ अब तो विण ए बंदीने, कुण राखे अनेरो हो ॥ ६० ॥ ३ ॥
काज विचारी कीजियें, न पडे ज्युं फेरो हो ॥ कहे गुरु विलंब न कीजियें,
होये कर्म निवेरो हो ॥ ६० ॥ ४ ॥ चिहुं जण साथें पंचमे, श्रीधनद कुमारें
हो ॥ दीक्षा गुरुपासें ग्रही, रहे अग्र विहारें हो ॥ ६० ॥ ५ ॥ चारित्र
चोखुं पालतां, मुनि निरतिचारें हो ॥ साथें साधु तणी क्रिया, प्रमाद
निवारे हो ॥ ६० ॥ ६ ॥ धिविर मुनि पासें नण्या, आगम आचारें हो ॥
वृषनपरें धोरी यया, धुरा धर्मनी धारे हो ॥ ६० ॥ ७ ॥ करि अणसण
आराधना, शुनध्याननी धारें हो ॥ काल करीने ऊपन्या, सुरलोक मजारें
हो ॥ ६० ॥ ८ ॥ सुख वैमानिक देवनां, रूडी परें पाले हो ॥ वरस असं
ख्य जगें तिहां, बलतां अवतारे हो ॥ ६० ॥ ९ ॥ तिहांथी विदेहे पंचमे,
उत्तमकुलसारें हो ॥ मनुजपणे संवम ग्रही, पहोता शिवठारे हो ॥ ६०
॥ १० ॥ ए मत्स्योदरनी कथा, मुनि कही मनोहारें हो ॥ अमिततेजा
यें सांजली, मनने सुविचारें हो ॥ ६० ॥ ११ ॥ तेमाटें तुमने कहुं, खेच
र अवधार हो ॥ धर्म निरंतर कीजियें, शिवसुख दातार हो ॥ ६० ॥ १२ ॥
गुरु आणा शिर ऊपरें, राय धारी तेवारें हो ॥ साचे दिल अरिहं
तनी, नक्ति सवाई धारे हो ॥ ६० ॥ १३ ॥ नजमंजल मुनि चालीया,
जिहां जैनविहार हो ॥ अमिततेज श्रीविजयजी, मुख विलमे अपार हो
॥ ६० ॥ १४ ॥ ढाल थइ सत्त्यावीशमी, खंम वीजे उदार हो ॥ रामविज
य कहे ते नजा, जे राखे आचार हो ॥ ६० ॥ १५ ॥ सर्वगाथा ॥ २० ॥

॥ दोहा ॥

॥ अमिततेज श्रीविजयजी, ए वेहू राजान ॥ राजनीति रूडी परें,

पाले सुगुणनिधान ॥ १ ॥ यात्र करे जिनवर तणी, वेहु प्रकारें तेह ॥
नंदीश्वर वेताढ्यनी, सीमा नगनी जेह ॥ २ ॥ वरस प्रत्ये महोटी करे,
त्राय यात्र गुणवंत ॥ दोय नंदीश्वर द्वीपनी, एक सामानिक संत ॥ ३ ॥
चैत्रमास उज्ज्वल पखें, तेम वली आसो मास ॥ नंदीश्वर उत्सव करे,
आठ दिवस उल्लास ॥ ४ ॥

॥ ढाल अठधावीशमी ॥

॥ अष्टापदगिरि यात्र करणकुं ॥ ए देशी ॥ नंदीश्वर वरद्वीप अनोपम,
जिहां जिनगृह वावन्न ॥ तेह तणो संबंध संक्षेपें, कहुं सुणो सहु साजन
॥ १ ॥ जविका जाव धरीनें सार, जिनवर यात्र करीजें ॥ टालि मिथ्या
मति निर्धार, नरजव लाहो लीजें ॥ ए आंकणी ॥ एकशत कोडी अने वली
त्रेसठ, कोडि चोराशी लाख ॥ योजन नंदीश्वर वर पहोलो, ए आगमनी
साख ॥ ज० ॥ २ ॥ तेह तणे मध्ये अति महोटी, चिहुं दिशें चिहुं चिहुं
वापी ॥ जंबूद्वीप प्रमाण ए जांखी, उंठी नहिय कदापि ॥ ज० ॥ ३ ॥
एकेकी वापीने अंतरें, दधिमुख एक गणीजें ॥ दधिवरणा शोले एक सरिखा,
आगममांहे जणीजें ॥ ज० ॥ ४ ॥ एकेकी वापीने अंतर, रतिकर दो दो
कदाइ ॥ वणें कनकसरीखा सुंदर, वत्रीश चिहुं दिश लहीयें ॥ ज० ॥ ५ ॥
वायोनी वचमां चिहुं दिशें एक एक, अंजनगिरि एम चार ॥ सहस्र चो
गशी योजन कंचा, अंजन जिम आकार ॥ ज० ॥ ६ ॥ एवं वावन पर्वत
उपरें, घावन जिन प्रासाद ॥ चोवारां ध्वज वापि विराजित, दीठडे
दोय आहाद ॥ ज० ॥ ७ ॥ शतयोजन आयाम कहीजें, पचास योजन
पहोलां ॥ वहोतेर योजन कंचां जिनघर, यात्र करे पुण्य बहुलां ॥ ज०
॥ ८ ॥ चारे द्वार विराजे सुंदर, कंचा योजन शोल ॥ मुखमंमप रंग
मंमप रुडा, दीठे दोवे रंगरोल ॥ ज० ॥ ९ ॥ पूर्व दिशें क्यजानन
सामी, दक्षिणें जिन वर्धमान ॥ पश्चिमदिशें चंशानन उत्तर, वारिपेण जग
वान ॥ ज० ॥ १० ॥ चोगठगें ने वलि अढतालीश, प्रतिमा संख्या
कहियें ॥ पंचगत धनुष प्रमाणे कंची, जिनआणा गिर वहियें ॥ ज०
॥ ११ ॥ सृज गंजारे एकेक पानें, पडिमा सत्त्वावीश ॥ चैत्ययूज चिहुंनी
गोलणें, एम एकसो चोवीश ॥ ज० ॥ १२ ॥ ते घावन्न गुणी तव

थाये, चोशठशें ने अडयाल ॥ संख्या जांखी आगममांहे, प्रचुंजी दीन
 दयाल ॥ ज० ॥ १३ ॥ तिहां श्रीविजय ने अमित नरेश्वर, बहुपरिवारें
 आवे ॥ आठ दिवस महोत्सव अछाही, पूजा विविध रचावे ॥ ज०
 ॥ १४ ॥ नक्ति करे जिननी नवरंगी, नव नव अंगें पूजी ॥ समकित निर्मल
 करवा नविने, ए सल करणी न दूजी ॥ ज० ॥ १५ ॥ पाठा फरि आवी
 मंदिरमां, जिनमंदिर जूहारे ॥ तत्ता थेइ थेइ नाटक करतां, पाप परजनने
 वारे ॥ ज० ॥ १६ ॥ एक दिन मेरुवनें नंदनमां, आव्या जिन नमवाने ॥
 वेहु राजेसर अति अलवेसर, कर्मनी रज दलवाने ॥ ज० ॥ १७ ॥ जिणहर
 चार जगीश विराजे, अंचपणे ठत्रीश ॥ पचवीश योजन पहोलपणे ते, आयत
 वली पंचास ॥ ज० ॥ १८ ॥ प्रतिमासंख्या एक प्रासादें, एकसो वीश
 गणि राखी ॥ नक्ति करे आवी तिहां राजा, बहु विद्याधर साखी ॥ ज०
 ॥ १९ ॥ पंचमेरुवन संख्या करतां, विंव ठनुशें कहियें ॥ ए जिन नित्य
 उठीने नमतां, नवियण शिवसुख लहियें ॥ ज० ॥ २० ॥ नक्ति करीने नंदन
 वनमां, फरता मुनिवर दीठा ॥ रुजुमति विपुलमति इण नामें, जोतां
 लाग्या मीठा ॥ ज० ॥ २१ ॥ हवे कहेजे मुनिवर उपयोगी, अठथावीशमी
 ढाल ॥ बीजे खंमैं रामविजय कहि, धन्य जस धर्मनो ढाल ॥ ज० ॥ २२ ॥

॥ दोहा ॥

॥ अतिशय नाणी मुनि कहे, निसुणो तुमें राजिंद ॥ आयु अथिर जि
 नवर कह्युं, श्यो तेह्युं प्रतिबंध ॥ १ ॥ आयु अमूलक नरतणुं, जो धर्म जो
 डाय ॥ नहिंतर ए नव पूरणा, कोडी काम न थाय ॥ २ ॥ ते माटें तुमने
 अमो, कहियें ठे उपदेश ॥ चेताये तेम चेतजो, आयु रह्युं लवलेश ॥ ३ ॥

॥ ढाल उंगणत्रीशमी ॥

॥ निंइडी वेरण हुइ रही ॥ ए देशी ॥ निंइडी मोहनी परिद्रो, मत
 कंधो हो रहेजो सावधान ॥ कुमति रमणीनें दूरें तजो, समतानो हो नजो
 संग सुजाण ॥ निं० ॥ १ ॥ आयु दिवस ठवीशनुं, रह्युं तुमचूं हो निसुणो
 राजिंद ॥ ठो अरथी तुमें धर्मना, तिण कारण हो अमें नांख्युं नरिंद ॥ निं०
 ॥ २ ॥ वात सुणी गय चिंतवे, हे दाख्यो हो एहजें अवतार ॥ धर्म कखो नदिं
 चोपणुं, मोहनूपें हो ठजिया निरधार ॥ निं० ॥ ३ ॥ मय रह्या अमें मोहमां,

तृप्ताना हो थइ सुधा दास ॥ नीशासो नाखी कहे, मुनिवरजी हो अम
 कोण हवाल ॥ निं० ॥ ४ ॥ पडतां नवजलकूपमां, कोण करत्रो हो
 अमची संजाल ॥ रामत रमणीशुं करी, नवि जोशुं हो कांइ दीर्घ विमास
 ॥ निं० ॥ ५ ॥ लालच लोचमांहे पड्या, परमारथ हो न लह्यो मुनि
 राय ॥ हाथ वसी माखी परें, शुं करशुं हो मुख कहे हवे हाय ॥ निं०
 ॥ ६ ॥ मुनि कहे खेद करो रखे, नथी विणतुं हो तुमचुं हजी कांय ॥
 साधो संयम आदरें, आणा शुद्ध हो जेहथी सुख थाय ॥ निं० ॥ ७ ॥
 एकदिननो शुद्धजावथी, आराध्यो हो दे संयम सुख ॥ तो तुमें शी चिंता
 करो, ठे बहुदिन हो थरो मनमां सुख ॥ निं० ॥ ८ ॥ मुनि वंदी कृता
 वला, राजेश्वर हो आव्या निजगेह ॥ राज ठवी निजपुत्रनें, लिये संयम
 हो वेहु नृप ससनेह ॥ निं० ॥ ९ ॥ अजिनंदन मुनिवर कनें, जीई दीक्षा
 हो शिक्षा ग्रहि सार ॥ अणसण वेहु मुनि आदरे, करे डुःकर हो तेहनी
 बलिहार ॥ निं० ॥ १० ॥ लख चोराशी जीवनें, खमावे हो मूकी मन
 रीय ॥ शरणां चार करे वली, सहे परिसह हो मुनि चढती जगीश ॥ निं०
 ॥ ११ ॥ पादोपगम समाचखुं, अमिततेजा हो श्रीविजय मुनीश ॥ डुकर
 तप साधे जलां, सुर किन्नर हो नामे तस शीश ॥ निं० ॥ १२ ॥ कर्म
 वशें श्रीविजयजी, मन सांजरे हो निज जनकनी रुद्धि ॥ मांहे पिशाचें
 ठव्यो तिहां, वांध्युं तिहां कणे हो नीयाणुं अशुद्ध ॥ निं० ॥ १३ ॥
 डुकर तप प्रजावधी, मुज पितरनी हो सरिखां नृपाल ॥ होजो हुं आव
 त नवें, एम चिंत्युं हो धिक् राग चंमाल ॥ निं० ॥ १४ ॥ अशुःकृत्यें वेहु
 मुनि चवी, ते उपन्या हो प्राणत सुरलोक ॥ निन्नविमानें सुर थया,
 कीधी किरिया हो नवि थाये फोक ॥ निं० ॥ १५ ॥ नंदिकावर्त्त विमानमें,
 अमिततेजा हो सुर दुउं दिव्यचूल ॥ स्वस्तिकावर्त्तमां उपन्या, श्रीविजय
 जी हो नामें मणिचूल ॥ निं० ॥ १६ ॥ प्रीति घणी वेहुनें वनी, सुर्य
 गिलने हो मनची परिवार ॥ नंदीश्वरादिक तीर्थनी, करे यात्रा हो शुद्ध
 नमकित धारा ॥ निं० ॥ १७ ॥ पंचम नवें एम उपन्या, सुर सुंदर हो उगणत्रि
 शमी दाल ॥ बीजे स्वमें सांझामणी, रामविजयें हो जांघी उजमाल ॥ निं० ॥ १८ ॥

॥ दाल त्रीशमी ॥

॥ फलज ॥ गिह्या नं गुण तुम तप्या ॥ ए वैशी ॥ नदियण निर्मल चाव थ

रीने, जिनगुणस्तवना कीजें रे ॥ सांसारिक धंधो ढोडीने, शुद्ध अनुभव रस पीजें रे ॥ ज० ॥ १ ॥ परमपदारथ सुकृतकृतारथ, पुरुपारथ पामीजें रे ॥ जिन गुण गातां निजगुणचोगी, अंतरमल सवि ढीजे रे ॥ ज० ॥ २ ॥ गंगाजल उज्ज्वल जग कीर्ति, परन्वें सुगति वरीजें रे ॥ प्रभुगुण श्रवणें श्रवण करीने, आत्म शुद्ध करीजें रे ॥ ज० ॥ ३ ॥ विकथा वारी शुद्ध विचारी, एकमना चाखीजें रे ॥ जिनगुण मुनिगुण मेवा मीठा, स्वाद हृदय राखीजें रे ॥ ज० ॥ ४ ॥ शांतिप्रभुनी स्तवना माला, गुण शून्धी धारंतां रे ॥ सुमति सुगृहिणी साथें चेतन, क्रीडा करो मलपंता रे ॥ ज० ॥ ५ ॥ वैर न वाधे शिवसुख साथे, प्रभुगुण जे आराधे रे ॥ शांतिप्रभुनें रासैं रमतां, कीर्ति कमला वाधे रे ॥ ज० ॥ ६ ॥ पंचम जव एम प्रभुनी स्तवना, बीजे खंमैं कीधी रे ॥ एमांहे जे न्यूनाधिक होवे, ते लेजो कवि शोधी रे ॥ ज० ॥ ७ ॥ संवत सत्तर पंचाशीया वर्षे, राजनगरमांहे जेठ्या रे ॥ त्रिशलानंदन वीर जिनेश्वर, दुःख दोहग सवि मेट्यां रे ॥ ज० ॥ ८ ॥ ते प्रभुनी सान्निध्यें संपूरण, खंम ययोसुप्रमाणो रे ॥ बीजो उज्ज्वल बीज शशी परें, चढती कला मन आणो रे ॥ ज० ॥ ९ ॥ दाम न वेसे सुणतां जिनगुण, पावन तन मन याये रे ॥ जवकोटीसंचित जवि जननां, पातक नासी जाये रे ॥ ज० ॥ १० ॥ तपगह्वनायक सूरि सवाई, श्री लक्ष्मीसागर सूरि राजे रे ॥ श्रीगुरु सुमतिविजय कवि गिरुआ, महिमा अधिक विराजे रे ॥ ज० ॥ ११ ॥ तस पद पंकज मधुकर सरिखो, राम विजय कहे रसियो रे ॥ शांतिजिनेश्वर गुण गावानें, मुळ आत्म उल्लसियो रे ॥ ज० ॥ १२ ॥ सर्व मलीने त्रीशनी संख्यायें, ढाल कही ए खंमैं रे ॥ एक मनें सांजलतां जिनगुण, लहियें सुख अखंमैं रे ॥ ज० ॥ १३ ॥ सर्वगाथा ॥ ८२८ ॥ श्लोक तथा गाथा ॥ २० ॥ ढाल ॥ ३० ॥ प्रथम खंम गाथा ॥ ४३७ ॥ प्रथम खंम श्लोक तथा गाथा ॥ ४१ ॥ प्रथम खंम ढाल ॥ १७ ॥ उचयोः खंमयोर्मिलित्वा गाथा ॥ १२६५ ॥ उचयोः खंमयोर्मिलित्वा प्रास्ताविक श्लोक तथा गाथा ॥ ६१ ॥ खंमद्वयढाल ॥ ४७ ॥ इति श्रीशांतिजिनप्रबंधे प्राकृतप्रबंधे षाडशजवनिबंधे सुरुतानुबंधे सत्यार्थबंधे हस्तिप्रतिहरिसंबंधकजितोमत्स्योदरसंबंधमिलितोविद्याधरसुरपदरूपचवद्वयवर्णननामा द्वितीयः खंमः संपूर्णः ॥ २ ॥

॥ अथ तृतीयखंभूस्य प्रारंभोऽयम् ॥

॥ दोहा ॥

॥ सिद्ध नमुं कर जोडिनै, धरि मनमां आनंद ॥ अंतर आतम जेहधी,
थायें पूर्णानंद ॥ १ ॥ प्रथम सयोगिपणुं जिएणें, अनुजवियुं नवमांय ॥
उल्लष्टें नव कोडि लघु, दोय कोडि संख्याय ॥ २ ॥ तस आणायें चालतां,
मुनि नव कोडी सहस्स ॥ नमीयें दो कोडी सहस, लघु पद एह रहस्स
॥ ३ ॥ सकलगुणें करि जे नखा, मद नारखा जेणें मोडि ॥ सकल
गुणीने हुं नमुं, नित्यें वे कर जोडि ॥ ४ ॥ वरदायी वाघेश्वरी, कविजननी
आधार ॥ ते श्रुतदेवीने नमी, त्रीजो खंभू कहुं सार ॥ ५ ॥ नवि निसुणो
नावें करी, मूको कच पच वात ॥ कुण विमासण मन करे, पीतां दूधनी
धात ॥ ६ ॥ कथा रसिक जिनशांतिनी, वक्ता रसिक हवंत ॥ पण
श्रोता रसिया विना, केस आस्वाद लहंत ॥ ७ ॥ यडुक्तं ॥ ठप्पय ॥
विप विनतानें शोक्य, वली विप वयें रंभापण ॥ विप दारिडी गोष्टि, वली
विप कुजनें खंपण ॥ विप स्वामी अपमान, वली विप चंचल गोरी ॥
विप गायनने खांसि, वली विप गलियो थोरी ॥ पूत कुपूत कुवास विप,
विप विश्वास वेरी जना ॥ प्रीति कहे सुण चतुर नर, विप पंढित वचन
अजावना ॥ १ ॥ पूर्वदोहा ॥ सङ्ग थडने सांजो, मूको विकथा दूर ॥
जिन गुणरस श्रवणें सुणो, चिदानंद नरपूर ॥ ८ ॥

॥ ढाल पदेजी ॥

॥ माना किहां ते रे ॥ ए देगी ॥ पूर्वविदेहें सुणो नवि नेहें, रमणि
विजयमां वारु रे ॥ मुनगा नाम पुगी सुरपुरना, सरखी अति दीदारु रे
॥ १ ॥ रंगें सुणीयें रे, जिनगुण वात विनोद, अहोनिज नणीयें रे ॥
॥ ए आंकणी ॥ ने नयरीमां नहिं वेरीनां, वाचाट तणो न जोरो रे ॥ धर्म
तनुनी मीजी जीनी, नवि कोइ दीने कोरो रे ॥ रं० ॥ २ ॥ बंधन कुसुम
विना नहिं जनमां, नहिं म्नेदना कृप विण दीपें रे ॥ चेत्यशिव्यर विण
देस न दीने, न्यायनिपुण जन दीपें रे ॥ रं० ॥ ३ ॥ जिहां व्यवहार गुणें
करी तडा, निससे व्यवहारी महोटा रे ॥ नयमारग चासे चतुराई,
नहिं मनमांदे खोटा रे ॥ रं० ॥ ४ ॥ परंपरिवादे मूक करीत्या, पर

गुण जेवा शूरा रे ॥ पंगु परनुं धन हरवाने, परमैश्वर्यना पूरा रे ॥ रं० ॥
 ॥ ५ ॥ तिए नगरीमां स्तिमितसागर इण, नामें नृपति गाजे रे ॥ स
 ज्ञान जन रंजन उपकारी, दुःखीयानां दुःख नांजे रे ॥ रं० ॥ ६ ॥ न्यायें
 साजो बलथी ताजो, सबलो जेहनो आजो रे ॥ पट्ट गुण जाणे सवि
 सुख माणे, न लहे कोइतस माजो रे ॥ रं० ॥ ७ ॥ शियलगुणें पूरी वजि
 वड नूरी, रमणी द्योय अति रूडी रे ॥ मोहनगारी रमऊम करती, हाथे
 सोवन चूडी रे ॥ रं० ॥ ८ ॥ एक वसुंधरा बीजी अनुधरा, चाले पतिनें
 ठंढें रे ॥ धर्म लीणी देव गुरुनें, नित्य उठीने वंदे रे ॥ रं० ॥ ९ ॥ हवे प्राण
 तथी अमिततेजानो, जीव चवीनें अवतरियो रे ॥ वसुंधरानी कूखें
 वारु, जाग्यवशें गुण दरियो रे ॥ रं० ॥ १० ॥ सूतां मध्यरयणीने स
 मयें, दीठा अति श्रीकारो रे ॥ गजवर पद्मसरोवर शशिधर, वृषन
 वली ए चार रे ॥ रं० ॥ ११ ॥ हलधर जनम तणां ए सूचक, दीठां
 रमणी रूडां रे ॥ कंत कहे तुऊ उज्ज्वल वणें, सुत होजे नहिं कूडा रे
 ॥ रं० ॥ १२ ॥ प्रसव्यो सुत तेणें पूरणमासें, उत्सव कीथा सबला रे ॥
 सुत सोजागी कुलनो दीवो, चिरंजीवो कहे अबला रे ॥ रं० ॥ १३ ॥
 हर्ष धरीने "अपराजित" रूडुं, नाम ठव्युं निज तातें रे ॥ बाधे उज्ज्वल
 बीज तणो जिम, अहोनिश रयणीकांत रे ॥ रं० ॥ १४ ॥ बीजो ते
 सुर लोकथी चवियो, मणिचूजामर नामें रे ॥ राणी अनुधरा कूखें
 आव्यो, रत्न ए पूरण कामें रे ॥ रं० ॥ १५ ॥ सिंह तरणी पूर्णकुंज
 लक्ष्मी, रयणसमुदय दरियो रे ॥ निर्धूम अग्नि ए साते देखे, जव कूखें
 अवतरियो रे ॥ रं० ॥ १६ ॥ प्रीतमनें परकाजे पद्मिनी, साच कहो सुऊ
 स्वामी रे ॥ बहालेश्वर रातें में दीठां, सुहणां नहिं कांइ स्वामी रे ॥ रं०
 ॥ १७ ॥ स्तिमितसागर नरवरें बोलाव्या, शास्त्र तणा बहु जाण रे ॥ वासु
 देव सुत होजे वजियो, प्रकट्यो पुण्यनिधान रे ॥ रं० ॥ १८ ॥ दान दे
 इने तेहनें बोलाव्या, अनुक्रमें सुत सोजागी रे ॥ मध्यनिशा प्रसव्यो पुण्य
 वंतो, जाग्यदशा एम जागी रे ॥ रं० ॥ १९ ॥ नाम "अनंतवीर्य" तस
 स्थापे, हियडे हर्ष धरीनें रे ॥ वेदु सुतनें उत्संगें माता, तेडे लाम करीने रे
 ॥ रं० ॥ २० ॥ पुत्र तमो उदरें अम आवी, हर्ष घणा उपजाव्या रे ॥
 सुतजी तुम मुख देखी अमचां, दुःख सवि दूर नसाव्यां रे ॥ रं० ॥ २१ ॥

सकलकला शीखी लघुवयथी, अनुक्रमें बोंचन आयो रे ॥ सुख विलसे
परणी नृपकन्या, दिन दिन चढत सवायो रे ॥ १० ॥ ११ ॥ व्रीजे खंभू
पहेली ढालें, रामविजय कहे वाणी रे ॥ वेहु बंधव सुख विलसे बहुजां, नेह
निविड गुण खाणी रे ॥ १० ॥ १३ ॥ सर्व गाथा ॥ ३१ ॥ श्लोक गाथा मलीने ॥ १५ ॥

॥ दोहा ॥

॥ इण अक्सर तिण नयरीयें, उपशमजलें अगाध ॥ शमदमवंता
आविया, नामें स्वयंप्रज साध ॥ १ ॥ समवसखा वनचूमिका, मुनि म
हंत महनीय ॥ शूरा थइ सूधा सहे, जे जे ठे सहनीय ॥ २ ॥ एहवे
रयचाडी चढयो, स्तिमितसागर राजान ॥ वलतां वीशामा जणी, थाब्यो
तिण उद्यान ॥ ३ ॥ दीगो मुनि कंकेलितरु, नीचें निश्चल ध्यान ॥
साधे योगदशा जली, मुनि रहियो एक तान ॥ ४ ॥ बंदी कर जोडी
कहे, धन्य धन्य गुणपात्र ॥ धन्य धरामां ते नरा, जे करे तुम्हारी यात्र
॥ ५ ॥ तुम पेखे पावन थयां, मुज लोचन माहाराज ॥ कृपा करी थो
देशना, गिरुआ गरिव निवाज ॥ ६ ॥ काउस्तगपारी प्रेमगुं, वेठा उत्तम
राम ॥ कहे उपदेश सोहामणी, शमरसगुणना धाम ॥ ७ ॥

ढाल बीजी ॥

॥ नणद हठीजी ॥ ए देशी ॥ सुण सुण रे राजन रठियाला, कहुआ
ए कपायना चाला रे ॥ सुण राजन रठियाला ॥ ए थांकणी ॥ सुवसन
ने वजी फूल, माणतने मेलें धूल रे ॥ सु० ॥ इह नव परजव दुःखदायी,
एह सायें अनादि सगाइ रे ॥ सु० ॥ १ ॥ दोय नामें जग बंधोव्यो, तव
स्तिमितसागर नृप बोव्यो रे ॥ सु० ॥ प्रभु कहो एहना कति जेद, केम
पाभ्यो एहथी खेद रे ॥ सु० ॥ २ ॥ कहे मुनिवर दोयथी दुवा चार,
बाभ्यो एहनो विस्तार रे ॥ सु० ॥ पहेलो क्रोध ने बीजो मान, माया व्री
जी ने लोचन अमान रे ॥ सु० ॥ ३ ॥ जुठं क्रोधयकी गुं थावे, अहोनिश
आत्म अगटावे रे ॥ सु० ॥ एह मानथकी मति जावे, अठता पण गुण
गवरवे रे ॥ सु० ॥ ४ ॥ माया विषवेजी तमाणी, तेगुण टंकण सुपरें जाणी रे
॥ सु० ॥ लोचन नथि टक्या रे मननें, जाणे मेहुं मेहुं बहु धननें रे ॥ सु०
॥ ५ ॥ एकेकना जेद ठे चार, कहे मुनि करुणानंदा रे ॥ सु० ॥ क्रोध
पहेलां अनंतानुबंधी, न टले जेहनी केइ संधि रे ॥ सु० ॥ ६ ॥ करे

समकित गुणनो घात, एहथी होय नरकनिपात रे ॥ सु० ॥ कह्यो पञ्च
रेख समाणो, वर्जे एह ते धन्य जाणो रे ॥ सु० ॥ ७ ॥ बीजो क्रोध अप्रत्या
ख्यान, पृथिविरेखा उपमान रे ॥ सु० ॥ रहे वरस जगें ए जाडो, श्रावक व्रत
वेलायें आमो रे ॥ सु० ॥ ८ ॥ तिर्यचगतिमां पहाँचाडे, पठें बहु नव
मांहे जमाडे रे ॥ सु० ॥ प्रत्याख्यानावरणीय ए त्रीजो, हणें साधुना
गुणनुं हेजो रे ॥ सु० ॥ ९ ॥ वेलुनी रेखा सरिखो, आपे मनुज तणी गति
निरखो रे ॥ सु० ॥ जलरेखा सम संज्वलणो, चोथो रोध करे ज्युं वलनो रे
॥ सु० ॥ १० ॥ न आवन दे यथाख्यात गुणने, सूधा पण समण माह
एने रे ॥ सु० ॥ गति नापे देवनी सारी, म करो ए क्रोधज्युं यारी रे
॥ सु० ॥ ११ ॥ चारेनो एकज ढंग, विरुड ए साथें प्रसंग रे ॥ सु० ॥ जन्म
वर्षे अने चोमासी, पद्द स्थिति अनुक्रमें जासी रे ॥ सु० ॥ १२ ॥ स्थंज
पापाण अस्थि ने काष्ठ, तृण सम चिहुं मान अनिष्ट रे ॥ सु० ॥ वंश मूल
वली मीढसिंग, गोमूत्रा वलेह सुचंग रे ॥ सु० ॥ १३ ॥ माया चिहुं चेदें
जांखी, सुणो लोच उपम चित्त राखी रे ॥ सु० ॥ क्रमि राग अने वली
पंक, अंजन हरिडानो रंग रे ॥ सु० ॥ १४ ॥ एम थाये चेद ए शोल,
एह वरजे ठाकमठोल रे ॥ सु० ॥ अति आदरथी जे सेवे, तेहने बहुनव
डुःख देवे रे ॥ सु० ॥ १५ ॥ ते माटें कपाय न करवा, शिवनारी उपाय
ए वरवा रे ॥ सु० ॥ थोडा पण ए सेव्या माठा, नजरें जोतां केड नाठा
रे ॥ सु० ॥ १६ ॥ मित्रानंदादिक नडिया, कपायतणे वश पडिया रे
॥ सु० ॥ कहे स्तिमितसागर मुनिराया, कुण तेह जे तुमें गाया रे ॥ सु०
॥ १७ ॥ कहे मुनि महानुभाव सुणीजें, सुणी ज्ञानतणुं फल जीजें रे
॥ सु० ॥ मित्रानंदादिक वात, कपाय कपर अवदात रे ॥ सु० ॥ १८ ॥
त्रीजे खंभें बीजी ढाल, जांखी ए रंगरंताल रे ॥ सु० ॥ कहे रामविजय नवि
प्राणी, सुणजो सहुरुती वाणी रे ॥ सु० ॥ १९ ॥ सर्वगाथा ॥ ५ ॥ ॥ श्लोक ॥ १ ॥

॥ दोहा ॥

॥ कहे मुनि इणजरतें ननुं, अमरतिलक पुर तार ॥ अमरपुरी सम
कपन्युं, जिहां धन धान्य अपार ॥ १ ॥ सुखीयां लोक सहू वसे, डुःखी
तणुं नहिं नाम ॥ मकरध्वज नामें जजो, नूप गुणें अनिराम ॥ २ ॥ मद
नसेना तस सुंदरी, राणी रूपनिधान ॥ सकलकलायें शोचती, प्रीतमनुं

बहु मान ॥ ३ ॥ गुणवंती गोरी निपुण, चाले गजगति मत्त ॥ मानवती
पण कंधने, चाले अनुदिन चित्त ॥ ४ ॥ यहुक्तं ॥ दोहो ॥ माणिणी
तित्तउ माण करे, जीत्तउ कंत सुहाय ॥ जे लाखीणी वाणही, तोहि
पहेरीजें पाय ॥ १ ॥ पूर्व दोहा ॥ एम सागर कव्वपसमी, सुखमां वाहे काल ॥ पण
ते सबली चोरटी, पियुचित्त चोरणहार ॥ ५ ॥ सहि ए चोर ते मानियें,
जे हुवे चित्तह चोर ॥ धण कण कंचन जे हरे, चोर नहिं ते ढोर
॥ ६ ॥ तेहनी कूखें ऊपन्यो, पद्मकेसर अजिधान ॥ राजकुमर रजीया
मणो, सोहे सुगुणनिधान ॥ ७ ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥

शंवरियोने दूजे रे नटियाणी राणी वड चूवे ॥ ए देशी ॥ एक दिन धोर्गे
हो राजेश्वर राणी महोलमें, वेठा रंग विलास ॥ केश समारे हो सुकुलिणी
निज बालम तणा, धरती हियडे उध्वास ॥ १ ॥ जगमांहे जो जो
हो जोरावर आणा मोहनी ॥ ए आंकणी ॥ दिलनर दंपती दोय ॥ रंगें
रमाडे हो न जगाडे सूता जीवने, नाखे डुर्गति सोय ॥ ज० ॥ २ ॥
पलीशुं निहाली हो एक नामा चांखे नूपने, स्वामी दूत निहाल ॥
आव्यो अलवेसर हो आजुनो ए उतावजा, जोयुं चिहुं दिशें जाल ॥
ज० ॥ ३ ॥ दूत को न आवे हो अलवेली एणे मंदिरें, चिहुं पामें रे
जुकार ॥ रहिया ठे चांकी हो उजावजें माहरा, हाथ ग्रही दथीवार ॥
ज० ॥ ४ ॥ हांसुं न फीजें हो रंगीली राणी रंगमें, उपजावी मुज व्रांति ॥
तुं जो निहाले हो तो मुज नजरें केम आवे नहिं, सबली कानुकवात ॥
ज० ॥ ५ ॥ हेजें दरिणाही हो दांशीली दरखीने कहे, पियु गुं बोव्याजी
पोल ॥ कदिये तुम आगल हो याजमजी में फीथी नहिं, कूडी दांसी निशो
ल ॥ ज० ॥ ६ ॥ राय विमामे हो तमाने वान किमी कहे, तव राणी कुज वेम ॥
ज० ॥ ७ ॥ देव्याव्यो हो मननो संशय वारया, गिरतो उज्ज्वल केश ॥ ज० ॥ ८ ॥
दूत जगनो हो स्वामीजी ए आव्यो नही, कहेया करणनी पान ॥
दुशिषार रहेजा दां हुं आवुं हुं उतावजी, सुणि नृप चिंते विमाति
॥ ज० ॥ ९ ॥ थिक् थिक् मुजने हो में पूर्वजरीति न आवरी,
दुष्ट जोनीमांदि लीद ॥ पलीयांची पहेजा हो जे शक्ति मूकीने नीमया,
शुं नांगुं उवे जीद ॥ ज० ॥ १० ॥ राजाचिंतयति ॥ दाण सुपने न

दिन्नं चंगं, तवनियमेण न सोसियमंगं ॥ नवि पुङ्गितं नवि महण
 समञ्चो, हा हा जम्म गउं अकयञ्चो ॥ २ ॥ पूर्वढाल ॥ देखी चिंता तुर
 हो प्रीतमने पूठे पद्मिनी, पियुं शुं चिंतो ठो चित्त ॥ मनशुं लाजो ठो हो
 जरानें आवीने जाणी, पण तुमें रहोजी निश्चित ॥ ज० ॥ १० ॥ पडह
 वजडाशुं हो पुरमांहे एहवो, तुमनें कहेजो गरढाजी जेह ॥ तेहनें ते
 डावी हो शिखामण सूधी आपशुं, मोकलशुं यमगेह ॥ ज० ॥ ११ ॥
 एम न बोलीजें हो ए वयण विवेकविहीननुं, जरा अमनें शणगार ॥
 यडुक्तं ॥ अलं करोति च जरा, राजामात्यनिपग्युरुन् ॥ विडं वयति
 पण्यस्त्री, मल्लगायनसेवकान् ॥ ३ ॥ पूर्वढाल ॥ पण नवि कीधो हो यो
 वनवयमां धर्म जे, ते सुऊ शोच अपार ॥ ज० ॥ १२ ॥ हांसुं में कीधुं
 हो वालमजी सहेजें तुम्ह तणुं, मत धरजो मन खेद ॥ रंगें रमीजें हो
 रसीला लीला प्रेमनी, न करो अंतर जेद ॥ ज० ॥ १३ ॥ कहे प्रिये
 आश हो हुं तापस, वनमांहे जइ, नवि करवी हवे वार ॥ कामिनी नि
 सुणी हो मनमांहे चिंते शुं करुं, हुं एकलडी निर्धार ॥ ज० ॥ १४ ॥
 राज सोंपीने हो निज अंगजनें नृप नीसखो, चाली राणी संघात ॥
 वेहु जइ लीधी हो दीहा तापसनी नजी, ठोडी अस्थिर सवि आय ॥ ज०
 ॥ १५ ॥ गूढ जे हतो हो राणीनें गर्न समो तदा, न लह्यो तेहनोजी
 जेद ॥ दिन दिन वाथ्यो हो चिंता वाधी चित्तमां, राय सुणी लह्यो खेद
 ॥ ज० ॥ १६ ॥ कशुं कुजपतिने हो सपशुं समजावी सही, कहे मन
 करिय आलोच ॥ तापसीपासें हो सूको सचवाये सही, शो करवो हवे
 शोच ॥ ज० ॥ १७ ॥ अनुक्रमें जणीयो हो शुजलक्षण सुत सोहामणो,
 मानें हुइ अस्माधि ॥ वनमांहे वाये हो चिहुं दिशिनो शीतल वायरो,
 वार्धी अंगें हो व्याधि ॥ ज० ॥ १८ ॥ ययां सवि चिंतातुर हो तापस
 मनमां चिंतवे, केम राखीशुं ए वाल ॥ मा विण सुतनी हो कहोने चिंता
 कुण लहे, ए थयो महोदो जंजाल ॥ ज० ॥ १९ ॥ यतः ॥ गाथा ॥ बाल
 स्तमाय मरणं, नज्जा मरणं च जूवणारंजे ॥ बुद्धस्त पुत्र मरणं, तिन्निवि
 गिरुथाइं डुक्काइं ॥ ४ ॥ पूर्वढाल ॥ एहवे तिहां आव्यो हो उजेणी
 वासी चाणीयो, नामें देवधर शाह ॥ पाय लागीने हो पूठे तेहनें प्रेमशुं,
 केम तुमें रहित उत्साह ॥ ज० ॥ २० ॥ कुजपति नांखे हो जो दुःखीयो

तुं अम दुःखथी, तो लेइ जाउंजी बाल ॥ सुत लेइ चाव्यो हो व्यवहारी
 आथ्यो निजपुरे, हर्ष धरी उजमाल ॥ ज० ॥ २१ ॥ सुतने न देखे हो
 पासें मायडी मोहथी, पीडाणी असमाध ॥ काल करीने हो परलोकें ते
 पहाती तदा, मोहनी महोटी आधि ॥ ज० ॥ २२ ॥ सुत लेइ आवी हो
 सांष्यो शेतें नारीनें, नाम अमरदत्त दीध ॥ पुत्री एक तेहनें हो नामें ठे
 सुरसुंदरी, मनह मनोरथ सिद्ध ॥ ज० ॥ २३ ॥ त्रीजे ए खंमे हो ढाल
 थइ त्रीजी जली, रामविजय कहे एम ॥ पूर्वे बांध्यां हो जे रसनां
 कर्म जेणी परें, उदये आवेजी तेम ॥ ज० ॥ २४ ॥ सर्वगाथा ॥ ७ ॥ श्लोको ॥ ५ ॥

॥ दोहा ॥

॥ तेहज नयरीमां वसे, सागरजोवनो पुत्र ॥ मित्रानंद नामें जजो,
 जे राखे घरसूत्र ॥ १ ॥ मात पितानें वल्लहो, सोजागी सुविनीत ॥ अ
 मरदत्त साथें बणी, बंधाणी तस प्रीत ॥ २ ॥ गुणवंता वेदू जजा,
 अमरने मित्रानंद ॥ धनवंत सुत जाणी नमे, सहुकां धरि आनंद ॥ ३ ॥
 यतः ॥ विगुणमविगुणं वा रुवहीणं विरम्मं, जडमवि मइमंतं मंद
 सनं य सरं ॥ अकुलमविकुलीणं तं पयंपंति जोआ, नवकमलदलज्जी
 जं विलोएइ लज्जी ॥ १ ॥ वर्षकालें एक दिन, क्रीडा करवा दोय ॥
 क्षिप्रा शैवलिनी तटें, रमे अणुजिया सोय ॥ ४ ॥ कठाली उंची तदा,
 मित्रानंदें त्यांदि ॥ मोई मुहमांहे पढी, वड बांध्युं शय ज्यांदि ॥ ५ ॥ ह
 सतो मित्र बली कहे, महोदुं कांतुक एह ॥ अणचिंती ए अमोलिका,
 शयमुखमांहे पडेह ॥ ६ ॥ कोष्युं शय बलतुं नणे, मित्रानंद म फूल ॥
 ए वड बंधाज्ज सदी, मुज्ज जेम तुं मत चूल ॥ ७ ॥ वचन सुणी वि
 लखो थयो, जय लाग्यो मनमांहे ॥ दा दा इण ए गुं फलुं, रग्वे
 त्तानुं ए थाय ॥ ८ ॥ कहे अमर अपवित्र ए, थइ अमोलिका आज ॥
 खो चीजी ए माहरी, रामत रमवा काज ॥ ९ ॥ व्यय थपुं मन तेहनुं,
 बांइ आव्या फरि मेह ॥ मित्रानंदने सांजरे, क्षण क्षण शय वच तेह ॥ १० ॥

॥ ढाल बांधी ॥

॥ रसीपानी देवी ॥ रयणीयें सूता हो मित्रानंदने, नयणें न
 आवे रं क्षण एक निंद ॥ अज्ञां अहो में दांती अण जाणतां, कीवी श
 बनी रे धरि मन खेद ॥ १ ॥ सुगुण सनेदा रं दांती न कीतिये ॥ ए आंकली ॥

हृदय विमासी रे जोय सुबंधो ॥ हांसी करत विखासी नीपजे,
 निविड कर्मनो रे होवे बंधो ॥ सु० ॥ १ ॥ अरुणोदयें आवी मव्यो
 मित्रनें, पण मनमांहे उदास ते दीसे ॥ पूठे अमर कांइ दीसो डमणा,
 मित्र न ताहारुं रे सुखडुं हीसे ॥ सु० ॥ २ ॥ नयण जराइ आव्यां
 आंसुयें, सुख करमाणुं रे कमजनुं फूल ॥ अहो जीवन बंधव ए ताहरुं, आज
 कां एहवुं रे दीसे शूल ॥ सु० ॥ ४ ॥ गोप्य करी रह्यो वयण न उच्चरे, अ
 मर कहे मुज आगल जांखो ॥ तुज मुज प्रीति वनी नख मंस ज्युं, तो एवढो
 केम अंतर राखो ॥ सु० ॥ ५ ॥ वात कही मित्रानदें मित्रनें, नयण ऊरते
 रे घणुं दिलगीर ॥ निसुणी अमर कहे शव बोले नहिं, पण कोइ चा
 लो रे अमरनो वीर ॥ सु० ॥ ६ ॥ मित्र म धर मनमां कायरपणुं, साह
 सथी सवि संपद लहियें ॥ पुरुपपणुं पौरुपथी संपजे, सुख दुःख दिल
 मां रे जाणी रहियें ॥ सु० ॥ ७ ॥ उद्यम साहस ने वली धीरता, ब
 ल ने बुद्धिपराक्रम जेहने ॥ पड्गुण जे मानवमांहे वसे, देवने दानव रे गुं
 करे तेहने ॥ सु० ॥ ८ ॥ ज्ञानगर्न मंत्रीनी पूर्वे, आपद नाठी रे पुरुषा
 कारें ॥ सांजल कहुं तुज आगल ते कथा, धैर्य धरी सुणो मित्रकारे ॥
 सु० ॥ ९ ॥ एहिज जरतें चंपानयरीयें, जितरिपु राघनो मंत्री मनोहर ॥
 ज्ञानगर्न तस नारी गुणावली, सुबुद्धि तनय परनारी सहोदर ॥ सु० ॥
 ॥ १० ॥ एक दिवस राजा वेगो सजा, आव्यो नैमित्तिक एक सुखाकर ॥
 पूठे राजन् तुं शुं शुं लहे, वात कहो सुविवेक गुणाकर ॥ सु० ॥ ११ ॥ जीवि
 त मरण ने लाजालाजने, जाणुं गमागम सुख दुःख वातो ॥ राजन ए
 अष्टांग निमित्तनां, गुरु करुणाथी रे कहुं अवदातो ॥ सु० ॥ १२ ॥ राज
 न कहे महारा परिवारमां, पनर दिवसमां रे अद्भुत कोई ॥ जे थानार
 होवे ते दाखवो, चित्तमां धारी रे ग्रंथने जोई ॥ सु० ॥ १३ ॥ सुण
 नरवर मंत्रीश कुटुंब ए, कष्ट लहेजो रे बहु मरणांत ॥ राजन जन दिल
 गीर थया सुणी, एम केम जांख्युं रे एणो वृत्तांत ॥ सु० ॥ १४ ॥ ऊठयो
 मंत्रीसाथें निमित्तीयो, तेडी पूठे रे तस एकांतें ॥ कोणथी कष्ट कहे ते
 सुतथकी, एहवुं आव्युं रे मुज सिद्धांतें ॥ सु० ॥ १५ ॥ कहे मंत्री सुत
 सांजल महारुं, कहण करे जो तुं एक विचारी ॥ तो आपदथी उगरियें
 सवे, सुत कहे जांखो रे मुज निरधारी ॥ सु० ॥ १६ ॥ पुरुष प्रमाण

अणावी पेटिका, मांहे स्थापी रे जात ने पाणी ॥ सुत बेसारी मांहे
 वाहिर, तालक देऽ रे करि सहिनाणी ॥ सु० ॥ १७ ॥ राजन ए मंजूया
 माहरी, मांहे घरनां रे सार सवे ठे ॥ यत्तें राखो नृप कहे गुं करुं, तुज
 विणथन ने रे जे मुज दे ठे ॥ सु० ॥ १७ ॥ मंत्री कहे सेवकनो धर्म
 ए, कष्टें पडियो पण स्वामी न वंचे ॥ रायें रूडे स्थानक ते धरी, मंत्री
 पद्दतो रे जिनशुद्ध संचें ॥ सु० ॥ १९ ॥ करे रे अछाहि महोत्सव आदरें,
 संघने पूजे रे दान दुःखीनें ॥ पडह अमारीतणो वजढावीने, प्रणमे
 प्रेमं रे साधु रूपिनें ॥ सु० ॥ २० ॥ चिहुं दिजें सुनट रखाव्या सज क
 री, पोतें वेतो रे चैत्यने आगें ॥ दिवस पनरमे रे राय अंतेशरें, दास्ती
 बोली रे एहवे जंगे ॥ सु० ॥ २१ ॥ धाउ धाउ लोका छुउ मंत्रीनो, सुत
 राणीनी रे वेणी ग्रहीने ॥ ठेदीने अलगो नासी गयो, गुं हवे कहियें रे
 इहां कणे रहिने ॥ सु० ॥ २२ ॥ राय सुणीने कोप कलकल्यो, एणें मुज
 आणा रे पापीयें लोपी ॥ रंक रमाहुं खोजो नरे हंगी, राये रीपें रे भति
 आरोपी ॥ सु० ॥ २३ ॥ ठी तलार हणो ए सचिवने, सुन अपराधी रे
 जेहनो प्रखो ॥ दोड्या सुनट सीपाऽ सामटा, तुरत जइने मंत्री वेखो ॥
 सु० ॥ २४ ॥ कहे मंत्री मुजने नृप आगल, तुमें जेऽ जाउ रे तेषें तेम
 कीशो ॥ नृप उपरांतो रोपें थऽ रह्यो, कहे मंत्रीश्वर में गुं लीधो ॥ सु०
 ॥ २५ ॥ पेट्रीगत सवि वस्तु तुमें लीयो, राय कहे मुज नहिं धनकाम ॥
 सचिव कहे मुज प्राण ए तुज वश, हुं नवि थाउं रे खूण हराम ॥
 सु० ॥ २६ ॥ पण एक वार निहालो पेटिका, गय उवाही रे तालक
 जंजी ॥ त्रीजे खंनं चौथी दालमां, राम कहे सुणो माजन रंजी
 ॥ सु० ॥ २७ ॥ सर्वगाथा ॥ १२५ ॥ श्लोक तथा गाथा मली ॥ ६ ॥

॥ दोहा ॥

॥ वेणिवंम नामे करें, दक्षिणकरें कृपाण ॥ सुत देवे निदां सचिवनो,
 राहुको छुउं हेगन ॥ १ ॥ राय कहे मंत्री किस्युं, ने कहे नलहुं स्वामि ॥
 तुम शप ए पेटिका, में मांपी गुणयाम ॥ २ ॥ राय नलहुं थयो धणुं,
 कहे मंत्री मुज वात ॥ ने कहे कोई हेपयी, व्यंतरनां उपात ॥ ३ ॥
 नहिंता एम कंम नीपज, राख्यो पेट्रीमांदि ॥ मनसंजय जांग्यो पंगो,
 पाम्यो परम उन्माद ॥ ४ ॥ बहु सन्मान्यां सचिवने, करे पंचांग

पसाय ॥ हे मंत्रीश्वर ताहरुं, फलियुं जाग्य सहाय ॥ ५ ॥ वात लही
 देवझथी, सुतहूँती ए कष्ट ॥ राखी पेटीमां तनय, कखुं काम में इष्ट
 ॥ ६ ॥ श्रीजिनधर्मप्रचावथी, थई विघ्न उपशांति ॥ अचश टव्युं वेला
 वली, वाथी वमणी कांति ॥ ७ ॥ आव्यो एह निमित्तथी, मन वैराग्य अपा
 र ॥ सुत स्थापी निजपद विन्दे, लीथो संयमनार ॥ ८ ॥ सुगतें गया वेदू मुनि,
 साध्युं आत्म काज ॥ अमरदत्त कहे मित्र एम, व्यंतर आणो वाज ॥ ९ ॥

॥ ढाल पांचमी ॥

॥ हारें मोरा वालमा ॥ ए देशी ॥ कहे अमरदत्त सुण मित्रानंद, करणुं
 काम विमास ॥ मोरा वालमा, हारें मोरा बांधवा, हारें मोरा साजना ॥
 ए आंफणी ॥ कलिया वलीया आगलें रे जाइ, जाये व्यंतर नासी ॥ मो० ॥ १ ॥
 तुज उगारण काजें आपण, जाणुं वे परदेश ॥ मो० ॥ तुज मुज प्रीति
 वनी अति गाढी, जिहां तुं तिहां सहि देश ॥ मो० ॥ २ ॥ जाइ ठेह न
 देवो तुजने, जिहां लगें घटमां प्राण ॥ मो० ॥ शी चिंता चित्तमां धरो रे
 जाइ, मौजी तुं महेराण ॥ मो० ॥ ३ ॥ सात मगलानी प्रीतडी रे राखे,
 साजन जीवित सीम ॥ मो० ॥ नेह करी दीये नेहजो रे वालमा, मित्र
 नहिं ते गनीम ॥ मो० ॥ ४ ॥ मित्रानंद सुणी बोलीयो रे ॥ बांधवा ॥
 तुं सुकुमार शरीर ॥ मो० ॥ सुख मूकी परदेशडे रे ॥ वं० ॥ केम सहेवा
 जे पीड ॥ मो० ॥ ५ ॥ कहे अमर जे प्रीतिना रे ॥ वं० ॥ बोल्या बहु
 परे बोल ॥ मो० ॥ मुज घटमां तुज नेहलो रे ॥ वं० ॥ वेठो जेम रंगचोला ॥ मो०
 ॥ ६ ॥ ए अवसर आवी पडये रे ॥ वं० ॥ केम रहुं नेहने नाखि ॥ मो० ॥
 तुज विण सवि श्रुनुं इहां रे ॥ वं० ॥ तुं तो मोरी आंख ॥ मो० ॥ ७ ॥
 एकमना थया ते वन्ने रे ॥ वं० ॥ जुठ जुठ नेहनी वात ॥ मो० ॥ नेह
 निवेडे ते ज्ञा रे ॥ वं० ॥ जननीजाया सुजात ॥ मो० ॥ ८ ॥ काम
 पडे कूदी चले रे ॥ वं० ॥ कलिमां जूवो कुजात ॥ मो० ॥ कामवेजा आवि मजे रे
 ॥ वं० ॥ खाये मारी लात ॥ मो० ॥ ९ ॥ माखण साजन वेदुमां रे ॥ वं० ॥ सज्जन
 अति सुकुमाल ॥ मो० ॥ तापें माखण वीधरे ॥ साजनां ॥ प्रतापें ततकाल ॥
 मो० ॥ १० ॥ सोनुं सुपुरुष चंद्रना रे ॥ सा० ॥ आपण पीड खमंत ॥
 मो० ॥ कुत्र कसवटें जाणीये रे ॥ सा० ॥ पर उपकार करंत ॥ मो० ॥
 ११ ॥ हुंव कटुक तंती नीरसा रे ॥ सा० ॥ दारुक शुकुं तेम ॥ मो० ॥ सर

श्यालापे मीठडा रे ॥सा०॥ संयोगें गुण एम ॥ मो०॥ १२ ॥ जावेजुं हवे
सांनलो रे ॥सा०॥ ब्रीजे पंचमी ढाल सुजाति ॥मो०॥ रामविजय कहे रंग
जुं रे ॥सा०॥ जगमां जोड लीजें जाति ॥मो०॥ १३ ॥ सर्वगाथा ॥१४४॥६॥

॥ दोहा ॥

॥ करी विचार मनजुं खरो, चाल्या बंधव दोय ॥ ठाना मातपिता
थकी, कर्म करे सो होय ॥ १ ॥ जोतां पुर वन वाटिका, नव नव ख्याल
विनोद ॥ अनुक्रमें वेहु आविया, पाटली पुरें प्रमोद ॥ २ ॥ नाही पुष्क
रिणीजलें, पावन कीथां श्रंग ॥ पुर पेसंता पेखीयो, एक प्रासाद सुचंग
॥३॥ दंम कलश ध्वज कोरणी, सुंदर शोना तार ॥ जिनप्रासाद करावियो,
धन्य तेहनो अवतार ॥ ४ ॥ धर्मठामें धन वावरे, तो पाम्युं परमाण ॥
पामीनें ग्वरचे नहिं, तस जीव्युं अप्रमाण ॥ ५ ॥ जोतां शोना तेहनी,
अमरदत्तें एक दीठ ॥ पांचाली पायाणनी, मनहुं जाय बड्ड ॥ ६ ॥
रूप देखी रामा तणुं, चित्रें लखियुं तेह ॥ अहो अजव गति मोहनी,
मनमां लाग्यो नेह ॥ ७ ॥

॥ ढाल ठी ॥

॥ घैरागी थयो ॥ ए देशी ॥ मन लोनाणुं तेहजुं, जोड रह्यो थनि
मेष ॥ श्रंग अचयव निरखतो, नवि लाज गणंतो रेख रे ॥१॥ बंधव मा
दरा ॥ जुं थयो मूढ अजाण रे, देववर साहारा ॥ शा डंग चतुर सुजाण
रे, दीसे तादरा ॥ ए आंकणी ॥ पायाण केरी पूतली रे, दीसे ते सुंदररू
प ॥ एसांदे जुं मोहि रह्यो रे, में लणुं ताहकं रूप रे ॥ वं० ॥ २ ॥ आज
मोह्यो तुं पूतजी रे, काले मोहीश नारि ॥ तां केम पूकं ताहकं रे, में पडे
मित्र विचार रे ॥ वं० ॥ ३ ॥ परदेजें पंचें चाजहुं रे, पग पग सुंदर नारी ॥
मित्र नजर न मांमीयें रे, ए आपणां आचार रे ॥ वं० ॥ ४ ॥ तुं चाज
महाग मित्र जी रे, एक वार नगर मजार ॥ तुनें रूप जांचुं गांजरे रे, मुने
सुख लागी अपार रे ॥ वं० ॥ ५ ॥ पंच सम नदिं को जरा रे, दागि
सम नदिं कष्ट ॥ मरण नम नय को नदिं रे, वेयणा जूय अनिष्ट रे
॥ वं० ॥ ६ ॥ करे अमर सुग मित्रजी रे, में एह नवि मूकाय ॥ इहांयकी
पग अपाहनां रे, महारं मन अकताय रे ॥ वं० ॥ ७ ॥ जोड कमलत
रीसुं सुगहुं रे, एहता अचर लाज गुलाल ॥ एह नमर अघिपाजी नजी रे,

अहो छुट एहनुं जाल रे ॥ वं० ॥ ७ ॥ तुने नूख जागी वालहा रे, मुने
 नूख जागी जोइ ॥ कृण एक एहनो संग न तजूं रे, मुऊने न कहेशो कोइ
 रे ॥ वं० ॥ ८ ॥ हुं देखी मोह्यो एहनें रे, महारे ए जीवनप्राण ॥ मुण
 मित्र मनमां डःख धरे रे, ए हुउ कवण विन्नाण रे ॥ वं० ॥ १० ॥ मुऊ
 चिंता महारी वीसरी रे, ए थइ सवली पीर ॥ एम हृदय चिंतर डःख धरे रे,
 ऊरे ते नयणे नीर रे ॥ वं० ॥ ११ ॥ वेहु गाढस्वरगुं रुवे रे, सवि सांजखां
 घरवार ॥ वैरागरंगविना नहिं रे, कोइ मोहनो उपचार रे ॥ वं० ॥ १२ ॥
 तेह वेलामां आवियो रे, प्रासादकारक जेठ ॥ रोइने कांइ थाउ डःखीथा रे,
 कोण करजे तुम वेठ रे ॥ वं० ॥ १३ ॥ हुं रत्नसारान्निध जलो रे, तुमें दाख
 वो डःख मुऊ ॥ वात विण नांखे हुंते रे, केम जणाये प्रगुऊ रे ॥ वं० ॥
 १४ ॥ हवे वात कहेशे चित्तनी रे, सुणो खंम त्रीजे ढाल ॥ राम कहे पर
 डःख जंजन रे, धन्य धन्य जे उजमाल रे ॥ वं० ॥ १५ ॥ सर्वगाथा १ ६ ए श्लोक ६

॥ दोहा ॥

॥ मित्र कहे सुण तातजी, ए मुऊ मित्र अजाण ॥ गुं जाणुं एहने
 गुं थयुं, मोह्यो रूप पहाण ॥ १ ॥ जेठें समजावी कहुं, पण नवि मूके
 राग ॥ जेठ सचिंतो चिंतवे, आणी मन वैराग ॥ २ ॥ कामणगारी का
 मिनी, मोह्यो सवलो लोक ॥ सुर नर किन्नर जोलव्या, ए जग महोटी शोक
 ॥ ३ ॥ यडुकं ॥ तावन्मौनी यतिर्द्वानी, सुतपस्त्री जितेंद्रियः ॥ यावन्न चोपितां
 दृष्टि, गोचरं याति पुरुषः ॥ १ ॥ दोहो सारठी ॥ तप जप संयम ताम,
 नर साधे निरता वणां ॥ हिये न लागे जाम, नयणवाण नारी तणां
 ॥ ४ ॥ मित्रानंद कहे जेठजी, शो करगुंज उपाय ॥ कुण रमणीतुं रूप
 ए, मुऊने कहो समजाय ॥ ५ ॥

॥ ढाल सातमी ॥

॥ नयण सजूणा नंदना रे लो ॥ ए देशी ॥ जेठ कहे सुणो नाइजा रे
 लो, खरा दीसो ठो रे काहिला रे लो ॥ खबर नहिं ए अमने रे लो, कोण
 रमणी कहुं तुमनें रे लो ॥ १ ॥ अत्रे कारीगर एहनो रे लो, सोपारक
 पुर जेहनो रे लो ॥ गुर नामें सूत्रवार ठे रे लो, ते एहनो करनार ठे रे
 लो ॥ २ ॥ मित्रानंद कहे एहनी रे लो, सार करो जो देहनी रे ॥ खबर
 लेइ थावुं तही रे लो, जेठजी उत्तर थां वही रे लो ॥ ३ ॥ जेठ कहे

सुणो जाविया रे लो, परदेशी तुमें आविया रे लो ॥ आवां अमारे घेर
 प्राहुणा रे लो, मत मनमाहे राखां मणा रे लो ॥ ४ ॥ करणुं तुम्हारी
 चाकरी रे लो, जे अमथी थाजे खरी रे लो ॥ शेरें वात अंगी करी रे लो,
 अमर ने मित्र कहे फरी रे लो ॥ ५ ॥ जो तुमो आपो जी आगना रे
 लो, तो जइ जोइ आवुं अंगना रे लो ॥ अमर कहे परदेशडे रे लो, केम
 मूकाय इण वेगडे रे लो ॥ ६ ॥ तुज इःख वातज सांजली रे लो, चूकी
 जाय मोरी मागली रे लो ॥ मूकुं तुज अलगो परो रे लो, ते उंघ वैचीने
 उजागरो रे लो ॥ ७ ॥ तुजथी अलगो हुं नवि रहुं रे लो, सुख इःख वात
 फोने कहुं रे लो ॥ जेम जीवाय तेम जीवणुं रे लो, श्वास तिहां जगें शीव
 णुं रे लो ॥ ८ ॥ मित्र कहे नांख्युं खरुं रे लो, पण तुज इःख टालुं खरुं
 रे लो ॥ पण में तुज पासं रही रे लो, आरत न खमाये सही रे लो
 ॥ ९ ॥ आवीश हुं दो मासमां रे लो, मत मन पाडो विमासमां रे
 लो ॥ तुज पासं मुज जीवडो रे लो, तुं मुज हृदयनो दीवडो रे लो ॥
 १० ॥ कष्टें समजाव्यो घणुं रे लो, हा कही मन करी दूमणुं रे लो ॥
 अमरने सोंपी शेठने रे लो, पोतें चव्यो पुर ठेठने रे लो ॥ ११ ॥ जुडं प्रीति
 ए आकरी रे लो, परदेशमां एम चाकरी रे लो ॥ प्रीति ए बंदर दीवनुं रे
 लो, प्रीति परम सुख जीवनुं रे लो ॥ १२ ॥ पद्दांतां तेह सोपारके रे
 लो, पूढंतो फरि घर पारके रे लो ॥ हुंढता शूरने सांजव्यो रे लो, चिंते
 मनोअय सहि फव्यो रे लो ॥ १३ ॥ कग्नी वैची मुड्डी रे लो, वैश
 अयज शिर पावडी रे लो ॥ गठ बनायो दीपतो रे लो, देवकूमरने
 तीपतो रे लो ॥ १४ ॥ आव्यो रे अलट आपणो रे लो, शूर सुतारने
 आंगणो रे लो ॥ उठीने ते जलो थयो रे लो, नान आठ पग साहामो
 गयो रे लो ॥ १५ ॥ नाग्य जे राज पधारीया रे लो, काज कहां उपगा
 रीया रे लो ॥ मित्र कहे हवे आदरे रे लो, देवकृज काज ने मादरे रे
 लो ॥ १६ ॥ नुर्म कोइ ताम कागिरी रे लो, करी होय तो कडो ने खरी
 रे लो ॥ कहे फारीगर तानमां रे लो, पामलीपुर अद्यानमां रे लो ॥
 १७ ॥ देवज में कणुं मोदतुं रे लो, देव दानव मन मोदतुं रे लो ॥
 शैहं दोशे तुमें सादरे रे लो, कूमर कहे दा सांजरे रे लो ॥ १८ ॥ पण
 निहां एक पंचाजिफा रे लो, सुपड पडी ए कोनी वाजिफा रे लो ॥

शूर कहे महसेननी रे लो, पुत्र अवंतीना ईशनी रे लो ॥ १९ ॥ रत्न
मंजरी कुंवरी जली रे लो, तस अनुसारें करी पूतली रे ॥ सुणी कहे अ
म इष्टा घणी रे लो, देवकुल मंभावा तणी रे लो ॥ २० ॥ अक्सर तुम
ने तेडावशुं रे लो, एम कही चाव्यो स्वजावशुं रे लो ॥ हर्ष धरीने आवी
यो रे लो, नयरि अवंती मन जावियो रे लो ॥ २१ ॥ सांजलो साहस
वारता रे लो, जे इहां नीपजशे कथा रे लो ॥ त्रीजे खमें ढाल सातमी रे
लो, साजन जन मन संक्रमी रे लो ॥ २२ ॥ सर्वगाथा ॥ १९६ ॥ श्लोक ७
॥ दोहा ॥

॥ संध्या समयें आवियो, नयरि अवंती मजार ॥ पोलतणी रखवा
जिका, देवीनें दरवार ॥ १ ॥ पंथीडा देवल शरण, के सरोवरनी पाल ॥
पंथी कोइ दयामणा, जेम जेम पडे विचाल ॥ २ ॥ मनमांहे चिंते माह
रा, बंधवनुं जो काम ॥ थाये तो सूधी रहे, माहारी महोटी माम ॥ ३ ॥
इण अक्सरें तिहां वाजतो, पडहो आव्यो एक ॥ पूठे दौवारिक प्रत्यें, पड
ह तणो शुं विवेक ॥ ४ ॥ ते कहे सांजल पंथीया, ए नगरीनी वात ॥
मारीपराजव ठे घणो, तिणो न रहे शत्र रात ॥ ५ ॥ ईश्वरशेठ तणो
जनक, सांज समे परलोक ॥ पहोतो पोल जडी तदा, मनमांहे धरि
शोक ॥ ६ ॥ शवनें राखे रात्रिमां, साहसिक शिरदार ॥ देउं सहस
दीनार तस, पडह तणो ए विचार ॥ ७ ॥ मित्रानंद मन चिंतवे, धन
विण काज न होय ॥ तिण कारण अंगी करुं, अक्सर एहवो जोय ॥ ८ ॥
॥ ढाल आठमी ॥

॥ देशी अलवेजानी ॥ मित्रानंद कहे माहरे रे लाल, खोजे घालां
धन ॥ मन मान्या रे ॥ चार पहोर रयणी तणा रे लाल, शवनां करे
यतन्न ॥ म० ॥ १ ॥ साहसथी सवि तंपजे रे लाल, साहसगुणनुं गे
ह ॥ म० ॥ कानें कुंमल रयणमय रे लाल, आंखे आंजण रेह ॥ म०
॥ सा० ॥ २ ॥ आगलथी तस आपीयुं रे लाल, ईश्वरें नाणुं आय ॥ म० ॥
धैर्य धरी शत्र साचवे रे लाल, मित्रानंद निरावाध ॥ म० ॥ सा० ॥ ३ ॥
नूत पिशाच घणां तिहां रे लाल, प्रगट्यां रयणमजार ॥ म० ॥ दाकदंती
रहे वेगलां रे लाल, न चले कोइतो चार ॥ म० ॥ सा० ॥ ४ ॥ कायरनें
करहे सहुरे लाल, न हणो धींगनें कोय ॥ म० ॥ बलि न दीयेवलीचा तणो

रे लाल, यागें जगमां कांय ॥म०॥ सा० ॥ ५ ॥ रघुणी गइ रवि जगीचो रे
 लाल, शवनों कयों संस्कार ॥म०॥ शेष रतुं जाहुं न दे रे लाल, ईश्वर खल
 शिरदार ॥ म० ॥ सा० ॥ ६ ॥ मित्रानंद कहे जो हजो रे लाल, एणें नगरी
 कोइ राय ॥म०॥ तो माहुरं रहेजे नही रे लाल, जेणुं हाक वजाय ॥म०
 ॥ सा० ॥ ७ ॥ ऊठी चाव्यो चहूवटे रे लाल, सत्यदाता रे सार ॥म०॥ उप्रट
 वेश वनाचीयो रे लाल, गयो गणिका घर वार ॥ म० ॥ सा० ॥ ८ ॥ तिलक
 मंजरी उनी थइ रे लाल, दीधूं बहु सन्मान ॥म०॥ आप्युं आसनवेसवा
 रे लाल, उनी जोडी पाण ॥म०॥सा०॥९॥ राज पधाखा आंगणो रे लाल,
 आज फली मोरी आश ॥म०॥ खीजमत करजे ए सुता रे लाल, वसंतति
 लका खार ॥म०॥सा०॥१०॥ आयो मंदिर माहुरे रे लाल, साची सुरतरु
 जेम ॥ म० ॥ रंगें रमो इण मालिये रे लाल, जेम मन माने तेम ॥म०॥
 सा०॥ ११ ॥ आपे मनमोदें करी रे लाल, चारजों तस दीनार ॥म०॥ धन
 देवरी रीती घणुं रे लाल, धन मोहन संसार ॥ म० ॥ १२ ॥ नक्ति युक्ति
 कीधी नली रे लाल, ढाली सुंदर सेज ॥ म० ॥ पुत्री पासें भोकली रे लाल,
 सांक तमय धरि हेज ॥म०॥सा०॥१३॥ ऊनी आगज आवीने रे लाल,
 सुररमणी अनुहार ॥म०॥ मधुरस्वरें बोले दसरी रे लाल, मानिनी करे मनो
 द्वार ॥ म० ॥ सा० ॥ १४ ॥ नयणविलामें चालवे रे लाल, सुर नर अमु
 रनां चित्त ॥ म० ॥ नज जोलाव्या जामिनी रे लाल, ले हरी तन मन वित्त
 ॥ म० ॥सा०॥१५॥ जोर करी सुवती घणां रे लाल, नाखे नयननां वाण
 ॥ म० ॥ पण कुंवर जेदे नहिं रे लाल, चिंते एम सुजाण ॥ म० ॥ सा० ॥
 ॥१६॥ विषयानंगें वाडीयां रे लाल, काम न थाये सिद्ध ॥म०॥ मन गण्युं
 दृष्टकी घणुं रे लाल, कहे उजर भरि बुद्धि ॥म०॥ सा० ॥ १७ ॥ समरण
 करहुं माहुरे रे लाल, जानां आयन एक ॥ म० ॥ सोयनपट मांमयां तिदां
 रे लाल, वेतां तिदां गुनिनेक ॥ म० ॥ सा० ॥ १८ ॥ आंढण उंदी कपरे
 रे लाल, वेतां जपना जाप ॥म०॥ जाय देखाडे जामिनी रे लाल, पण नहि
 मोलां आप ॥ म० ॥ सा० ॥१९॥ एम रघुणी बोली गइ रे लाल, प्रमदा
 दूइ निगम ॥ म० ॥ धन्य ने जनमां माहुरी रे लाल, न पडे रमणीपाश
 ॥ म० ॥ सा० ॥२०॥ जाल जणी ए आवनी रे लाल, वीजे रंगें रमान
 ॥म०॥ रामविजय कहे सांजलो रे लाल, आगज थइ उजमाला ॥म०॥सा०॥२१

॥ दोहा ॥

॥ मा आगल पुत्री कहे, रात तणो विरतंत ॥ मुऊ सामुं जाव्युं नहिं,
ध्यान धरुं एकांत ॥ १ ॥ कहे अक्का जलट धरी, पुत्री एह रतन्न ॥ जटप
ट मांमी बश करो, एहनां घणां यतन्न ॥ २ ॥ बीजे दिन तिमहिज कहुं,
पण नवि लोन्यो तेह ॥ अक्का रीपाणी कहे, श्यो पाखंन नित्य एह ॥
३ ॥ राजकुमरने जेहनुं, दरिसण देवहुजंन ॥ ए मुऊ तनुजा उतरी, स्व
गंधकी मनु रंन ॥ ४ ॥ ते साहामुं निरखो नहिं, शीतुम मनमां आश ॥
मन लूखी वातो करी, किम थइ रह्या उदास ॥ ५ ॥

॥ ढाल नवमी ॥

॥ वाले वेपें वावरी नानी ॥ ए देशी ॥ कुमर कहे सवि रूडुं आशे, जे तुमें
कहेशो ते करहुं रे ॥ पण पूहुं ते वात प्रकासो, बोलथकी नवि फरहुं ॥
१ ॥ सोहागण जांखोने, तुमें नृपकुमरीनें जाणो के, ना मुऊ दाखो ने ॥
ए आंकणी ॥ ते साथें एक काम ठे माहरे, कागलीयो ठे देवो रे ॥ कांइ
क संदेशो जांखीनें, पाठो पशुत्तर लेवो ॥ सो० ॥ २ ॥ कहे अक्का मुऊ
पुत्री साथें, तेहने प्रीति ठे जाजी रे ॥ कहो ते वात कहीनें आहुं, ए
कामें हुं राजी ॥ ३ ॥ कुमरजी जांखोनें ॥ अम साथें जीवनजी आज,
अंतर मत राखोने ॥ ए आंकणी ॥ ते आगल जइने एम कहेहुं, गुण जेह
ना सुणि उद्वसी रे ॥ तें जेहने कागल लखीयो तस, आव्यो मित्र ठे
मिलशी ॥ कु० ॥ ४ ॥ अक्का राजकुमरीनी पासें, आवे राग धरीने रे ॥
कन्यायें आदर देइ बोलावी, बोले प्रीति करीने ॥ कु० ॥ ५ ॥ तुऊ वाले
सरनो संदेशो, हुं कहेवाने आवी रे ॥ विस्मित राजकन्या मन चिंते, एहुं
बोले चावी ॥ सो० ॥ ६ ॥ कुण मुऊ वद्वन कुमरी जांखे, तव अक्का तिहां
बोली रे ॥ मित्रानदें कहाव्युं सघहुं, जांख्युं मनहुं खोजी ॥ सो० ॥ ७ ॥
कुमरी विमासे हुं कोण ते कोण, नाम अमरदत्त जेहहुं रे ॥ पण कांइ
कूडी रचना दीसे, ठाम न जाणुं तेहहुं ॥ सो० ॥ ८ ॥ पण जेणे कूड
रचना कीधी, तेहने नजरें निहालुं रे ॥ एम विमानि अक्काने जांखे, वारू
वचण रसाहुं ॥ सो० ॥ ९ ॥ जेणे मुऊ वद्वन वात प्रकासी, तेहनें तेडी
जावो रे ॥ गोंख तणे मार्गे रंगीलो, माहरे तेदहुं दावो ॥ सो० ॥ १० ॥
सुणी हरखी अक्का गइ गेहें, वात कुमरहुं कीधी रे ॥ रात समे नेडी

कुंवरने, आवी गोंखे सीधी ॥ सो० ॥ ११ ॥ वप्रवलय जिहां सात विरा
जे, राजमंदिर अति रुडुं रे ॥ तिहां ए कन्यामंदिर सुंदर, दीप्ते मोरनुं इंहुं
॥ सो० ॥ १२ ॥ तेहने गोंख अत्रे मनमोहन, इहां जो तुमधी जवाये
रे ॥ तो वहेजा जावो मनांवांठित, कारिज सहेजे थाये ॥ सो० ॥ १३ ॥
कुट्टिनीने बोलावी वलतो, छुवंग परें देइ फाल रे ॥ राज खुवनना कोट
उजंघी, पहतो जइ ततकाल ॥ सो० ॥ १४ ॥ चिंते अक्का कोइ अतुल व
ल, पुरुपप्रधान ए दीप्ते रे ॥ एम चिंतवती गेहें आवी, धरती हियडे
जगीश ॥ सो० ॥ १५ ॥ कन्यामंदिर आव्यो कुंवर, देखीने विस्मय
पामी रे ॥ कोइ सबल शूरीनो जायो, नहिं बलमांहे खामी ॥ सो० ॥
१६ ॥ निडा कपट करीने सूती, तस चर्याने धारे रे ॥ निडावश देखी
नामांकित, कंकण करनुं उतारे ॥ सो० ॥ १७ ॥ तुरिका लेइ दक्षिण
जंघें, त्रण करी तेणें रेख रे ॥ जेम आव्यो तेम पाठो वलियो, हियडे हर्ष
अलेख ॥ सो० ॥ १८ ॥ कुमर ते नहिं सामान्य ए, पण में जावा दीधो
रे ॥ माही हती पण सबली चूकी, नवि बोलाव्यो सीधो ॥ सो० ॥
१९ ॥ मित्रानंद जई देवकुलमां, रातें सुखमां सूतो रे ॥ कुमरी नयणधी
निडा नाठी, दिल तेमांहे सूतो ॥ सो० ॥ २० ॥ आवे उंच करावे सब
ली, धये प्रजातें जाग्यो रे ॥ हीसे हृषे धरि हियडामां, पास्तो पढयो मुह
माग्यो ॥ सो० ॥ २१ ॥ व्रीजे नवं नवमी ढालें, वातरत्तिक सुणो साची
रे ॥ रामविजय कहे मित्रता न कही, काम पडे जे काची ॥ सो० ॥ २२ ॥ २५ ॥

॥ दोहा ॥

चिंते मित्रानंद ते, अर्थदाम अवज्ञेय ॥ ईश्वर मुज दीधा नहिं, पण लेवा
मीन न मेय ॥ १ ॥ जुवो ते वग मुजने मव्यो, जांग्या जेणें मुज दाम ॥
पण दरवारें जाइनें, करवुं ए में काम ॥ २ ॥ चिंती चव्यो उतावलो, आ
व्यो राज छुवार ॥ रुदन करे महोटे स्वरें, उजो ते दरवार ॥ ३ ॥
गय सुणी तेडावियो, कां एम गडे अपार ॥ न्याय नहिं इण नवरीचें,
मुज धृत्यो निर्धार ॥ ४ ॥

॥ डाल दजमी ॥

॥ कर्म परीक्षा करण कुमर चव्यो रे ॥ ए देत्री ॥ कहे राजा सुण पंथी
वापडा रे, केम स्वे ते आम ॥ गुं धृतीने लीधुं ताहहं रे, कहे मुज तेहहुं

नाम ॥ १ ॥ सुण राजेश्वर माहरी विनति रे, कहुं तुम आगल वाच ॥
 मात पिता नृप देव गुरु आगलें रे, नित्यें जांखवुं साच ॥ सु० ॥ १ ॥
 लोकपाल ताहरी नवि लेखवी रे, आणा जेणें उतार ॥ देश तणो इहां
 ईश्वर वाणीयो रे, ते सबलो धूतार ॥ सु० ॥ २ ॥ राख्युं रातें तेहना ता
 तनुं रे, मडडें में माहाराज ॥ जांग्युं अरधूं जाहुं माहर्ं रे, वैद्य वैरी हुवे
 काज ॥ सु० ॥ ४ ॥ हुकम करो आरक्तक नर जणी रे, बांधी आणो
 आज ॥ दीयो शिखामण सूधी तेहने रे, जिए लोपी मुज लाज ॥ सु० ॥
 ५ ॥ तेहवे निसुण्युं तेणे वाणीये रे, फरीयादी हुव तेह ॥ लेइ दीनारनें
 दोडी आचीयो रे, साहमो नृपनें गेह ॥ सु० ॥ ६ ॥ आप्या हाथोहाय
 तेहने रे, कहे नृपने कर जोडि ॥ ते दिवसें कारजनी व्यग्रता रे, नापि
 शक्यो ए खोड ॥ सु० ॥ ७ ॥ दिवस वे त्रण लगें लोकाचारमां रे, वी
 त्या ए मुज वांक ॥ लोक सहु कहे साहुकारमां रे, आडो वाव्यो आंक
 ॥ सु० ॥ ८ ॥ रायें खुशाज अइ बोलावीयो रे, ते पहतो निज घेर ॥
 नृप पूठे तव मित्रानंदने रे, शव राख्युं शी पेर ॥ सु० ॥ ९ ॥ कहे स्वामी
 सुण ते रयणी समे रे, शव रक्षणेन हेत ॥ वेगो वुरिका लेइ हाथमां रे,
 प्रथम प्रहरसंकेत ॥ सु० ॥ १० ॥ दारुण फेरी विरव तव सांजव्यो रे,
 जिए फूटे ब्रह्मांम ॥ प्रगटी पिंगलरोम शियालिणी रे, हुं रह्यो धीर अखं
 म ॥ सु० ॥ ११ ॥ बीजे प्रहरें प्रगटी राक्षसी रे कृष्णवर्ण अति घोर ॥
 मुज पासें वीटाणां चिहुं दिज्ञें रे, पण न चव्यो तस शोर ॥ सु० ॥
 १२ ॥ बीजे प्रहरे आवी शाकिनी रे, रे रे कुण तुं रंक ॥ में हांकी उगं
 की ते गई रे, जाणुं कोइ त्रिवंक ॥ सु० ॥ १३ ॥ चोये यामें वस्त्रवि
 नूपिता रे, दिव्याचरण अमूल ॥ तूटे केगें कर काठी ग्रही रे, धीरज मेले
 थूल ॥ सु० ॥ १४ ॥ में मन जाण्युं ए मारी सही रे, जेहनो पुरमां
 सोर ॥ वुरिका लेइ हुं साहमो धम्यो रे, करणुं गाही जोर ॥ सु० ॥
 १५ ॥ नातण लागी कर ठोडाविने रे, तस कंकण मुज हाथ ॥ आव्यो
 त्रण रेखा जांवे करी रे, वुरिकायें में नाथ ॥ सु० ॥ १६ ॥ नाठी सू
 रज उग्यो एहवे रे, हुं आव्यो तुम पास ॥ वचन सुणी अचरिजनुं
 राजीयो रे, बोव्यो चित्त विमास ॥ सु० ॥ १७ ॥ वीर पुरुष मुज वेखा
 डो तुमो रे, कंकण देवीनुं मित ॥ निजनामांकित देखीनें तदा रे, राय

॥ कुमरजी ॥ मंदिर आव्या माहरे, महेर करी माहाराज ॥ कु० ॥ १ ॥
 वात कहो मुज मन तणी ॥ ए आंकणी ॥ राते आव्या तुमें रंगशुं, वल फोरवि
 आवास ॥ कु० ॥ कंकण लीधुं माहरे, काम कीधुं ए खास ॥ कु० ॥ वा० ॥ २ ॥
 मत जाणो उंधी हती, हुं कपटे रही एम ॥ कु० ॥ पण परमंदिर पेशी
 ने, काम कखुं ए केम ॥ कु० ॥ वा० ॥ ३ ॥ जडे में तुजने दियो, कूडो
 एह कलंक ॥ कु० ॥ दोष सहु ए माहरो, तु सूधी निकलंक ॥ रसीली ॥ वा० ॥ ४ ॥
 राजा आपणे तुज नणी, महारे हाथ सुजाण ॥ रसीली ॥ जो तुजने
 गमतुं होवे, तो लेइ जाचं ठाण ॥ २० ॥ वा० ॥ ५ ॥ जो न रुचे तो
 तुजने, करुं निकलंक सनूर ॥ २० ॥ कहो मुज ए वेहु वातमां, गमती
 पुण्यपमूर ॥ २० ॥ वा० ॥ ६ ॥ सांजली कन्या चितवे, तजुण रंजी
 तोर ॥ २० ॥ प्रेम अरुत्रिम एहनो, मुज ऊपर अति जोर ॥ २० ॥ वा०
 ॥ ७ ॥ अंगीकरीयें डुःखने, पण नवि मूकुं एह ॥ २० ॥ राजजाच सोह
 लो कह्यो, डुजहो साजन नेह ॥ २० ॥ वा० ॥ ८ ॥ वलतुं वोले सुंदरी,
 सुनग सुणो अरदास ॥ कु० ॥ प्राण ए आधीन ताहरे, जिहां तुं तिहां
 मुज वास ॥ कु० ॥ वा० ॥ ९ ॥ सिद्ध मनोरथ ते कहे, जडे ए अथधार
 ॥ २० ॥ तुज शिर जल ठांटं यदा, तव मूके फिटकार ॥ २० ॥ वा०
 ॥ १० ॥ ते पण कुमरीयें आदखुं, अहो अहो मोहनो वंध ॥ कु० ॥ नेह
 सहे एम डुःखडां, जगमां ए महोटो धंध ॥ कु० ॥ वा० ॥ ११ ॥
 रायसमीपे आवीयो, कहे कुमरी मुज साथ्य ॥ राजनजी ॥ कहे नृप
 हवे कतावला, काढो एह असाथ्य ॥ साजनजी ॥ वा० ॥ १२ ॥
 वाहन आणो एहवुं, जाय निशा परदेश ॥ २० ॥ जो वचें सूरज कगरो,
 तो आवरो फरि देश ॥ २० ॥ वा० ॥ १३ ॥ राजा जय पाम्यो घणो,
 वायुवेगा इण नाम ॥ २० ॥ जातीजी वडवा दिये, असवारीने काम ॥
 २० ॥ वा० ॥ १४ ॥ संध्या समयें नृपमुत्ता, आणी केशें जालि ॥
 २० ॥ नृपआदेशें सेवकें, सोंधी तेहने तत्काल ॥ २० ॥ वा० ॥ १५ ॥
 सरशव ठांटे तेहने, सामोकरे फिटकार ॥ २० ॥ जय पाम्यो नरवर तिहां,
 भूजे थंग अपार ॥ २० ॥ वा० ॥ १६ ॥ गाढस्वरें हांकी तिहां,
 साथें शांत स्वभाव ॥ २० ॥ मंत्रशक्ति कोइ आकरी, सबलो एहनो
 प्रभाव ॥ २० ॥ वा० ॥ १७ ॥ शान करे राजा तिहां, एह न अचली

धात ॥ २० ॥ बाह्याली पण वैरिणी अई, सबली कर्मनी वात ॥ २० ॥
 वा० ॥ १८ ॥ बडवा उपर हाथगुं, बेसारी ते वाज ॥ २० ॥ साथ संप्रे
 डण चालियो, पोल सुधी नृपाल ॥ २० ॥ वा० ॥ १९ ॥ हवे चाव्यो लेइ
 चोंपगुं, मित्रानंद कुमार ॥ २० ॥ मनमांहे चिंते माहरो, सफल थयो
 अवतार ॥ २० ॥ वा० ॥ २० ॥ बडवा चाले उतावली, सा कहे बेसो
 आवि ॥ कु० ॥ कुमर कहे सीम लंघीने, बेशिश दिल तुं जाव ॥ २० ॥
 वा० ॥ २१ ॥ कृण एक पडखी कुंवरी, लंघी देशनी सीम ॥ २० ॥ फरि
 कहे बेसो इहां हवे, केम लेई रह्या नीम ॥ कु० ॥ वा० ॥ २२ ॥ कुमरी
 कहे कारण जे अठे, प्रकासो हवे तेह ॥ कु० ॥ अंतर में राख्यो नहिं,
 तो शियो पटंतर एह ॥ कु० ॥ वा० ॥ २३ ॥ में तुमनें आण्यां सही,
 मूकावी कुलजाज ॥ नाजी जी ॥ मुज अर्थें मत जाणजो, जाइ अमर
 दत्त काज ॥ २० ॥ वा० ॥ २४ ॥ वात समय कही तिहां, मित्रानंद
 उदार ॥ जा० ॥ मत चिंता करजो मनें, करगुं घणी मनोहार ॥ जा० ॥
 वा० ॥ २५ ॥ तेमाटें एक आसनें, बेसवुं न घटे मुज ॥ जा० ॥ वात
 सुणी विस्मित थइ, समजी सवळुं गुव ॥ जा० ॥ वा० ॥ २६ ॥ मृग
 नयणी मन चिंतवे, अहो अहो पुरुपरतन्न ॥ देवरजी ॥ जाग्यें मय्यो
 मुजने सही, उत्तम एहनुं जतन्न ॥ कु० ॥ वा० ॥ २७ ॥ जे तरुणीनें
 कारणें, मात पिता बली वंधु ॥ कु० ॥ वंचीने वांठे कामने, पुरुष घणा
 कामंध ॥ कु० ॥ वा० ॥ २८ ॥ बूक न देखे दिवसमां, रात न देखे का
 क ॥ कु० ॥ कामी न देखे अहोनिशं, चीकणो विषयनो वांक ॥ कु० ॥
 वा० ॥ २९ ॥ मनोहर रूप ए माहरुं, नरयोवन ए वेप ॥ कु० ॥ देखे
 पण मोले नहिं, हुं जइ पाय पडेश ॥ कु० ॥ वा० ॥ ३० ॥ स्वार्थें
 सहु को दुःख सहै, पण परमारथ कोय ॥ कु० ॥ परदुःखें दुःखीया
 होये, ते जग विरला जोय ॥ कु० ॥ वा० ॥ ३१ ॥ यतः ॥ विरला जा
 णांति गुणाः ० ॥ १ ॥ धन धन ए जग प्रीतडी, जेहवी दूध ने नीर ॥
 ॥ कु० ॥ आप ठतां निज वंधुने, उपजावे नहिं पीर ॥ कु० ॥ वा० ॥
 ॥ ३२ ॥ चडुक्तं ॥ क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा इत्ताः पुरा तेऽखिलाः,
 क्षीरे तापमवेक्ष्य तेन पयसा ह्यात्मा रुशानो द्रुतः ॥ गंतुं पावकमुन्म
 नास्तद्वनवदृष्ट्वा तु मित्रापदं, युक्तं तेन जलेन शाम्यति पुनर्मत्री सतामी

दृशी ॥ ३ ॥ पूर्वढाल ॥ वात करे मनमोदशुं, धन धन मुज अवतार ॥
 ॥ कु० ॥ जे तुमें मुज आवी मव्या, ते त्रूठयो किरतार ॥ कु० ॥
 वा० ॥ ३३ ॥ रत्नमंजरी साथे हवे, चालतां अनुक्रमे सोय ॥ कु० ॥
 पामलीपुर निरख्युं तिहां, नयणां हर्षित होय ॥ कु० ॥ वा० ॥ ३४ ॥
 त्रीजे खंमे अग्यारमी, रामविजय कही ढाल ॥ रंगीली ॥ अमर तणो हवे
 हर्षे शुं, सुणो संबंध रसाल ॥ रं० ॥ वा० ॥ ३५ ॥ सर्व गाथा ॥ ३५ ॥ श्लोक ॥ ए ॥
 ॥ दोहा ॥

॥ अमरदत्ते इण अवसरें, प्रतिदिन जोई वाट ॥ पण वंधव आव्यो
 नहिं, मनमां सबल उच्चाट ॥ १ ॥ चिंते चित्तमां माहरो, मित्र गयो पर
 देश ॥ कागल कोइ आव्यो नहिं, वली नाव्यो संदेश ॥ २ ॥ हा हा गुं
 होजे थयुं, नाव्यो मित्र अमूल्य ॥ वेठा में पेदा कखुं, पेटनें मशली शूल
 ॥ ३ ॥ हुं जेहवो मूरख नहिं, जगमां को वे शुद्ध ॥ आगलबुद्धि कुल
 उपन्यो, पण थयो पाठलबुद्धि ॥ ४ ॥ जोप तुमें जुठ जोपिया, आवे
 किवारें मित्र ॥ आज काल सहु एम कहे, पण न पडे खरि रीत ॥ ५ ॥
 मास दोय पूरा हुवा, रत्नसारनें आम ॥ अमर कहे हवे माहरे, जीव्या
 नुं नहिं काम ॥ ६ ॥ शेठ कहे वत्स शुं कहुं, तुजने वयण अनिष्ट ॥
 वहेलो मजगे ताहरो, मित्रानंद अनीष्ट ॥ ७ ॥

॥ ढाल वारमी ॥

॥ राउल कहे उजी रहो ॥ ए देशी ॥ अमर कहे सुण तातजी, मुज
 मित्र न आव्यो ॥ पूठया पंथें पंथीया, पण केणें न वताव्यो ॥ अम० ॥
 ए आंकणी ॥ १ ॥ शुं ते राह नूव्यो हजे, किहां नो क्याहिं जाजे ॥ मं
 द्विर मारा प्रेमनो, मन घणुं अकलाजे ॥ अ० ॥ १ ॥ में सुखकारण सूकीयो,
 दुःख लीधुं उदेरी ॥ ते मुज काजें विदेशमां, देतो हजे फेरी ॥ अ० ॥ ३ ॥
 स्वार्थ कीधो वालहां, पण मित्र न कीधो ॥ पण ए देव ते पाधरो, व
 मणो दुःख दीधो ॥ अ० ॥ ४ ॥ नीसखो हुं जस दुःखना, वीसारण मा
 टें ॥ साहमो पाव्यो ते मित्रने, सबलें उच्चाटें ॥ अ० ॥ ५ ॥ हवे वहेजी
 विरचो चित्ता, काष्ट नरूप करवुं ॥ मुज माटें मूठ ते सही, माहरे पण
 मखुं ॥ अ० ॥ ६ ॥ शेठें घणी ना ना कही, हवीयें दव लीधो ॥ अति
 आयह देखी करी, तव आकंद कीधो ॥ अ० ॥ ७ ॥ लोक मल्यां बहुलां

तिहां, सद्गुण एम वारे ॥ पण राख्यो न रहे किमे, कुंवर ते तिवारें ॥
 अ० ॥ ७ ॥ वनमांहे काष्ठचिता रची, बहु नागर सार्यें ॥ चाव्यो चिता
 पासें आकरो, जाव्यो न रहे वार्यें ॥ अ० ॥ ८ ॥ लोक कहे आज अवधि
 नो, ठेळो दिन रहींने ॥ कालें पठी करजो तुमें; जाणो तिम वहीने ॥
 अ० ॥ ९ ॥ मान्युं कहण ए लोकनुं, हरख्यो सद्गु कोई ॥ ते वेदू जण
 आवतां, रह्यां तिण दिशें जोइ ॥ अ० ॥ १० ॥ मित्रानंद उतावलो,
 आव्यो तेनी पासें ॥ लोक कहे कोइ पंथीडो, धश्यो आवे उल्लासें ॥ अ०
 ॥ ११ ॥ अमर सुणी साहसुं जुवे, दीठो अलगेथी ॥ चाल दीसे माहरा
 मित्रनी, के होजे कोइ पंथी ॥ अ० ॥ १२ ॥ क्यांथी आवे ते वालहो,
 जोईतो आज ॥ ऊवक नजिक आव्यो जिस्यो, निरख्यो सवि साज ॥
 अ० ॥ १३ ॥ उलखी सामो आवीयो, वेदु वंधव मलीया ॥ घणा दिव
 सरा विरहरा, आंसू तव गलीयां ॥ अ० ॥ १४ ॥ अहो वंधव तें आवतें,
 मुऊ जीवतो राख्यो ॥ तुऊ दीठे डुःखपुंज ए, सवि अलगो नाख्यो ॥
 अ० ॥ १५ ॥ कहे मित्रानंद वांधवा, जोवो ए सारी ॥ रत्नमंजरी ला
 वियो, चित्त चोरणहारी ॥ अ० ॥ १६ ॥ अमर कहे तें साचलुं, तुऊ
 नाम निपायुं ॥ मित्रनें आनंद जेहथी, मित्रानंद गाथुं ॥ अ० ॥ १७ ॥
 लोक कहे एहनां रूपनें, मोह्यो ते न्यायी ॥ मधुकर मालती मोहियो,
 नवि वावल जाइ ॥ अ० ॥ १८ ॥ पुण्य उदय ययो वारमी, ठालें सुणो
 लोका ॥ रामविजय कहे सांजजो, हवे पुण्यशलोका ॥ अ० ॥ १९ ॥ २० ॥ २५ ॥

॥ दोहा ॥

॥ सद्गुणे आनंद उपन्यो, देखी अचरिज वात ॥ मित्र मळ्यो विरहो
 टळ्यो, रोम रोम सुखशात ॥ १ ॥ तिहां उदाह थया पठी, अमररुप
 तिण वेल ॥ नाग्य जोगें जे नीपन्युं, ते निसुणो मन मेल ॥ २ ॥ तेह
 नयरनो राजीयो, अपुत्रीयो तिण काल ॥ मरण लह्यो मंत्रो प्रमुख, करे
 राज्यनी चाल ॥ ३ ॥ पंच दिव्य अधिवासीयां, मळ्यां लोकनां वृंद ॥
 केइ हवे केई हसे, महामोहनो फंद ॥ ४ ॥ त्रिक चतुष्कनें चाचरे, वेळ
 बहु गुणवंत ॥ हस्ती हींमे हर्षेणुं, चिदुं पासें निरखंत ॥ ५ ॥ अज
 जाये जे साहसुं, तव ते दिशिनां लोक ॥ निरखे गज हरखी हिचे,
 जेम सूरजन कोक ॥ ६ ॥

॥ ढाल तेरमी ॥

॥ कहो कुण ए आवे ठे ॥ ए देशी ॥ पुरबाहिर गज आवियो, अतु लीबल मलपंतो रे ॥ लोक मव्यां जिहां सामटां, तिहां आवे उलसंतो रे ॥ १ ॥ अहो अहो पुण्यनी प्रबलता, पुण्यथकी दुःख नासे रे ॥ पुण्ये सुर नर संपदा, आवे सघली पासें रे ॥ अ० ॥ २ ॥ बंधव वेदु जोडें रह्या, साह सीया शिरदारो रे ॥ सिंहपरें साहमा थया, गज आव्यो तिण ठारो रे ॥ ॥ अ० ॥ ३ ॥ अमर कुमर शिर ऊपरें, ढाव्यो कलश सुचंगो रे ॥ करे ग ललाट ए हर्षनो, हेपा ताम तुरंगो रे ॥ अ० ॥ ४ ॥ आतपवारण शिर थयुं, चामर तिहां विंजाणां रे ॥ वाजां वाजित्र रंगनां, धवल मंगल मंजा णां रे ॥ अ० ॥ ५ ॥ ऊपाडी निजकुंडथी, गज आरोपे खंधें रे ॥ राज लह्युं अण चिंतव्युं, मागध गाये प्रबंधें रे ॥ अ० ॥ ६ ॥ चिरंजीवो तुमैं राजीया, कोडा कोडी वर्षो रे ॥ कर जोडी आवी नमे, राजकुली ठत्रीशो रे ॥ अ० ॥ ७ ॥ बहु आंवरें नृप करे, नयरीमांहे प्रवेशो रे ॥ वधावे गजमोतीयें, सोहव सुंदरवेपो रे ॥ अ० ॥ ८ ॥ कोइ रमणी कहे मात नें, मा ए कुण अजिरामो रे ॥ कुण गुणवंतीनो नाहलो, रूपें जेहवो का मो रे ॥ अ० ॥ ९ ॥ मात कहे महोटे स्वरें, रयणमंजरीनो कंत रे ॥ मि त्रानंदनो बंधवो, एह अमर नूकंतो रे ॥ अ० ॥ १० ॥ धन्य जननी जेणें जनमीयो, ए नर रयण सरीसो रे ॥ चिरं जीवो एह जोडली, एम दीये आशीपो रे ॥ अ० ॥ ११ ॥ कोइ कहे धन्य एहनो, बंधव मित्रानंदो रे ॥ जेणें मेली मृगलोचना, नाग्यपरें अमंदो रे ॥ अ० ॥ १२ ॥ कोइ कहे धन्य श्रेठनें, पुत्रपरें जेणें पाव्यो रे ॥ अणजाण्या नेहो आणीने, निजघर मांहे घाव्यो रे ॥ अ० ॥ १३ ॥ एम श्रवणें सुणतो थको, पुरप्रमदानी वाणी रे ॥ प्रीत मनें धन वरसतो, आवे ते गुणखाणी रे ॥ अ० ॥ १४ ॥ स्तंवेरमथी हो ऊतरी, पेठो मंजपमांही रे ॥ करे उत्सव अजिपेकनो, नृप मंजल मलि त्यांही रे ॥ अ० ॥ १५ ॥ रयणमंजरी स्थापी तिहां, पट्टराणी गुण गेहो रे ॥ मित्रानंदने सोंपीयो, सहु अधिकार सनेहो रे ॥ अ० ॥ १६ ॥ स्थाप्यो जनकनें स्थानकें, श्रेठ जणी गुणवंतो रे ॥ कीधुं यथोचित एम सहु, पाले राज्य महंतो रे ॥ अ० ॥ १७ ॥ मांमी वात कही सवे, मि त्रानंद मनोहारी रे ॥ सुणि राजेश्वर रंजियो, तुऊ साहस बलिहारी रे ॥

॥ अ० ॥ १० ॥ मित्र नणी माने घणो, जाणे जीव समानो रे ॥ राणी
पण तेहने सदा, आपे बहु सन्मानो रे ॥ अ० ॥ ११ ॥ वेहु बंधव सुख
चोगवे, राज्य रमणी रस राता रे ॥ इति गइ निजदेशथी, सहुने वरती
शाता रे ॥ अ० ॥ १२ ॥ ढाल नणी ए तेरमी, त्रीजे खंम विचारी रे ॥
राम कहे तस सहु नमे, पुण्यदशा जस सारी रे ॥ अ० ॥ १३ ॥ सर्वगाथा ॥ ३ ॥ १५ ॥

॥ दोहा ॥

॥ अमरदत्त सुख चोगवे, निजनारीनी साथ ॥ दोगुंदक सुरती परें, न
लहे दिवस ने रात ॥ १ ॥ मन मान्यागुं गोठडी, पुण्य विना नवि होय ॥
जे दिन सजन मेलावडो, जग जीवित फल सोय ॥ २ ॥ आण अखंम वहे
सवल, सीमाडा राजान ॥ सस अंग शोचे जलां, दिन दिन चढते वान
॥ ३ ॥ मित्रानंद तणे मने, शववाणीनी खटक ॥ पलक एक नहिं वीसरे,
अहोनिश एह अटक ॥ ४ ॥ अहोनिश रहे उदासमां, न गमे कोई वि
लास ॥ मरण समो जय को नहीं, जीवित सम नहिं आश ॥ ५ ॥ कहे अ
मरने साहिवा, मुज मन महोटी चीति ॥ रखे आवे व्यंतर इहां, उपजावे
अप्रीति ॥ ६ ॥ नूमिपति कहे मित्र तुं, जय न करे मनमांही ॥ दूर
रह्या व्यंतर किस्सुं, करजे आवी आंही ॥ ७ ॥ मित्रानंद कहे खरुं, पण
नजीक ए देश ॥ तेमाटें मुज बंधवा, मूको कोइ परदेश ॥ ८ ॥

॥ ढाल चौदमी ॥

॥ सुण वहेनी पियुडो परदेशी ॥ ए देशी ॥ सुण बंधव जव तुं परदेशी,
तव मुज केम सरेशी रे ॥ कृण कृण तोरो विरह दहेशी, केम मुज ठोडि
चलेशी रे ॥ सु० ॥ १ ॥ नयण जरे आंखनी धारा, सुण सुण मारा प्या
रा रे ॥ तुं मुज आतमना आधारा, म म करो एह विचारा रे ॥ सु० ॥
॥ २ ॥ मित्र कहे गमतुं नयी मुजने, जे मूकी जाउं तुजने रे ॥ पण श
बचयण दहे मुज तननें, सवल विमासण मनने रे ॥ सु० ॥ ३ ॥ रयण
संलरी कहे अमनें बर्जा, किम जाशो देवरजी रे ॥ सुख सुख वात करेगुं
जेती, मनडागुं मन मेली रे ॥ सु० ॥ ४ ॥ पण तस मनमां वात न आवी,
टाळ्युं टले किम जावी रे ॥ वात करे जन सहस वनावी, पण कर्म न ले
ये बचावी रे ॥ सु० ॥ ५ ॥ राय कहे सुण मित्र सोजागी, सेवकगुं वड
जागी रे ॥ वसंतपुर जाउं गुणरागी, तिहां रहेजो अनुरागी रे ॥ सु० ॥

॥ ६ ॥ सेवक मोकलजो मुज पासैं, देवा खबर उल्लासैं रे ॥ जिहां लगे नहिं आवो आवासैं, तिहां लगे उंचे श्वासैं रे ॥ सु० ॥ ७ ॥ बंधव चित्त हूंती न विसरशो, कृण कृणमां सांनरशो रे ॥ मंगलकमलानें तुमो वरशो, कांइ फिकर न करशो रे ॥ सु० ॥ ८ ॥ राय चढ्यो संप्रेडण साथें, वेहु जण वलग्या हाथे रे ॥ वलतां कहे नृप मलिने बाथें, कां एम कखुं जग नाथें रे ॥ सु० ॥ ९ ॥ नृप वोलावी पाठो वलीयो, आव्यो गृह जलफ लीयो रे ॥ मित्रविरह दुःखदधि उहलियो, चाष थई नीकलीयो रे ॥ सु० ॥ १० ॥ न गमे राजविनोदनी लीजा, सांनरे मित्रनी पीडा रे ॥ जे साथें करी बहु सुखक्रीडा, केम ते विसरे सखीडां रे ॥ सु० ॥ ११ ॥ मंत्रीश्वर आदें सहु मलिया, कहे नृपनें तुमें बलीया रे ॥ एम नवि थई जें प्रभु गलिया, कर्म न जाये कलियां रे ॥ सु० ॥ १२ ॥ कांइक शोच निवारी राज्यें, बेठ आवी समाजें रे ॥ सुख संपत्ति विलसे सवि साजें, पण दुःख मनमां दाजे रे ॥ सु० ॥ १३ ॥ दिवस थया बहु चर कोइ ना व्यो, तव बीजो दोडाव्यो रे ॥ ते पण तिहां जइ पाठो आव्यो, कहे तस खबर न पायो रे ॥ सु० ॥ १४ ॥ एम निसुणी संत्रांत थइनें, कहे राणीनें जइने रे ॥ आव्यो चर पाठो पण वहीनें, खबर न पामी तेहने रे ॥ सु० ॥ १५ ॥ कहे राणी अवधारो कंता, ए वातनी महोटी चिंता रे ॥ जो ज्ञानी आवे गुणवंता, तो सवि जांजे त्रंता रे ॥ सु० ॥ १६ ॥ वात करी नृप बाहिर आव्यो, तव वनपालो जायो रे ॥ नृपति पासैं श्वास नरायो, अवल वधामणी लायो रे ॥ सु० ॥ १७ ॥ साहिव जीवो कोडि वरीसा, दिन दिन चढती जगीशा रे ॥ तुम वन समवसखा मुनि इस्या, श्रीधर्मघोष सूरीशा रे ॥ सु० ॥ १८ ॥ अशोकतिलक उद्यानमां किरिया, गुणरयणें करि नरिया रे ॥ प्रांशुक जूमि आवी समोसरिया, अतिशय ज्ञानना दरिया रे ॥ सु० ॥ १९ ॥ शम संवेगादिक आदरिया, बहु मुनिगुं परवरिया रे ॥ दूर कखा रागादिक अरिया, ताखा जिण निज परिया रे ॥ सु० ॥ २० ॥ समयागमन सुणी चित्त ठरियां, नरवर जावें नरिया रे ॥ राणी संघातें तेषें वरिया, गुरुवंदन नीसरिया रे ॥ सु० ॥ २१ ॥ साचवी पंचानिगम उल्लासैं, आव्यो नृप गुरुपासैं रे ॥ देइ प्रदक्षिण एणपरें जासे, तुमें न पड्या नवपाशें रे ॥ सु० ॥ २२ ॥ बीजे खमें

चोदमी जाणो, ढाल ए दिलमां आणो रे ॥ कहे गुरु नृप निसुणो सपरा
णो, करि निज आतम शाणो रे ॥ सु० ॥ १३ ॥ सर्वगाथा ॥ ४१ ० ॥ श्लोक ॥ ए

॥ दोहा ॥

॥ धर्मघोष मुनिवर कहे, देशन अमृतरूप ॥ जे निसुणी देखे प्रकट,
घटमां सकल स्वरूप ॥ १ ॥ अतिशय नाणी कर्मनो, जांखे सवि विस्तार ॥
बंध हेतु दाखे वली, तिम तेहनो निस्तार ॥ २ ॥

॥ ढाल पन्नरमी ॥

॥ राग मलार ॥ चेतन कर्मकी चाल विजावे ॥ नरक निगोद तिरियग
तिमें, रमो नहिं कवहुं सजावें ॥ चे० ॥ १ ॥ धनी अथनी अकुली न
कुलीनो, रूप कुरूप गिणावे ॥ ईश्वर दास सुखी तिम असुखी, नाम अने
क धरावे ॥ चे० ॥ २ ॥ आठ नाम उनके गुन जूदे, सत्वकुं आण मना
वे ॥ हे रूपी पण अकल सरूपी, नजरें कोउ न पावे ॥ चे० ॥ ३ ॥
चार चारके थोक बने दो, घाति अघाति फिरावे ॥ उनमें मोह सबल
मतवालो, जीउंकों जोर करावे ॥ चे० ॥ ४ ॥ मिथ्या अविरति योग कपा
या, चउबंध हेउ कहावे ॥ पंच डुवालस पनर पणवीसा, जेद सत्तावन
थावे ॥ चे० ॥ ५ ॥ लहु दीसे ए बंधनकालें, बहु दुःखकों उपजावे ॥
जीवकों रोकि रखी पंजरमें, उलटी चाल चलावे ॥ चे० ॥ ६ ॥ पाडयो
नर्म मर्म न पिठाणो, उनको गायो गावे ॥ जिनकूं करि जाणो जीउ मेरो,
ऊही नरक पठावे ॥ चे० ॥ ७ ॥ तुं नहिं तेरो नहिं ए कोइ, गुं मन
मांहे नावे ॥ फिरत फरे मतवाला जेसो, कहा सद्गुरु बतलावे ॥ चे०
॥ ८ ॥ निजगुण त्यागी मोहके रागी, उनकों शीख सुणावे ॥ देखत रव्या
ल ए मोह नटावो, तुमको परमें रे लरावे ॥ चे० ॥ ९ ॥ निजकुं निज
जातो तुम चेतन, और गीनो परजावें ॥ जात इंद्दीन पर नोहे अपने, बहु
री कहा तुं कहावे ॥ चे० ॥ १० ॥ सुण गुरुकी वानी नवि प्राणी, मोह
की ठाक मिटावे ॥ रामविजय कहे तेही लगतमें, साचा गुरूप सुहावे ॥
चे० ॥ ११ ॥ इतिगुरूपदेशगीतं ॥ दोहा ॥ वचन सुणी गुरुजी तणां, सम
ज्या चनुर तुजाण ॥ मोह मटयो मनधी परो, मानी सगुरु आण ॥
१ ॥ अशोकवत्त इण अवसरें, व्यवहारी कर जोडि ॥ पूत्रे सुऊ पुत्री तनें,
केम आर्ची ए खोड ॥ २ ॥ सकल अंग रोगें चरी, नहिं विचिकिस्ता

साथ्य ॥ कुण कर्म सुक्त दाखवो, विरुई वलगी व्याधि ॥ ३ ॥ गुरु उपयो
 गें जाणीनें, जांखे तस अवदात ॥ राजादिक सवि सांजले, विस्मय वा
 ली वात ॥ ४ ॥ सुवनसुंदरी, जयसुंदरी, श्यामा रे लो ॥ ए देशी ॥ कहे
 सद्गुरु वाणी, सुणो नवि प्राणी, कर्म कहाणी रे लो ॥ नविका सुणीयें
 जीरे लो ॥ नूतशाला गामें, नूतदेव नामें, शेठ सहु कामे रे लो ॥ १ ॥ कडुउं
 न नणीयें जी रे लो ॥ ए आंकणी ॥ क्रूरमति तस नारी, देवमती सारी, वहु
 सुविचारी रे लो ॥ न० ॥ एक दिन मंजारी पीधूं धारी, दूध निरधारी रे लो
 ॥ क० ॥ २ ॥ कहे सासू चूंमी, डुर्मति कूंमी, क्रोधें उंमी रे लो ॥ न० ॥
 शुं शाकिनी जाली, जेह विमाजी, ते नवि मारी रे लो ॥ क० ॥ ३ ॥
 एम कहेतां तच्छण, वहु नयनीषण, ग्रही कोइ शाकणी रे लो ॥ न० ॥
 तस वयणें वलगी, न रहे अलगी, आग ज्युं सलगी रे लो ॥ क० ॥
 ॥ ४ ॥ सासू चिंतातुर, तेडे आतुर, वैद्य निरंतर रे लो ॥ न० ॥ पण न
 थई साजी, कर्मनी वाजी, आवी वाजें रे लो ॥ क० ॥ ५ ॥ एक आव्यो
 योगी, अग्निनियोगी, तेडी मातंगी रे लो ॥ न० ॥ कहे किहां तुं एहनें, व
 लगी देहनें, मूक सनेहने रे लो ॥ क० ॥ ६ ॥ कहे सासू वाणी, बिहिनी
 जाणी, में ग्रहि ताणी रे लो ॥ न० ॥ खलजिह्वा सासू, लोक तमासु,
 कहे अविमासू रे लो ॥ क० ॥ ७ ॥ बहुअर नीरोगी, कीधी योगी,
 थइ सुख रोगी रे लो ॥ न० ॥ सासू रंजाडी, इकत पाडी, खरीय नवा
 डी रे लो ॥ क० ॥ ८ ॥ संयतिनी पासें, सासु विमासे, व्रत लेवासी
 रे लो ॥ न० ॥ चारित्र पालेइ, अणआलोइ, गइ सुरलोइ रे लो ॥ क०
 ॥ ९ ॥ तिहां देव थइने, वलीय चवीने, इहां आवीने रे लो ॥ न० ॥
 लुक्त पुत्री रूडी, चवीनें कूडी, थइ सासूडी रे लो ॥ क० ॥ १० ॥ कडुं
 जे जांख्युं, मनमां राख्युं, गुरुनें न आख्युं रे लो ॥ न० ॥ ननदेवी
 रोपें, पूरव दोपें, एहनें जोशे रे लो ॥ क० ॥ ११ ॥ कन्या इहां लावो,
 सवि समजावो, पूरवजावो रे लो ॥ न० ॥ जातिस्मरण लहेशे, सुख सवि
 कहेशे, आण वहेशे रे लो ॥ क० ॥ १२ ॥ गुरुचरणे आणी, देवी उजाणी,
 न रही शाणी रे लो ॥ न० ॥ थइ साजी कुमरी, निजचव समरी, सूधी
 समरी रे लो ॥ क० ॥ १३ ॥ कहे तन रोमांचू, स्वामी साचूं, ज्ञान तुमारुं
 रे लो ॥ न० ॥ करि कर्मपरीक्षा, लेखुं दीक्षा, सहेखुं शिक्षा रे लो ॥ क० ॥

॥ १४ ॥ कहे गुरुउपगारी, सुण तुं सारी, वात अमारी रे लो ॥ जण ॥ सुख
 नोगने कर्म, रहे तुं घरमें, हमणां शरमें रे लो ॥ कण ॥ १५ ॥ पंठी याइश
 श्रमणी, वात ए गमणी, निसुणी समणी रे लो ॥ जण ॥ वच तहत करीने,
 पाठी फरीने, आवी घरमें रे लो ॥ कण ॥ १६ ॥ देखीने नृपति, थयो
 विस्मित, तेवे समयें रे लो ॥ जण ॥ मुऊ मित्र न आयो, खवर न पायो,
 कियो नरमायो रे लो ॥ कण ॥ १७ ॥ पन्नरमी पूरी, ढाल सनूरी, वात अ
 धूरी रे लो ॥ जण ॥ त्रीजे खंरुं सरि, दुःख सवि चूरी, कहेसो पूरी रे लो ॥ कण ॥ १८ ॥

॥ दोहा ॥

॥ कहे गुरु सांजल नृपति, विपम कर्मनी वात ॥ अणचिंती आवी
 नडे, कोणें कली न जात ॥ १ ॥ एह कर्मनी आगलें, जोरावर नहिं कोय ॥
 मान म करसो मानवी, कर्म करे सो होय ॥ २ ॥

॥ ढाल शोलमी ॥

॥ ठोडी हो प्रिया, ठोडी चव्यो वनवास ॥ ए देशी ॥ सांजल हो राजा
 सांजल ते तुऊ मित्र, चाव्यो हो राजा चाव्यो शीख मागी करी जी ॥
 लंघी हो राजा लंघी हो जलनो डुर्ग, पहोतो हो राजा पहोतो स्थल
 डुरग तरी जी ॥ १ ॥ तिहां एक हो राजा तिहां गिरिनदीनें प्रपात, रहिया
 हो राजा रहिया हो नोजन कारणें जी ॥ आवी हो राजा आवी हो निघ्न
 नी धाड, नाग हो राजा नाग सेवक न रह्या रणे जी ॥ २ ॥ ताहरो
 हो राजा ताहरो वंधव तेह, एकण हो राजा एकण दिशि ऊजाइयो जी ॥
 लाज्यो हो राजा लाज्यो हो सेवक तुऊ, पाठो हो राजा पाठो फरी कोइ
 नावीयो जी ॥ ३ ॥ मित्रें हो राजा मित्रें उजातां एक, दीतुं हो राजा दीतुं
 सगवर जल नपुं जी ॥ पीधुं हो राजा पीधुं शीतल नीर, बडतलें हो राजा
 बडतलें शयन तेषें कस्युं जी ॥ ४ ॥ पडते हो राजा पडते पडतुं होय, कोटरें
 हो राजा कोटरेंथी अहि नीतखो जी ॥ मंशयो हो राजा मंशयो तेहने अंग,
 तापस हो राजा तापस एकें विप ह्यो जी ॥ ५ ॥ पूठे हो राजा पूठे तापस
 कोण, जांखी हो राजा जांखी यचारथ चारता जी ॥ तापस हो राजा ता
 पस गयो निज ठाण, चिंते हो राजा चिंते हो मित्र यई चारता जी ॥ ६ ॥
 हठीयो हो राजा हुं हठीयो थयो जोर, मान्युं हो राजा मान्युं हां कदण
 न मित्रनुं जी ॥ धातम हां राजा धातम उपरें आज, कीधुं हो राजा

कीधुं काम शत्रुनुं जी ॥७॥ जाउं हो राजा जाउं हो मित्रनी पास, सुखी
 यो हो राजा सुखीयो याइश तस संगें जी ॥ चिंती हो राजा चिंती हो चाव्यो
 ऊठी, पडियो हो राजा पडियो चोर कुसंगतें जी ॥ ७ ॥ जाली हो राजा
 जाली गया निज पाल, जोजो हो राजा जोजो एम जावी नडे जी ॥ सां
 नरे हो राजा सांनरे ताहरो प्रेम, मनमां हो राजा मनमां महोटे स्वरें रडे
 जी ॥ ९ ॥ वेच्यो हो राजा वेच्यो हो जिल्लें तेह, लीधो हो राजा लीधो
 एक व्यवहारीये जी ॥ आपद हो राजा आपद पडी तस एम, निसुणी
 हो राजा निसुणी हीये नवि हारीयें जी ॥ १० ॥ कीधां हो राजा कीधां
 न बूटे कोय, जाणी हो राजा जाणी कर्म न कीजीयें जी ॥ साचो हो
 राजा साचो एक जिनधर्म, जेहथी हो राजा जेहथी शिवसुख लीजीयें
 जी ॥ ११ ॥ तिहांथी हो राजा तिहांथी हो पारसकूल, चाव्यो हो राजा
 चाव्यो वणिक तस लेइने जी ॥ वचमां हो राजा वचमांहे आवी उक्के
 ए, रातें हो राजा रातें रह्यो सुख वेइनें जी ॥ १२ ॥ बंधण हो राजा
 बंधण ठोडी तुऊ, नागो हो राजा नागो हो मित्र नयरी जणी जी ॥ खालें
 हो राजा खालें थइने तेह, पेसे हो राजा पेसे होंश घरनी घणी जी
 ॥ १३ ॥ सुणजो हो राजा सुणजो हो तेणें प्रस्ताव, नयरमां हो राजा
 नयरमां चोरनो नय घणो जी ॥ ठानो हो राजा ठानो फरे कोटवाल, क
 रडो हो राजा करडो हो अमल तेह तणो जी ॥ १४ ॥ जाल्यो हो राजा
 जाल्यो ते ततकाल, जाण्युं हो राजा जाण्युं हो चोर ए आकरो जी ॥ वांध्यो
 हो राजा वांध्यो मयूरनें बंध, कीधो हो राजा कीधो प्रहारें जाजरो जी
 ॥ १५ ॥ सोंप्यो हो राजा सोंप्यो जेठनें ताम, कीधो हो राजा कीधो हु
 कम महोटे घणो जी ॥ द्विप्रा हो राजा द्विप्रातटें वडवृद्ध, वांधी हो
 राजा वांधी ए अपराधी हणो जी ॥ १६ ॥ जाल्यो हो राजा जाली चव्या
 नर तेह, चिंते हो राजा चिंते हो मनमां तिण समे जी ॥ साचुं हो राजा
 साचुं वयण थयुं तेह, नांख्युं हो राजा नांख्युं शवें जे पूरवें जी ॥ १७ ॥
 जाणी हो राजा जाणी जिहां तिहां जाउं, जावी हो राजा जावी किहां
 बूटे नहीं जी ॥ कीजें हो राजा कीजें हो कोडि उपाय, कडवां हो राजा
 कडवां हो कर्म नडे सही जी ॥ १८ ॥ यइकं ॥ विजवोनिर्धनत्वं च,
 बंधनं मरणं तथा ॥ येन यत्र यदा लब्धं, तस्य तत्र तदा नवेत् ॥ १ ॥

याति दूरमसो जीवः, पापस्थानान्नयद्रुतः ॥ तत्रैवानीयते नूयो,ऽग्निव
 प्रौढकर्मणा ॥ १ ॥ ढाल पूर्वनी ॥ म म कर हो जीव म म कर रोप ल
 गार, उपरे हो जीव ए अपराधी ऊपरें जी ॥ ए सहु हो जीव ए सहु ता
 हरो दोप, परनवें हो जीव परनवें सुख तुं नवि करे जी ॥ १९ ॥ आव्यो हो
 राजा आव्यो हो एम शुच जाव, बांध्यो हो राजा बांध्यो वडें विण बांक
 गुं जी ॥ आवे हो राजा आवे हो साहमे पूर, अडियुं हो राजा अडियुं
 अगुच नृप रांकगुं जी ॥ २० ॥ एक दिन हो राजा एक दिन रमतां हो
 गोप, मोई हो राजा मोई पडी मुख उवली जी ॥ ताहरा हो राजा ता
 हरा वंधवनी वात, नीपनी हो राजा नीपनी कर्म माहावली जी ॥ २१ ॥
 शोलमी हो नवि शोलमी त्रीजे खंन, चांखी हो राजा चांखी ढाल ए
 कर्मनी जी ॥ साखी हो राजा साखी होवे एक धर्म, धर्मथी हो राजा ध
 र्मथी प्रापति शर्मनी जी ॥ २२ ॥ सर्वगाथा ॥ ४६ए ॥ श्लोक ॥ ११ ॥

॥ दोहा ॥

॥ गुरु मुखथी एम सांजली, अमरदत्त नूपाल ॥ प्रेमतणे वश वलवले,
 पड्यो मोहनी जाल ॥ १ ॥ गुण संनारे तेहना, निर्मल गंगा नीर ॥ हडकूदण
 लागी हीये, नयणें चाड्यां नीर ॥ २ ॥ पर उपगारी शिरोमणि, हा वंधव हा
 प्रात ॥ वहेजा आवो वाहजा, करवा मोशुं वात ॥ ३ ॥ में तुजने वाखो घणुं,
 मित्र म जाउ विदेश ॥ पण तें कहण न मानीयुं, किहांथी हवे संदेश
 ॥ ४ ॥ सङ्गनीयां साले घणुं, संनारो सो वार ॥ जे विण घडी न चालतुं,
 केम चलणे जमवार ॥ ५ ॥ हियडा हवे तुं गुं रखुं, गयो ते तुज आधार ॥
 मित्रानंद मले किहांथकी, चीडनो जंजणहार ॥ ६ ॥ एहवा वंधव दो
 हिला, जेहनी शीतल ठाय ॥ काम पडे विहडे नहीं, वंधव बीजी बांदि ७

॥ ढाल सत्तरमी ॥

॥ पुण्य प्रशंसीयें ॥ ए देशी ॥ रत्नमंजरी सुणि एहवुं रे, मूर्धागत अड
 ताम ॥ हा हा ए गुं नीपन्युं रे, अणचिंत्युं वली ग्राम रे ॥ १ ॥ देवर
 माहरा ॥ एम नवि दीजें वेह रे, गुण बहु ताहरा ॥ ए आंकणी ॥ तुं मुज
 नें घणो वाहजो रे, आतमनो आधार ॥ एम किम उवेखी रद्या रे, थो
 दर्शन एक वार रे ॥ दे० ॥ एम० ॥ २ ॥ जव मुजने आणी इहां रे, नव
 कीया केई उपाय ॥ आप विपत्तिवेजा सदी रे, किहां गड मति निर्माय रे

॥ दे० ॥ ए० ॥ ३ ॥ तुमें अमने विसारीयां रे, वसिया तुमें अम्ह चित्त ॥
 अध वच्चें मूकी प्रीतडी रे, नहिं ए उत्तम रीत रे ॥ दे० ॥ ए० ॥ ४ ॥
 हा हा दैव अटारडो रे, सुखमां उपायुं शूल ॥ हरे एवा गुणवंतनें रे, पडो
 तेहनें मुख धूल रे ॥ दे० ॥ ए० ॥ ५ ॥ एम विजाप करे घणा रे, नय
 ए नीर प्रवाह ॥ हियडुं धीर धरे नहीं रे, ते केम विसरे दाहो रे ॥ दे०
 ॥ ए० ॥ ६ ॥ राय राणी एम दुःख धरे रे, दुःखीयो सहु परिवार ॥ गुरु
 कहे शोक न कीजीयें रे, ए संसार असार रे ॥ ७ ॥ सुण सुण प्राणीया,
 परिहर मोहविकार रे, शुनगुण ठाणीया ॥ ए आंकणी ॥ स्थिर न रह्यो
 कोइ इण जगें रे, नागेंइ इंड ने चंद ॥ परमारथ सहु कारिमुं रे, महोटी ए
 मोहनो फंद रे ॥ सु० ॥ प० ॥ ८ ॥ सुख निरंतर किहांअकी रे, फूवुं
 ते करमाय ॥ जे जगे ते आथमे रे, जे जायुं तेह जाय रे ॥ सु० ॥ प०
 ॥ ९ ॥ अनित्यपणे जाण्या होवे रे, जो पुजल परजाव ॥ शाने रडे एम
 जीवडो रे, नित्य एक आप स्वजाव रे ॥ सु० ॥ प० ॥ १० ॥ मात
 पिता जगिनी सुता रे, कामिनी सुत अवतार ॥ वार अनंत ए ताहरे रे,
 तुं एहने निर्धार रे ॥ सु० ॥ प० ॥ ११ ॥ जीव जिके पट्कायना रे,
 ते थया ताहरा रे वंधु ॥ मायाकल्पित ए सवे रे, जगमांहे संबंध रे
 ॥ सु० ॥ प० ॥ १२ ॥ कोइ न एवो जगतमां रे, मरण न पाम्यो रे जेह ॥
 राज मारग एह जाणीयें रे, केहो शोक सनेहो रे ॥ सु० ॥ प० ॥ १३ ॥ शोक
 हरो उद्यम करो रे, धर्म करो तुमें राय ॥ जिम जनमंतर एहवुं रे, दुःख
 फरी नवि थाय रे ॥ सु० ॥ प० ॥ १४ ॥ राजा कहे में संग्रह्यो रे, धर्म
 करेवो सार ॥ पण कहो मारा मित्रनो रे, कोण थयो अवतार रे ॥ सु० ॥ प०
 ॥ १५ ॥ कहे गुरु तुऊ रमणी तणी रे, कूखें ते उत्पन्न ॥ शुनजावना यो
 गथी रे, याज्ञे पुत्र रत्न रे ॥ सु० ॥ प० ॥ १६ ॥ कमलपत्र लोचन जनां
 रे, होज्ञे माहावलवंत ॥ रांजधुरंधर ताहरो रे, याज्ञे ते गुणवंत रे ॥ सु०
 ॥ प० ॥ १७ ॥ वात सुणी हरख्यो घणुं रे, धन्य प्रभु तुमडुं रे ज्ञान ॥ देशना
 देइ उइख्यो रे, मुऊ जेहवो अज्ञानो रे ॥ सु० ॥ प० ॥ १८ ॥ वली तुमने पूवुं
 प्रनो रे, किम देवीने कलंक ॥ वंधुवियोग ए किम थयो रे, कहो कारण
 निःकलंक रे ॥ सु० ॥ प० ॥ १९ ॥ निरपराध पण वंचता रे, किम पाम्यो जेम
 चोर ॥ संशय टालो माहरो रे, ज्यां ए कर्म कठोर रे ॥ सु० ॥ प० ॥ २० ॥

त्रीजे सत्तरमी ढालमां रे, कह्यो बंधव अधिकार ॥ रामविजय कहे जाएजो रे, महोदो गुरुउपगारो रे ॥ सु० ॥ प० ॥ १ ॥ सर्वगाथा ॥ ४९॥ श्लोक ॥ १ ॥

॥ दोहा ॥

॥ पूरवचव गुरु उपदिसे, योगत्रिकें बंधाय ॥ कर्मकटुक फलने दिये, एम बोले जिनराय ॥ १ ॥ आ नवथी त्रीजे नवें, बांध्यो जिम तुमें बंध ॥ ते आ नवें आवी मद्यो, सहु सरिखो संबंध ॥ २ ॥

॥ ढाल अढारमी ॥

॥ अरणिक मुनिवर चाव्या गोचरी ॥ ए देशी ॥ पूरव चव कौटुंबिक तुं हतो, हेमंकर इण नामें जी ॥ सत्यश्री धरणी गुण धारिणी, धरणीप्रतिष्ठि त ग्रामें जी ॥ १ ॥ वयण विचारी रे प्राणी उच्चरो ॥ ए आंकणी ॥ जो बांठो सुख सारुं जी ॥ अविचाखुं बोलंतां जीवडो, फरे चउगति संसारो जी ॥ व० ॥ २ ॥ सकल क्रियापटु सेवक तेहनें, चंमसेनाजिय एको जी ॥ कारज सोप्युं रे तेहने हेत्रनुं, रखवालें सुविवेको जी ॥ व० ॥ ३ ॥ एक दिन परने रे हेत्रें पंथीयो, रींवा ग्रहतो देखी जी ॥ कहे लंबावो रे जाडे एहनें, पण तेणें मूक्यो उवेखी जी ॥ व० ॥ ४ ॥ तिण वयणें डुहवाणो पंथीयो, कर्म करे तिण वेला जी ॥ डुष्टवचनथी रे बांध्युं आकरुं, न करो एम अवहेला जी ॥ व० ॥ ५ ॥ सत्यश्रीनी रे बहुअर एकदा, महोदो कव ल उपाडी जी ॥ महोमां मूक्यो रे ते बलग्यो गले, तव सासु एम त्राडी जी ॥ व० ॥ ६ ॥ गुं एम चुंजे रे पापी निशाचरी, लघुकवलें जस्य सोइ जी ॥ जेस नहिं बलगे रे कंठें ताहरे, बांध्युं कर्म विगोई जी ॥ व० ॥ ७ ॥ एक दिन हेमंकर कहे नृत्यनें, मूके गामें उजाइ जी ॥ जा वहेजो कारज करी आव्य तुं, देणुं पठी बधाई जी ॥ व० ॥ ८ ॥ ते कहे बंधवने मलवे करी, में न जवाये स्वामी जी ॥ हेमंकर कहे मत मजग्यो नुनें, स्वजन केवारें हरामी जी ॥ व० ॥ ९ ॥ सहेजे एम बंधाये बोलतां, कर्म कठिन एम केई जी ॥ पण रस चिहण बंध प्रदेशथी, विणसे विपाकनें देई जी ॥ व० ॥ १० ॥ एक दिन आव्या रे मुनिवर विद्गता, गोचरीयें गुणगेत्रो जी ॥ हेमंकर सूधा संयमी, गुण संपूर्ण देहो जी ॥ व० ॥ ११ ॥ पीयर सूधा रे मुनि पदकायना, धूंसर दृष्टि निहाले जी ॥ आंगण आवी रे जंगम सुरतरु, दंपती दिलजर जाले जी ॥ व० ॥ १२ ॥ कहे हेमंकर पडि

लानो प्रिये, पात्र युगल ए आव्युं जी ॥ हर्ष धरिने रे तेणें पडिलानिया,
 नृत्यें एम मन जाव्युं जी ॥ व० ॥ १३ ॥ धन अहो दंपती दोये जणां,
 दीधुं मुनिवर दानो जी ॥ पुण्याइ विण पात्र किहांथकी, एम मलेय नि
 दानो जी ॥ व० ॥ १४ ॥ वेदु जण जावें रे दीधुं साधुने, त्रीजो तिम
 अनुमोदे जी ॥ त्रिहुं जण उपरें तव चपला पडी, हूंती जे अंचोदें जी ॥
 व० ॥ १५ ॥ पहेले सुरलोकें थया देवता, मित्रपणे ननरंगें जी ॥ सुख
 विलसे वैमानिकनां घणां, लीलालहेर अचंगें जी ॥ व० ॥ १६ ॥ हेम
 कर चवि तुं नरवर थयो, सत्यश्री तुज नारी जी ॥ सुर त्रीजो चवि
 आवी ऊपन्यो, मित्रानंद मनोहारी जी ॥ व० ॥ १७ ॥ जेणें वांध्युं रे
 जेवुं पूरवें, तिम पाम्युं तेणें सीधुं जी ॥ राजन आवे रे उदयें एणी परें,
 कडवे वयणें कीधुं जी ॥ व० ॥ १८ ॥ गुरुनी वाणी रे निसुणी ते सवे,
 मन पाम्यां वैरागो जी ॥ कर्म कमाइ रे केडें आपणी, धारो धर्मगुं रागो
 जी ॥ व० ॥ १९ ॥ ऊहापोहविचारें आपणी, पूर्वजात संजारी जी ॥
 कहे गुरुजीनें नृप चरणे नमी, जाउं तुम बलिहारी जी ॥ व० ॥ २० ॥
 मुज पतितने रे प्रभु पावन करो, देइ यथोचित धर्मो जी ॥ गुरु कहे
 चारित्रनी नहिं योग्यता, हजी बहु जोगनुं कर्मो जी ॥ व० ॥ २१ ॥
 तनय थया पढी संयम आवज्ञे, हमणां गृहिव्रत वारु जी ॥ तहत्ति करी
 ने रे श्रावकव्रत लीये, गुरुपासें गुणकारु जी ॥ व० ॥ २२ ॥ पुनरपि
 पूठे रे वात शवें कही, ते कुण कारण स्वामी जी ॥ सवि ग्रही रे गुरु
 कहे पंथीयो, नूरिचवें गति पामी जी ॥ व० ॥ २३ ॥ वडपासें थयो
 व्यंतर ते मरी, मित्रानंदनें देखी जी ॥ वैर संजारी रे पूरजव तणुं, थयो
 ते उपर छेपी जी ॥ व० ॥ २४ ॥ शवना मुखमांहे तेणें संक्रमी, वात ए
 णी परें दाखी जी ॥ संशय वारण नवजल तारिणी, धर्मकथा मुनि जांखी
 जी ॥ व० ॥ २५ ॥ प्रतिवृज्या केइ निसुणी प्राणीया, मुनिवर कीध वि
 हारो जी ॥ मुनि वांढीने मंदिर आवियो, नृपति समकित धीरो जी ॥
 व० ॥ २६ ॥ पाले राज्य जली परें आपणुं, एह अठारमी ढालो जी ॥
 त्रीजे स्वर्गें रे रामविजय कहे, धर्म सुख विशालो जी ॥ व० ॥ २७ ॥

॥ दोहा ॥

॥ गर्ज वधे हवे अनुक्रमें, युवती हपे धरंत ॥ जे जे मोहला ऊपजे,

ते ते पूरे कंत ॥ १ ॥ शुंन वेजा शुंन दिन घडी, शुंन मुहूर्त संयोग ॥ रत्न
मंजरीयें सुत जण्यो, सुंदर तन नीरोग ॥२॥ राय करे उत्सव घणो, खरचे
इव्य अपार ॥ धवलमंगल गावे जलां, वेठी सोहव नार ॥ ३ ॥ पंच धाव
पाली जतो, नाम कमलपत्राह् ॥ शैशव वय लंघी करी, पाम्यो यौवन
दह् ॥ ४ ॥ राज्यनार धोरी थयो, सघली वातें सकळ ॥ हवे राजा मन
चिंतवे, लहुं संयम तजिरळ ॥ ५ ॥

॥ ढाल उंगणीशमी ॥

॥ थारे माथे पचरंगी पाध, सोनारो ढोगलो ॥ मारु जी ॥ ए देशी ॥ हवे
एक दिन तेह मुनीश्वर, आव्या सांजली ॥ राजाजी ॥ सोंपी पुत्रनें राज्यनो
नार, चव्यो वनमां रुली ॥ रा० ॥ ग्रहे गुरुजीने हाथे दीह्, प्रिया साथें
वली ॥ रा० ॥ लीयो शुद्धमाहाव्रतनार, थया अतुली वली ॥ रा० ॥
॥ १ ॥ तेउने दृढ करवा काज, कहे श्रुत केवली ॥ रा० ॥ तुमें चालजो
सूधे पंथ, मूकी मद आवली ॥ रा० ॥ जव अंबुधि तारण एह, प्रव्रज्या
ठे जली ॥ रा० ॥ तेमाटें मूकी राग, ते पालजो साचली ॥ रा० ॥ २ ॥ लेइ
दीहा विपयने वांठे, जे मुनि कायरा ॥ वारुजी ॥ नवि कहीयें ते जव
जलना, संयम वाहरा ॥ तारु जी ॥ ते विपयें नेह न करे, जी हेजाहरा
॥ वा० ॥ ते मुनि परमार्थ सुखना, दरिया माहरा ॥ वा० ॥ ३ ॥
जिनरक्षित जिनपालनो, इहां जावजो ॥ मुनिवरजी ॥ संबंध अनोपम
उपनय, मनमां जावजो ॥ सुखकर जी ॥ तव कहे राजपिं मनमां, हर
खी ते कहो ॥ सजुरुजी ॥ जावी ते वात कहुं, सघली तुमें सदहो ॥
मु० ॥ ४ ॥ चंपानयरीमां माकंदी, नामें माहाधनी ॥ मु० ॥ जडानामें तस
नारी, जजी सुगुणी वनी ॥ मु० ॥ जिनपालित ने जिनरक्षित, सुत ठवि
काचनी ॥ मु० ॥ करे वहाणनो रोजगार, वरी लठी घणी ॥ मु० ॥
५ ॥ तेवारें विचार मनोरथ, वाहणनो करे ॥ मु० ॥ घणुं वारे तेहने
पितर, कणुं चित्त नवि धरे ॥ मु० ॥ चढिया कर्ग्याणुं लेइ, जोई वाहाण
शिरें ॥ मु० ॥ जग्दरिये जांग्युं वाहाण. फलकने आशारे ॥ मु० ॥ ६ ॥
त्रिहुं दिवनें रयणनो छाप, लही ते नीसग्या ॥ मु० ॥ जल पीधुं फल ना
जियेर, जखीने ते ठग्या ॥ मु० ॥ एहवे ते छीपनी देवी, देखीने थरद
खा ॥ मु० ॥ कहे मुज साथें तुमें सेवो, विपयसुख कां मखा ॥ मु० ॥

७ ॥ तो थारो प्राणने कुशल, मानो कहुं माहरुं ॥ मु० ॥ नहिंतर एणें
 खड्डें, ठेदिश हुं शिर थाहरुं ॥ मु० ॥ जयजीत कहे परमाण, कहुं एम ता
 हरुं ॥ मु० ॥ कहे मत वीहो तुमें अंश, हुं हुं तुम वाहरु ॥ मु० ॥ ७ ॥
 सुख विलसंतां ते साथें, गया बहु वासरा ॥ मु० ॥ एक दिन आवी कहे
 ते, रहेजो तुमें पांशरा ॥ मु० ॥ हुं सुस्थितने आदेशें, शोधवा सायरा ॥
 मु० ॥ जाउं हुं कारण माटें, म थारो कायरा ॥ मु० ॥ ए ॥ खाजो फल
 फूल तुमें, रमजो पूरव वनें ॥ मु० ॥ न साय तो उत्तर पड्डिम, जा
 जो कामनें ॥ मु० ॥ वारुं हुं दक्षिण वन, रखे धरता मनें ॥ मु० ॥
 तिहां ठे दृष्टिविप नाग, देशे दुःख तुमनें ॥ मु० ॥ १० ॥ गइ देवी कुमर
 वेहु, त्रिहु वनमां रमे ॥ मु० ॥ फल फूल घणां जली जांते, तिहां
 पण नवि गमे ॥ मु० ॥ चिंते मनमांहे न जाये, वासर ए किमे ॥ मु० ॥
 सांजरे मनमां निज ठाण, हेरान थया अमें ॥ मु० ॥ ११ ॥ वली वली
 निरखियें दक्षिण, वारिधि नेहशुं ॥ मु० ॥ चिंते जइ चलो जाइ, तिहां दिल
 उल्लस्युं ॥ मु० ॥ हमणां दोडीनें तमासो, जोई आवशुं ॥ मु० ॥ चिंता
 ए टलरो दूर, अमल चेन पामशुं ॥ मु० ॥ १२ ॥ गया ते दिशें जाम, अ
 खत्र गंध उल्लली ॥ मु० ॥ वखें आठादी नाक, जोइ आघा वली ॥ मु० ॥
 देखी नर त्यां एक रंक, थया मन व्याकुली ॥ मु० ॥ एहवे शूलागत मनुज,
 दीगो गया जजफली ॥ मु० ॥ १३ ॥ पूठशुं तेहनें जइ कुण, कमाइ शी
 करी ॥ मु० ॥ ते बोव्यो सांजलो मित्र, दशा महारी फरी ॥ मु० ॥
 मुज वाहण जांग्युं कर्म, ए लाग्युं नीसरी ॥ मु० ॥ रत्ना अनुरागें कांइक,
 सेवा वीसरी ॥ मु० ॥ १४ ॥ मुज दुःख एणें दीधुं; माहारुं कीधुं में लहुं
 ॥ मु० ॥ तेणें नर विणसाज्या कष्टें, पाज्या हुं शुं कहुं ॥ मु० ॥ कहो
 वात तुम्हारी मुजनें, सारी सदहुं ॥ मु० ॥ धुरिद्वंती जांखी कांइ न, रा
 खी एसहु ॥ मु० ॥ १५ ॥ करी करुणा कांहि उपाय, कहो जीव्या तणो
 ॥ मु० ॥ कहे ते नर शैलक यहु, इहां सोहामणो ॥ मु० ॥ करे अश्वनुं
 रूप ए पर्व, दिने बोले घणो ॥ मु० ॥ कहो कुणने राखुं कुणने, पाखुं ते
 जणो ॥ मु० ॥ १६ ॥ तमें जाउं तेहनी पास, करो सेवा जली ॥ मु० ॥
 ते आव्या यहु समीप, सहु आशा फली ॥ मु० ॥ उंगणीशमी ढाल कही,
 त्रीजे खमें रली ॥ मु० ॥ जे विपयथकी रह्या दूर, तेहनी सुदशा वली १७

॥ दोहा ॥

॥ यद्दत्तणी सेवा करे, कुसुमें पूजे पाय ॥ राख राख स्वामी हवे, तुं
अम माय ने ताय ॥ १ ॥ पर्वदिने बोल्यो यदा, यद्द तेह उजमाल ॥ बंधव
कर जोडी कहे, राख राख अम्ह पाल ॥ २ ॥ यद्द कहे ते वेहुने, निस्तारुं
निर्धार ॥ पण निश्चल थइ सांजजो, महारो एक विचार ॥ ३ ॥ तुम जा
तां ते आचरो, पापिणी पूठें सोय ॥ कहेरो तुमने ते घणुं, सुनजरें साहा
मुं जोय ॥ ४ ॥ ते ऊपर धरशो तदा, जो अनुराग लगार ॥ तो उजाली
तुमने, नाखीश समुझ मजार ॥ ५ ॥ जो रहेशो निरपेक्षयी, तो तुमने त
तकाल ॥ पहाँचाडीश चंपा पुरी, लहेशो सुक रसाल ॥ ६ ॥

॥ ढाल वीशमी ॥

॥ मजरो व्योने जालम जाटडी ॥ ए देशी ॥ कुमर कहे तस संगनुं,
फल दीतुं माहाराज ॥ ए साहामुं निरखुं नहिं, सो वानां करे आज ॥
॥ १ ॥ हवे अम तारोजी साहिवा ॥ ए आंकणी ॥ बलग्या तुमारेजी पा
य ॥ शरण्य ग्रहणुं एक ताहरुं, अवर नहिं को उपाय ॥ ह० ॥ २ ॥ खंधे
चढावीने चालीयो, दरियामां यद्दराज ॥ वे बांधव हरख्या घणुं, फलीयां
वांछित काज ॥ ह० ॥ ३ ॥ हवे देवीयें निजमंदिरें, नवि दीता द्योय
बंधु ॥ जाण्युं ज्ञानें ते यद्दजी, जाय चढावीने खंध ॥ ह० ॥ ४ ॥ खद्द
लेइने केडें थइ, क्रोध नराणी जी जोर ॥ आबो वांठोजी जीवहुं, एम
कहे करती जी सोर ॥ ह० ॥ ५ ॥ नहिंतर एणे खड्डें सही, करणुं तुम
शिरछेद ॥ यद्द कहे रहो रंगणुं, अंश न करशो जी खेद ॥ ह० ॥ ६ ॥
जाण्युं न मग्या ए चित्तयी, मांमी माया जी नूर ॥ मुज मूकीनें एकाकिनी,
केम जाउं ठो जी दूर ॥ ह० ॥ ७ ॥ वाहालपणुं तुम किहां गयुं, एम नवि
दीजें जी वेह ॥ रंगरसें रम्या मंदिरें, ते विसाखोजी नेह ॥ ह० ॥ ८ ॥
चित्त चल्यां नहिं तेहनां, खेद लही मनमांहे ॥ कहे जिनरहितनें घणुं,
वाहाजो जीवितप्राण ॥ ह० ॥ ९ ॥ ईक्षण मान आज्ञापनी, क्रिया सर
खी जी द्योय ॥ चित्ताहादक प्रेमनी, गति न्यारी ने जी कोय ॥ ह० ॥
१० ॥ तुज सायें मुज गोवडी, ने अंतरनी जी साग ॥ ते जाणे मन माह
रुं, नहिं तुज देज लगार ॥ ह० ॥ ११ ॥ आबो मजो मुज वाजहा, यो
संगमहुंजी सुख ॥ नहिंतर प्राण नजिश हुं माहरां, दोहियुं धिरद्वरुं

दुःख ॥ ह० ॥ १२ ॥ नाथ अनाथ परें मुने, मरती देखीने कंत ॥ कां
 करुणा नथी आवती, निरखो नयणें संत ॥ ह० ॥ १३ ॥ कूडो मोह
 देखाडी कामिनी, प्रगट पाज्योजी पास ॥ जिनरहित अवलोकियुं, मुख
 दुर्गति जिम तास ॥ ह० ॥ १४ ॥ यद्धें नाख्योजा पूंठथी, पडतां वींध्यो
 त्रिशूल ॥ फल पाम्यो मुज वंचना, खड्गें हणीयोजी मूल ॥ ह० ॥ १५ ॥
 यइ केडें जिनपालनें, बोले मीठा जी बोल ॥ गति होशे जेम बंधुनी, जो
 चित्त दुठ मम मोल ॥ ह० ॥ १६ ॥ कूड लही तेहनुं रह्यो, निश्चल चित्त
 विचार ॥ यद्ध संघातें जी आवियो, चंपावनह मजार ॥ ह० ॥ १७ ॥ पाठी
 वली गइ व्यंतरी, यद्ध पण वलीयो जी तेह ॥ खम्यो कर जोडी जिनपा
 लने, आणी नक्ति सनेह ॥ ह० ॥ १८ ॥ घरे आव्यो मलीयो निज
 तातनें, एक दिन वीर जिणंद ॥ आव्या पुत्र पिता गया वांदवा, थया
 प्रभु पासें मुणिंद ॥ ह० ॥ १९ ॥ जिनपालित मुनिवर नलो, कीधो उग्र
 विहार ॥ तप तपीयां अति आकरां, कखो आतमनो उद्धार ॥ ह० ॥ २० ॥
 कह्यो संबंध मुनीश्वरें, अमरमुनिने हो काम ॥ कहे उपनय हवे एहनो,
 ते निसुणो मन ठाम ॥ ह० ॥ २१ ॥ ढाल कही ए वीशमी, त्रीजे खंम
 रसाल ॥ रामविजय कहे धन्य मुनि, ठेदी विषयनी जाल ॥ ह० ॥ २२ ॥ ५७६ ॥

॥ दोहा ॥

दोय वणिक जिम जीवडा, सवि संसारी जाण ॥ रत्ना देवी जेम वली,
 अविरति वार वखाण ॥ १ ॥ अविरतिथी जे उपन्यो, दुःख तणो समु
 दाय ॥ शवशूलागत नर इहां, जाणो मनमां जाय ॥ २ ॥ जेम स्वरूप तेणें
 कछुं, निज अनुनूत अशेष ॥ तेम अविरति दुःख दावे, गुरुउपगार विशेष
 ॥ ३ ॥ जेम शैलक तारक थयो, तेम संयमगुण सार ॥ दुःखीयानां दुःख
 उद्धरे, ऊतारे नवपार ॥ ४ ॥ जेम देवीनें वश पज्यो, जिम रहित दुःख
 दीठ ॥ तेम अविरति वश जीवडो, देखे दुःख अनीठ ॥ ५ ॥ दूर रह्यो
 देवीथकी, नवी लोपी यद्धआण ॥ कुशलें आव्यो निजपुरि, ते जिनपाल
 सुजाण ॥ ६ ॥ अविरतिथी विरम्यो रहे, न विराये चारित्र ॥ निःकर्मा थइ
 नीपजे, मुनि शिवसुख पवित्र ॥ ७ ॥ ते माटें वत्स सांचलो, विरुठ विषय
 विलास ॥ सुमणे मनमां नाणजो, जो शिवपुरनी आश ॥ ८ ॥ सूधा संयम
 धर थया, निसुणी गुरु उपदेश ॥ शुद्ध आचारे संचरे, नहिं कपाय लवदेश

॥ ९ ॥ रत्नमंजरी साधवी, वेहु जण सुमनोजाव ॥ घातिकर्महय उपन्यो,
केवलगुह स्वजाव ॥ १० ॥ सुगतें गयां ते दो जणां, जिहां अनंत सुख
राशि ॥ प्रणमुं प्रेमें सिद्ध प्रभु, अनुभव लीलविलास ॥ ११ ॥

॥ ढाल एकवीशमी ॥

॥ जय सुरपादप जंतुना ॥ ए देशी ॥ स्वयंप्रज मुनिमुखथी सुणी, सबली
वात वैराग्य ॥ स्तिमितसागर नरवर कहे, पाय्यो धर्मनो राग ॥ १ ॥ बलिहारी
तुम ज्ञानने ॥ ए आंकणी ॥ तुमें महोटा मुनिराज ॥ सबल कपाय वशें कखा,
लीधुं त्रिभुवनराज ॥ व० ॥ २ ॥ राज्य वेसारी रे पुत्रनें, लेई अनुमति तास ॥
तुम पासें चवतारिणी, लेगुं दीक्षा उल्लास ॥ व० ॥ ३ ॥ घरे आवीने हो
थापीयो, अनंतवीर्यने पाट ॥ अपर कुमारपदें तवे, सूकी मननो उच्चाट
॥ व० ॥ ४ ॥ चारित्र लीधुं रे मुनि कनें, पाले पंचाचार ॥ समिति गुप्ति
सूधी धरे, मार्ग खांमानी धार ॥ व० ॥ ५ ॥ कांइक अंते विराधीयो, मन
साथें मुनिधर्म ॥ असुर अधिप चमरेंड जी, ते यया जिहां बहु शर्म ॥ व०
॥ ६ ॥ हवे बंधव अपराजिता, अनंतवीर्य अजिधान ॥ राजलीजा सुख
जोगवे, दिन दिन चढते रे वान ॥ व० ॥ ७ ॥ खेचर कोइ आवी मल्यो,
एकदिन पुण्यसहाय ॥ प्रीति वनी तेहगुं घणी, उदयें अचिंतित थाय ॥
व० ॥ ८ ॥ गगने जवाय हो जेहथी, विद्या दीधी रे सार ॥ विधि सघली
रे साधन तणी, तेणें दाखी सुप्रकार ॥ व० ॥ ९ ॥ नामें चिजाती ने घर
वरी, नाट्यकलानी रे जाण ॥ तेउनें दोय दासी जली, रूपकला गुण
खाण ॥ व० ॥ १० ॥ एकदिन राजसजा मली, निरखे नाटक ख्याल ॥
नाचे चिजाती ने वरवरी, यौवन रूप रसाल ॥ व० ॥ ११ ॥ कोकिल
कंठी रे कामिनी, कामकलानी रे धाम ॥ जाव देखाडे हो अति जला,
मोह्या महिपति ताम ॥ व० ॥ १२ ॥ रंगरमें जीना सवे, नाद तणा
जेह जाण ॥ नाद निसुणी जे रीऊयो नहिं, ते जगमांहे अजाण ॥ व०
॥ १३ ॥ यजुक्तं ॥ सुजापितेन गीतेन, सुवतीनां च लीलया ॥ मनोननि
घने यत्न, स योगी ह्ययया पद्यः ॥ १ ॥ पूर्वदाल ॥ ब्रह्मचारी कलहागरो,
नारदमुनि नक्षचार ॥ आच्यो पण ग्हेव्यो नहिं. महोटा मोदविकार ॥ व० ॥
॥ १४ ॥ नारद मुनि कोपें चढयो, अरुगणीयां मुनें आज ॥ चेटीने ना
टकें मोहीया, राखी नहिं मुक्त जाज ॥ व० ॥ १५ ॥ ७ गुणवंती रे

गोरडी, जीवनप्राण आधार ॥ मूंज्या हो एहनां मोहमां, न लहे एह व्यवहार ॥ व० ॥ १६ ॥ हरण करावुं हो एहनुं, कोइ बलवंतनी पास ॥ जेम एहनो मद ऊतरे, उंहुं हो एम विमास ॥ व० ॥ १७ ॥ त्रिहु खंम केरो हो राजियो, विद्याधरनो रे नाथ ॥ प्रतिहरि दमितारि अठे, बलीयो जेहनो रे साथ ॥ व० ॥ १८ ॥ तास सनामांहे आवियो, उठी दे बहु मान ॥ जलें आव्या रे पावन कखा, तुम आवे वय्यो वान ॥ व० ॥ १९ ॥ कहो कांइ अद्भुत वारता, ते कहे सुण रे राजेंइ ॥ सुजगा पुरीना रे राजीया, तेजें जाणे दिणंद ॥ व० ॥ २० ॥ अनंतवीर्य अपराजिता, तस घर दासी रे दोय ॥ नामें चिजाती ने बरवरी, जगमां जोड न कोय ॥ व० ॥ २१ ॥ नाट्यकलाकुशली घणुं, ते नाचंती रे आज ॥ दीगी हो विस्मय कारिणी, ते विण सुं तुज राज ॥ व० ॥ २२ ॥ एम कही मुनि उतपत्यो, प्रतिहरि मोह्यो नाम ॥ मोहनगारी रे मानिनी, मोहतणुं एधाम ॥ व० ॥ २३ ॥ नाम सुणी रे आरति करे, दीगी हरि ले रे चित्त ॥ स्पर्शीं हूंती हो बल हरे, संगमें वीरज वित्त ॥ व० ॥ २४ ॥ पण जावी न टले किमे, आव्यो संबंध नजीक ॥ चित्त चव्युं रे लेवा जणी, मूके दूत अजीक ॥ व० ॥ २५ ॥ हवे नवियण तुमें सांजलो, एह संबंध रसाल ॥ त्रीजे खंमें एकवीशमी, रामविजय कही ढाल ॥ व० ॥ २६ ॥ ६१३ ॥ १३ ॥

॥ दोहा ॥

॥ दूत चाव्यो दमितारिनो, सुजगा पुरी संपत्त ॥ साहिव बल बलीयो थको, पहतो सजा तुरत्त ॥ १ ॥ रयण योग्य मुज स्वामिने, नहिं तुम लायक एह ॥ द्यो चेटी अम ईशनें, वाधे सबल सनेह ॥ २ ॥ वे बंधव बलतुं कहे, करणुं काम विमासि ॥ जा सीताव स्वामी कनें, दीयो वधाइ तास ॥ ३ ॥ दूत बोलावी चिंतवे, वे बंधव मनमांहे ॥ करे पराजव ए सही, नवि मोकलीयें त्यांहि ॥ ४ ॥ ते माटें लइ साथीयें, विद्या खेचरें दीध ॥ दर्प टले जो एहनो, तो थायें कारिज सिद्ध ॥ ५ ॥ पूर्वजन्म साधित तिसें, आगें ऊनी आय ॥ विद्या सिद्ध थई कहे, म करो चिंता कांय ॥ ६ ॥ कारिज सिद्ध होजे सवे, जे चिंतवशो चित्त ॥ नक्ति करे विद्या तणी, गंध माव्य सुपवित्त ॥ ७ ॥ इण अवसरें फरि आवीयो, दमितारिनो दूत ॥ कोपें धडहडतो कहे, बडो जाणे यमदूत ॥ ८ ॥ रे चेटी नवि

मोकली, कां मरवानी हूंश ॥ रूठयो स्वामी न मूकज्ञे, जूव कहुं तो सूंस ॥ ए ॥

॥ ढाल वावीशमी ॥

करेलडां घड दे रे ॥ ए देशी ॥ कहे वंधव दोय ले चलो, दासीरूप निधा
न ॥ एहनी स्वामी ऊपरें, प्राण करे कुरवान ॥ १ ॥ वचन अम सुण ले रे ॥ ए
आंकणी ॥ रूप करी दासी तणुं, विद्यावल बलवान ॥ तुरत जई पहोता
तिहां, जिहां प्रतिहरि राजान ॥ व० ॥ १ ॥ कर जोडी ऊची रही, मृग
नयणी मनोहार ॥ दमितारि देखी कहे, अहो अहो अद्भुत नारी ॥ व०
॥ ३ ॥ नाटक मांमथुं मानिनी, मोह्यो नरशिरदार ॥ हाव जाव दाखे
जला, लटपटाइ लीयो नारि ॥ व० ॥ ४ ॥ देखी कलाकुशलीपणुं, बोव्यो
एहवा बोल ॥ रूप सुगुण नारी इसी, नहिं कोइ जगमां अमोल ॥ व० ॥
५ ॥ कनकसरीखे मंदिरें, जाइ रहो मनमोद ॥ राग कला सवि शीखवो,
नव नव जांति विनोद ॥ व० ॥ ६ ॥ ज्युं पयचाजन जालवे, हर्षित होय
विमाल ॥ तेम नृपनी लही आगना, थया मनमांहे खुशाल ॥ व० ॥ ७ ॥
देखी ते रंजा जिती, रूपवंत अनिराम ॥ कुमरी गुणनी उरडी, मोही रह्या
गुणधाम ॥ व० ॥ ८ ॥ गीतकला गुण केलवे, नाटक नव नव जांति ॥
प्रीति बनी पासं रहे, ते दासी दिन रात ॥ व० ॥ ९ ॥ ले वीणा निज
हाथमां, तंती चढावी धून ॥ विच विच गाये तानमें, अनंतवीर्यके गुन
॥ व० ॥ १० ॥ मुख पूनम मानुं शशी, अर्थचंड सम जाल ॥ लोचन
पंकज पांखमी, अधर ते जाल गुलाल ॥ व० ॥ ११ ॥ अहो विधिना
ए नर घड्यो, दीठे जांजे रे नूख ॥ मानुं महियल ए फव्यो, कल्पतरुको रूख
॥ व० ॥ १२ ॥ कहे दासी प्यासी जइ, देखन उन दीदार ॥ अनंतवीर्यके
ऊपरें, तन मन धन ए उवार ॥ व० ॥ १३ ॥ जिणे उनको देख्यो नहिं,
मुखपंकजको फूल ॥ सो नारी लेखे नहिं, जीवित तिनकुं कचूल ॥ व०
॥ १४ ॥ अपराजित रूपें रही, कहे दासी गुण एम ॥ सुणत जइ ते रागि
णी, वाध्यो विषयनां प्रेम ॥ व० ॥ १५ ॥ त्रीजे खंडें वावीशमी, ढाल
जली सुरताल ॥ गम कहे जग को नहिं, प्रेम समो कोइ साल ॥ व० ॥
॥ १६ ॥ गग जैग्य ॥ मुने कांइ न गमे ॥ ए देशी ॥ मुजकुं आण मिजा
यो, मनमोहनते राजन ॥ मुज० ॥ ए आंकणी ॥ कनकतिरी कहे सहि
अर मारी, मोही रह्ये मोरं मन ॥ मु० ॥ १ ॥ अनंतवीर्य गजपूत रंगी

लो, अणीयालां लोचन ॥ मु० ॥ १ ॥ गुण निसुणी नऱ व्याकुल वि
 नता, तरसे मोरुं मन ॥ मु० ॥ ३ ॥ प्राण करुं कुरवान ए उपर, साचो
 ए साजन ॥ मु० ॥ ४ ॥ दिन रयणी दिलध्यानं लीनो, आवे एह सुपन
 ॥ मु० ॥ ५ ॥ सागरजल सम तिहां मुऊ जेलो, सुरसरिता ज्युं धन्य
 ॥ मु० ॥ ६ ॥ कहुं कर जोडी सयानी मोरी, वात सुणो एक तन
 ॥ मु० ॥ ७ ॥ स्तिमितसागर कुल शुचि वयरागर, उपन्युं एह रतन्न
 ॥ मु० ॥ ८ ॥ मुऊ दुःस्थितनें आपो आणी, नहिंतर शरण अगन्न
 ॥ मु० ॥ ९ ॥ नऱ प्यासी उनको मुख देखन, चातक चाहे ज्युं धन
 ॥ मु० ॥ १० ॥ उन विण उर सवे मन मेरे, जनक सहोदर सन ॥ मु०
 ॥ ११ ॥ लगन लगी मोहे उनके गुनकी, कहा रे कहुं हुं वचन्न ॥ मु०
 ॥ १२ ॥ में सोंप्युं सवि सहीयर एहने, माहरुं तन मन धन ॥ मु० ॥
 १३ ॥ जो न मिले मन मोहन मेरो, जावंगी होय योगन ॥ मु० ॥
 १४ ॥ कनक सरिखो पूरण पेखी, प्रगट हुवे परसन ॥ मु० ॥ १५ ॥ कर
 जोडी कहे हाजर वंदी, अब में तुम आधीन ॥ मु० ॥ १६ ॥ राग विक
 लता कारक एसो, जांख्यो श्री जगवन्न ॥ मु० ॥ १७ ॥ वात सुणो अब
 आगे रसीली, कान धरी सूरिजन्न ॥ मु० ॥ १८ ॥ सर्व ० ॥ ६५६ ॥ श्लोक ॥ १९ ॥

॥ दोहा ॥

॥ कहे हरि जो मुऊ उपरें, तुऊ मन मान्युं एम ॥ चालो जश्यें निज
 पुरी, वेसी विमानें हेम ॥ १ ॥ कनकसिरी वलतुं कहे, करे माहरो तात ॥
 तुमने परानव अति घणो, तेणें मुऊ मन शंकात ॥ २ ॥ बोव्या ते वेहु
 जणा, मत वीहे मनमांहे ॥ अम आगल शो आशरो, ए कुण गणती
 मांहे ॥ ३ ॥ वचन सुणी विस्मित हुई, पडी प्रेमके पास ॥ रूप शौर्य
 गुण मोहिता, साथें चली उल्लास ॥ ४ ॥ विद्यावले कीधुं नहुं, सुंदर एक
 विमान ॥ संजलावे नृप लोकने, उंचा रही असमान ॥ ५ ॥ जो जो सा
 मंतादिको, सवल सेन जूजार ॥ हरी जावं हुं नृपसुता, पीवें कीजो वाहार
 ॥ ६ ॥ सुणि ततखेव कोपें चढयो, कहे प्रतिहरि दमितारि ॥ रे रे मुनट
 शीपाइयो, जान न पावे गमार ॥ ७ ॥ कनकसिरीको ले चव्यो, तुरत विमान
 उमाइ ॥ पूठेसैं वाहर चढी, लियो लपेट अब जाइ ॥ ८ ॥

॥ ढाल त्रेवीशमी ॥

॥ कंदर्पना शर रे कांइ करे, कटकें सुगुण राण सधीर ॥ ए देशी ॥
 बालम देख रे कांइ चढयो कटकाइ, जनक राण सधीर ॥ मारजे तोकुं
 थाइ अडियो, सबलमोकुं पीर ॥ बालम ॥ १ ॥ चढयो दल चिहुं पासैं
 हूंती, मेघ ज्युं गंजीर ॥ गाजे धन नीशान गाजे, तीर वरसत नीर ॥
 वा० ॥ २ ॥ कुंत चमके अणी ऊवके, निसुण नणदल वीर ॥ मानुं
 चपला चलत चिहुं दिशि, थाइ पढुंचे वीर ॥ वा० ॥ ३ ॥ सुनट दूर उ
 म्नीय दइने, हाकजे ज्युं हमीर ॥ देखी निजजट हटत पीठें, आव्यो प्रति
 हरि पीर ॥ वा० ॥ ४ ॥ रे रंक तुं कित जात लेकें, सुता रुचिर शरीर ॥
 मारके चक चूर करसी, वडे एह अमीर ॥ वा० ॥ ५ ॥ धुजंती तव देखे
 थर थर, कहे हरि सुण नारी ॥ सिंह अंके फिकर तनकी, कांइ करत वि
 चार ॥ वा० ॥ ६ ॥ देइ आश्वासन एणी परें, सैन्य सजीयुं जोर ॥ दोडी
 चिहुं दिशि वीर धाये, तव मच्यो रणसोर ॥ वा० ॥ ७ ॥ जट ऊट तव उठली,
 दमितारि सेना साथ ॥ देखी निज बल मंद चिंते, शोचयुं हरि नाथ ॥
 वा० ॥ ८ ॥ प्रगट हूए रत्न ततकण, शंख धनु वनमाल ॥ गदा मणि
 उर खड्ग देखत, हुए द्योय उजमाल ॥ वा० ॥ ९ ॥ शंख लेइ करि पूरीयो
 तव, जोरसैं नरसिंह ॥ सैन्य मूर्धित नई रिपुकी, आप फोज अवीह
 ॥ वा० ॥ १० ॥ प्रतिहरि तव थाइ दूख्यो, बैर लेण विचार ॥ रथ
 चढी रणखेत दोडे, द्योय बंधु तिवार ॥ वा० ॥ ११ ॥ नजरें नजरें मट्या
 पुशमन, चढयो क्रोध कराल ॥ रंगें रणमेदान ऊटपट, लडे दोनुं व्याल
 ॥ वा० ॥ १२ ॥ शस्त्रनी जलधार वरसैं, रोपयुं दमितारि ॥ शस्त्र तो सव
 जये निःफल, खलें ज्युं उपकार ॥ वा० ॥ १३ ॥ शस्त्र टूटे फरिय पूठें,
 देखी प्रतिहरि दीन ॥ चक्र समयुं आय वेतुं, करे कहे सुण हीन ॥ वा०
 ॥ १४ ॥ देइ तनुजा पाचं पर अत्र, कादें मरत अकाल ॥ मर दिखा
 वत जोहगंमं, बढो तुं कंगाल ॥ वा० ॥ १५ ॥ कनकलिरि तव कंपती
 युं, धरत मनमां खेद ॥ हा कंत प्राणाधार केरो, करेगो शिरछेद ॥ वा०
 ॥ १६ ॥ म मर मनमां कंत घोले, देख तुं क्या द्योय ॥ चक्र ठोटयुं तेषें
 हरिकर, आय वेतुं सोय ॥ वा० ॥ १७ ॥ कहे हरि दमितारि सुण तुं,
 म मर जांगय राज ॥ कनकलिरि कुतात उछती, गइ कीनी आज ॥

वा० ॥ १८ ॥ मान धरि करवाल ले कर, दोडियो आकाश ॥ आवतो देखी चक्रसें हरि, ठेदियुं शिर तास ॥ वा० ॥ १९ ॥ हुउं जयजयकार गगनें, कुसुमको वरसात ॥ अनंतवीरय स्वामी तेरो, प्रबल पुण्य संघात ॥ वा० ॥ २० ॥ विजयअर्थे वासुदेवो, अपर ए बलदेव ॥ चिरं जीवो कोडि खेचरा, करण जागे सेव ॥ वा० ॥ २१ ॥ जीत हुइ तब अनंतवीरय, उदय एबल वान ॥ ढाल त्रेवीशमी त्रीजे खंके, सुणो सुगुण निधान ॥ वा० ॥ २२ ॥ ६८६ ॥
॥ दोहा ॥

॥ कनकसिरी मन चिंतवे, नागो मुज आचार ॥ ठानी आवी तातथी, में कियो कुलसंहार ॥ १ ॥ धिक् धिक् माहापण माहरुं, धिक् धिक् माहरुं रूप ॥ जोतां मुज आगल इस्थुं, कारिज थयुं विरूप ॥ २ ॥ कुल खंपण हुं कुंवरी, कां अवतरी जगमांय ॥ जनक अने वली बंधुनो, कखो विना श इण ठाय ॥ ३ ॥ वे बांधव चाव्या तुरत, वेसी विमान मजार ॥ कनकसिरीकों साथ लइ, बहु खेचर परिवार ॥ ४ ॥ निज नगरी नणी चालतां, विच कनकाडि उदार ॥ आव्यो तब खेचर कहे, इहां ठे जैनविहार ॥ ५ ॥ चैत्य जुहारी जिन तणां, वलतां दीगो साध ॥ कीर्त्तिधर नामें जलो, गुणमणि नखो अगाध ॥ ६ ॥ वरसी तपसी पामियो, उज्ज्वल केवल नाण ॥ दोय नरेश्वर पद नमी, करे मुनि तणां वखाण ॥ ७ ॥ धरा पीठ वेग विदु, कर जोडीने ताम ॥ नविक जीव प्रतिबोधवा, कहे मुनि देशन आम ॥ ८ ॥

॥ ढाल चोवीशमी ॥

॥ तुंगीया गिरि शिखर सोहे ॥ ए देशी ॥ कहे मुनिवर वात मीठी, सां जलो नवि वृंद रे ॥ पामियो ए झुलह नरनव, करो धर्म अमंद रे ॥ क० ॥ १ ॥ प्रथम चुद्धक अने पाशक, धान्य द्यूत विचार रे ॥ रयण सुमिण ते चक्र जाणो, कूर्म युग तिम धार रे ॥ क० ॥ २ ॥ दशमे परमाणु वखा णो, एह दश दृष्टांत रे ॥ जाणि झुर्ज एह जुगतें, मनुज नवनी वात रे ॥ क० ॥ ३ ॥ देश आरिज कुल अरोगी, जाव झुलह सहाव रे ॥ लही योग ए बंध कारण, दूर ठाम्मय विजाव रे ॥ क० ॥ ४ ॥ मिथ्यात्व अविरति छुष्ट योगा, तिम कपाय प्रमाद रे ॥ कह्या पंच ए बंध हेतु, तजो मन उन्माद रे ॥ क० ॥ ५ ॥ कुगुरु कुदेव कुधर्म केरा, संगसें मिथ्यात

रे ॥ पाप विरमण नहिं तिल नर, कही अविरति जात रे ॥ क० ॥
 ६ ॥ क्रोध मानो माय लोचो, मूल चार कपाय रे ॥ खंति थार्जव मुक्ति
 मार्दव, ए विपर्यय थाय रे ॥ क० ॥ ७ ॥ कहुं मदिरा विषय निडा, तिम
 कपाय निवार रे ॥ पंचमी विकथा ठांम परही, ए प्रमाद म चधार रे ॥
 क० ॥ ८ ॥ योग मन वच काय केरा, जालवो तुमें सार रे ॥ तेरमा गुण
 गण सूधी, जे रहे निर्धार रे ॥ क० ॥ ९ ॥ हेतु बूटे गुण प्रगटे, करो तास
 उपाय रे ॥ कहे केवली धर्मनी मति, करो जिम सुख थाय रे ॥ क० ॥
 १० ॥ नव स्वरूपें अंधकूपें, मोह चूपें पाश रे ॥ विषयनामें मांहे पडि
 या, होय गति मति नाश रे ॥ क० ॥ ११ ॥ एक विषय विलासहेतें,
 जे हणो बहु लोक रे ॥ तेहनां फल दोहिलां ते, सहे परनव रोक रे ॥
 क० ॥ १२ ॥ शैल्य सरिखा कह्या विष सम, कामिनीना नोग रे ॥ सुख
 माने मूढ न लहे, अनादिनो रोग रे ॥ क० ॥ १३ ॥ एह सुख मधुविंड
 सरिखुं, अंते कटुक विपाक रे ॥ धन्य एहथी रह्या अजगा, जाणी फल किं
 पाक रे ॥ क० ॥ १४ ॥ कनकसिरि कर जोडी जंपे, कहो सत्य अवदात रे ॥
 विषय चिंतनयकी दुःख दे, सेविया शी वात रे ॥ क० ॥ १५ ॥ पण कहो
 कुण कर्म हूड, पितर वंधु वियोग रे ॥ कहे नाणी सुणो प्राणी, कर्म सव
 जो रोग रे ॥ क० ॥ १६ ॥ ढाल चौवीशमी त्रिजे खंमें, रंगें दाखी एह रे ॥
 रामविलय कहे सुणो हवे, पूर्वनव सस्नेह रे ॥ क० ॥ १७ ॥ ७११ ॥
 ॥ दोहा ॥

॥ कहे कीर्तिधर केवली, शुद्ध नाण उपयोग ॥ देवाणुपिय सांनजो,
 पूरवकृतनो नोग ॥ १ ॥

॥ ढाल पञ्चीगमी ॥

॥ प्रथम अहिरावण दीवो ॥ ए देशी ॥ पूरव धातकीखंमें, शंखपुर नरतें अ
 खंमें ॥ उच्चिन्नवंश एक नारी, श्रीदत्ता निर्धारि ॥ १ ॥ परघरे करे
 नित्य काम. अवन्या दुःखनुं ए ठाम ॥ कर्म कमाइनां योग, न मन्ने वांति
 न नोग ॥ २ ॥ एकदिनें मुनिवर मजिया, मनह मनोग्य फजिया ॥ कहे
 नामी हित दाखो, मुजने जीवती राखो ॥ ३ ॥ कहे मुनि धर्मचक्र
 बाल, तप करो अइ उजमाल ॥ प्रथम अहम दोष करीयें, साहजरीन चांय
 आदरीयें ॥ ४ ॥ इय गुरु नक्ति अति सारी, पूजा सत्तर प्रकारी ॥ धन

होय तो एम कीजें, दान संपत्ति सारु दीजें ॥ ५ ॥ गुरु दीधुं तप
 लीधुं, माने कारिज लीधुं ॥ धन्य गुरु मुज समजावी, सूधी राह वतावी
 ॥ ६ ॥ गुरु वंदी घरे आवी, कहे पाडोशण जावी ॥ तप करे मन हित
 आणी, लोकें उत्तम जाणी ॥ ७ ॥ पारणो खबर ले सारी, ए शुं करशो
 विचारी ॥ तप महोटुं जिन साध्युं, आतम गुणथी ए वाध्युं ॥ ८ ॥
 सार्विक राजसी जोय, तामस त्रीजुं ए होय ॥ दोय तजी एक करीयें,
 सहेजें शिवसुख वरीयें ॥ ९ ॥ तपस्वी घणी थइ नारी, एक दिन जित्त मजा
 री ॥ जोतां कंचन पायो, हियडे हेज न मायो ॥ १० ॥ वाधी तपनी
 प्रतीति, उजमणुं करे रीति ॥ जिनवर पूजा रचावे, साहामी तेडी जिमावें
 ॥ ११ ॥ तप उजमणुं ए कीधुं, मणुज जन्म फल लीधुं ॥ तप उजमणा
 थी वाधे, निज उत्साहें जो साधे ॥ १२ ॥ तपथी होवे व्यवदान, तप
 ए मुक्ति निदान ॥ तप तपीयुं ए नीराशी, प्रगटे निजगुण राशि ॥ १३ ॥
 यडुक्तं ॥ यदूरं यदुरा० ॥ १ ॥ मासखमण उपवासी, समगुणनो जल
 राशि ॥ एहवे एक मुनि आव्यो, श्रीदत्ता मन जाव्यो ॥ १४ ॥ उठी गइ
 तस सामी, पाठ धारो मुज स्वामी ॥ पतितने पावन कीजें, आहार
 निरवद्य लीजें ॥ १५ ॥ पडिलाने मुनि जावें, अशनादिक वहोरावे ॥
 कहे कृतकृत्य हुं आज, संतोष्या मुनिराज ॥ १६ ॥ धर्म कहो मुज
 मीठो, फल जस नयणले दीठो ॥ पाठली पोरसी थाइ, सुणजो धर्म
 सखाइ ॥ १७ ॥ मुनिवरें कीधो आहार, मास खमण चोविहार ॥ धाव्यो
 दिवस बीजाथी, सूधो मुक्तिनो साथी ॥ १८ ॥ श्रीदत्ता तिहां आवे, मुनि
 वर वांध्या ते ए जावें ॥ मुनि कहे जिनवर धर्म, निसुणो एहनो मर्म ॥ १९ ॥
 त्रीजा मित्र समान, आपे शिवसुखदान ॥ एहना तीन प्रकार, सुणजो ते
 निर्धार ॥ २० ॥ प्रथम त्वचागत कहीयें, दिलमांहे वहीयें ॥ बीजो अ
 स्थिगत साचो, पण परमारथ काचो ॥ २१ ॥ त्रीजो मज्जामां नेदो, धर्म
 न जाये उठेद्यो ॥ प्राणांतें नवि सूके, कष्ट पडे नवि चूके ॥ २२ ॥ एह
 अर्थ एम थ्यावे, परअनर्थ मन लावे ॥ केम अमूरत धर्म, अस्थि मज्ज कहो
 मर्म ॥ २३ ॥ इहां उपनय वतलावे, मुनि हवे एम समजावे ॥ कही पच
 वीशमी ढाल, त्रीजे खंभें रसाल ॥ २४ ॥ सर्वगाथा ॥ ७३६ ॥ श्लोक ॥ १२ ॥

॥ दोहा ॥

॥ कहें मुनि उपनय एहवो, नयरी उज्जेली नाम ॥ नृप जितरिपु
धारिणी तनय, नरसिंह सुत अजिराम ॥ १ ॥ सकलकला पूरण शशी,
यौवनरूप रसाल ॥ कन्या परणावी पिता, छत्रिंशत सुकुमार ॥ २ ॥
अतुली बल सुख चोगवे, मनोवांछित संयोग ॥ मात पिता मनवल्लहो,
विलसे विपथिक नोग ॥ ३ ॥

॥ ढाल ठवीशमी ॥

॥ मगध देशको राज राजेश्वर ॥ ए देशी ॥ एकदिवस ते पुरनें परिसरें,
आव्यो हो वननो हाथी ॥ उज्ज्वल वर्ण गज तिम उंचो, नृपनें कसुं कोइ
साथी के ॥ १ ॥ राजन अरज सुणो एक मोरी ॥ हुं बलिहारी तोरी ॥ वा
लेसर ॥ अ० ॥ ए आंकणी ॥ गज कोप्यो जन विह्व करतो, राख हो अमचा
स्वामी ॥ अमो अनाथ अशरण कोण आगे, कहियें जइ शिर नामी के ॥
रा० ॥ २ ॥ सुणि राजा सेना दोडावी, सबल राणीना जाया ॥ देखी
गज मदमत्त मद्रोक्षत, दीन अइ फरी आया के ॥ रा० ॥ ३ ॥ आप
थयो असवार नरेश्वर, पहेरी सन्नाह ते शूरो ॥ आवी नमे नरसिंह कुम
रजी, बोले एम गुणपूरो के ॥ रा० ॥ ४ ॥ राज विराजो महोलें
ठाजो, हुकम करो अब अमने ॥ फुरमावो तेहनें बांधीने, गुजरावुं जेइ
स्थाने के ॥ रा० ॥ ५ ॥ हुकम हुवो गज लावो हो जाली, दोड्यो अइ
असवार ॥ केसरीया रजपुत रठियाला, साथें सबल परिवार ॥ रा० ॥
॥ ६ ॥ दीगो गज नव हाथनो लांवो, सात उन्नत त्रण पदोलो ॥ दीर्घ
दंत कर पिंगल नयणें, दरिसण जेहनो न सोहिलो के ॥ रा० ॥ ७ ॥
चागें चालीश लक्षणें पूरो, दीगो गपंद कुमारें ॥ सिंधुर राजकुमार जणी
धतियो, लोक सहूको वारे ॥ ८ ॥ कुमरजी ए गज जाल्यो न जाय ॥
देखि ततस्वेव ए यमना सरिखो, ए पासें जाय बलाय ॥ कुम० ॥ ए० ॥
कुमर कहे तुमें दूरें रह्यो तधि, ए गजनें नलाहुं ॥ तो जितरिपु कुजनो
हुं जायो, गज आणुं ग्रही चाहुं के ॥ रा० ॥ ९ ॥ चक्रपरें गजनें
फेरवियो, चक्रव्यो हो तेहनें गाढो ॥ चरणें खेदाणो थामें नदाणो,
उंचो रह्यो अइ टाटा के ॥ रा० ॥ १० ॥ जई घेठो अपर लघु कजलुं,
घलीयां राजकुमार ॥ विरमय पाम्या आलानें आण्यो, वरत्यो जय जय

होय तो एम कीजें, दान संपत्ति सारु दीजें ॥ ५ ॥ गुरु दीधुं तप
 लीधुं, माने कारिज सीधुं ॥ धन्य गुरु मुऊ समजावी, सूधी राह वतावी
 ॥ ६ ॥ गुरु वंदी घरे आवी, कहे पाडोशण चावी ॥ तप करे मन हित
 आणी, लोकें उत्तम जाणी ॥ ७ ॥ पारणें खवर ले सारी, ए शुं करशें
 विचारी ॥ तप महोटुं जिन साध्युं, आतम गुणथी ए वाध्युं ॥ ८ ॥
 सात्त्विक राजसी जोय, तामस त्रीजुं ए होय ॥ दोय तजी एक करीयें,
 सहजें शिवसुख वरीयें ॥ ९ ॥ तपस्वी घणी थड नारी, एक दिन जित्त मजा
 री ॥ जोतां कंचन पायो, हियडे हेज न मायो ॥ १० ॥ वाधी तपनी
 प्रतीति, उजमणुं करे रीति ॥ जिनवर पूजा रचावे, साहामी तेडी जिमावें
 ॥ ११ ॥ तप उजमणुं ए कीधुं, मणुज जन्म फल लीधुं ॥ तप उजमणा
 थी वाधे, निज उत्साहें जो साधे ॥ १२ ॥ तपथी होवें व्यवदान, तप
 ए मुक्ति निदान ॥ तप तपीयुं ए नीराशी, प्रगटे निजगुण राशि ॥ १३ ॥
 यडुक्तं ॥ यदूरं यदुरा० ॥ १ ॥ मासखमण उपवासी, समगुणानो जल
 राशि ॥ एहवे एक मुनि आव्यो, श्रीदत्ता मन जाव्यो ॥ १४ ॥ उठी गड
 तस सामी, पाउ धारो मुऊ स्वामी ॥ पतितने पावन कीजें, आहार
 निरवद्य लीजें ॥ १५ ॥ पडिलाचे मुनि जावें, अशनादिक वहोरावे ॥
 कहे कृतकृत्य हुं आज, संतोष्या मुनिराज ॥ १६ ॥ धर्म कहो मुऊ
 मीठो, फल जस नयणले दीठो ॥ पाठली पोरसी आड, सुणजो धर्म
 सखाड ॥ १७ ॥ मुनिवरें कीधो आहार, मास खमण चोविहार ॥ धास्यो
 दिवस बीजाथी, सूधो मुक्तिनो साथी ॥ १८ ॥ श्रीदत्ता तिहां आवे, मुनि
 वर वांच्या ते ए जावें ॥ मुनि कहे जिनवर धर्म, निसुणो एहनो मर्म ॥ १९ ॥
 त्रीजा मित्र समान, आपे शिवसुखदान ॥ एहना तीन प्रकार, सुणजो ते
 निर्धार ॥ २० ॥ प्रथम त्वचागत कहीयें, दिलमांहे वहीयें ॥ बीजो अ
 स्थिगत साचो, पण परमारथ काचो ॥ २१ ॥ त्रीजो मळामां जेदो, धर्म
 न जाये उधेद्यो ॥ प्राणांतें नवि मूके, कष्ट पडे नवि चूके ॥ २२ ॥ एह
 अर्थे एम थावे, परअनर्थे मन लावे ॥ केम अमूरत धर्म, अस्थि मळकहो
 मर्म ॥ २३ ॥ इहां उपनय वतलावे, मुनि हवे एम समजावे ॥ कही पच
 वीशमी ढाल, त्रीजे खर्में रसाल ॥ २४ ॥ सर्वगाथा ॥ ७३६ ॥ श्लोक ॥ १२ ॥

॥ दोहा ॥

॥ कहे मुनि उपनय एहवो, नयरी उझेणी नाम ॥ नृप जितरिपु
धारिणी तनय, नरसिंह सुत अजिराम ॥ १ ॥ सकलकला पूरण शशी,
योवनरूप रसाज ॥ कन्या परणावी पिता, द्वात्रिंशत सुकुमार ॥ २ ॥
शत्रुली वल सुख जोगवे, मनोवांछित संयोग ॥ मात पिता मनवच्छहो,
विलसे विपथिक जोग ॥ ३ ॥

॥ ढाल ठवीशमी ॥

॥ मगध देशको राज राजेश्वर ॥ ए देशी ॥ एकदिवस ते पुरनें परिसरें,
आव्यो हो वननो हाथी ॥ उज्ज्वल वणें गज तिम उंचो, नृपनें कहुं कोइ
साथी के ॥ १ ॥ राजन् अरज सुणो एक मोरी ॥ हुं बलिहारी तोरी ॥ वा
लेसर ॥ अ० ॥ ए अंकणी ॥ गज कोप्यो जन विप्लव करतो, राख हो अमचा
सामी ॥ अमो अनाथ अशरण कोण आगे, कहियें जइ शिर नामी के ॥
रा० ॥ २ ॥ सुणि राजा सेना दोडावी, सबल राणीना जाया ॥ देखी
गज मदमत्त मदोदत, दीन थइ फरी आया के ॥ रा० ॥ ३ ॥ आप
थयो असवार नरेश्वर, पहेरी सन्नाह ते शूरो ॥ आवी नमे नरसिंह कुम
रजी, बोले एम गुणपूरो के ॥ रा० ॥ ४ ॥ राज बिराजो महोलें
ठाजो, हुकम करो अथ अमने ॥ फुरमावो तेहनें वांधीने, गुजराबुं लेइ
स्थानें के ॥ रा० ॥ ५ ॥ हुकम हुवो गज जावो हो जाली, दोड्यो थइ
असवार ॥ केसरीया रजपुत रहियाला, साथें सबल परिवार ॥ रा० ॥
॥ ६ ॥ दीगो गज नव हाथनो लांबो, सात उन्नत त्रण पहोलो ॥ दीर्घ
दंत फर पिंगल नयणें, दरिसण जेहनो न सोहिलो के ॥ रा० ॥ ७ ॥
चाग्गें चालीश लक्ष्णें पूरो, दीगो गयंट कुमारें ॥ सिंधुर राजकुमर जणी
धलियो, लोक सहूको वारे ॥ ८ ॥ कुमरजी ए गज जाव्यो न जाय ॥
देखि ततखेव ए यमना सरिखो, ए पासें जाय बजाय ॥ कुम० ॥ ए० ॥
कुमर कहे तुमें दूरें रहो सवि, ए गजनें नसाहुं ॥ तो जितरिपु कुजनो
हुं जायो, गज आणुं यही चाहुं के ॥ रा० ॥ ९ ॥ चक्रपरें गजनें
पेगनियो, यराव्यो हो तेहनें गाढो ॥ चरणें खेदाणो आसैं नराणां,
थनो गह्यो थइ दाढो के ॥ रा० ॥ १० ॥ जई बंतो कपर जवु कलशुं,
पजीयो राजकुमार ॥ विस्मय पास्या आलानें आह्यो, बरत्यो जय जय

कार के ॥ रा० ॥ ११ ॥ जनक समीपें आव्यो कर जोडी, विनयें नामे
 शीश ॥ सहु आशिष दीये चिरं जीवो, कुंवर कोटि वरीस के ॥ रा० ॥
 १२ ॥ चिंतवे नरवर राजधुरंधर, पुत्र सुकुल मुह आगें ॥ न घटे मुजनें
 राज्यमां रहेवुं, आव्युं मन वैराग्यें के ॥ रा० ॥ १३ ॥ यहुक्तं ॥ नारं खमे
 वि पुत्ते, जो नियचारं ठविज्जु निचंतो ॥ न य साहेइ सकज्जं, सो मुक्कसिरो
 मणि जणित ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ लहि सम्मति सुत राज्यें आपी, नृप जयंधर
 मुनि पासें ॥ लोच करी मन शोप हरीने, चारित्र पाले उल्लासें के ॥ रा० ॥
 ॥ १४ ॥ चंपकवरणी काया हो कोमल, कीधो उग्र विहार ॥ पंच समिति त्रण
 गुप्ति संजाले, पाले पंचाचार के ॥ रा० ॥ १५ ॥ हवे नरसिंह नरेसर रूडे,
 पाले प्रजाने प्रेमें ॥ न्यायमार्ग नवि चूके कोइ, सहुको व्रतें हेम के ॥
 रा० ॥ १६ ॥ अन्य दिवस अतिमायी प्रकटयो, आकरो चोर प्रचम ॥
 नगर मुष्युं सघलुं तिण धूतें, कोइ न देई शके दंम के ॥ रा० ॥ १७ ॥
 महाजन लोक मलीने आवे, राजन किम रहेवाये ॥ धोले दहाडे धूते हो
 धूरत, रातें वाहार न जाय के ॥ रा० ॥ १८ ॥ देइ दिलासो महाजन वास्यो,
 आरहक रखवालें ॥ पुनरपि महाजन फरियाद कीधी, कां नृप अम नवि
 पाले के ॥ रा० ॥ १९ ॥ नहिंतर स्थानक आपो अलगुं, तिहां जइनें
 अमें वसीयें ॥ तिहां आरहक कातो कीधो, बोलाव्यो रायें रसीये के ॥
 रा० ॥ २० ॥ कहे महाजन राजन इहां एहनो, वांक न कांइ दीसे ॥
 वहुअर वेटी जाय उफेटी, धूरत रात न दीसे के ॥ रा० ॥ २१ ॥ ए कोइ
 वलीयो ने वली ठलियो, कोइ प्रपंचें जीताये ॥ कहे राजा करिश हुं रूडुं,
 महाजन कीधुं विदाय ॥ रा० ॥ २२ ॥ कहे सुव्रत श्रीदत्ता सुण हवे, अस्थि म
 ज्ञानी वात ॥ त्रीजे खमें ढाल ठवीशमी, सांजलो मूकी वात के ॥ २३ ॥ ७६ ॥

॥ दोहा ॥

॥ वंत वेप धरि नीसखो, रातें ते राजान ॥ सघले शंका स्थानकें, भ्रम
 ए करे धरि शान ॥ १ रात्रिमांहे वाहिर दिने, फरे अहोनिश ते चूप ॥
 पण किहांये दीतुं नहिं, तस्करतणुं स्वरूप ॥ २ ॥ अन्य दिवस संध्या
 समय, वेतो तरुतलें राय ॥ वख कपाय त्रिदंमियो, दीगो मारगमांय ॥
 ३ ॥ निज समीप आव्यो यदा, नम्यो नरेश्वर ताम ॥ कुण तुं किहांयी
 आवीयो, तिणे पण पूठ्युं आम ॥ ४ ॥

॥ ढाल सत्त्यावीशमी ॥

॥ देशी ऊकडीनी ॥ सुण योगींदा वे, वात कहुं थव मेरी ॥ धनके कारण वे, बहुत देइ में फेरी ॥ त्रु० ॥ फेरी दीधी देश विदेशों, बहुत दिव स दूआ मोकुं ॥ नूखा तरप्या धन मेलणकुं, बहुत क्या में कहुं तोकुं ॥ पण उपगारी कोउ न मजिया, जासुं टले ए दुःखदंदा ॥ थाका आया देखी तरुठाया, सुख पाया सुण योगींदा ॥ सुण योगींदा वे ॥ १ ॥ धन मन मानुं वे, आर कहा जगमांये ॥ धनसें इकत वे, जिहां जावे उहां पावे ॥ त्रु० ॥ पाइ इकत दोलत दुनियां, धन विण काज न कोइ सरे ॥ निर्धन उर मृत दोउ बरोवर, कवि ग्रंथांतर सुं उचरे ॥ परणी घरणी ते पण ठंमे, फरे कुलीन पण अणमान्युं ॥ न गणे कोइ प्रतीति ते नरनी, ते माटें धन मन मान्युं ॥ ध० ॥ २ ॥ थव तुं पाया वे, नाग्यदशा मुज जागी ॥ कर सुपसाया वे, हो मुज उपर रागी ॥ त्रु० ॥ रागी होइ करो मुज करुणा, करणी तुमची अति सारी ॥ थवधूत कहावो अलक जगावो, दुनियामें तुम गति न्यारी ॥ आजसुआ घर आवी गंगा, रंग नया मोरे मन चाया ॥ दरिदु दुःख वेहा जोय नमेहा, ताप टले थव तुं पाया ॥ अ० ॥ ३ ॥ कहे ते हरखी वे, कुण कुण देश तें देखे ॥ कही मुज आगें वे, वात विचार गुं लेखे ॥ त्रु० ॥ लेखे वात विचारी पंथी, कहे चोराशी फरि आयो ॥ कुण कुण तेह वताव ते मोकुं, जांखे ऊजट मन पायो ॥ मंजी देखे देश बहुत हे, उनकी रीति मिले सरखी ॥ तामें जाणुं तरत पिढाणुं, साची ते कहे ते हरखी ॥ क० ॥ ४ ॥ सोरठ देख्यो वे, चतुर जिदां नर नारी ॥ मधुर्न घोले वे, मानुं सुर थवतारी ॥ त्रु० ॥ सुर थवतारी जिदां दां तीग्य, सत्रुं जय गढ गिरनारी ॥ आदीश्वर अलबेसर स्याप्या, जाठं उनकी वजिहारी ॥ कोहाकोडि अनंता सिद्धा, जिहां मुनिवर सो में पेल्या ॥ बहु दिन उहां फगिया बहु नीलरीया, योगीश्वर सोगठ देख्या ॥ सो० ॥ ५ ॥ कुंकाण देख्या वे, जिहां पग पग पनवाडी ॥ नाजीथेर कदली वे, जोजन सुंदर आज्ञी ॥ त्रु० ॥ गाळी जोजन चतुरविचरण, लोक सहको नदिं दुर्गवीयो ॥ मयो गुजरान करन उनदेशों, तोजी में न जयो सुखीयो ॥ कामण दूनण गाळे सुदुळे, सवदी मोकुं उवेरयो ॥ कहुं थवधूता सुण तुं मिना, पेल्यां मे कुंकाण देख्या ॥ कुं० ॥ ६ ॥ वं बहुते वे, थंग तेजंग कालिगा ॥ लाट

हुखाला बे, मरुधर गुज्जर चंगा ॥ त्रूण ॥ चंगा देश जिहां नवरंगा, गंगा
 निर्मल नीर वहे ॥ काशी देश सुवेशा मानव, जिण दीठे आनंद लहे ॥ नव
 नव जाषा नव नव शाखा, दाखी सुण साईं मेरे ॥ धन नवि पायो काल
 गमायो, देखे देश शुं बहुतेरे ॥ देण ॥ ७ ॥ धूरत चिंते बे, साचुं एणे जां
 स्सुं ॥ करशे महारुं बे, कारिज पासें राखुं ॥ त्रूण ॥ राख्या पासें एम
 विमासे, मत फिकर मनमांहे धरे ॥ मन चाहे सो लठमी लेनां, पण
 कहुं सो तुं काज करे ॥ अंगीकार कखुं तस जांख्युं, जाण्यो चोर ए सही
 चित्तें ॥ रात पडी पसखुं तम बहुलुं, तव मनमां धूरत चिंते ॥ धूण ॥ ८ ॥
 सुण वैदेशी बे, तस्करने जे प्यारी ॥ सन्मुख आवी बे, रयणी ए अंधारी
 ॥ त्रूण ॥ रात अंधारी आपण प्यारी, ले कृपाण करमें तेरा ॥ चाल नयरमां
 ईश्वर घरमां, धन लावे जइ बहुतेरा ॥ सत्यावीशमी त्रीजे खंभें, ढाल
 कही ऊकडी देशी ॥ आव्युं पाप उदय हवे एहनुं, राम कहे सुण
 वैदेशी ॥ कण ॥ ए ॥ सर्वगाथा ॥ ७७५ ॥ श्लोक तथा गाथा मली ॥ १५

॥ दोहा ॥

॥ काढ्युं खड्ग पडिहारथी, ऊवके ज्योति अपार ॥ चिंते नृप एहने
 हणुं, वजी मन करे विचार ॥ १ ॥ एक वार जोऊं चरित, हणवो महारे
 हाथ ॥ एम चिंतीनें चालीयो, नृपति तेहनी साथ ॥ २ ॥ धूरत मन
 शोचे इस्त्युं, नहिं खड्ग सामान्य ॥ इण खड्गें जाणुं सही, दीसे ठे राजान
 ॥ ३ ॥ तो उपाय कांइक करी, कूटी मारुं राय ॥ वेहु धूर्ते धूर्तज मव्या,
 जोजो शुं हवे थाय ॥ ४ ॥ आघो जइ पाठो वव्यो, कहे धूरत पुरलोक ॥
 हमणां जागे ठे इहां, सूर्जे गतशोक ॥ ५ ॥ राजायें दोग कीधला, पल्ल
 व संस्तर ताम ॥ एकण वीशामो स्वयं, वीजे चोर हराम ॥ ६ ॥

॥ ढाल अठ्यावीशमी ॥

॥ मूकी घो मति दंजनी जी ॥ ए देशी ॥ चोर विचारे चित्तमां जी,
 मुऊ माथानो एह ॥ मुऊ जागतां ए केम मरे, नवि सूवे कपटनुं गेह रे
 ॥ १ ॥ चोर कला नवि कीजीयें जी ॥ ए आंकणी ॥ चोरीयें जय नवि
 याय ॥ धन मेले धृती घणुं रे, जीवथी जाय रे ॥ चोण ॥
 ॥ २ ॥ लांवो ॥ ॥ ॥ तिवार ॥ एम ठल ताके
 ॥ ३ ॥ नृप हलवे

उठयो तिहां जी, जाण्युं लाकड एक ॥ निजस्थानक मूकी करी रे, तरु
 कोटरें रह्यो धरि टेक रे ॥ चो० ॥ ४ ॥ तग ऊठी जोयुं जिस्वें जी, सूतो
 जाणी तास ॥ खड्गें हणी कखा खंम वे रे, नृपच्रांतें रे अविमास रे ॥
 चो० ॥ ५ ॥ पट परहुं करी जोड्युं जी, अहो अहो तगीयो मुऊ ॥ पश्चात्ताप
 करे घणो जी, नवि जाण्युं रे में एहनुं गुऊ रे ॥ चो० ॥ ६ ॥ राजन कहे
 सुण पापीया जी, थाजे हवे हुशियार ॥ पापनो घट पूरण हुउ रे, नहिं
 मूकुं रे हवे निर्धार रे ॥ चो० ॥ ७ ॥ जलुं जलुं कहेतां सामुहो जी,
 थयो जाली तरवार ॥ खड्गाखड्गें तेहनुं रे, सुख मातुं रे थयुं बहु वार रे
 ॥ चो० ॥ ८ ॥ कल पामीने राजवी जी, चोरनें हणीयो मर्म ॥ लडयड
 तो नॉये पळ्यो रे, एम आव्युं रे उदय निज कर्म रे ॥ चो० ॥ ९ ॥ विधु
 र थयो ते घातथी जी, नूपप्रत्यें कहे वात ॥ वीर उग्युं पुर ताहरुं रे, तो
 पाभ्यो रे अचिंत्यो घात रे ॥ चो० ॥ १० ॥ सुण मरवुं सही माहरे जी,
 ए देवजनी पूव ॥ पाताल मंदिर ठे जलुं रे, तुमें जाउ रे सितावी ऊठ रे ॥
 चो० ॥ ११ ॥ बहु नयरनी नारीयां जी, घाली नृमि मजार ॥ डव्य
 अठे वलि त्यां घणुं रे, तुमें करजो रे हो तेहनी सार रे ॥ चो० ॥ १२ ॥
 खड्ग लेई जाउं माहरुं जी, देजो हो विवरें साद ॥ तुरत आवीने उघाड
 शे रे, निसुणीने रे तुमारो नाद रे ॥ चो० ॥ १३ ॥ मरण कहेजो
 माहरुं जी, देजो खड्ग निशानि ॥ छार उघाडी ताहरी रे, एह सेवा करजो
 सुजाण रे ॥ चो० ॥ १४ ॥ खड्ग लेई नृप चालीयो जी, पद्दोतो नुवन
 छार ॥ सवि वृत्तांत सुणी करी रे, पेसाण्यो रे नुवन मजार रे ॥ चो० ॥
 १५ ॥ इण पर्येकें मादिवा जी, वेसो आवी राज ॥ तुम दर्शनथी
 माहरां रे, सवि सीध्यां रे वांठित काज रे ॥ चो० ॥ १६ ॥ छार देई आ
 हुं तदा जी, प्रहन्न जोतां रे दीठ ॥ सा शंकी नृपें उंजखी रे, करे कांड
 रे एह अनीछ रे ॥ चो० ॥ १७ ॥ निज उपधाननें स्यापीने जी, आप दीप
 थन ठाय ॥ रहियो पंचगिला तदा रे, नेणें मूकी रे तिण ठाय ॥ चो०
 ॥ १८ ॥ शय्या अतर्पमित्त यइ जी, ताली देनी ताम ॥ अदो मुऊ वंध
 थ तणा रे, वेरीतुं रे कीधुं काम रे ॥ चो० ॥ १९ ॥ दोटी राजा आवीने
 जी, केडें जाली प्रचंम ॥ हवे पद्दोचाहुं तुनें रे, निजबंधय रे मागें रंम ॥
 चो० ॥ २० ॥ इति वचन मुण्य वांजती जी, जीवती मूकी मंते ॥ छार

उघाडी आवियो रे, निजमंदिर रे नृप उत्साह रे ॥ चो० ॥ ११ ॥ प्रात
थयो रवि ऊगीयो जी, पुरजन साथे राय ॥ आवे तिहां ऊतावजो रे,
कहे सहुने रे जोवो आय रे ॥ चो० ॥ १२ ॥ जे जेहनुं होय ते ग्रहो
जी, नारी अने धनराशि ॥ जेई सहु पुर आवीया रे, नृप वाध्यो रे
सुजसविलास रे ॥ चो० ॥ १३ ॥ जे नारी आणी घरे जी, ते रति न लहे
लगार ॥ दस्यु उपर मोही रही रे, दोडी जावे रे चोरके तार रे ॥ चो०
॥ १४ ॥ जन आवी कहे रायनें जी, रायें बोलाव्या वैद्य ॥ कहे उप
चार ते कीजियें रे, गुटिकादि करे वलि नैवेद्य रे ॥ चो० ॥ १५ ॥ ते
कहे कामण चूरणें जी, अइ परवश ए बाल ॥ निजचूरण आपी करी रे,
करुं साजी रे हुं ततकाल रे ॥ चो० ॥ १६ ॥ राजहुकम वैद्यें करी जी,
ते सवि मूल स्वजाव ॥ एक रही कांगडुं परें रे, नवि ठामे रे तेह विजाव रे
॥ चो० ॥ १७ ॥ विस्मय पाभ्यो राजीयो जी, पूठे हो कारण तेह ॥
वैद्य कहे सुण साहिवा रे, कहुं कारण रे हुं सखेह रे ॥ चो० ॥ १८ ॥
ढाल जणी अठधावीशमी जी, त्रीजे खंमे विचार ॥ कहेजो राजा आगलें
रे, चूर्णनो रे हवे अधिकार रे ॥ चो० ॥ १९ ॥ सर्वगाथा ॥ ८१ ॥ श्लोक १ ५ ॥

॥ दोहा ॥

॥ चूर्णथी रे वासी त्वचा, कोइकनी माहाराज ॥ मांस रुधिर कोइके
तणां, वास्यां गरिब निवाज ॥ १ ॥ ते में सवि प्रतिचूर्णथी, करी नीरो
गी काय ॥ पण एहनी अस्थिमज्जा, वासी ठे माहाराज ॥ २ ॥ ते माटें
दस्यु तणां, अस्थि घसीनें पाय ॥ तो राजन ए कामिनी, सहेजें साजी
थाय ॥ ३ ॥ ते तिम राय करावियुं, निर्विकार अइ ताम ॥ सकल लोक
आनंद जयो, चिरं जीवो ए स्वामि ॥ ४ ॥

॥ ढाल उंगणत्रीशमी ॥

॥ राजुल बेठी मालीये ॥ ए देशी ॥ इण अवसरें तिहां आवीया,
निजजनकना हे दीक्षा गुरुराज के ॥ श्रीजयंधरनामें जला, नवजलनिधि हो
तारणना जहाऊ के ॥ १ ॥ नरसिंह नृप वैरागीयो, गुणसागर हे सुतने
देइ राज के ॥ पोतें संयम आदस्यो, गुण गीरुठहे निज आतम काज
के ॥ न० ॥ २ ॥ पंचाचार विचारना, गुण पाले हो चाले शुद्ध पंथ
के ॥ मारग मुनिवरनो जलो, आराधे हो नहिं कोइ पलिमंथ के ॥ न०

॥ ३ ॥ तप करी काया शोपवी, हाजंतां हे वाजे वजि हाड के ॥ सहे परीसह आकरा, चूख तृपा हे वली ताप ने टाड के ॥ न० ॥ ४ ॥ घाती कर्मकृत्यथी लह्या, नाण पचम हे पंचमगति वास के ॥ करुं कर जोडी वंदणा, सिद्धरूपी हे थवा लीलविजास के ॥ न० ॥ ५ ॥ कहे सुव्रत जेम योगीने, चूरणें करी हे वासी तस मीज के ॥ तेम धर्म ए आतमा, वा सीजें हे आणी शुद्ध रीज के ॥ न० ॥ ६ ॥ एम उपदेश सुणी नजो, श्रीदत्ता हे अहे श्रावकधर्म के ॥ मुनि वंदी मंदिर वली, मनमांहे हे जाण्या व्रतमर्म के ॥ न० ॥ ७ ॥ सामायिक पोसह करे, ठठ अठम हे आंधिल उपवास के ॥ नित्यें विगय न वावरे, छुन जावना हे जावे उजा स के ॥ न० ॥ ८ ॥ एक दिन कर्म तणे वरों, मनमांहे हे आब्युं तस एम के ॥ गुं फल होशे के नहिं, पाखुं तुं हो सुधो धरी प्रेम के ॥ न० ॥ ९ ॥ विचिकित्सा एहवी करी, चवि तिहांथी हे जिहां उतपन्न के ॥ कहे कीर्तिधर केवली, ते दाखुं हे सुणो राजन के ॥ न० ॥ १० ॥ इण विजयें वेंताढ्यमां, सुरमंदिरें हे नगरें गुणवंत के ॥ कनकपूज्य राजा नजो, वायुवेगा हे राणीनां कंत के ॥ न० ॥ ११ ॥ कीर्तिधर सुत जेहनो, नरयोवन हे आब्यो नृपाल के ॥ अनिलवेगा मुज कामिनी, गुण वंती हे रुपें रतिवाल के ॥ न० ॥ १२ ॥ कुंज वृषन गजराजने, स्वप्न त्रयें हो सूचित सुत सार के ॥ प्रसव्यो आगल ते थयो, जोरावर हे प्रतिहरि दमितारि के ॥ न० ॥ १३ ॥ बहुकन्या परणावियो, में सोंप्युं हो तेदने निजराज्य के ॥ गुरुपामें अणगारता, में लीधी हो जेवा शिवराज के ॥ न० ॥ १४ ॥ ते दमितारिनी बलना, मदें राती हो कूखें सजात के ॥ कनकतिरी पुत्री नजी, तुं दुइ हे इहां गुण विख्यात के ॥ न० ॥ १५ ॥ करी विचिकित्सा पूर्वे, तेमाटें हे थयो वंधुवियोग के ॥ सकल कमाइ आपणी, जग मद्दोटां हे ए कर्मनो रांग के ॥ न० ॥ १६ ॥ निज पूर्य जब सांजनी, मुनि सुग्यथी हो पामी चैराग्य के ॥ धिक् धिक् विषयी जीवने, विषयाथी हे नाथे नवताग के ॥ न० ॥ १७ ॥ वेदु वंधवने विन ये, जो अनुमति हे थापो मुज आज के ॥ तो दीक्षा जिनराजनी, घडी तारुं हे आतमनां काज के ॥ न० ॥ १८ ॥ अनंतवीर्य अपरा जिता, कहे सुनगे हे सुनगा पुरी जाय के ॥ सपंधन जिनपासें तुमें,

जेइ दीक्षा हे करजो शुचि काय के ॥ न० ॥ १ए ॥ तेह तपोधनने नमी,
 वेहु बंधव हे कनकश्री साथ के ॥ बेसी विमानें चालीया, सुजगा पुरी हे
 आव्या नरनाथ के ॥ ना० ॥ २० ॥ लाख बहैतालीश गज जला, तेता
 वली हे रथ तुरग वखाण के ॥ सोल सहस्र सेवे जला, अतुली बल
 हे महोटा राजान के ॥ न० ॥ २१ ॥ वे बांधव धरा जोगवे, अतुलीबल हे ठे वासु
 देव के ॥ वत्रिश सहस्र अंतेउरी, हरिनें घर हे सुर सारे सेव के ॥ न०
 ॥ २२ ॥ हवे कनकसिरीनो सुणो, शुजनावें हे दीक्षा अधिकार के ॥
 त्रीजे उगणत्रीशमी, ढाल जांखी हे रामविजय उदार के ॥ न० ॥ २३ ॥ ७३७ ॥
 ॥ दोहा ॥

॥ एहवे आवी समोसखा, श्रीस्वयंप्रज जिनराज ॥ चउविह देहें परवखा,
 साथें बहु मुनिराज ॥ १ ॥ पावन करता पावले, गुण अनंत अरिहंत ॥
 समवसरण देवें रच्युं, नामंमल जलकंत ॥ २ ॥ वेगें दीधि वधामणी,
 वनपालक तेण वार ॥ जाधो साडावार लाख, सोवणनो अंवार ॥ ३ ॥
 वे बंधव वंदण चल्या, कनकसिरी सुरंग ॥ सेना लइ चतुरंगिणी, आव्या
 श्रीजिनसंग ॥ ४ ॥ समवसरण दीतुं तिहां, वाध्या मनना कोड ॥ वेहु
 बंधव आवी करी, वंदे विहुं कर जोडि ॥ ५ ॥ जिन देखीनें उहस्य्या, जिम
 कोकिल मकरंद ॥ करे स्तवन जिनराजनुं, मनमां धरे आनंद ॥ ६ ॥ अथ
 श्रीजिनस्तुतिः ॥ चुजंगीहंद ॥ जगन्नाथनें ते नमे हाथ जोडी, करे वीनति नक्ति
 शुंमान मोडी ॥ कृपानाथ संसारकूपार तारु, जह्युं पुण्यथी आज दीदा
 र तहारुं ॥ १ ॥ सोहिलो मिले राजदेवादि जोगो, परं दोहिलो एक तुज
 नक्तियोगो ॥ घणा कालथी तुं जह्यो स्वामी मीठो, प्रजो पारगामी सहू
 दुःख नीठो ॥ २ ॥ चिदानंदरूपी परब्रह्म लीला, विलासी विजो त्यक्तकामाग्नि
 कीला ॥ गुणाधार योगीश नेता अमायी, जय त्वं विजो नूतले सौख्य
 दायी ॥ ३ ॥ न दीठी जेणें ताहरी योगमुडा, पड्या रात दिवसें महा
 मोह निडा ॥ किसी तास होशें गति ज्ञानसिंधो, नमंतां नवें हे जगज्जीव
 बंधो ॥ ४ ॥ सुधास्पंदि ते दर्शनं नित्य देखे, गणुं तेहनो हुं विजो जन्म
 लेखें ॥ त्वदाज्ञावशें जे रह्या विश्वमांहे, करे कर्मनी हानि कृण एक मां
 हे ॥ ५ ॥ जिनेशाय नित्यं प्रजाते नमस्ते, नवे ध्यान होजो त्वदीयं सम
 स्ते ॥ स्तवी देवनां देवने हर्ष पूरे, मुखांजो ज जाले जजी हेज करें ॥ ६ ॥

कहे देशना स्वामी वैराग्य केरी, सुणे पर्यदा वार वेठी जलेरी ॥ सुयांजोद
 धारा समी ताप टाले, वेहु वंधवा सांचले एक टालें ॥ ७ ॥ सुणे वाणी
 वैराग्यनी चित्त चंगें, कहे सोवनश्री दियो दीक्ष रंगें ॥ हतो जावचारित्र
 अन्यास पूरो, हवे साधजे योग करि चित्त गुरो ॥ ८ ॥ ग्रही आगना श्री
 हरि शोरि पासें, वरे उत्तवें साधुधर्म उवासें ॥ नमी नाथनें तेह निज गेह
 आव्या, जिनध्यानथी पूर्ण आनंद पाव्या ॥९॥ करे एक चित्तें तपस्या अ
 माया, गुनध्यानथी कर्मघाती खपाया ॥ चढी श्रेणिमां केवलज्ञान पाया,
 नमुं साहुणी सोवनश्री सुहाया ॥१०॥ लहे मोहनां सौख्य लीला अनंती,
 वर क्वायिक ज्ञान जावें लसंती ॥ चिदानंद चित्तें धरो ध्येय जाणी, कहे
 राम नित्यें जपो जैनवाणी ॥ ११ ॥ इति श्रीजीनस्तुतिसंदर्भित कनकश्री
 स्तुतिः ॥ पूर्वदोहा ॥ वल अपराजितनें धरे, विरता नामें नारि ॥ गुणवंती
 गुण आगली, गुणमणिनो चंमार ॥ ७ ॥ सुमति इत्ये नामें हुइ, तेहने
 पुत्री एक ॥ नामें परिणामें समी, जाणे सवल विवेक ॥ ८ ॥ सजुरुनी तंग
 ति लहे, तत्त्वाऽतत्त्व विचार ॥ तप करवे गुरी घणुं, बालपणायी सार
 ॥ ९ ॥ जैनग्रंथ जाणे जज्ञा. सूधी समकितवंत ॥ नृपण पंच समाचरे,
 टाले द्रुपण तंत ॥ १० ॥ आवश्यक विहु टंकनां, साचवती शुभ चित्त ॥
 नामायिक सूधां धरे, जाणे सहु जग मित्त ॥ ११ ॥ द्रुपण टाले तेहनां,
 बांख्यां जे बत्रीश ॥ कामिनी चित्तें धरतणां, न धरे मनमां रीश ॥१२॥ एक
 दिन चोयनें पारणे, आव्यां मुनि तत्त गेह ॥ ऊहीने ऊनी थइ, आणी
 धर्म सनेह ॥ १३ ॥

॥ दाज त्रीशर्मा ॥

॥ देशी चांदलीयानी ॥ इण आंगणीये पाठ धागे, साधुजी मुकसाधारो,
 जवजलनिधि पार उतारो रे ॥ मुनिवरजी ॥१॥ जणि थाल उपाडीनें लावी,
 मांफयो पडवो समजायी, कहे जावें जीनी आवी रे ॥ मु० ॥ २ ॥ मुक
 पत्तिनें पावन कीजे, प्रहृजी आहार ए लीजे, तुम दीतं दिजहुं गीजे रे
 ॥ मु० ॥ ३ ॥ आज जाग्यदशा मुक जागी, तुक दर्शननी थइ रागी ॥
 फगे पावन गह वेगारी रे ॥ मु० ॥ ४ ॥ दीये वजट जावें दान, करती
 तपती गुणमान, दिवहे धरे दर्प असमान रे ॥ मु० ॥ ५ ॥ तम दान
 प्रनाथे आव्या. पंच दिव्य करे नुर जाव्या, अलां मत्रोटा मुनि पडिलान्या

रे ॥ मु० ॥ ६ ॥ निर्ग्रथ पधास्या वनमां, हरखी सुमति कनी मनमां,
 उलट नवि माये तनमां रे ॥ मु० ॥ ७ ॥ बल केशव निसुणी वात,
 चिंते धन्य कुमरी जात, जरयोवन आवी त्रात रे ॥ मु० ॥ ८ ॥ माहानंद
 मंत्री सुविचारी, मांमयो स्वयंवर गुण धारी, आव्या नूमिपति नारी रे
 ॥ मु० ॥ ९ ॥ नामांकित आसन उली, वेसे नरवरनी टोली, वाधा कस्या
 केशर घोली रे ॥ मु० ॥ १० ॥ कन्या लेइ वरमाला, सखीसाथें आइ
 सुकुमारा, घनमां मनुं ए जलवाला रे ॥ मु० ॥ ११ ॥ पूरव जव सासू
 जीव, एहवे आवे तिहां देव, पहेलां संचित हेव रे ॥ मु० ॥ १२ ॥ सद्दु
 सांजलतां ते आवी, कहे कुमरीने समजावी, जीव ए विषयानो जावी रे
 ॥ मु० ॥ १३ ॥ जोगवीया वार अनंत, तृप्तो न थयो ए जंत, विषयामिप
 जोग डरंत रे ॥ मु० ॥ १४ ॥ हुं पहेला जवनी सासू, आराध्युं संयम
 पासु, पद पाभ्युं वैमानिक खासुं रे ॥ मु० ॥ १५ ॥ कुमरी निसुणी कहे
 साचूं, ए सुख सांसारिक काचूं, हवे हुं एहथी नवि राचूं रे ॥ मु० ॥
 १६ ॥ कहे नूपने आणा आलो, संयम लेतां मत वालो, हवे मूकीश
 माक ममालो रे ॥ मु० ॥ १७ ॥ बलनइ मुरारि विचारी, कहे तनया तुऊ
 मति सारी, धन धन तुं बालकुमारी रे ॥ मु० ॥ १८ ॥ अनुमति आपी निज
 तातें, पंचशत कुमरी संघातें, ग्रह्युं संयम सुव्रता हाथे रे ॥ मु० ॥ १९ ॥
 तप तपती ते अति सारां, वाधी निर्मल ध्याननी धारा, कीधा तेणें जग्र
 विहारा रे ॥ मु० ॥ २० ॥ करी घाती कर्म क्य पामी, केवललीला सुख
 कामी, अनुक्रमें दुइ शिवगतिगामी रे ॥ मु० ॥ २१ ॥ खंम त्रीजे त्रीशमी ढाल,
 गुणगाया सतीना रसाल, रामविजय कही उजमाल रे ॥ मु० ॥ २२ ॥ ८८ ॥ ३ ॥

॥ दोहा ॥

॥ हवे मुरारि कृदि जोगवे, खंम त्रिदूनी सार ॥ रणरसमां बांधी
 घणां, चिक्कण कर्म अपार ॥ १ ॥ यडुकमागमे ॥ चत्तारि सूरु पन्नता तं
 जहा, खंतिसूरा तवसूरा जुवसूरा दाणसूरा खंतिसूरा अरिहंता जगवंता
 तवसूरा अणगारा जुवसुरा वासुदेवा दाणसूरा वेसमणा ॥ इति पूर्व दोहा ॥ प्रीति
 घणी वेहु वंधुने, रमतां रंगें काल ॥ घणो गयो जाण्यो नहिं, मोह वडो जंजाल ॥
 २ ॥ चोराशी लहू पूर्वतुं, पाली पूरण आय ॥ ते हरि चवियो अवतखो,
 पहेली नरकें जाय ॥ ३ ॥ सहस्र वहेतालीश वर्षतुं, मध्यम आयु उप्पन्न ॥

अपराजित तल विरह्थी, मनमां वणुं विखिन्न ॥ ४ ॥ शोक धरे मनमां
 घणो, बंधवतणे वियोग ॥ गीत गान न गमे किस्थुं, न रुचे रमणीजोग ॥
 ५ ॥ नीतिचतुर मंत्री घणो, समजाव्यो सुविवेक ॥ मोहपिशाच ठले
 किस्थुं, तुम जेहवानें ठेक ॥ ६ ॥ वचन सुणी कांश्क थयो, गतशोको
 नृपाल ॥ नाम यशोधर गणधरा, आख्या तिहां तिण काल ॥ ७ ॥

॥ ढाल एकत्रीशमी ॥

॥ आंगी अवन वनी ठे रे ॥ ए देशी ॥ गणधर आख्या ठे जी रे,
 वनमां वंदननें जइयें ॥ यशोधर नामें ठे जीरे, पावन देखीने थइयें ॥ ए
 आंकणी ॥ शंज सद्दस्र राजेश्वर साथें, गणधरनें वांदेवा रे ॥ आख्या
 तीन प्रदक्षिणा देई, प्रणमी सारे सेवा ॥ ग० ॥ १ ॥ देशन निमृणे मुनि
 वर केरी, करसंपुटनें मेली रे ॥ अपराजित शोचे मनमांहे, गयो मुळ वं
 धव वेली ॥ ग० ॥ २ ॥ योगीश्वर कहे इष्ट वियोगें, शोक हुवे जगमांहे रे ॥
 पाण परिहरवो माझे पुरुषें, जाणी रूप उत्साहे ॥ ग० ॥ ३ ॥ प्रगट मेल
 पिशाच परो ए, नामांतर नीपायो रे ॥ तरुणपणो विषयानो विरुड, जग
 मां एद्र गवायो ॥ ग० ॥ ४ ॥ इष्टवियोगें रोगें नहिया, कीजें औपध साचूं
 रे ॥ सुश्रुत नांखुं किरिया राखुं, धर्मऔपध ए साचूं ॥ ग० ॥ ५ ॥ शोक
 रोग आयें नहिं नेडो, जो मन शुद्धें करीयें रे ॥ जिनवर वेद्य तणी आणा
 यें, नहेजें शिवमुख वरीयें ॥ ग० ॥ ६ ॥ मुनिवर वाणी मंत्र महातम,
 शोकपिशाच पणास्यो रे ॥ शुच जावन फूजें बहुमूजें, निज आतमनें वा
 ग्यो ॥ ग० ॥ ७ ॥ वर आनी सुत राज्य नजानी, व्रत लेवा नीसरीयो रे ॥
 नृपमंजल संपानें नशोडो, संयमव्रत आदगियो रे ॥ ग० ॥ ८ ॥ खंती देना
 बहुगुणवंता, उपशम रस्तना दरिया रे ॥ जयणायें मुनि माग्य पाजे, चो
 ग्यी जेदनी किरिया ॥ ग० ॥ ९ ॥ तिरपरें लेई व्रत पदेजां, तिरपरें ते
 पाजे रे ॥ नमिति मुनि सुधी संजाले, व्रतमां दृषण टाले ॥ ग० ॥ १० ॥
 धन्य मुनि जे ए गुण नाथे, आतमवीरज वापे रे ॥ मनमां नां दे कणां
 दृषां, अत्र पाणी अणताथे ॥ ग० ॥ ११ ॥ तप तपीया इत्तर यहुंनंग,
 गुण रगणागर निमृया रे ॥ उंपती नेपती जलंती, विषय कयापयी नि
 रुथा ॥ ग० ॥ १२ ॥ अणनण अनें करीने अच्युत, कल्पें सुरता न्यामी
 रे ॥ अपराजित मुनिवरली हुता, शुभें व्रतना पामी ॥ ग० ॥ १३ ॥

त्रीजे खंमें रामविजय कहे, सुणो एकत्रीशमी ढालें रे ॥ धन्य प्राणी एम शोक तजीनें, धर्में मनडुं वाले ॥ ग० ॥ १४ ॥ सर्वगाथा ॥ ८०४ ॥ श्लोक ॥ १५

॥ दोहा ॥

॥ सुणो वेहू बंधव तणो, कहुं संयोग संबंध ॥ बीजे जवें जेला थया, सुणो तेह प्रबंध ॥ १ ॥ जंबूद्वीपें जरतमां, नगर वैताढ्य उदार ॥ दक्षिण श्रेणें दीपतुं, गगनवल्लन पुर सार ॥ २ ॥ मेघवाहन विद्याधरो, मेघमालिनी नारि ॥ दंपती दोय सुख जोगवे, दोगुंदक अवतार ॥ ३ ॥

॥ ढाल बत्रीशमी ॥

॥ वे वे मुनिवर विहरण पांगुखा जी ॥ ए देशी ॥ अनंतवीर्यनो जीव हवे चवी जी, पहेली नरकहूंती ते ताम रे ॥ आव्यो मेघवाहन मेघमालि ने जी, वंशें उपन्यो मेघनाद नाम रे ॥ १ ॥ अनंतवीर्यनो जीव हवे चवी जी ॥ ए आंकणी ॥ पाम्यो यौवन वय रलीयामणुं जी, जेहवो रति रमणी नो कंत रे ॥ परणाव्यो कुमरी खेचर तणी जी, पाट पितायें थाप्यो संत रे ॥ अ० ॥ २ ॥ संयम लीधो मेघवाहन नृपें जी, पाले मुनिवर पंचा चार रे ॥ करे रे क्रिया ते सूधि साधुनी जी, नित्य नित्य जइयें तस वलि हार रे ॥ अ० ॥ ३ ॥ श्रेणी वेहुनो स्वामी ते हुड जी, महोटो खेचर ते नृप मेघनाद रे ॥ देश देशांतर सत्य ने दया जी, मनमांहे धरीने आह्लाद रे ॥ अ० ॥ ४ ॥ एक दिन मेरुवनें यात्रा गयो जी, पूजे जिनपडिमा शु जनाव रे ॥ तेम वली विद्या प्रज्ञति जणी जी, महोटो जेहनो जग प्रना व रे ॥ अ० ॥ ५ ॥ एहवे आव्या सुर सर्वे कल्पना जी, जिनयात्रा नंद नवनमांहे रे ॥ दीगो अच्युत इंद्रें जिन पूजतो जी, बोलाव्यो धरि मन उ त्साहें रे ॥ अ० ॥ ६ ॥ मनमां विस्मय तेहनें ऊपन्यो जी, केम बोलावे मुऊने एह रे ॥ कां मेघनाद तुं मुऊनें न उलखे जी, तुऊ मुऊ पूर्व जवनो नेह रे ॥ अ० ॥ ७ ॥ जांखी पूर्व जवनी वारता जी, निसुणी पाम्यो मन वैरा ग्य रे ॥ इंद्र गया जिन पूजी स्थानकें जी, वेहु मनमां वस्यो अनुराग रे ॥ अ० ॥ ८ ॥ आव्यो अपर वली निजमंदिरें जी, मन संचारे बंधव वात रे ॥ मुनि थया जइने अमर मुनि कने जी, उत्तम तेहनां कुज जात रे ॥ अ० ॥ ९ ॥ नंदनवनमां तप तपे आकरुं जी, रह्या एक रयणी पडिमा तेह रे ॥ मेरुशिखर परें न चले चालव्यो जी, नहिं निजदेह ऊप

रं जस नेह रे ॥ अ० ॥ १० ॥ एहवे असुरकुमार निकायनो जी, अश्व
 ग्रीवना सुतनो जीव रे ॥ अमर आवीने पूरववैरथी जी, करे उपसर्ग
 मुनिनें अतीव रे ॥ अ० ॥ ११ ॥ ए ए धीरपणुं मुनिवरतणुं जी, न
 चल्या ध्यानथकी तिलमात्र रे ॥ प्रगटे पुण्य जो पूरव नवतणां जी, तो
 मले एहवा मुनिनी यात्र रे ॥ अ० ॥ १२ ॥ अये रे प्रजातें प्रतिमा पारि
 नें जी, विचख्या जगतीतल अणगर रे ॥ चरण आराधी साधी ध्याननें जी,
 अंतें अणसण कीध उह्वास रे ॥ अ० ॥ १३ ॥ पहोता ते पण अच्युत
 कल्पमां जी, सुर सामानिक इंड समान रे ॥ विलसे वेहु वंधव ते सुख
 घणां जी, जगमां जोजो पुण्यप्रधान रे ॥ अ० ॥ १४ ॥ सुखनर वावीश
 सागर आउखुं जी, वावीश सहस वरस एकवार रे ॥ ले आजोग निव
 र्चित ते नलो जी, शुनचिंतित पुजल आहार रे ॥ अ० ॥ १५ ॥ बहु
 सुख पाम्या नव एम सातमे जी, सुणतां आतम निर्मल थाय रे ॥ ए खंम
 त्रीजे ढाल वत्रीशमी जी, रामविजय जिनना गुण गाय रे ॥ अ० ॥ १६ ॥

॥ कजश ॥

॥ तूगे तूगे रे मुज साहिव जगमां तूगे ॥ ए देशी ॥ गावो गावो रे जि
 नराज तणा गुण गावो ॥ शांति प्रभु पूरव नव सुणतां, घर घर होवे वधावो
 रे ॥ जि० ॥ १ ॥ जिनगुणनी स्तुति मंगल नणतां, कीर्त्तिस्थंन रोपावो ॥
 शुं करे दोपी दुशमन तेहनें, जस शिर ए प्रभु चावो रे ॥ जि० ॥ २ ॥
 इव्य जाव वेहु चेदनी नक्ति, होवे सुजस जमावो ॥ अच्युत शिवलीला
 सुख एहथी, पद उल्लुष्टें पावो रे ॥ जि० ॥ ३ ॥ हृदयमांहे प्रभुपदनें ध्या
 वो, प्रभुपदें हृदय लगावो ॥ जिहां लगें मुक्ति नहिं त्यां लगें ए, माहरे
 प्रभुशुं दावो रे ॥ जि० ॥ ४ ॥ कामित पूरण संकट चूरण, प्रभुगुण ध्यान
 सुंहावो ॥ एह अर्तोडिय सुखहुं कारण, अहोनिश दिलमां जावो रे ॥
 जि० ॥ ५ ॥ चिरसंचित अथ टालणहारी, जैनकथामांहे मावो ॥ एह
 रतायण पामी प्रमादें, कां नवहारी जावो रे ॥ जि० ॥ ६ ॥ शांतिप्रभु
 गुणनाम सुणतां, मंगलमाज उपावो ॥ त्रीजो खंम ययो संपूरण, जंगी
 ढोल बजावो रे ॥ जि० ॥ ७ ॥ ठठे नवें अपराजित स्वामी, सातमे इंड
 जणाथ्यो ॥ इव्यनिहेप अध्यातम जावें, नणतां जाव जगावो रे ॥ जि०
 ॥ ८ ॥ राजनगरमांहे पास चिंतामणि, प्रभुशुं तान मिलावो ॥ इइ

तस सान्निध्य त्रीजे खंमे, पूरण कलश चढावो रे ॥ जि० ॥ ए ॥ संवत स
त्तर पंचाशिया वर्षे, कीधो ढालबनावो ॥ शांति जिनेश्वरससने अवसर,
परिगल वित्त ए पावो रे ॥ जि० ॥ १० ॥ श्रीगुरु सुमतिविजय कवि सा
न्निध्य, चिंतित सघलां ठावो ॥ रामविजय कहे शांति प्रभुजी, मुऊ मनमं
दिर आवो रे ॥ जि० ॥ ११ ॥ सर्वगाथा ॥ ७३४ ॥ श्लोक तथा गाथा
मली ॥ १५ ॥ सर्वढाल ॥ ३२ ॥ खंम त्रय गाथा ॥ २०९९ ॥ खंम त्रय
प्रास्ताविक श्लोक तथा गाथा ॥ ७६ ॥ खंम त्रय ढाल ॥ ७९ ॥ इति श्री
शांतिजिनप्रबंधे प्राकृतबंधे द्वादशजवनिवंधे सत्यार्थसंधे कृतसुकृतानुसंधे अम
रदत्तमित्रानंदचरित्रानुविद्धपष्ठसप्तमजववर्णननामा तृतीयः खंमः समाप्तः ॥

॥ अथ चतुर्थखंमस्य प्रारंभोऽयम् ॥

॥ दोहा ॥

॥ चउविह चउमुह जिन कह्यो, दान शील तप जाव ॥ धर्म ए चार
प्रकारनो, प्रणमं नवजल नाव ॥ १ ॥ ज्ञान अनय अन्न औपधें, चिहुं
जेदें होय दान ॥ ज्ञानवंत निर्नय हुवे, सुखी नीरोगी निदान ॥ २ ॥ प्रथ
म दान प्रभुयें कह्युं, अर्थ जह्यानुं सार ॥ ते जो पात्रें दीजीयें, तो हुवे नव
निस्तार ॥ ३ ॥ तत्त्वविचार ए बुद्धिफल, फल व्रतधारण देह ॥ पात्रदान
ए अर्थफल, वचन प्रीतिकर जेह ॥ ४ ॥ शील कुलक्रम आत्मगत, त्रि
विध होय जगमांहि ॥ वेहुथी यश सुख संपजे, त्रीजो मोह उपाय ॥ ५ ॥
सात्त्विक राजस तामसी, तप त्रिहुं जेदें होय ॥ दोय जेद किंचित् होइ,
सात्त्विकमां गुण जोय ॥ ६ ॥ जाव तणा बहु जेद ठे, गुन अशुन वि
स्तार ॥ गुन आदरवा जिन कह्या, अशुन तणो परिहार ॥ ७ ॥ चिहुं जेदें
शुद्ध धर्मनें, हुं नित्य करुं प्रणाम ॥ खंम कहुं चोथो हवे, सुणो मन
राखी ठाम ॥ ८ ॥ देवलोक सुख जोगवे, श्री अपराजित इंद ॥ हवे जिहां
आवी अवतरे, ते निसुणो नविहंद ॥ ९ ॥

॥ ढाल पहेली ॥

॥ राणी पूठे रायने ॥ ए देशी ॥ पूर्वविदेहें जंवृतणो जी, सती नदीनी रे
पास ॥ मध्यविजय मंगलावती जी, जिहां बहु मृगुणिनिवास ॥ १ ॥

नवि सुणो नव जिन शांतिनो जी ॥ ए आंकणी ॥ जिम हुवे लीलविलास ॥
 दुरित दूरें टले नवतणां जी, संपजे वांठित आश ॥ न० ॥ १ ॥ तीर्थ
 कर आदि नर रयणनो जी, जिहांकणे संचय सार ॥ सूत्रविख्यात नयरी
 कही जी, रयणसंचय गुणधार ॥ न० ॥ २ ॥ चोरनुं जोर तिल नर नहीं
 जी, वलि नहिं विटतणो वास ॥ नयरीयें न्याय वरते घणो जी, धन
 कण रुद्रि निवास ॥ न० ॥ ४ ॥ वारे दुर्नीतिने जे सदा जी, सकल
 प्रजा करे कैम ॥ चूप कैमंकर जिनतणी जी, आण माने सहु प्रेम ॥
 न० ॥ ५ ॥ मइ सुई उंही त्रण ज्ञानना जी, धारक त्रिहुं जगमित्त ॥ पण
 निजकर्मनें काढवा जी, रहे गृहवास शुचंचित्त ॥ न० ॥ ६ ॥ तास धरे
 शीलगुण शोचती जी, उपती पुण्यनी राशि ॥ रत्नमाला रलियामणी जी,
 कामिनी गुण आवास ॥ न० ॥ ७ ॥ जीव अपराजितनो चवी जी, उपन्यो ते
 हनी कूख ॥ सुपन तेणे चौद दीतां नलां जी, तेहिज रातें गतडुःख ॥ न०
 ॥ ८ ॥ प्रहसमे पियुकनें आवीनें जी, चांखियुं सयल विरतंत ॥ पुत्र
 होशे सही ताहरे जी, दीपतो बहु गुणवंत ॥ न० ॥ ९ ॥ कंत कैमंकर मुखथकी
 जी, सांजजी थई सुप्रसन्न ॥ सकल होजो पियु तुम कहुं जी, विकसीयां
 नयण तन मन्न ॥ न० ॥ १० ॥ गर्न वाधे हवे अनुक्रमें जी, पूरण मासें
 सुत सार ॥ जन्मीयो दीधी वथामणी जी, दासीयें हर्ष अपार ॥ न० ॥
 ११ ॥ आपीयुं धन बहु तेहने जी, सात पेढी जगें जेह ॥ खरचंतां के
 से ग्यूटे नहिं जी, राखियो अविहड नेह ॥ न० ॥ १२ ॥ जन्म उत्सव
 करे अति नलो जी, पन्नरमुं वज्र आयुध ॥ स्वप्न दीतुं मायें तेणें धम्युं जी,
 नाम "वज्रायुध" शुद्ध ॥ न० ॥ १३ ॥ शुक्ल पद्म वीजनो चंडमा
 जी, दिनप्रत्यें जेम वाधंत ॥ सकल जनना मन मोहतो जी, अजिनव
 मानुं रतिकंत ॥ न० ॥ १४ ॥ रंगें रमाडे उत्संगमां जी, मायनें मन
 घणी आश ॥ सुनमुख देखी मन हरखती जी, बोलती एणि परें जात ॥
 न० ॥ १५ ॥ सुत चिरंजीव रहा माहरा जी, ताहरा डुगमन दूर ॥ दिन
 दिन कल्पतरु परें फलो जी, अम मनोवांन्त पूर ॥ न० ॥ १६ ॥ अनु
 पम अंगें लक्षण धरे जी, अडदिय सहम उदार ॥ वय थयो वरत ए
 आठनो जी, शीखीयो शास्त्र विचार ॥ न० ॥ १७ ॥ जाण बहोत्तर कला
 नो थयो जी, सवि जहे जीवना जेद ॥ शुद्ध नयरी ते व्यवहारनी जी,

दीज वस्यो श्रीजिनवेद ॥ ज० ॥ १८ ॥ सात नय सप्तजंगी तणा जी,
 ज्ञायक जाण निजरूप ॥ नवि नमे एक श्रीजिनवर विना जी, समकित
 शुद्ध स्वरूप ॥ ज० ॥ १९ ॥ अनुक्रमे यौवनवय लह्यां जी, नाम लक्ष्मी
 वती एक ॥ उत्सव करी परणावियां जी, जोगवे सुख अतिरेक ॥ ज० ॥
 २० ॥ जीव अनंतवीरज तणो जी, सुरतनु जोगवी आय ॥ वावीश
 सागरें अवतस्यो जी, कूख लक्ष्मीवती आय ॥ ज० ॥ २१ ॥ जन्मीयो कुंवर
 र कुलकेसरी जी, नाम "सहस्रायुध" दीध ॥ पूरव नवतणो नेहलो जी,
 एहं संबंध प्रसिद्ध ॥ ज० ॥ २२ ॥ ढाल पहेली कही ए सही जी, खंम चोथा तणी
 सार ॥ आठमे जवें चक्रधर हुवा जी, वरत्यो जयजयकार ॥ ज० ॥ २३ ॥ ३१ ॥
 ॥ दोहा ॥

॥ बालपणुं वीत्या पढी, आव्युं यौवन पूर ॥ तरुणी मन मृगपाश ते,
 दिन दिन चढते नूर ॥ १ ॥ परणाव्यो प्रीतें करी, कनकसिरी सुकुमाल ॥
 कुमर सहस्रायुध सदा, विलसे जोग रसाल ॥ २ ॥ केमंकर नृप अन्यादा,
 पुत्र पौत्र परिवार ॥ सिंहासन वेठो करे, वंदीजन जयकार ॥ ३ ॥ ठत्र धद्युं
 शिर ऊपरें, वेहु पद्म चमर ढलंत ॥ युगल मनुं कलहंसनुं, सुख अरविंद
 मिलंत ॥ ४ ॥ वासी कल्प ईशाननो, अमृताशन चित्रचूल ॥ आव्यो मि
 प्यात्वी तिहां, तिण अवसर प्रतिकूल ॥ ५ ॥ नहिं देव गुरु धर्म नहिं,
 नहीं पाप पर लोक ॥ ए बालक वीहामणां, वीहिनां सघलां लोक ॥ ६ ॥
 मत थापे नास्तिक तणो, नहिं आस्तिक लगार ॥ पंचनूतथी ऊपन्यो,
 चेतनगुण सुविचार ॥ ७ ॥ वज्रायुध बलतो कहे, नहिं युक्त ए वात ॥
 अनुमानें जोतां थकां, बली जोतां साहात ॥ ८ ॥

॥ ढाल वीजी ॥

॥ कपूर हुवे अति ऊजलो रे ॥ ए देशी ॥ वज्रायुध बलतुं कहे रे, सुण
 सुर मोरी वाण ॥ ए नास्तिकता नवि घटे रे, युक्ति रहित मन जाण रे
 ॥ १ ॥ प्राणी धरियें समकित शुद्ध ॥ सत्ता नवि टाली टले रे, जोय
 विचारी बुद्धि रे ॥ प्रा० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ अहं सुखी अहं दुःखी रे, कुण
 जाणे विण जीव ॥ त्रिहुं कालें अविठिन ठे रे, धारा ज्ञान सदैव रे ॥
 प्रा० ॥ २ ॥ ठे जोक्ता ए जाग्यनो रे, उदने दृष्टांत ॥ चेतन गुण जडमां
 नहिं रे, चेतन जीव कहंत रे ॥ प्रा० ॥ ३ ॥ अग्नि व्युं अरणीकाष्टमां रे,

फूलमांहे जेम गंध ॥ जेम पयमां धृत तिम मव्यो रे, जीव पुजल संबंध
 रे ॥ प्रा० ॥ ४ ॥ प्रत्यक्ष इहां कने ताहरो रे, तुं दृष्टांत विचार ॥ जो
 पुण्य न करत पाठले रे, तो किहांथी सुर अवतार रे ॥ प्रा० ॥ ५ ॥
 मनुज थयो तुं पूरवें रे, आ नव थयो सुररूप ॥ जीव विना ए घटे नहिं रे,
 मान तुं जीव स्वरूप रे ॥ प्रा० ॥ ६ ॥ चम नांग्यो निज चित्तनो रे,
 प्रतिवृज्यो ते देव ॥ सत्ता मानी जीवनी रे, कहे सुर करतो सेव रे ॥
 प्रा० ॥ ७ ॥ साधु तुमें राख्यो मुनें रे, नवजल पडतां आज ॥ देइ अव
 लंबन उदर्यो रे, साखुं आतमकाज रे ॥ प्रा० ॥ ८ ॥ देवें समकित आदखुं
 रे, वज्रायुधनी पास ॥ कहे स्वामी प्रिय गुं करुं रे, कहो कृत्य उचित विमास
 रे ॥ प्रा० ॥ ९ ॥ निःस्पृह जाणीने तेहने रे, देइ आचरण अमूल ॥ सुर
 प्रणमी पाठो गयो रे, ईशानें अनुकूल रे ॥ प्रा० ॥ १० ॥ ईशानेंइनी
 आगलें रे, सुर मांमी कहे वात ॥ सुरपति गुण रीज्यो कहे रे, सुण एह
 नो अवदात रे ॥ प्रा० ॥ ११ ॥ कोडी जिह्वा जो मुख हुवे रे, नव नव
 गुण वली गाय ॥ अम जेवानां आउखां रे, केई पूरां थाय रे ॥ प्रा० ॥
 १२ ॥ ए प्रचु इहांथी पांचमे रे, नवें शोलम जिनराज ॥ शान्ति जिनेश्वर
 नामथी रे, गुण गाओ सुरराज रे ॥ प्रा० ॥ १३ ॥ एम गुण गातां तेहना
 रे, समकित निर्मल कीध ॥ ईशानेंइं पूजीया रे, इव्यजिन जाणि प्रसिद्ध रे
 ॥ प्रा० ॥ १४ ॥ सुखकर कामी पुरुपने रे, एहवे मास वसंत ॥ कोकिल
 कल कूजित करे रे, आव्यो हेजे हसंत रे ॥ प्रा० ॥ १५ ॥ फल फूले जा
 रे घणुं रे, मोरी सबल वनराइ ॥ गुंजे चमर ए कामनी रे, फेरे मानुं
 उहाइ रे ॥ प्रा० ॥ १६ ॥ जोगी पुरुप वनमां घणा रे, जोवे नव नवा
 रग्याल ॥ अवील गुजाल उफाडता रे, गुणियल गाय थसाल रे ॥ प्रा० ॥
 १७ ॥ एहवे आवी सुदर्शना रे, दासी लेई फल ॥ नेट करी एम विनवे
 रे, साहिव सुण तुं अमूल रे ॥ प्रा० ॥ १८ ॥ प्रीतिमती लक्ष्मीवती रे, रा
 णी तुमारी साथ ॥ बांघे लील वसंतनी रे, उपवन सृग्निपात रे ॥
 प्रा० ॥ १९ ॥ समशती राणी तणी रे, तेहमांहे शिरदार ॥ लक्ष्मीवती
 राणी तणी रे, पियुगुं प्रेम अपार रे ॥ प्रा० ॥ २० ॥ चोथे खंमें सोदा
 मणी रे, बोली बीजी टाल ॥ रामविजय कहे सांजलो रे, आगज वात
 रसाल रे ॥ प्रा० ॥ २१ ॥ सर्व गाथा ॥ ६१ ॥

॥ दोहा ॥

॥ श्रीवज्रायुध कुंवरजी, लाठलील नर्तारि ॥ अंतेउर लेइ संचखो, रम
वा वनह मजार ॥ १ ॥

॥ ढालत्रीजी ॥

॥ फागनी देशी ॥ श्रीवज्रायुध कुमर सुंदर रूप तरुण रसाल, चाब्यो
हो वनमांहे रमवा मनमोहन उजमाल ॥ सार्थे सोहागण सारी प्यारी
तन सुकुमाल, मोहनगारी कामिनी चालती गजगति चाल ॥ १ ॥ शिरसें
थो नकवेसर केसर वरणी रे अंग, चंद्रमुखी मृगलोयणी पहेरण चीर
सुरंग ॥ प्रीतम सार्थे पनोती पहोती वनहमजार, रंगें रमे मधुमासनी क्रीडा
अनेक प्रकार ॥ २ ॥ पिककंठी कंठीरव कटितट लंक कुलीन, मोह जीवाड
ए हारी नारी रमण आधीन ॥ जाइ जूई वर चंपक मोघर लाल गुलाल,
दंपतीनां दिल मेलवे मन्मथ मांहे दयाल ॥ ३ ॥ वाजे चंग मृदंग अनंग
तणो रस जोर, रंग रमाडे हसाडे वजाडे ए मोहनो तोर ॥ अलवेसर
जरि केसर संगीयें ठांटे रे नीर, केलि करे मन मेली रे वाय सुगंध समीर
॥ ४ ॥ सूरिनिपात उद्यानमां लील करे बहु लोक, फूलि रही वनराई
अंब कदंब अशोक ॥ कोकिल पंचमनाद विनोद सुणी ने रे साद, कामी
जन मन मोहे रे वाधे विषय उन्माद ॥ ५ ॥ वर तरुणी संघातें रे वज्रा
युध नृपनंद, वावमांहे जलक्रीडा रे करवा मन आनंद ॥ रस व्यापी जल
वापी रे मांहे करे जलकेलि, लज्जानें संतापी हो नाठी परी मन मेलि
॥ ६ ॥ एकण पासें हो कंतजी बीजे पासें हो नारी, राग निरंतर ह
दयशुं ठांटे अन्यो अन्य वार ॥ रखे सूकाइ न जाये रे मांहे ए कामनो
राग, रंगें रसें एम रमतां हो पास्यां ते जलनो ताग ॥ ७ ॥ इण अवसरें
दमितारिनो जीव जमी नवमांहे, कोइक कर्मने योगें हो देव थयो जग
मांहे ॥ विद्युदंप्र ए वलीयो रे जलक्रीडापर देख, पूर्ववेरें वज्रायुध ऊपर
आब्यो द्वेष ॥ ८ ॥ मूके ए पर्वत पडतो रे वाव उपर एकंत, अथ अहि
पाजें बांधीयो करवाने तेहनो अंत ॥ जोजो रे नवि एम वैर बधासुं करे
रे जंजाल, वैर वैश्वानर व्याधि वधे जगमां ततकाल ॥ ९ ॥ वज्रायुध
चक्रीतणे महा वलीयो दृढकाय, दोय सहस्र यक्षमेवित सबलो पुण्य स
खाय ॥ अहिवंधन सवि त्रोटियां नाखीयो पर्वत दूर, राणीगणें परवरियो

रे नीसरीयो सुखपूर ॥ १० ॥ अद्भुत अंग कुमार चिरं विचख्यो वनमांहे,
 फूल लेइ तव पूजे हो जामिनी कंतनी बांहे ॥ इण अवसर सुरनाथ वि
 देह नमी जिननाथ, नंदीश्वर वर चाव्यो हो देवदेवी बहुसाथ ॥ ११ ॥
 पास ठेदी नग चेदी रे सप्रिय निसख्यो जाएण, इंड जोइ बल तेहनूं मनमांहे
 हुठ हेरान ॥ ज्ञान तणे उपयोगें रे जावी हो जाणी जिनंद, इंड नमे कर
 जोडी हो धरतो अधिक आनंद ॥ १२ ॥ धन्य तुमें सुकुमार स्वअंगें महागु
 एधार, सोलसमा जिनशांतिजी याशो हो नरतमजार ॥ पावन हुठ हुं देखी
 हो लोचन विकस्यां रे आज, जाल नमुं कर जोडी हो तुमने इव्यजिन
 राज ॥ १३ ॥ एम स्तवी सुर लोकनो नाथ गयो निज ठाम, श्रीवज्रायुध
 कुंवर आविया आपणे धाम ॥ वात सुणी सवि नयरीयें वरत्यो जयजय
 कार, धवल मंगल गाय गोरडी बोले ए मंगल चार ॥ १४ ॥ हर्षे वधाम
 णां अति घणां आवे ए सोवन कोडी, स्वामी अमारा ए जीवजो, वरसनी
 कोडा कोडी ॥ राजलीला सुख नोगवे जामिनीगुं नत्तार, ह्वे हेमंकर जि
 नतणो सुणो दीक्षा अधिकार ॥ १५ ॥ चौथे खंरें रसीली ए त्रीजी ढाल
 रसाल, उत्तमना गुणगावतां बाधे मनोरथमाल ॥ रामविजय कहे रंगगुं धन्य
 एउना अवतार, पुत्र पिता दोय जिनवर नामथकी जयकार ॥ १६ ॥ ७७ ॥

॥ दोहा ॥

॥ हेमंकर नृप एकदा, वेठा सजा मजार ॥ मुखआगल थाये जजां, नाटक
 विविध प्रकारं ॥ १ ॥ नवस्वरूप जावे तदा, ए अनादिनो खेल ॥ सो पर
 साथें ताहरे, ए विजातिनो मेल ॥ २ ॥ जाणुं आसनकंपथी, तव लोकां
 तिक देव ॥ जिनकल्प आवी कहे, वृज वृज जिन देव ॥ ३ ॥ तारी त्रि
 नुवन लोकमें, उपगारी असमान ॥ धर्मतीर्थ स्थापी करी, आपो शिवसुख
 दान ॥ ४ ॥ दीक्षा अवसर आपणुं, जाणी अवधिज्ञान ॥ वरिस लगे
 वालेसरु, दिये अवारित दान ॥ ५ ॥ आठ लाख एक कोडीगुं, वरहवरं
 एणे घोष ॥ प्रतिदिन दे त्रिनुवन धणी, सहु जगगुं तंतोष ॥ ६ ॥ त्रणगें
 कोडि उपर वली, कोडि अठघाशी जाएण ॥ लाख एंशी ऊपर अधिक, वरसें
 दीधूं दान ॥ ७ ॥

॥ ढाल चौथी ॥

॥ कजालणीना गीतनी देशी ॥ राय वज्रायुधनें ठवि हो जाज, सहु

जगमें हितकार ॥ जिणंदजी ॥ सुर नर असुर मव्या तिहां हो लाल, ले प्रभु
 संयम नार ॥ जि० ॥ १ ॥ हेमंकर जिन वंदीयें हो लाल ॥ वांटे शिव
 सुख थाय ॥ जि० ॥ दोहग डुरित दूरें टले हो० ॥ दर्शन दोलत दाय ॥
 ॥ जि० ॥ हे० ॥ २ ॥ सर्व सामायिक उच्चरे हो० ॥ सिद्धनें करे प्रणाम
 ॥ जि० ॥ मनःपर्यव तिहां उपन्युं हो० ॥ जाणे मन परिणाम ॥ जि० ॥
 हे० ॥ ३ ॥ विचरे जिन पुहवीतले हो० ॥ उपशम रसना सिंधु ॥ जि० ॥
 चाले ईर्या शोधता हो० ॥ निरुपम जग जनबंधु ॥ जि० ॥ हे० ॥ ४ ॥ घाति
 कर्म क्यें कपन्युं हो० ॥ उज्ज्वल केवलरूप ॥ जि० ॥ लोकालोक प्रका
 शतुं हो० ॥ ह्यायिक नाव स्वरूप ॥ जि० ॥ हे० ॥ ५ ॥ वीश चुवनपति
 आवीया हो० ॥ वत्रीश व्यंतर इंद्र ॥ जि० ॥ दश वैमानिक ज्योतिपी
 हो० ॥ दोय चोशठ मली इंद्र ॥ जि० ॥ हे० ॥ ६ ॥ समवसरण देवें
 रच्युं हो० ॥ रचिया त्रण प्राकार ॥ जि० ॥ रौप्य कनक मणि रत्नना हो० ॥
 ऊवके तेज अपार ॥ जि० ॥ हे० ॥ ७ ॥ पूर्वदारे पेसीनें हो० ॥ सिंहा
 सन वेसंत ॥ जि० ॥ हेमंकर अरिहंतजी हो० ॥ देखी नवि उद्धसंत ॥
 ॥ जि० ॥ हे० ॥ ८ ॥ रयणसंचय पुरि परिसरें हो० ॥ उत्सव अति मं
 नाण ॥ जि० ॥ आव्या वज्रायुध वांदवा हो० ॥ नमे प्रभुचरण सुजाण
 ॥ जि० ॥ हे० ॥ ९ ॥ हेमंकर जिन देशना हो० ॥ नय उपनय अद्भुत
 ॥ नविक जीव ॥ कर जोडीने सांजले हो० ॥ सवि सुर नर पद्भुत्त ॥
 ॥ न० ॥ हे० ॥ १० ॥ कल्पतरु सुरधेनुथी हो० ॥ अधिक महोदय हेतु
 ॥ न० ॥ मूकी निडा मोहनी हो० ॥ धर्मगुं राखो हेत ॥ न० ॥ हे० ॥
 ॥ ११ ॥ करीयें परीक्षा एहनी हो० ॥ चिहुं नेदें श्रुत शील ॥ न० ॥ तप
 करुणा शुद्ध सेवतां हो० ॥ आपे शिवसुख लील ॥ न० ॥ हे० ॥ १२ ॥
 जेम आयुर्वेदें कहुं हो० ॥ करवुं पयनुं पान ॥ न० ॥ अविचारें अर्कादिनुं
 हो० ॥ पीतां होवे गुणहानि ॥ न० ॥ हे० ॥ १३ ॥ बुध विचारे वेद्यनुं
 हो० ॥ वायक पीवे तेह ॥ न० ॥ बलपुष्टिकर धेनुनुं हो० ॥ पय मूकी
 संदेह ॥ न० ॥ हे० ॥ १४ ॥ तेम आदरियें धर्मने हो० ॥ ए वायक अ
 विचार ॥ न० ॥ माने निजकुल चालनें हो० ॥ धर्म करी निर्धार ॥ न०
 ॥ हे० ॥ १५ ॥ धर्म अहिंसा लक्षणें हो० ॥ आतम शुद्धस्वभाव ॥ न०
 परखी लीजें प्रेमथी हो० ॥ सहजगुणें सजाव ॥ न० ॥ हे० ॥ १६ ॥

अविचासुं करतां थकां हो० ॥ होवे दोष महंत ॥ न० ॥ काज विचारी
जे करे हो० ॥ तेहिज कहियें संत ॥ के० ॥ १४ ॥ आम्रनिपाति नृपा
दिना हो० ॥ इहां सुणवा दृष्टांत ॥ न० ॥ तव परपद पूठे तिहां हो० ॥
ते कुण कहो जगवंत ॥ न० ॥ के० ॥ १५ ॥ केम अविचारित कामथी
हो० ॥ ज्यो तेहोनो हुउं दोष ॥ न० ॥ पूठे परिपद नावशुं हो० ॥ कहे
प्रभुजी गतदोष ॥ न० ॥ के० ॥ १६ ॥ ढाल ए चोथा खंमनी हो० ॥
ए संख्यायें जाण ॥ न० ॥ रामविजय कहे सांजलो हो० ॥ कहेरो प्रभु
हित आण ॥ न० ॥ के० ॥ १७ ॥ सर्वगाथा ॥ १०५ ॥

॥ दोहा सोरठी ॥

॥ केमंकर जिनराज, नांखे नवियण हित नणी ॥ सुणीयें आत्मकाज,
साधेवा सवि प्राणीया ॥ १ ॥ उत्तम मुखनी वात, उत्तम कारज ऊपरें ॥
सुणतां दिन ने रात, धर्मतणी दृढता हुवे ॥ २ ॥ परखी करतां धर्म, नर्म
रहित नावें करी ॥ लहियें शिव पद शर्म, मर्म लहेवो दोहिलो ॥ ३ ॥ जेम
सुतने निज तात, अशुद्धरण शंखा दीया ॥ जाणि अशुद्ध शुद्ध वात, दृ
ष्टिपरीक्षा जव दुई ॥ ४ ॥ अविमास्युं कोइ काम, करतां पस्तावो वणो ॥ आम्र
निपाती ताम, आदि तणो उपनय सुणो ॥ ५ ॥

॥ ढाल पांचमी ॥

॥ सांजल सनतकुमार हो ॥ राजेश्वर ॥ ए देशी ॥ देश अवंतिमांहे
हो ॥ नवि प्राणी ॥ नयरी उल्लेणी नाम वखाणीयें ॥ तिहां जितशत्रुराय
हो ॥ न० ॥ बेरिगज कंठीरव जाणीयें ॥ १ ॥ तस धर राणी अदंन हो
॥ न० ॥ नामें विजयसिरी सोहामणी ॥ कीथी दासी रंज हो ॥ न० ॥
रूपें मंथरगति रजियामणी ॥ २ ॥ सुखसागरमां दोष हो ॥ न० ॥ रंगें रमे
ते कघपनी परें ॥ एक दिन हर्षित होय हो ॥ न० ॥ वेठो सनामां नृप
आमंवरें ॥ ३ ॥ दोवारिक तेणि वारहां ॥ राजेश्वर ॥ अर्ज करे आवी नृप
आगळें ॥ आब्या गय इवार हो ॥ न० ॥ ॥ कोइक चार पुरुष रूपें जजे
॥ ४ ॥ लुम मलवानी आश हो ॥ रा० ॥ हुकम हांवे तो आवे अंदरें ॥
कहे नृप तेडो तास हो ॥ दोवारिक ॥ आदर दीजें आब्यां मंदिरे ॥ ५ ॥
हुकम हुयो नृप जाम हो ॥ रा० ॥ चार ते चतुर सनामां आविया ॥
देखी आकृति ताम हो ॥ रा० ॥ सकल सनाना मनमां नाबीया ॥ ६ ॥

जाण्यो उत्तम वंश हो ॥ रा० ॥ तांबूलादिक देऽ सन्मानिया ॥ ठाना न
 रहे हंस हो ॥ रा० ॥ वगर कह्याथी सहुयें जाणीया ॥ ७ ॥ तो पण
 पूढे तास हो ॥ कुंवरजी ॥ कहो कुण कारण किहांथी पधारिया ॥ सुण
 स्वामी अरदास हो ॥ रा० ॥ देश अवंतिप्रभु उपगारिया ॥ ८ ॥ कहे
 तेहमां अनुजात हो ॥ रा० ॥ उत्तरपंथें अतिरलीयामणुं ॥ कनकतिलक
 विख्यात हो ॥ रा० ॥ पुर अवनमां उपे अति घणुं ॥ ए ॥ रिपुमर्दन
 तिहां राय हो ॥ रा० ॥ पाले निज प्रजा रंगें करी ॥ सबलो वरते न्याय
 हो ॥ रा० ॥ रूपवती तस राणी सुंदरी ॥ १० ॥ दंपती दोय रसाल हो
 ॥ रा० ॥ सुख विलसंतां सुत सोहामणा ॥ चार थया सुकुमार हो ॥
 रा० ॥ रायें कीधां बहुत वधामणां ॥ ११ ॥ प्रथम दुड देवराज हो ॥
 रा० ॥ वत्स ने दुर्जन कीर्त्तिथीवली ॥ जोडीजें पद राज हो ॥ रा० ॥ एम
 चिहु सुत देखी आशा फली ॥ १२ ॥ सकल कला अन्यास हो ॥ रा० ॥
 जनकें शीखवीया यत्नें करी ॥ जर यौवनमां चूप हो ॥ रा० ॥ चारे पर
 णाव्या नृपदीकरी ॥ १३ ॥ इण अवसरें निजतात हो ॥ रा० ॥ अंगें
 अनिवर्त्तक रोगें पीडियो ॥ राज्य प्रथमसुत हाथ हो ॥ रा० ॥ सोंपीथुं ते
 परजव हिंमियो ॥ १४ ॥ राज्य लही देवराज हो ॥ रा० ॥ पाले रूडी
 रीतें आपणुं ॥ वलीया अम माहाराज हो ॥ रा० ॥ गोत्रीयें जोरो पहाँ
 चाड्यो घणो ॥ १५ ॥ पुण्यदशा अम हीण हो ॥ रा० ॥ देश दुवा वश
 सहु दायादनें ॥ नीसरीया थऽ दीन हो ॥ रा० ॥ कीधां शुं हुवे ए वि
 पादनें ॥ १६ ॥ दिन पतले सवि लोक हो ॥ रा० ॥ पाणी वलमां सहु ए
 पारकुं ॥ केहो कीजें शोक हो ॥ रा० ॥ धर्म समो नहिं कोऽ तारकु
 ॥ १७ ॥ विहडे सुत ने वंधु हो ॥ रा० ॥ विहडे वहाली परणी कामि
 नी ॥ पडिया कर्मने वंध हो ॥ रा० ॥ एक न विहडे धर्म ए सुरमणि
 ॥ १८ ॥ ते माटें सुण राज हो ॥ रा० ॥ आव्या तुम पासें कतावला ॥
 वंधव ए देवराज हो ॥ रा० ॥ सेवा कारण हर्ष समाकुला ॥ १९ ॥
 तेव्या तुज गुण दूत हो ॥ रा० ॥ वांहे ग्रह्याने तुं तारे सही ॥ ठों उत्तम
 कुल पुत हो ॥ रा० ॥ प्रारथीया साजण पीडे नहिं ॥ २० ॥ यतः ॥
 पर पढणापवन्नं, मा जणणि जणोसि एरिसं पुतं ॥ मा उयरेवि धरिक्कसु, पध
 णनंगो कउं जेण ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ कहे जितशत्रु नरिंद हो ॥ रा० ॥

चिंता मत करजो चित्तमांहे तुमें ॥ रहो अम पासें आनंद हो ॥ रा० ॥ से
 वा यागो ते करजुं अमें ॥ ११ ॥ तुम जेवा गुणवंत हो ॥ कुमरजी ॥
 आया अवि ज्युं वायें कोकिला ॥ शरण ए संतने संत हो ॥ कु० ॥ चं
 चल कमला स्थिर न रहे इजा ॥ १२ ॥ मत थाउ दिलगीर हो ॥ कु० ॥
 वीर विराजो सुंदर मालीये ॥ अशन वसन वर चीर हो ॥ कु० ॥ व्यो तुमें
 सुखमांहे दीहा गालीयें ॥ १३ ॥ बहुत करी सुपसाय हो ॥ कु० ॥ सेवक
 थाप्या चोकी अंगनी ॥ बहु सन्मान्या राय हो ॥ कु० ॥ सुजस वाध्यो
 वेला उह्वरंगनी ॥ १४ ॥ चोये खंमें रसाल हो ॥ नवि प्राणी ॥ ढाल नणी ए
 रंगें पांचमी ॥ राम कहे उजमाल हो ॥ न० ॥ धर्म करीजें परखी उद्यमी ॥ १५ ॥

॥ दोहा सोरठी ॥

॥ रात तणा चिहुं याम, चिहुं बंधव चोकी करे ॥ अनुक्रमें अनुक्रमें
 काम, राय नलाव्युं आदरें ॥ १ ॥ आप आपणे याम, तिलजर को ऊंधे
 नहिं ॥ दोहिली सेवा आम, देव म देजे तुं सही ॥ २ ॥ यतः ॥ आहा
 रयति न स्वस्थो, विनिज्ञो न प्रबुध्यते ॥ वक्ति न स्वेहया किंचित्, सेवकः
 किं नु जीवति ॥ १ ॥ कष्टं जो सेवकानां तु, परह्वंदानुवर्तिनाम् ॥ स्वयं
 विक्रीतदेहस्य, सेवकस्य कुतः सुखम् ॥ २ ॥ दोहा ॥ जोडक सोनैया
 दिये, तोहि न कर सेवाकर्म ॥ नरने नारी एम नणे, जुं जीविततुं शर्म
 ॥ ३ ॥ यतः ॥ मौनान्मूकः प्रवचनपटुर्वातुलोजल्पकोवा, ह्यंत्या चीरु
 र्यदि न सहते प्रायशोनाजिजातः ॥ धृष्टः पार्थ्वे वसति च यदा दूरतश्चाप्रग
 व्नः, सेवाधर्मः परमगहनोयोगिनामप्यगम्यः ॥ ३ ॥ सोरठी दोहो ॥ मू
 काव्युं निज राज, वेठ वलगाडी पापीयें ॥ डुष्ट देवथी आज, राखे
 तिम रहीयें सही ॥ ४ ॥

॥ ढाल ठठी ॥

॥ थारा महोला ऊपर मेह, ऊबूके वीजली ॥ हो राज ॥ ऊ० ॥ ए देशी ॥
 लही नृपनो आदेश, के कोइक कामने ॥ हो लाल के ॥ को० ॥ गयो एक
 दिन देवराज, नजीकने गामनें ॥ हो० ॥ न० ॥ करि कारज मध्यान्ह, सम
 य पाठो बयो ॥ हो० ॥ स० ॥ चिचमांहे चढीयो जोर, पवन घनगुं मयो
 ॥ हो० ॥ प० ॥ १ ॥ वाये वाउलीया ऊमे, भुल थोरण चढी ॥ हो० ॥
 भू० ॥ कंकर तृण तिम पत्र, दोडी जाय ऊपही ॥ हो० ॥ दो० ॥ चिहुं

दिशहंती ताम, उठी कादंबिनी ॥ हो० ॥ उ० ॥ करे कडाको जोर, ऊबूके
 दामिनी ॥ हो० ॥ ऊ० ॥ १ ॥ वरसे वरसलो विंडु, धरोपरि मोटका
 ॥ हो० ॥ ध० ॥ कृणमांहे रहि जाय, रमाडे गोटका ॥ हो० ॥ २० ॥ बली
 आवे देइ दोट, लपेटे नूमिने ॥ हो० ॥ ल० ॥ कां रमे ग्रीपम साथ,
 विसाखो तें मुने ॥ हो० ॥ वि० ॥ ३ ॥ वायु शीतल वाय, जलदधा
 रा घणी ॥ हो० ॥ ज० ॥ अर अर धूजे अंग, विठूटे कंपनी ॥ हो० ॥
 वि० ॥ तव देवराज कुमार, विचारी वडतले ॥ हो० ॥ वि० ॥ आवी
 ऊनो उठण, उठी निश्चलें ॥ हो० ॥ उ० ॥ ४ ॥ वड उपरथी वाक्य,
 सुण्युं तव तिहांकणे ॥ हो० ॥ सु० ॥ मनमांहे चिंते एम, इहां ए कुण
 नणे ॥ हो० ॥ इ० ॥ निसुणुं मांमी कान, जोउं शुं उच्चरे ॥ हो० ॥
 जो० ॥ सुणे पैशाची वाचें, पिशाच वातो करे ॥ हो० ॥ पि० ॥ ५ ॥
 लांवी करीनें वांह, गाहा एक कहे ॥ हो० ॥ गा० ॥ बीजो मांमी कान,
 के साची सदहे ॥ हो० ॥ के० ॥ त्रीजो चिंते ताम रह्यो हेठल थकी ॥ हो०
 ॥ २० ॥ जोयुं अचरिज एह, कहेणे शी वकी ॥ हो० ॥ क० ॥ ६ ॥ अत्र
 चरित्रोक्तं गाथाद्यं ॥ फो फो जाणसि किंची, सो पनणदिनो कहेहि मह
 किं तं ॥ जंपइ इमोवि अऊं, लहीए सो नरिंदोत्ति ॥ ४ ॥ वीएण तउ
 पुठो, केण निमित्तेण कीइ वेलाए ॥ सो जंपइ सप्पाउं, पढमे पहरंमिलंती
 ए ॥ ५ ॥ पूर्वढाल ॥ जाणे पिशाची वाणीनो, अर्थ ते आपथी ॥ हो० ॥
 अ० ॥ हा हा माहारो स्वामि, मरजे सापथी ॥ हो० ॥ म० ॥ पहेजा प्रहर
 मजार, दैवें शुं कीधलुं ॥ हो० ॥ दै० ॥ अथवा नलुं लहुं एह, में कारिज सी
 धलुं ॥ हो० ॥ में० ॥ ७ ॥ करीश हुं एह उपाय, साहिव उगारशुं ॥ हो० ॥
 सा० ॥ यत्न करीने सर्पनुं, विघ्न निवारशुं ॥ हो० ॥ वि० ॥ याशुं नहिं
 गुणचोर के, ढोर परें हवे ॥ हो० ॥ ढो० ॥ स्वामी जनक समान, सहु कवि
 इम स्तवे ॥ हो० ॥ स० ॥ ८ ॥ यतः ॥ अन्नदः प्राणदश्चैव, स्थानदोजय
 रक्षकः ॥ ज्ञानदोजनकश्चैव, सप्तैते पितरः स्मृताः ॥ ६ ॥ पूर्वढाल ॥ एम
 चिंतवतो चित्त, आव्यो नृप अंतिकें ॥ हो० ॥ आ० ॥ वर्षा टाढ उकंड,
 चढयो शिर चिंतके ॥ हो० ॥ च० ॥ सांज समयमां सजानें, विसर्जी राज
 वी ॥ हो० ॥ वि० ॥ वादल घोर घटा घन, रहियो गाजवी ॥ हो० ॥ २० ॥
 ॥ ए ॥ आवी निज आवास, नरेश्वर पोढीयो ॥ हो० ॥ न० ॥ लांयो सो

डो ताणी, उपर पट उढीयो ॥ हो० ॥ उ० ॥ पासं रही पटराणी, वडी
ते सेजमां ॥हो०॥व०॥ नीडी विहु जुजवंध, ते सूतां हेजमां ॥हो०॥ते०॥
१० ॥ आव्यो पहेले पहोर, चोकीने कारणें ॥हो०॥चो०॥ जोवे ते देव
राज, रह्यो गुह्य वारणें ॥हो०॥र०॥ अथ ऊपरें ते वास, जुवन नीहालतो
॥हो०॥जु०॥ वारी जाली गोंख, विवर सवि जालतो ॥हो०॥वि०॥ ११ ॥
खङ्ग ग्रही निजहाथ, रह्यो एकण मने ॥हो०॥ २० ॥ चंडोदयने विवरें, अ
हि लंबित तने ॥हो०॥ अ० ॥ देखी ग्रहियुं एक, करें मुख साहसी ॥ हो०
क० ॥ बीजे करें दोय खंम, कख्या ग्रहीनें अस्ति ॥ हो० ॥ क० ॥ १२ ॥
गोपविया एक तोर, जइ ते खंमने ॥हो०॥ ज० ॥ मन चिंते अयुं कारज,
हणीयो लंठने हो ॥ ह० ॥ निडा विवसन देवी, उरःस्थल ऊपरें ॥हो०॥
॥ उ० ॥ देखी पडिया विंड, रुधिरना दुःख धरे ॥ हो० ॥ रु० ॥ १३ ॥ रखे
विपसंक्रम होय, इश्युं मन चिंतवे ॥ हो० ॥ इ० ॥ जूंठे स्वामीजक्त, कलानें
केलवे ॥ हो० ॥ क० ॥ निडाह्यथी ताम, अगुचना उदयथी ॥ हो० ॥
अ० ॥ कुच ऊपर कर देखी, शंक्यो नृप हृदयथी ॥ हो० ॥ शं० ॥ १४ ॥
क्रोध धरी मन चिंते, मारुं एहने ॥ हो० ॥ मा० ॥ अशन वसन सवि पूरुं,
नितप्रत्ये जेहने ॥हो०॥नि०॥ कीधुं एणे हराम, सवि ते माहरुं ॥ हो० ॥
म० ॥ कीधुं कर्म कठोर, यइने वाहरु ॥ हो० ॥ य० ॥ १५ ॥ हुं एहने
विश्वास, रहुं रयणी समे ॥ हो० ॥ र० ॥ करे ए एहवुं काम, हवे मुख
नवि गमे ॥ हो० ॥ ह० ॥ प्रीति तणुं जिहां ठाम, तिहां त्रण टालीयें
॥ हो० ॥ ति० ॥ अर्थसंबंध विवाद, रमणी न निहालीयें ॥ हो० ॥ २०
॥ १६ ॥ अतः ॥ यदीच्छेद्विपुलां प्रीतिं, त्रीणि तत्र निवारयेत् ॥ विवादं चार्थ
संबंधं, परीक्षेदारदर्शनम् ॥ ७ ॥ पूर्वदाल ॥ ब्रह्महत्या ने प्रजास, (प्रजासशब्देन
साधारणं इव्यं) दरिद्र धन देवकुं ॥हो०॥द०॥ गुरुपत्नी वली तेम, ए पातकका
रकु ॥हो०॥ए०॥ नवि पामे ते स्वर्ग, नरक अधिकारिया ॥हो०॥न०॥ ठछो जाणो
रुतगुण, जेणें विमारिया ॥ हो० ॥ जे० ॥ १ ७ ॥ वली नृप चिंते एह, जोरावर
ने वाणुं ॥ हो० ॥ जो०॥ कोण जाणे ह्णो एह, के हुं एहने ह्णुं ॥हो०॥
के० ॥ माटे कोइ उपाय, करीने मारणुं ॥ हो० ॥ क० ॥ बेरीने विपवेत,
जणी न गधारणुं ॥ हो०॥ ज० ॥ १८ ॥ जोजा गुणनो दोर, यइने नीप
न्यो ॥हो०॥थ०॥ जजनाजेरकपूर, थकी विप ऊपन्यो ॥ हो० ॥ थ० ॥

सूतो फरीनें राय, के निशामिप करी ॥ होण॥केण॥ पहेलो पहोर व्यतीत,
 पूरी थइ चाकरी ॥ होण ॥ पूण ॥१॥ आव्यो तव वत्सराज, कहे बंधव
 तुमें ॥ होण ॥ वंण ॥ राज पधारो जेह, हवे रहेगुं अमें ॥ होण ॥ हण ॥
 निजमंदिरें देवराज, पहांच्यो जई तिहां ॥होण॥पण॥ नृप पूठे पहोरायत,
 कोण अठे इहां ॥होण॥कोण॥१ण॥ कहे स्वामी वत्सराज, हुं सेवक राजनो
 ॥ होण ॥ हुंण ॥ ऊचो तुं सेवामांहे, के पूरो साजनो ॥होण॥केण॥ बघी
 चोथे ढाल, सीराडे ए चढी ॥ होण ॥ सण ॥ राम कहे क्रोधांध, न राखे
 प्रीतडी ॥ होण ॥नण॥१॥ सर्व गाथा ॥१६ण॥ श्लोक तथा गाथा ॥७॥

॥ दोहा सोरठी ॥

॥ कहे नरवर एक काम, वत्स करीश तुं माहरुं ॥ कहे शिर जोरें स्वा
 मि, वचन न जोपुं तुम्ह तणां ॥१॥ दो आदेश सुजाण, शी शंका मुज
 यी करो ॥ प्रभु तुम वचन प्रमाण, जेप परें शिरें धरुं ॥ २ ॥ प्रेपण
 नृत्य परीहू, व्यसनें बंधव परखीयें ॥ आपत्तिकाल सरीख, विनवहुर्यें
 वलि नारजा ॥ ३ ॥ कहे राजा जो एम, तुम मनमां आवे अठे ॥ कर
 कारज तजी प्रेम, हण बंधव देवराजनें ॥ ४ ॥

॥ ढाल सातमी ॥

॥ नदी यमुनाके तीर, उमे द्योय पंखीयां के ॥ उमेण ॥ ए देशी ॥
 तहत्ति करी नृप आण, सुजाण ते नीसखो के ॥ सुण ॥ मंदिरथी वत्स
 राज, हृदयथी थरहखो के ॥ हण ॥ चिंते कोप्यो जोर, राजन देवराजनें
 के ॥ राण ॥ विरुठं करे निर्धार, ए वयणे आजने के ॥ एण ॥ १ ॥
 तनु दारा धन डोही, ऊपरें एहवो के ॥ ऊण ॥ कोप होय जगमांहे, ए
 दीसे तेहवो के ॥ एण ॥ पण मुज बंधवमांहे, न को अवगुण अठे के
 ॥ नण ॥ जे उत्तम होय तास, अकारिज नवि रुचे के ॥ अण ॥ २ ॥
 सज्जन जन अपवाद, थकी रहे वीहता के ॥ थण ॥ जेह जितेंडिय तेह,
 अकाज न ईहता के ॥ अण ॥ मरण करे उंकारें, न चाले उतपथें के
 ॥ नण ॥ लज्जावंत सुशील, सुजहण संकथे के ॥ सुण ॥ ३ ॥ यतः ॥
 मनसि वचसि काये पुण्यपीनूपपूर्णा, स्त्रियुवनमुपकारश्रेणिनिः प्रीणयंतः ॥
 परगुणपरमाणून पर्वतीकृत्य नित्यं, निजहृदि विकसंतः संति संतः कियंतः
 ॥ १ ॥ विपदि धैर्यमयान्युदये कृमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः ॥

यशसि चान्जिरतिर्व्यसनं श्रुतौ, प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम् ॥ १ ॥ पू
 र्वदाल ॥ मुऊ बांधव देवराज, ए सज्जन जातिनो के ॥ ए० ॥ न मले ए
 हमां कोइ, विचार कुजातिनो के ॥ वि० ॥ केम कोप्यो नरराज, निवाजने
 स्थानकें के ॥ नि० ॥ सबल विमासण ऊपनी, आज अचानकें के
 ॥ आ० ॥ ४ ॥ पण कुपरीकूक राय, अज्ञानें आवस्यो के ॥ अ० ॥
 विण परमारथ जाणे, दुकम एणे कस्यो के० ॥ दु० ॥ पण इहां काल
 विलंब, करुं शुन कारणें के ॥ क० ॥ जांख्यो ग्रंथमां एहज, अशुन
 निवारणें के० ॥ अ० ॥ ५ ॥ चिंतवी राय समीप, वही आव्यो वली
 के ॥ व० ॥ कां रे न लाव्यो तस शिर, गुं तुऊ मति गली के ॥ गुं० ॥
 कहे वत्सराज नरेश्वर, ते जागे सही के ॥ ते० ॥ जागंतां देवराज, ह
 णाये नहिं सही के ॥ ह० ॥ ६ ॥ मारीश हुं निज्ञानर, ते याज्ञे यदा के
 ॥ ते० ॥ नृपतियें पण वात, हृदय धारी मुदा के ॥ हृ० ॥ स्वामी विनिड
 कही कोइ, वात सोहामणी के ॥ वा० ॥ वत्स कहे अहवा, निसुणो महारी
 जणी के ॥ सु० ॥ ७ ॥ वात विनोद विना ए, न जाये यामिनी के
 ॥ न० ॥ राय कहे तुं दाख, कथा मुऊ कामनी के ॥ क० ॥ सुण नृपवर
 बहु नरवर, पाटली पुरमां के ॥ पा० ॥ पृथ्वीराज नरेश्वर, चावो शत्रुमां
 के ॥ चा० ॥ ८ ॥ सुजगा सुजगा नामें, राणी तस वालही के ॥ त० ॥
 रतिरमणी अनुहार के, रूप गुणें सही के ॥ रू० ॥ जेठ तिहां रत्न
 सार, वसे एक गुणनिलो के ॥ व० ॥ सहु व्यवहारीमांहे के, सोहे शिर
 तिलो के ॥ सो० ॥ ९ ॥ तस घर नारी सलज्जा, नामें रङ्गका के ॥
 ॥ ना० ॥ गोरंगी रतिग्रंथ, विचारनी पंजिका के ॥ वि० ॥ धनदत्त नामें
 एक, तनय तस कूखनो के ॥ त० ॥ मात पितानो जळ, न रागी दोषनो
 के ॥ न० ॥ १० ॥ एकदिन कृतशृंगार, सुमित्रगुं परवस्यो के ॥ सु० ॥
 आव्यो चहुटामांहे, ते धनमदगुं नस्यो के ॥ ते० ॥ कोइ प्रशंसे धन्य ए,
 जोगी प्राणीया के ॥ जो० ॥ विलसे लठि विलास, सोजागी जाणीया
 के ॥ सो० ॥ ११ ॥ तव धीजो कहे एह, जणी न वखाणीयें के ॥
 न० ॥ आप तणी उपराजि न, आय ए वाणीये के ॥ आ० ॥ वाप तणे
 परसाद, करे ते साहिबी के ॥ क० ॥ वेगो करे ते तान, वनी तननी ठवी
 के ॥ व० ॥ १२ ॥ वात सुणी मनमांहे, शोचे ते इस्थुं के ॥ शो० ॥

विण जुजवल उपराजण, मुज जीव्युं किस्सुं के ॥ सु० ॥ धन लावी
 करुं धर्म, सुठामें वावरुं के ॥ सु० ॥ जइ परदेशें कलंक ए, ऊतारुं परुं
 के ॥ ए० ॥ १३ ॥ कमल उदधि हरिउरमां, वसे ए वारता के ॥ व०
 पण व्यवसाय उदधिमांहे, दीसे शाश्वता के ॥ दी० ॥ ते माटे व्यापार,
 करी श्री जोड्युं के ॥ क० ॥ एह तणुं सवि कहेण, एणी परें मोड्युं
 के ॥ ए० ॥ १४ ॥ यतः ॥ या श्रीः सरोरुहांजोधि, विष्णोर्वहसि सा
 श्रुतिः ॥ या पुनर्व्यवसायावधौ, लक्ष्मीः साध्यक्ष्मीक्ष्मते ॥ ३ ॥ व्यापारे वस
 ते लक्ष्मीः, किंचित् किंचिच्चकर्षणे ॥ अस्ति नास्तीव सेवायां, जिह्वायां नैव
 संभवः ॥ ४ ॥ पूर्वढाल ॥ तेणें कह्यो निज आशय, मित्रनी आगलें के
 ॥ मि० ॥ ते पण कहे सुण साच, लख्युं एम कागलें के ॥ ल० ॥ नि
 जगुणयी विख्यात, कह्या उत्तम गुणी के ॥ क० ॥ वापगुणें विख्यात,
 कीर्त्ति मध्यम तणी के ॥ की० ॥ १५ ॥ यतः ॥ उत्तमाः स्वगुणैः ख्याताः,
 मध्यमाश्च पितुर्गुणैः ॥ अधमामातुलैः ख्याताः, श्वसुरैश्चाऽधमाऽधमाः ॥ ५ ॥
 पूर्वढाल ॥ धरे आवी निजतातनें, वात सर्वे कही के ॥ वा० ॥ जाइश हुं
 परदेश, रजा मुज द्यो वही के ॥ र० ॥ जनक हिये धरे दुःख, कहे वत्स
 शुं कहुं के ॥ क० ॥ ल्यो ए धन अंवार, में ताहरुं मन लहुं के ॥ में० ॥
 ॥ १६ ॥ विलसो वांठित जोग, रमो रंग मालीये के० ॥ र० ॥ चित्तहूँती
 परदेशनी, चिंता टालीयें के ॥ चिं० ॥ ढाल कही ए चोथे, खंमें सातमी के ॥ खं० ॥
 कहे वत्स वात सुणो नृप, आगल मन गमी के ॥ आ० ॥ १७ ॥ १८ ॥ १३ ॥

॥ दोहा ॥

॥ धनद कहे सुणो तातजी, तुमें उपराजी लाठ ॥ न घटे जोगववी
 प्रभु, जेम विणसे सवि साच ॥ १ ॥ इण वचनें जाण्युं पिता, न रहें
 राख्यो एह ॥ शीख समर्पी पुत्रनें, सिद्ध करो गुणगेह ॥ २ ॥ त्यागी कृपण
 थजो तुमें, निर्दय वली दयाल ॥ परदेशें होजो सही, शूर अने उजमाल
 ॥ ३ ॥ शिह्वा दीधो पुत्रनें, चाख्यो सवले साथ ॥ करियाणुं लीधुं बहु,
 चित्त समरी जिननाथ ॥ ४ ॥

॥ ढाल आठमी ॥

॥ देशी लुहारीनी ॥ हवे साथ संयातें हो, कुंवर हर्षे धरी ॥ परदेशें
 चाख्यो हो, मालें शकट नरी ॥ केतेएक दिवसें हो, श्रीपुर नयर लही ॥

परिसर ऊतरीया हो, सरोवर पास सही ॥ १ ॥ सारथपति वसिया हो,
 के उज्ज्वल वसन कुटी ॥ ध्वजनी सहिनाणी हो, के सोहे श्वेतपटी ॥
 तिण बेला कोशक हो, के ध्रुजंतो धायो ॥ नयें चंचल लोचन हो, के शरणा
 गत आयो ॥२॥ मुऊ राखो राखो हो, के करुणा स्वामी करो ॥ हुं नातो
 आव्यो हो, के शरणें महेर धरो ॥ मत वीहे बोले हो, के सारथवाह
 इश्यो ॥ मुऊ आगल नांखो हो, के ठे अपराध किस्यो ॥ ३ ॥ एहबुं जव
 पूत्रे हो, के तावत तुरत धस्या ॥ हणो हणो बोलंता हो, के आव्या सु
 नट कस्या ॥ धनदत्तने नांखे हो, के मूको एह नणी ॥ अपराधी नृपनो
 हो, के महोठो ठे अगुणी ॥ ४ ॥ ठे दास ए घरनो हो, के नृप आचरण
 हरी ॥ जूवटनें काजें हो, के रामत नहिं सखरी ॥ ए व्यसनज चूंहुं हो,
 के सातेमां राजा ॥ एहने सेवतां हो, के अंगें नहिं साजा ॥५॥ नृप वात
 ए जाणी हो, के जूअरी तेडी ॥ लीधुं तिण बेला हो, के कान करी जेडी ॥
 हणो स्वामी डोही हो, के व्यसनी दास नणी ॥ मूको मत एहने हो, के
 रायनें रीप घणी ॥ ६ ॥ करुणा मन आणी हो, के कहे मंत्री स्वामी ॥
 कारामांहे राखो हो, के कहुं तुम शिर नामी ॥ मंत्रीश्वर वयणें हो, के
 तालामांहे जड्यो ॥ मूक्यो चर चोकी हो, के ठो रह्यो मांहे पड्यो ॥७॥ नांजी
 कारागृह हो, के सेवकनें निहणी ॥ नातो तुम पासें हो, के आव्यो वात नणी ॥
 तेमाटें काढी हो, के आपो चोर नजो ॥ नहिंतर इण माटें हो, के
 पागे सहिय कजो ॥ ७ ॥ कहे सारथवाहो हो, के वात खरी तुमची ॥
 शरणागत आपुं हो के शान नहिं अमची ॥ कहे सेवक नृपना हो, के
 अमें आदेशकरा ॥ जो लोपुं आणा हो, के कोपे अमउपरि ॥ ९ ॥
 धनदत्त उपगारी हो, के कहे नृपति पासें ॥ चालो हुं आवुं हो, के
 नृपति आवासें ॥ आवी नृप आगें हो, के कजो कर जोडी ॥ जेटें एक
 मूकी हो, के रत्नायलि रुडी ॥ १० ॥ कोण देशयी आव्या हो, के निरु
 पम व्यवहारी ॥ कहो कांइ अपूरव हो, के वात सबल सारी ॥ धुर
 हंती मांमी हो, के निज वृत्तांत कह्यो ॥ राजेश्वर रुडो हो, के मानव तेह
 जह्यो ॥ ११ ॥ सुण साहिव मोरा हो, के तोरां चरण ग्रहुं ॥ करुं सहस्र
 नीहारा दां, के चोरनें मान जहुं ॥ आचरण तुमकें हो, के तुम हाचेथा
 थुं, शरणागत स्वामी हो, के चोरनें हुं पावें ॥ १२ ॥ कहे राजा मूकण

हो, के जोगो एह नहिं ॥ पण केम लोपाये हो, के तें जे वात कही ॥
 में जा ए मूक्यो हो, के तुऊ वहीस कख्यो ॥ सुणि धनदत्त बोले हो, के
 हियडें हेज नख्यो ॥ १३ ॥ महोटो ए मुऊनें हो, के तुमें सुपसाय कख्यो ॥
 एम कही लइ आव्यो हो, के स्थानक तेह उख्यो ॥ संतोष्यो तेहनें हो,
 के जोजन देइ जलो ॥ चोरने शीखामण हो, के आपे सुगुण निलो ॥
 १४ ॥ राग आशावरी ॥ क्या करुं मंदिर क्या करुं दमरा ॥ ए देशी ॥ व्य
 सन विचार सुणो मेरे जाइ, इह नव परनव हे दुःखदायी ॥ दोय जेद इव्य
 जाव हे उनके, पार न पावे रे कोउ उंगुनके ॥ व्य० ॥ १ ॥ द्यूत मांस
 मदिरा उर वेस्या, करत आहेडो फिरत बनदेसा ॥ चोरी परनारीसें थारी,
 इव्यसें सातो विसन कहे जारी ॥ व्य० ॥ २ ॥ द्यूत वडो कुलखंपण कहीयें,
 उनसें इज्जत कवहु न लहीयें ॥ हे सबहूमें ए सिरदारा, सोइ उत्तम जो
 इनसें न्यारा ॥ व्य० ॥ ३ ॥ करे जीववध उर मांसको चाहे, सो फरि फरि
 चिहुं गति अगगाहे ॥ जो मद्यपानें रहे मतवालो, उनकुं लग्यो मनुं व्यंत
 तर चालो ॥ व्य० ॥ ४ ॥ सब जग धूते जो गणिका निगुरी, उनसें मिले
 तिनकी गति विगरी ॥ जो मृगजीव हनत बन पेठो, उनको माटीपनो
 जाउ हेठो ॥ व्य० ॥ ५ ॥ परके वाहिर प्रानकों लेवे, अपने अंतरप्रान
 कों देवे ॥ कह्यो इहुं लोक विराधक उनको, चोरी करे सोही धिक् धिक्
 जनकों ॥ वि० ॥ ६ ॥ देखत परनारी रहे फिरते, जानत नांही जहेरसें
 मरते ॥ परनिजनारी देखे दुःख पावे, तो काहेकुं तुं परघर जावे ॥ व्य०
 ॥ ७ ॥ ए सातोसें जे रहे अलगे, तुरत जइ सुरपदसों वलगे ॥ जो
 उनकों जावें करी ठंमे, तो सहजानंद सुखगुं मंमे ॥ व्य० ॥ ८ ॥ सोगठ
 सोल कपाय निवारो, राग द्वेष दोउ पासा मारो ॥ आरत ध्यान चोपाइ
 उपारो, अपने आनंद महोल सिधारो ॥ व्य० ॥ ९ ॥ परपरिवाद ए कवहु
 न कीजें, कोपूठें पीठमांस जखीजें ॥ धन रमणी पर प्रेम न धारो,
 मोहमदिरा दिलमें न संजारो ॥ व्य० ॥ १० ॥ कुमति वडी धूनारी हे
 वेस्या, उनको मत कोउ करहो वेसासा ॥ जिण कीया सोइ बहु दुःख
 पाये, बहु रिन्ह ज्युं ऊंचे न आये ॥ व्य० ॥ ११ ॥ मनमें आहट हे
 आहेडो, इनकों निवारे में उनको चैरो ॥ चउविह अदत्त निवारो चोरी,
 पर आशा परचंचल गोरी ॥ व्य० ॥ १२ ॥ ए सातां कहे जाव विचारी,

जो बजें तिनकी बलिहारी ॥ रामविजय कहे एसे जगतमें, तुरत
चढी वेसे ध्यानतरखतमें ॥ व्य० ॥ १३ ॥ इति सप्तव्यसनोपरि अध्यात्म
गीतं ॥ पूर्वढाल ॥ कहे धनदत्त प्यारा हो, के वारुं तुं तुजने ॥ चोरी मत
करजे हो, के लाज दियो मुजनें ॥ पगे लागी पयंपे हो, के धन तुं उप
गारी, तें गुण मुज कीधो हो, के लीधो ऊगारी ॥ १५ ॥ जग द्योय विशा
मा हो, के संसारें नारी ॥ अर्थीनें बीजो हो, के सत्संगति सारी ॥
धास्यां तुम वयणां हो, के रघण करी मनमां ॥ न धरुं वंकाइ हो, के आ
जयकी तनमां ॥ १६ ॥ यतः ॥ पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, जलमन्नं सुनापि
तम् ॥ मूढैः पापाणखंभेषु, रत्नसंज्ञा विधीयते ॥१॥ पूर्वढाल ॥ हवे तुं मुज
स्वामी हो, के दास अहुं तोरो ॥ कहुं कर जोडीने हो, के वचन करो
मोरो ॥ ठे एक मुज पासं हो, के मंत्र सबल काजू ॥ करे चूत पराजय हो,
के अं चांखुं जाजूं ॥१७॥ तस आग्रह जाणी हो, के मंत्र लियो कुमरें ॥
तस्कर निज स्थानक हो, के पहोतो तस समरे ॥ ढाल चोथे खंमें हो,
के आठमी एह कही ॥ जे व्यसन न सेवे हो, तेणें नवनिधि लही ॥ १७ ॥

॥ दोहा ॥

॥ सार्थेवाह त्यांथी चव्यो, जातां अनुक्रमें एक ॥ अटवी लही कादंबरी,
उतरीयो सुविवेक ॥ १ ॥ जल स्थानक जोई नहुं, करे रसोई तेह ॥ एह
वे आव्यो पारधी, कलवर्ण जस देह ॥ २ ॥ धनुष बाण हाथे ग्रहां, सा
रमेय दश पांच ॥ रुदन करे दुःखीयो घणुं, धनदत्त कहे एम वाच ॥
३ ॥ केम दीसे एम दूमणो, कहे मुज आगल आज ॥ ते कहे मुज स्वा
मी दुःखें, गेवुं तुं माहाराज ॥ ४ ॥ शामाटे तव ते कहे, गिरिकुमंगिका
पात्रि ॥ तिहां पल्लीपति गूर ते, सबल शत्रु कंगाल ॥ ५ ॥ तिंहचंन ना
में नलो, सिंदवती तस नारी ॥ जीवितपें अति बालही, रमणी गुणनंदा
र ॥६॥ चूतघोष तेहनें नडी, तस बिरहें अम नाथ ॥ मरओ तस दुःख दुःखी
यो, हुं रुवन करुं तुं नाथ ॥ ७ ॥ सार्थेवाह कहे तेहनें, एक वार मुज
दृष्टि ॥ आणो तेहने गज करुं, मंत्र सबल मन इष्ट ॥ ८ ॥ तेणें पल्ली
पनिनें कथं, आणी तेह तुरन ॥ मंत्रबलें राजी करी, अहो उपगार वि
चित्र ॥ ९ ॥ जीवित दान मुजनें दियो, बली जीवाडी एह ॥ चरण
नमीनें आर्यायो, पल्लीपति निजगेद ॥ १० ॥ धनदन निद्रांथी चाजीयो,

गुणगिरुठ गंजीर ॥ वेलाकुल गत पामीयो, पाटण पुर गंजीर ॥ ११ ॥

॥ ढाल नवमी ॥

॥ धणरा ढोला ॥ ए देशी ॥ साथ निवेश करी तिहां रे, वसीयो ते पंच रात ॥ धनरा रागी ॥ वस्तु लीये वेचे बहु रे, पुरमांहे दुइ ख्याति ॥ ध० ॥ १ ॥ जूठ जूठ रे सुजाण ॥ वडजागी ॥ नहिं धन जेहवुं प्रिय कोइ ॥ सहु धनरागी ॥ ए आंकणी ॥ तिहां मन मान्यो नवि अयो रे, व्यापारें धन लान ॥ ध० ॥ तृष्ठा अनंती जिन कही रे, जेम जगमांहे आज्ञा ॥ ध० ॥ जू० ॥ १ ॥ यडुक्तमागमे ॥ सुवसु रूपस्स उपवया नवे, सयाहु कैलास समा असंखया ॥ नरस्स लुअस्स न तेहि किंचि, इत्ताहुं आगास समा अणंतया ॥ १ ॥ दोहो ॥ तनकी तृष्ठा सही लहे, सवाशेरके शेर ॥ मनकी तृष्ठा नवि मटे, जो आणे घर मेर ॥ २ ॥ पूर्वढाल ॥ पडिम रयणीयें चिंत वे रे, करुं हवे जलनिधियात्र ॥ ध० ॥ इव्य घणुं लावुं रली रे, हपें चढी यानपात्र ॥ ध० ॥ जू० ॥ ३ ॥ अये प्रनातें आवियो रे, जोवा जलनिधि वेल ॥ ध० ॥ जल कळोल जिहां घणा रे, उठलता करे केल ॥ ध० ॥ जू० ॥ ४ ॥ सार्थपति सरितापति रे, देखी लह्यो आनंद ॥ ध० ॥ चिंते ए सुप्रसन्न दुई रे, दूर टले दुःखदंड ॥ ध० ॥ जू० ॥ ५ ॥ गुणगणनो आधार जे रे, धीवर सेवित जेह ॥ ध० ॥ संसारांबुधि तारकू रे, नेगमयुत गुणगेह ॥ ध० ॥ जू० ॥ ६ ॥ देव अधिष्ठित सितपटें रे, स्फीत इस्थुं एक यान ॥ ध० ॥ जेनवा क्य परें संग्रह्युं रे, धन देई असमान ॥ ध० ॥ जू० ॥ ७ ॥ चांम सवे जरियुं तिहां रे, जे देशांतर योग्य ॥ ध० ॥ वहाण चढी चाव्यो मुखें रे, सवल पवन अनुकूल ॥ ध० ॥ जू० ॥ ८ ॥ उदधि घणो उलंधीयो रे, सढ पूखा पवणेण ॥ ध० ॥ वहाण चाले वेगगुं रे, जोयण जाय ह्णणेण ॥ ध० ॥ जू० ॥ ९ ॥ मार्गवञ्चें एक सूयडो रे, मुख ग्रहि अंबफल सार ॥ ध० ॥ उडंतो अंबर लडथडे रे, आक्यो तेह अपार ॥ ध० ॥ जू० ॥ १० ॥ धनदत्त धीवरनें कही रे, तेह अणाव्यो पास ॥ ध० ॥ पंग्व उपर कर फेरियो रे, ह्ण एक करि आश्वास ॥ ध० ॥ जू० ॥ ११ ॥ फल हेतुं मूकी कहे रे, मनुज परें गुक वाणि ॥ ध० ॥ हुं उशिंण ताहरो रे, किमही न याउं सुजाण ॥ ध० ॥ जू० ॥ १२ ॥ तुमें जीवित मुजनें दीयुं रे, कीयो बहु उपगार ॥ ध० ॥ मुज जीवे दोय जीवियां रे, वृद्ध पितर निर्धार ॥ ध० ॥ जू० ॥ १३ ॥ तेमाटे कांश्क करुं रे, तुमनें हुं प्र

व्युपकार ॥ ४० ॥ गुण कीधो जाणो नहिं रे, ते सही मूढ गमार ॥ ४० ॥
 ॥जू०॥१४॥ जेट करुं फल ए ग्रहो रे, साहिव चतुर सुजाण ॥ ४० ॥ गुं
 अमें कीजें एहने रे, नद्वय ए तुज गुणखाण ॥४०॥जू०॥१५॥ लीयो अवर
 तुज जे रुचे रे, तव कहे शुक सुण स्वामि ॥ ४० ॥ बहु गुणकारक एह
 ठे रे, एहनुं अमृतफल नाम ॥ ४० ॥जू०॥ १६ ॥ सुण कारण एहनुं कहुं
 रे, विंध्य महीधर पास ॥ ४० ॥ विंध्या अटवी डुम वसे रे, कीरमिथुन
 एक खास ॥ ४० ॥जू०॥१७ ॥ सुत हूउं हुं तेहने रे, नेड मूक हुयां तेह
 ॥ ४० ॥ वृद्धपणायी आणीने रे, नद्वय आपुं सस्नेह ॥४०॥जू०॥ १७ ॥
 अन्य दिवस एक आवियुं रे, अटवीयें मुनियुग मीठ ॥ ४० ॥ आभ्रतरु
 तलें आविनें रे, वेतुं में नयणें दीठ ॥ ४० ॥१८॥ देखि विजन मुनिजन
 कहे रे, आभ्र उपर एक वात ॥४० ॥ पादशैल दरिया विचें रे, तिहां एक
 तरु विख्यात ॥ ४० ॥ १९ ॥ ते सहकार सदा फले रे, तस फल खाये जे
 एक ॥४०॥ रोग पणासे अंगना रे, जाय जरा पण ठेक ॥४०॥जू०॥२१॥
 तेज रूप सौनाग्यना रे, गुण बाधे अति जोर ॥४० ॥ निमुणी हुं हर्षित
 दुयो रे, ज्युं चकवा हुवे जोर ॥ ४० ॥जू०॥ २२ ॥ मुनिवचन न होवे मृपा
 रे, फल आणीयुं तेह ॥ ४० ॥ दिव्य लोचन होवे माहरां रे, तरुण पितर
 गुणगेह ॥४०॥जू०॥२३॥ फल लेवा कारण गयो रे, आवतां विचमां आ
 ज ॥ ४० ॥ तें राख्यो मुज जीवतो रे, जीव तुं गरिवनिवाल ॥ ४० ॥जू०
 ॥ २४ ॥ हुं बीजुं फल आणीने रे, देईण मुज मावित्र ॥ ४० ॥ फल राखो
 अनुग्रह करी रे, करो मुज जन्म पवित्र ॥ ४० ॥जू०॥ २५ ॥ फल देइने
 कमियो रे, कीर विचारे जेठ ॥ ४० ॥ धन्य पही पण एहवो रे, गुणवंत
 दीठो इठ ॥ ४० ॥ जू० ॥ २६ ॥ सार्थपतियें गोपव्युं रे, बहु उपगारीने
 हेत ॥ ४० ॥ देखुं कोईएक नृपतें रे, धारी मन संकेत ॥४०॥जू०॥ २७ ॥
 अनुक्रमें जातां पामीयो रे, दिन केने परकूज ॥ ४० ॥ जेइ जेटण जइ मि
 ल्यो रे, ते पुरनृप अनुकूज ॥४०॥जू०॥ २७ ॥ फल आयुं तस गुण कह्यो
 रे, सार्थे मूक्युं दाण ॥ ४० ॥ महाप्रसाद कही आवियो रे, सार्थपति निज
 ठाण ॥ ४० ॥ जू० ॥ २८ ॥ लाल अश्रिक तिहां कणे लह्यो रे, नयमी
 टाल रत्नाज ॥ ४० ॥ राम कहे नर ते जजा रे, जस उपगारनां टाल
 ॥ ४० ॥ जू० ॥ २९ ॥ तव गाथा ॥२५॥ श्लोक नया गाथा ॥ २५ ॥

॥ दोहा ॥

॥ वेची क्रियाएक वली अवर, ग्रही तेह धनदत्त ॥ पाठो फरी केते दिने, पुर गंजीर पदुत्त ॥ १ ॥ साथ लेइ तिहांथी चव्यो, निजपुर ते उज माल ॥ विच अटवी कादंवरी, आवी ते विकराल ॥ २ ॥ रात रह्या सहु को तिहां, सुजट बहु परिवार ॥ रह्या चिहुंदिशि मोरचे, ग्रही विविध ह थियार ॥ ३ ॥ पाठले पहारे रयणीने, हत हत करती धाड ॥ आवी पडी ऊतावली, अटवी जिहां ऊजाड ॥ ४ ॥ धनदत्त सजी साहामो थयो, साहसिक शिरदार ॥ वंदी कहे जय जय चिरं, श्रीधनदत्त कुमार ॥ ५ ॥ धाड स्वामी पद्धिपतें, धनदत्त निसुण्युं नाम ॥ रखे होइ उपगारीयो, जेणें साखुं मुऊ काम ॥ ६ ॥ शस्त्र रहित नट वारिनें, साहामो पद्धीनाथ ॥ आव्यो तव वेहु उलखी, मलिया घाली वाथ ॥ ७ ॥ पूठे तव प्रेमें करी, कुशल हेम विरतंत ॥ अहो बहु दिवसें वाजहा, मलिया तुमें महंत ॥ ८ ॥ तुमशुं अज्ञानें इहां, कीधी घणी अयुक्त ॥ खमो अपराध ए माहरो, घणी करी प्रणपत्य ॥ ९ ॥ तेडी लाव्या मंदिरें, कीधी नक्ति जुगत ॥ नोजन वस्त्रादिक तणी, करि मनुहार विचित्र ॥ १० ॥ तस आणा लेइ चालियो, निजपुर आव्यो हेम ॥ मात पिता परिवारशुं, मलियो बहुले प्रेम ॥ ११ ॥

॥ ढाल दशमी ॥

॥ राग केदारो ॥ सुखदायी रे सुखदायी रे ॥ ए देशी ॥ पुर आवी रे पुर आवी रे, बहुयश कीर्त्ति उपजावी रे ॥ परिगल घरे संपद लावी रे, धन वावे सुक्तेत्रें हो जावी रे ॥ पु० ॥ १ ॥ जिनचुवन ते नविन करावे रे, बहु जीरणे समरावे रे ॥ जिनपडिमा अनेक नरावे रे, एम पाप अशुच क्य जावे रे ॥ पु० ॥ २ ॥ करे ज्ञाननी नक्ति विशाला रे, होवे दूर अज्ञानतमजाला रे ॥ विरचे मुनिनक्ति रसाला रे, प्रगटे गुणम गलमाला रे ॥ पु० ॥ ३ ॥ वली अक्लवगुण संजाली रे, पडिलाने अशन शुद्ध जाली रे ॥ साहामी साहमिणी संतोपे रे, क्षेत्र साते सुधां पोपे रे ॥ पु० ॥ ४ ॥ क्लीण दीन प्रत्ये उदारे रे, दुःखीयानां दुःख सवि वारे रे ॥ जिन वयण हियामां धारे रे, जे सहेजे नवजन्त तारे रे ॥ पु० ॥ ५ ॥ नृप दीधी नगरजेठाई रे, थइ प्रगट सवल पुण्याई रे ॥

एक दिन पुर उपवन आइ रे, मुनि समवसह्या सुखदायी रे ॥ पु० ॥
 ६ ॥ मुनि वांटीनें देशन निमुणी रे, वधी वात वैराग्यनी वमणी रे ॥
 तजी कंचन कोडी ने रमणी रे, मुनि हुठ माहातम सुगुणी रे ॥ पु० ॥ ७ ॥
 धनदत्त मुनि चारित्र पाली रे, कर्म कोडी सवे परजाली रे ॥ धनधाति
 कर्म तपें गाली रे, शिवरमणी वरी लटकाली रे ॥ पु० ॥ ७ ॥ कहे राम
 विजय कर जांडी रे, तेहना पाय नमुं मद मोडी रे ॥ जेणें कंचन कामिनी
 मोडी रे, तस शिवमुख हाथ करोडी रे ॥ पु० ॥ ८ ॥ इति सप्तद्वेत्रनाम स्तुतिः ॥
 दाल ॥ काहानजी मेहलाने कांवली रे ॥ ए देशी ॥ हवे ते फल लेइ राजवी
 रे, चिंते हो एम विचार ॥ ए फल खाधे रे शुं होवे रे, कीजें हो पर उपगार
 ॥ १ ॥ राजन सांनजो वातडी रे ॥ ए आंकणी ॥ कहे वत्सराज कुमार ॥
 काज विचारिने जे करे रे, ते नर लहे सुख सार ॥ रा० ॥ २ ॥ फल
 उपजावुं बहु एहथी रे, आवे बहुने रे जांग ॥ तो महोदो गुण निपजे रे, सं
 चारे बहु जांग ॥ रा० ॥ ३ ॥ सेवक तेडीनें एम नणे रे, ए फल वावो
 सुगाम ॥ चोकी करो नित्य एहनी रे, एह तुमारहुं काम ॥ रा० ॥ ४ ॥
 वाव्युं उत्तम वाडीयें रे, जतन करंतां रे तास ॥ दिन केतेइक निपन्यो रे,
 सुंदर आंघो रे खास ॥ रा० ॥ ५ ॥ वात सुणी फल फूजनी रे, रीण्यो
 राय अपार ॥ दान दीये रखवालनें रे, रहेजो तुमं दुशियार ॥ रा० ॥ ६ ॥
 रात दिवस रहे पोपता रे, केड न मूके लगार ॥ देववंशों रे एक
 रातमां रे, नूमि पडयुं फल सार ॥ रा० ॥ ७ ॥ दीतुं प्रजातें ते
 मेचकें रे, फल परिपक रताल ॥ नजरें कयुं जइ रायने रे, नूपें लीयुं
 ततकाल ॥ रा० ॥ ७ ॥ तेडी पुरोहितनें दीयुं रे, थयो मनमांहे खुशाल ॥
 थर जइ तेंणें ते वावयुं रे, ते पहातो तव काज ॥ रा० ॥ ८ ॥ वात
 सुणी विलखां थयो रे, रायें थयो मन शोच ॥ हा हा अकार्यें केम थयुं
 रे, करे मनमांहे आलोच ॥ रा० ॥ १० ॥ ए विपचृद्धज ने सही रे, कोइ
 वेरी मुक्त काज ॥ मूक्युं प्रपंच करी इहां रे, गखेवुं नदिं आज ॥ रा०
 ॥ ११ ॥ नेदो रे नुरन उतावला रे, काटो एहनां कंद ॥ कोपीयो राय
 दुकम करे रे, हुचो सचलो मतिमंद ॥ रा० ॥ १२ ॥ सेवक लेइ कुठारने
 रे, प्राचा हो तेंणें रे स्थान ॥ मूज उवेदी पाडीयो रे, हा हा कीयुं अकाम
 ॥ रा० ॥ १३ ॥ इण रामे रांगी कांटी नरा रे, जीवितची निविण ॥ विप

फल जाणीने आवीया रे, मृत्युने काजें आसन्न ॥ रा० ॥ १४ ॥ पक
अपक ते वावरे रे, केइ फल फूल ने पान ॥ मंजर केइ चरुण करे रे, रोग
गयो वळ्यो वान ॥ रा० ॥ १५ ॥ अद्भुतरूप धारी थया रे, देखीने चिंते
हो नूप ॥ अहो विपरीत सहकारनुं रे, दीसे ए कांइ स्वरूप ॥ रा० ॥
१६ ॥ जन सामान्यने गुण थयो रे, वेदनो जाण विपन्न ॥ एम चिंती
चर तेडीयो रे, पूठे हो तेह राजन्न ॥ रा० ॥ १७ ॥ शुं फल चूंट्युं ए हा
थथी रे, के पडीयुं स्वयमेव ॥ स्वामी पड्युं अमें लावीया रे, साच कहुं
नरदेव ॥ रा० ॥ १८ ॥ वात सुणी राय चिंतवे रे, नूइ पडे विषजाव ॥
कोइक जीव तणो थयो रे, तेणे धिक्जाति अजाव ॥ रा० ॥ १९ ॥ हा
हा में अविचारिने रे, कीधुं अकारिज एह ॥ रोपें अमृततरु ठेदीयो रे,
मूर्खमांहे हुं रेह ॥ रा० ॥ २० ॥ यतः ॥ सुगुणमपगुणं वा कुर्वता कार्य
जातं ॥ शोच घणो मनमां धरे रे, जेम जेम सांजरे वात ॥ विण परी
दें क्रिया करे रे, तेहनें एह दृष्टांत ॥ रा० ॥ २१ ॥ ढाल नणी दशमी
सही रे, चोथे खंमे रे एह ॥ राम कहे नर ते जला रे, काज विचारी
करे जेह ॥ रा० ॥ २२ ॥ सर्व गाथा ॥ २३ ॥ श्लोक तथा गाथा ॥ २४ ॥

॥ दोहा ॥

॥ जेम अपरीक्षित काजथी, शोच लह्यो तिण राय ॥ तेम अपरें करतुं
नहिं, कहे वत्स सुण नरराय ॥ १ ॥ कथा कहेतां ए नली, बीजो पहोर व्यती
त ॥ वत्स वळ्यो आव्यो तदा, दुर्धनराज विनीत ॥ २ ॥ चिंते राजा चित्त
मां, वत्स कही मुज वात ॥ पण इणें कारिज नवि कस्युं, आव्यो एहनो
घ्रात ॥ ३ ॥ तेहने पण तिमहिज कस्युं, हा कही ऊठयो ताम ॥ आयो
जइ पाठो वळ्यो, नृपनें करे सलाम ॥ ४ ॥ कां रे कारज नवि कस्युं, ते
कहे वंधव दोय ॥ जागे ठे माहाराज मुज, किहांथी चिंतित दोय ॥ ५ ॥
ते माटे कांइ कहो, वेला निर्गम थाय ॥ नहिंतर सांजल साहिवा, कहुं
कथा सुखदाय ॥ ६ ॥ राज हुकम दूठ नलो, कहो कथा सुविवेक ॥ ७ ॥
दुर्धन अवसर जाणि तव, कहे कथा धरि टेक ॥ ८ ॥

॥ ढाल अग्यारमी ॥

॥ सहीयो मोरी राजलियो नीम वधाइ छे ॥ ए देशी ॥ बाहाजा
स्वामी ॥ क्षेत्र नरतमां उपतुं, राजपुर नयर महंत रे ॥ वा० ॥ पर्वत उपरें

अति जलुं, लोक वसे धनवंत रे ॥ १ ॥ वा० ॥ वात त्रिचारी कीजीयें,
जेम लहीयें यशोवाद रे ॥ वा० ॥ अविचाखुं कारज करे, जनमां लहे अ
पवाद रे ॥ २ ॥ वा० ॥ वा० ॥ शत्रुदमन नामें जलो, नरपति अति विकराज
रे ॥ वा० ॥ रत्नमाला रलियामणी, राणी अति सुकुमार रे ॥ ३ ॥ वा० ॥ वा० ॥
एक दिवस वेगो सजा, राजकुली ठत्रीश रे ॥ वा० ॥ एक बटुक आव्यो तिहां,
कजो देइ आशीप रे ॥ ४ ॥ वा० ॥ वा० ॥ व्यग्रपणे जाव्यो नहिं, सजा विसर्जी
ताम रे ॥ वा० ॥ अमहर स्नान कखुं नृपें, गयो देवसेवा काम रे ॥ ५ ॥
वा० ॥ वा० ॥ फूज आणी मुह् आगलें, बटुकें कखां तिहां जेट रे ॥ वा० ॥
देवसेवाने कारणें, रायें निहाव्यो मीट रे ॥ ६ ॥ वा० ॥ वा० ॥ पूठे नडक
तुं कोण ठो, ते कहे सुण अवनशीश रे ॥ वा० ॥ नामें शुचंकर विप्र बुं, यद्द
दत्त सुत ईश रे ॥ ७ ॥ वा० ॥ वा० ॥ वासी अरिष्ट पुरनो सही, नव नव देश
विनोद रे ॥ वा० ॥ जोतो इहां आव्यो प्रभु, देखी पाम्यो प्रमोद रे ॥ ८ ॥
वा० ॥ वा० ॥ देखि विनीत सोहामणो, दिलमांहे रीज्यो राय रे ॥ वा० ॥
निज पासें ते राखीयो, गुणथी आदर थाय रे ॥ ९ ॥ वा० ॥ यतः ॥
शूरस्त्यागीविनीतथा, कृतघ्नोददसोददः ॥ विज्ञानी स्वामिजक्तश्च, सर्वत्र लजते
यशः ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ वा० ॥ गुण देखी गौरव कख्यो, अंतेंउर आवेश रे
॥ वा० ॥ विश्वासी जाणी करी, अंतर नहिं लवलेश रे ॥ १० ॥ वा० ॥
॥ वा० ॥ एक दिवस पुर उपवनें, आव्यो एक मृगराज रे ॥ वा० ॥ व्याध
कहेणथी नीसख्यो, नृप चतुरंग लेइ साज रे ॥ ११ ॥ वा० ॥ वा० ॥ फोज
चढी चिहुं दिशि खडी, चढी कुंजर नरसिंह रे ॥ वा० ॥ वेगो शुचंकर आगलें,
अंकुश लेइ अवीह रे ॥ १२ ॥ वा० ॥ वा० ॥ आव्यो उद्यान उतावलो, नरपति
भृगपति पास रे ॥ वा० ॥ नृप ऊपर हरि आवियो, उछलतो आकाश रे ॥ १३ ॥
वा० ॥ वा० ॥ ताम शुचंकर चिंतवे, रखे करे स्वामिविनाश रे ॥ वा० ॥ अंकुश
मुखमां छेपीनें, कीथो सिंहनो नाश रे ॥ १४ ॥ वा० ॥ वा० ॥ नृप शुचंकरनें
कहे, गडुं न कीधुं एह रे ॥ वा० ॥ मुज चिंतित ए सिंहनें, बचमां हणि
यो जेह रे ॥ १५ ॥ वा० ॥ वा० ॥ ए हणतां तें माहरो, सहु नृपमां यश
वाद रे ॥ वा० ॥ कीथो कमी तो एम सही, बटुक कहे तज विखवाद रे
॥ १६ ॥ वा० ॥ वा० ॥ गजयजने कारणें, में निद्रणो हरि एह रे ॥ वा० ॥
निज गदकषे न चिंतव्यो, सुण साद्वि सुणगेह रे ॥ १७ ॥ वा० ॥ वा० ॥ तुम

१६८

फल जाण
अपक ते
गयो वड
हो नूप
१६ ॥
चर ते
यथी
नरदे
कोइ
हा
मू
उ
इ

प्रजाव ए जाणवो, जे अंकुशें हरिघात ए करे रे,
गलें, नृपें टाव्यो उत्पात रे ॥ १७ ॥ वा० देखीने
एँ, नहिं त्रीजो इहां कोय रे ॥ वा० चउप ॥ र
न होय रे ॥ १८ ॥ वा० ॥ यतः ॥ पट्कणोनिद्य एम
दिकर्णस्य च मंत्रस्य, ब्रह्माप्यंतं न गहति ॥ चूंट्युं
कहे जो मंत्र ए, जेदाज्ञो जनमांय रे ॥ वा० सा
स्तरज्ञो इण ताथ रे ॥ १९ ॥ वा० ॥ वा० ॥ कहे वि
सोण्युं गुज रे ॥ वा० ॥ बाहिर जेद लहे नहिं, प्राण
॥ वा० ॥ वा० ॥ वात सुणी राय हर्षीयो, ग्रही
वा० ॥ सैन्य समीपें आवियो, वरत्यो जय जयका
ढाल जणी अग्यारमी, चोथे खमें उदार रे ॥ वा०
नहिं, धन्य तेहनो अवतार रे ॥ २० ॥ वा० ॥ सर्वगा
॥ दोहा ॥

॥ कहे गुजंकर सुजटने, प्रचुनो प्रवल प्रताप ॥ परग
सवल संताप ॥ १ ॥ वात सुणी चित्त चमकिया,
हो अहो सुजवल स्वामीनुं, सहू चखाणे संत ॥
दिर जणी, वाजंते वाजित्र ॥ पुरमांहे यश विस्त
॥ २ ॥ नगरमांहे उत्सव हुउं, चोकें चोक ए
नरपति हण्यो, रहेज्ञो जग अख्यात ॥ ४ ॥

॥ ढाल वारमी ॥

॥ देशी आठे लालनी ॥ सजा विसर्जो हो राय,
आठे लाल ॥ पटराणी पायें पडे जी ॥ १ ॥ अ
साहिव नर शिरदार ॥ आ० ॥ वात कहो हेजे ह
उत्सव माहाराज, नगरमांहे बहु आज ॥ प्यारे
जो घणो जी ॥ २ ॥ कहे वालम सुण नार, साह
लाल ॥ आज में हरि हणियो सही जी ॥ ४ ॥
करे सस्नेह ॥ नीके लाल ॥ को न करे ते में कछुं
वो वलवंत, कोइ नहिं दृढचित्त ॥ प्यारे लाल ॥ पं

पाभ्यो रे ॥ नृप नमतो तरप्यो घणुं, वड हेवज जइ वीशाम्यो रे ॥ सु० ॥
 १० ॥ मनमां इहे नीरने, वडशाखाहूँती हेठे रे ॥ ऊरता जल विंड लहुं,
 मनमां एम चिंत्युं वेठे रे ॥ सु० ॥ ११ ॥ शाखाविच जाविल नखुं, वर्षा
 कृतुं जल एह रे ॥ नाजन करीय पलाशनुं, नरी पान करुं सस्नेह रे ॥
 ॥ सु० ॥ १२ ॥ तिम करी जल पीवा जिस्ये, थयो नृपति उजमाल रे ॥
 वट पंखी एक आवीने, करथी ढोव्युं ततकाल रे ॥ सु० ॥ १३ ॥ थइ वि
 लखो नरराजीयो, फरि नरीयुं ते जलपात्र रे ॥ तेम वली ढोव्युं पंखीयें, नृप
 चिंते एह कुपात्र रे ॥ सु० ॥ १४ ॥ कोप्यो राय कशा ग्रही, मन चिंते त्रीजी
 वार रे ॥ आवे तो मारुं सही, न करुं हवे ढील जगार रे ॥ सु० ॥ १५ ॥
 जल थर्थे नाजन थयुं, कर एकें पंखी विमासे रे ॥ कोप्यो राय ए मारणे,
 नवि मूके विशवा वीर्गे रे ॥ सु० ॥ १६ ॥ पण मुज मरण नखुं इहां, नहिं
 मरण नखुं नूपालो रे ॥ ए जीव्ये बहु जीवणे, मुज जेवा केइ कंगालो रे
 ॥ सु० ॥ १७ ॥ धन्य धरा जिहां एहवा, पंखी पण ठे उपकारी रे ॥ प्राण
 उगारे पारकां, ते जीव तणी वलिहारी रे ॥ सु० ॥ १८ ॥ पत्रनाजन नरी
 जव पीये, तव आवते नाख्युं उमाडी रे ॥ पंखी कशाघातें हणी, नृप रीज्यो
 हेठो पाडी रे ॥ सु० ॥ १९ ॥ फरी पलाशनो पुट थखो, जलविंड तिहां
 थी आगें रे ॥ पढतां देखी चिंतवे, ए कौतुक सरिखुं लागे रे ॥ सु० ॥
 २० ॥ वटशाखा जोउं चटी, तरुकोटर अजगर माठो रे ॥ सूतो गरल सु
 खथी गजे, ते जोइ तिहांथी नाठो रे ॥ सु० ॥ २१ ॥ ए में पीधुं होत जो,
 तो मरत सही इण ठामो रे ॥ जूउं पंखी उपगारीये, अहो शुं कीधुं
 ए कामो रे ॥ सु० ॥ २२ ॥ प्राण कखां अलखामणां, पण मुजने एणें
 उगाखो रे ॥ शान करी आवी घणी, पण मूढ हुं न रख्यो वाखो रे ॥
 सु० ॥ २३ ॥ हा हा महोदुं पाप ए, मुज पापीने आवी लाग्युं रे ॥ एह
 हवे केम नूट्युं, कोयें मुज मन थयुं कांगुं रे ॥ सु० ॥ २४ ॥ एम मन
 शोक फरे घणो, तत पूंजल मेना आवी रे ॥ हृषित थइ पति देव्यीने,
 सवि बात कत्री नमजावी रे ॥ सु० ॥ २५ ॥ स्वस्य थइ नरवर चख्यो,
 पंखीशय नाथें जेई रे ॥ पुन उद्याने चंद्रने, नल तनतंस्कार करेई रे ॥
 सु० ॥ २६ ॥ देइ जनांजति आवियो, नृप मंदिर अति विलगीरो रे ॥
 नृप करे विसरजे नहिं, ए तिःकारण मुज वीरो रे ॥ सु० ॥ २७ ॥ प्राण

तव, न थयुं नृपनुं काज ॥ १ ॥ निजमंदिर जणी चालीयो, आष्यो कीर्ति
 राज ॥ कर जोडी आगल रह्यो, तव बोले नरराज ॥ २ ॥ कीर्तिराज सुण
 माहरुं, होशे तुज्जयी काम ॥ ते कहे हुं सेवक किस्यो, जो न करुं काज
 तुज स्वामि ॥ ३ ॥ लेइ आव्य कतावलो, देवराजनुं शीश ॥ हुकम चढा
 वी शिर चढ्यो, दीये नृपति आशीष ॥ ४ ॥ कालविलंब करी पठे, आ
 व्यो नरपति पास ॥ कर जोडी ऊनो रही, एम करे अरदास ॥ ५ ॥ मुज
 बंधव जागे अठे, त्रसे समरथ धीर ॥ केम हणाये माहरो, देवराज बड
 वीर ॥ ६ ॥ तिणे प्रस्तावे कीजगुं, ए तुमचो आदेश ॥ पण हमणां मुज
 ने कहो, कोइ संबंध उपदेश ॥ ७ ॥ नृपति कहे कोइक तुमें, करो अपूरव
 वात ॥ कीर्तिराज कहे सांजलो, स्वामिन् एक अवदात ॥ ८ ॥

॥ ढाल तेरमी ॥

॥ काया कामिनी वीनवे ॥ ए देशी ॥ कीर्तिराज कहे सुणो, नरतें मह
 पुर नाम रे ॥ शत्रुंजयान्निध राजीयो, राणीनाम प्रियंगु अजिराम रे ॥ १ ॥
 सुगुण सनेहा एक वातडी ॥ ए आंकणी ॥ अवधारो अंतर्दामी रे ॥ साच
 करीने जाणजो, मोरा साहिव कहुं शिर नामी रे ॥ सु० ॥ २ ॥ एक दि
 न ते नृपनी सजा, देशांतरथी नर आव्यो रे ॥ अश्वरयण आगल धखो
 देखी रायतणे मन जाव्यो रे ॥ सु० ॥ ३ ॥ चिंते नृप सोजागियो, ए
 वारु तुरंगम दीसे रे ॥ रूप जिस्ती गति जो हुवे, तो महारुं मनहुं हीसे रे
 ॥ सु० ॥ ४ ॥ यतः ॥ जवोहि सतेः परमं विज्ञूपणं, त्रपांगनायाः कृशता
 तपस्विनः ॥ द्विजस्य विद्यैव मुनेरपि ह्रमा, पराक्रमः शस्त्रवलोपजीवि
 नाम् ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ राय तुरंगम सज करी, पलाण उपर मंमावी रे ॥
 गति विज्ञाननें जोयवा, गयो वाहिर ते दोडावी रे ॥ सु० ॥ ५ ॥ सैन्य
 सहू पुंवल रह्युं, नृप अदृश्य थयो कृणमांय रे ॥ सामंत चिंतातुर थया,
 कहे ते नर आवी त्यांय रे ॥ सु० ॥ ६ ॥ वक्रशिक्षित ए अश्व ने, मुजनें
 कहेवुं वीसरियुं रे ॥ नदय जलादिक लेइ करी, नृपपूर्वे सैन्य नीसरियुं रे
 ॥ सु० ॥ ७ ॥ वेग जोइने वालवा, बलगा खेंची नरनाथे रे ॥ तव पवन
 परें दोडीयो, राख्यो न रहे जोर साथे रे ॥ सु० ॥ ८ ॥ उल्लंघी बहु नृमि
 का, नृप थाक्यो बलगा महेली रे ॥ अश्व उजो रह्यो ततरूपे, थयो शांत
 स्वनावे वेली रे ॥ सु० ॥ ९ ॥ नृपे पलाण उतारीयुं, हय त्रोट लही मृति

पाम्यो रे ॥ नृप जमतो तरप्यो घणुं, बड हेवल जइ वीशाम्यो रे ॥ सु० ॥
 १० ॥ मनमां इहे नीरने, बडशाखादूती हेते रे ॥ ऊरता जल विंड जहुं,
 मनमां एम चिंत्युं वेते रे ॥ सु० ॥ ११ ॥ शाखाविच जाविल नखुं, वर्षा
 क्तुनुं जल एह रे ॥ नाजन करीय पलाशनुं, नरी पान करुं सस्नेह रे ॥
 ॥ सु० ॥ १२ ॥ तिम करी जल पीवा जिस्ये, थयो नृपति उजमाल रे ॥
 बट पंखी एक आवीने, करथी ढोव्युं ततकाल रे ॥ सु० ॥ १३ ॥ थइ वि
 लखो नरराजीयो, फरि नरीशुं ते जलपात्र रे ॥ तेम वली ढोव्युं पंखीयें, नृप
 चिंते एह कुपात्र रे ॥ सु० ॥ १४ ॥ कोप्यो राय कशा ग्रही, मन चिंते त्रीजी
 चार रे ॥ आवे तो मारुं सही, न करुं हवे ढील लगार रे ॥ सु० ॥ १५ ॥
 जल अर्थे नाजन धरुं, कर एकें पंखी विमासे रे ॥ कोप्यो राय ए मारुं,
 नवि मूके विशवा वीरुं रे ॥ सु० ॥ १६ ॥ पण मुऊ मरण नखुं इहां, नहिं
 मरण नखुं नूपालो रे ॥ ए जीव्ये बहु जीवरो, मुऊ जेवा केइ कंगालो रे
 ॥ सु० ॥ १७ ॥ धन्य धरा जिहां एहवा, पंखी पण ते उपकारी रे ॥ प्राण
 उगारे पारकां, ते जीव तणी वलिहारी रे ॥ सु० ॥ १८ ॥ पत्रनाजन नरी
 जव पीये, तत्र आवते नाख्युं उमाडी रे ॥ पंखी कशाघातें हणी, नृप रीऊयो
 हेतो पाडी रे ॥ सु० ॥ १९ ॥ फरी पलाशनां पुट धर्यो, जलविंड तिहां
 थी आगें रे ॥ पडतां देखी चिंतवे, ए कौतुक सरिखुं लागे रे ॥ सु० ॥
 २० ॥ बटशाखा जोउं चढी, तरुकोटर अजगर मातो रे ॥ सूतो गरल मु
 खथी गले, ते जोइ तिहांथी नातो रे ॥ सु० ॥ २१ ॥ ए में पीधुं होत जो,
 तो मरत सही इण ठामो रे ॥ जूउं पंखी उपगारीये, अहो गुं कीधुं
 ए कामो रे ॥ सु० ॥ २२ ॥ प्राण कखां अलखामणां, पण मुऊने एणें
 उगायो रे ॥ ज्ञान करी आवी घणी, पण मूढ हुं न रह्यो वाख्यो रे ॥
 सु० ॥ २३ ॥ दा हा महोदुं पाप ए, मुऊ पापीने आवी लाग्युं रे ॥ एह
 हवे केम बूढसुं, कोयें मुऊ मन थयुं कांशुं रे ॥ सु० ॥ २४ ॥ एम मन
 शोक करे घणों, तस प्रंवल मेना आवी रे ॥ दूषित थइ पति देखीने,
 तवि नात कत्री नमजावी रे ॥ सु० ॥ २५ ॥ स्वस्य थइ नरवर चर्यो,
 पंखीशव साधें लेई रे ॥ प्र उद्याने चंदने, तम तनसंस्कार करेई रे ॥
 सु० ॥ २६ ॥ देइ जजांजलि आनियो, नृप मंदिर अग्नि दिग्गामी रे ॥
 नृप कहे पिसरुं नहिं, ए निःकाण मुऊ वीरुं रे ॥ सु० ॥ २७ ॥ प्राण

पोताना अथगुणी, मुज जीवित वहालुं कीधुं रे ॥ ते वहालो नवि वीसरे,
 मुज चित्तुं चोरी लीधुं रे ॥ सु० ॥ २७ ॥ एहवा उपकारी जणी, में प्राण
 थकी चूकाव्यो रे ॥ एम वल वलतां रायनें, मंत्रीश्वर मलि समजाव्यो रे
 ॥ सु० ॥ २८ ॥ शोच किशो गतवस्तुनो, एम अथांतर प्रकाश्युं रे ॥ चि
 त्त विपाद मटे नहिं, पंखी गुण मनहुं वास्युं रे ॥ सु० ॥ ३० ॥ एम अ
 विमास्याथी घणो, ते नूप पड्यो पस्तावे रे ॥ तेम अवर पण एहवा,
 कारजथी सहि दुःख पावे रे ॥ सु० ॥ ३१ ॥ चोथे खंमें तेरमी, ढाल
 रामविजयें परकाशी रे ॥ सुयश महोदय ते लहे, जग जे करे काम वि
 मासी रे ॥ सु० ॥ ३२ ॥ सर्व गाथा ॥३६॥ श्लोक तथा गाथा ॥३०॥
 ॥ दोहा ॥

॥ कीर्तिराज जब कहि रह्यो, तव प्रजातनां तूर ॥ वाज्यां अति आनं
 द नर, प्रह ऊगमते सूर ॥ १ ॥ वंदीजन जय जय कहे, मंगल पाठ
 जणंत ॥ चिरं जीव तुं साहिवा, महोटा महिपति संत ॥ २ ॥ कीर्तिराज
 मंदिर गयो, मन चिंते माहाराज ॥ एकचित्त चारे सही, चिंतित न कस्युं
 राज ॥ ३ ॥ जल लेइ दासी तदा, आवी दातण काज ॥ पावन करि
 शुनवेप धरि, वेतो आवी समाज ॥ ४ ॥ मो आगल आवी कहे, कर जो
 ढी देवराज ॥ हुकम होय तो हुं कहुं, वात अपूरव आज ॥ ५ ॥ रीप
 जस्यो राजा तदा, कीथी मुखनी शान ॥ नृप कोप्यो दीसे अठे, समज्यां
 सहु अनुमान ॥ ६ ॥

॥ ढाल चोदमी ॥

॥ लुंगाकी लकरी हो रसीया गांठ गंठीली ॥ ए देशी ॥ हो रढीयाला
 राजन रीप न कीजें ॥ रीप न कीजें लालन रीज धरीजें ॥ हो रढी ॥
 ए आंकणी ॥ गुण ठोडी अथगुण नवि लीजें, वात सुणीने शावाशी
 हो दीजें ॥ हो ॥ १ ॥ वांहे अद्यानी प्रचुजी लाज धरीजें, अथगुण
 होय तो एकांत कहीजें ॥ हो ॥ साहिवकुं रे हम दास न ठीजें, सेवा
 हो करतां दिलमां कांइ न नीजे ॥ हो ॥ २ ॥ नेह न तोडो साहिव
 वात न ताजी, मो पर दीसे इतनी क्युं इतराजी ॥ हो ॥ गुनह न कोइ
 कीयो में तुमचो, चारों वांधवमांहे दोष न अमचो ॥ हो ॥ ३ ॥ वात
 कही रे सवि मांमी मंमाणें, वात पिशाचनी निसुणी राणें ॥ हो ॥

राजन सर्पना खंम ठे दोय, जो नवि मानो तो नजरेंजी जोय ॥ हो०
 ॥ ४ ॥ आणी देखाळ्या रे अहि दोय नाग, रायना मनमां रे ऊपन्यो
 राग ॥ हो० ॥ राजन विपसंक्रम नय जाणी, तन फरस्युं रे मुऊ मात
 ए राणी ॥ हो० ॥ ५ ॥ टळीया अंतर अमत्तमजाला, विकस्यां रे हृदय
 कमल ततकाला ॥ हो० ॥ तूठो राय विचारे मनगुं, एह उत्तम नर
 राखुं यतनगुं ॥ हो० ॥ ६ ॥ अहो उपकारी उपर थयो रोपी, मुऊ जे
 वो जग कोइ न दोपी ॥ हो० ॥ अहो एहना वांधव गुणवंता, कहेवा
 कह्या मुऊनें दृष्टांता ॥ हो० ॥ ७ ॥ एह न माखो ते थयुं घणुं सारुं,
 राज देइ व्रत लेइ सथारुं ॥ हो० ॥ कहे परिवारनें चार ए वंधु, गुणमणि
 स्वण अगाध ए सिंधु ॥ हो० ॥ ८ ॥ कुजदेवीयें एह अंगज दीधा,
 मुऊ अपुत्रियानां वांठित सीधां ॥ हो० ॥ राज्य स्थापी रे देवराज
 कुमार, सूर्यो हुं लेइश संयमनार ॥ हो० ॥ ९ ॥ कहे परिवार पडखो पं
 च रात, चारित्र दोहिलुं वय कोमल जात ॥ हो० ॥ कहे राजा मुऊ
 पूर्वज पहेला, पलित थया विण निसखा वहेला ॥ हो० ॥ १० ॥ पाम्या
 हो शिवपद हुं मंदनागी, कटुकविषय ऊपर रह्यो रागी ॥ हो० ॥ हवे
 निश्रें मुऊ संयम लेवो, राज्य कुंवर देवराजनें देवो ॥ हो० ॥ ११ ॥ तद
 नंतर गुन दिन निरधारी, राज्य ठव्यो देवराज विचारी ॥ हो० ॥ पद युव
 राज वत्सराजने दीधुं, पुण्ये वांठित कारज सीधुं ॥ हो० ॥ १२ ॥ एहवे
 अक्षरें नंदन वनमां, श्रीदत्त सूरि आख्या वाहाला रे मनमां ॥ हो० ॥
 वनपालक जइ राय वयाव्यो, मन मानी ते वयामणी पायो ॥ हो० ॥ १३ ॥
 लेइ परिवारनें वंदण चाव्यो, मुनि नमवानी वेला मनमांहे माल्यो ॥ हो० ॥
 धन्य दिवस मुऊ आजनी वेला, प्रचु तुम दर्शनथी लहि जीजा ॥ हो० ॥
 ॥ १४ ॥ गुरु वंदी वेठां मन खांतें, मुनिदेसण निरुणो रे एकांतें ॥ हो० ॥
 चोपे हो खंमं दाल चोदमी सारी, रामविलय कहे सुणो नर नारी ॥
 ॥ हो० ॥ १५ ॥ सर्वे गाथा ॥ ४२० ॥ श्लोक तथा गाथा ॥ २० ॥

॥ दोहा ॥

॥ योग्य जाणी ते पर्यवा, दीये गुरुजी उपदेश ॥ नविक जीव हगरे
 हिये, नांजे सकल कलेश ॥ १ ॥

॥ ढाल पन्नरमी ॥

॥ रंग ठे जी रंग ठे जी रंग ठे जी राज ॥ ए देशी ॥ रहो ज्ञानमांहे रंग
रली रंगरली रे, धर्मध्यानमांहे रंग रली रंग रली रे ॥ ए आंकणी ॥ दुर्जन
ए नर नव तुमें पायो, हास्यो किहां लहेशो वली रे ॥ लहेशो वली रे ॥ २० ॥
॥ १ ॥ पुजलनाव विजाव ए टालो, साधो ए सहज दशा नली रे ॥ २०
॥ २ ॥ क्लेशों हो वासित मनहुं रे वाली, करो किरिया गुणगुं मली
रे ॥ गुण ॥ २० ॥ ३ ॥ एक दिवस संयम गुण साधे, अगुन कर्म जाये
टली रे ॥ जाण ॥ २० ॥ ४ ॥ ते परिणाम अगुदने त्यागें, याउ उजमा
ल महावली रे ॥ मण ॥ २० ॥ ५ ॥ साधनयोगें ए साध्यनें लहेवा,
पुण्ययोगें पाम्यो रली रे ॥ पाण ॥ २० ॥ ६ ॥ याउ साधक हवे बाधक
मूकी, पांच प्रमाद ए निर्दली रे ॥ अथ निण ॥ २० ॥ ७ ॥ कुमति कुना
री संग निवारी, सुमतिवधू वरो निर्मली रे ॥ वण ॥ २० ॥ ८ ॥ होवो
पटकायना पीयर सूधा, कांइ नव खोवो ठो अली, रे ॥ खोण ॥ २० ॥ ९ ॥
श्रीदत्त मुनि वाणी सुणी रीज्यो, मुनिपद कमल नमे लली रे ॥ नण ॥ २०
॥ १० ॥ कहे नृप दीक्षा दीयो अथ मुजने, योगदशा सूधी कली रे ॥ सूण
॥ २० ॥ ११ ॥ रामविजय कहे धन्य ते मानव, मोह न जाये जेहने
ठली रे ॥ जेण ॥ २० ॥ १२ ॥ दोहो ॥ कर जोडी मुनिने कहे, जित
शत्रु नूपाल ॥ न थयुं वचन पिशाचनुं, कारण कोण कृपाल ॥ १ ॥
॥ ढाल ॥ सालुडामां मोतीडो वन रहीयो ॥ ए देशी ॥ कहे मुनिवर सुण
नूप रे ॥ सूरिजन ॥ वैर न कीजें कोइगुं ॥ वैश्यने वंशें उपनी, रूपवती सु
कुमाल रे ॥ सूण ॥ वैण ॥ १ ॥ गोरी तुज घरणी दुइ, यौवन रूप रसाल
रे ॥ सूण ॥ तुज मन मानेती वणुं, सहुमांहे शिरदार रे ॥ सुण ॥ अवर अ
देखाई करे, पण ताहरो बहु प्यार रे ॥ सूण ॥ वैण ॥ २ ॥ हारे कोइक
कर्मना दोषधी, थइ दोजागण तेह रे ॥ सूण ॥ दीठी हो न गमे तुजने,
मूक्यो तेहगुं नेह रे ॥ सूण ॥ वैण ॥ ३ ॥ मनमांहे चिंते मानिनी, मुज
मूकी नरतार रे ॥ सूण ॥ अवर सहने आदरे, थिक् माहरो अथतार रे ॥
॥ सूण ॥ वैण ॥ ४ ॥ मन वैराग्यें वालीगुं, जइ निजवापने गेह रे ॥ सूण
तप अज्ञानपणे करी, मरी थइ व्यंतरी तेह रे ॥ सूण ॥ वैण ॥ ५ ॥
नव संनारी आपणो, संक्रमी सर्प शरीर रे ॥ सूण ॥ पेठी हो तहारा नव

नमां, करवा तुजने पीर रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ ६ ॥ मारुं ए पूरवकंतने,
 परहरी पापीयें एणें रे ॥ सू० ॥ वर ने कृण जृनां नो हे, मत वांधो ए ते
 ण रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ ७ ॥ एहवे तुज कुलदेवीयें, करीव पिशाचनुं रूप
 रे ॥ सू० ॥ तुज कल्याणने कारणें, जणाव्युं ए स्वरूप रे ॥ सू० ॥ वै० ॥
 ८ ॥ वात सुणी देवराजजी, टाव्यो तुज अणाय रे ॥ सू० ॥ नाठी हो
 देवी तेजथी, सवजो पुण्य सखाय रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ ९ ॥ वात सुणी नर
 राजीयो, कहे मुनिनें कर जोडि रे ॥ सू० ॥ कष्ट गयुं मुज नाग्यथी, हवे
 संयमनो कोट रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ १० ॥ कहे मुनि देवाणुपिचा, कृण
 लाखेणो जाय रे ॥ सू० ॥ गयो पाठो आवे नहिं, धर्म हीज न खटाय रे
 ॥ सू० ॥ वै० ॥ ११ ॥ यतः ॥ अङ्गं कर्त्तुं परं परारि, पुरिसा चिंतीय अद्य
 संपत्तिं ॥ अंजनिगयं व तोयं, गजंतमाउं न पिडंति ॥ १ ॥ मासुश्च अह
 ज० ॥ २ ॥ लोच कीधो वेदु जेदथी, ग्रहे संयम व्रतनार रे ॥ सू० ॥
 धन्य धन्य सहु मुख उच्चरे, ए महोठो अणगार रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ १२ ॥
 गुमशिखा दिसे तेहने, संव चतुर्विध साख रे ॥ सू० ॥ व्रत जीधां विस्तार
 जो, अतुजव रस मन राख रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ १३ ॥ नावि कथानक
 तेहने, जांखे गुरु द्वितकार रे ॥ सू० ॥ मगधें गजगृही वसे, जंत धनाव
 द नार रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ १४ ॥ धारिणी तस घरणी तणा, कुंवर चार
 सुजाण रे ॥ सू० ॥ धनपाल धनदेव धनपति, धनरहित तेम जाण रे
 ॥ सू० ॥ वै० ॥ १५ ॥ ते चिहुंने पण्णाविया, चारे वदू सुविचार रे ॥
 सू० ॥ जंत विचारे चित्तमां, कुण ग्रहेशं गृहचार रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ १६ ॥
 ताम परीक्षा कारणें, स्वजन जमाडी संच रे ॥ सू० ॥ सहु साखें चिहुनें
 टीया, धालि तणा कण पंच रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ १७ ॥ मागुं तेवारें थाप
 जो, वडीयें विचारुं नाम रे ॥ सू० ॥ सत्तरोजी घेजा थया, सुं गळ्यानुं
 ए काम रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ १८ ॥ उद्दाली नाग्वी दिवा, वीजीयें स्वाधा
 नेह रे ॥ सू० ॥ व्रीजीयें वलें मांपव्या, चोचीयें वंधयनेह रे ॥ सू० ॥
 वै० ॥ १९ ॥ नाव्याथी नाव्या थणा, पंचम वपें जेत रे ॥ सू० ॥ पुन
 रपि ते कण मार्गोपा, विललीवदूअर जेत रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ २० ॥ ना
 त्पार्थी नाव्याण तणुं, काम जताथ्युं ताम रे ॥ सू० ॥ ग्वाथा निल गंधण
 थह, काम करे वादास रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ २१ ॥ पलें जो राग्या नेहने, सांथ्यो

हो सघलो माल रे ॥ सू० ॥ वृद्धि करी तेणें सहु शिरें, यइ चोथी सुकुमार
 रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ २२ ॥ उझिया जोगिया रक्किया, चोथी रोहिणी नाम
 रे ॥ सू० ॥ एह उपनय मुनि ऊपरें, गुरुजीयें दीधो ताम रे ॥ सू० ॥ वै० ॥
 २३ ॥ शेर सुगुरु दीक्षित वहु, कण पंचक व्रत जाण रे ॥ सू० ॥ संघ स्वज
 न मिलावडो, नाख्या ते दुःखखाण रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ २४ ॥ केइ करे
 आजीविका, व्रत उजें अविनीत रे ॥ सू० ॥ केइ व्रत पाले ऊजलां, प्रति
 बोधी न शकंत रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ २५ ॥ बूज्या बहुने बूजवे, रोहिणी
 सम मतिमंत रे ॥ सू० ॥ तेह परें विस्तारजो, व्रत गिरुआ गुणवंत रे
 ॥ सू० ॥ वै० ॥ २६ ॥ श्रीजिन वीरतणे समे, होत्रो एह संबंध रे ॥ सू० ॥ धन
 ज्ञानी परकाशीयो, सुणी थया सहु दृढ संध रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ २७ ॥ शीख
 लेइ देवराजनी, मुनि विचरे उजमाल रे ॥ सू० ॥ संयम साधि अति जलो,
 कर्म कियां विसराल रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ २८ ॥ अनुक्रमें केवल पामीने,
 नृप साध्युं अरिहंत रे ॥ सू० ॥ सिद्ध थया जिहां सहजनां, शाश्वत सुख अनंत
 रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ २९ ॥ श्री केमंकर जिनवरें, जांख्यो ए अवदात रे
 ॥ सू० ॥ परखी लीजें हो प्राणीया, धर्मरयण एकांत रे ॥ सू० ॥ वै०
 ॥ ३० ॥ प्रथम अहिंसा तिम मृपा, स्तेय विषयनो त्याग रे ॥ सू० ॥ परि
 ग्रह विरमण जाणीने, जे करे ते माहाजाग रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ ३१ ॥
 जिनवाणी निसुणी घणां, प्रतिबूज्यां नविवृंद रे ॥ सू० ॥ संयम देशविर
 ति धरे, नइक गुण आनंद रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ ३२ ॥ वज्रायुध जिन वां
 दीने, धर्म तणो लेइ लाज रे ॥ सू० ॥ निज नयरीयें आविया, पाले रा
 ज्य अदंज रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ ३३ ॥ चोथे खंमं पन्नरमी, ढाल कही जि
 नवाणी रे ॥ सू० ॥ रामविजय कहे सांजली, करो आतमहित जाणी रे
 ॥ सू० ॥ वै० ॥ ३४ ॥ सर्व गाथा ॥ ४६८ ॥ श्लोक तथा गाथा ॥ ११ ॥
 ॥ दोहा ॥

॥ संघ चतुर्विध स्थापियो, बहु साधु परिवार ॥ केमंकर अग्रिहंतजी,
 पुहवी करे विहार ॥ १ ॥ हवं वज्रायुध राजियो, न्यायरीतें चालंत ॥
 वैरी वश कीया सवे, गुणमणि रोहण संत ॥ २ ॥ अन्वदिन आयुधशा
 लामां, चक्र ऊपन्युं सार ॥ अछाही उत्सव करी, साध्या पट् खंम सार ॥ ३ ॥
 विजय जलुं मंगलावती, वरती सघले आण ॥ लाख चोराशी गज तुरी

लख चोराशी निशाण ॥ ४ ॥ चोसठ सहस अंतेउरी, रूपें रंज समा
न ॥ जनपद सहस वत्रीश पति, वत्रीश सहस राजान ॥ ५ ॥ श्री
वज्रायुध चक्रधर, वेठा सजामजार ॥ तिण अवसर जे नीपन्थुं, ते
निसुणो अधिकार ॥ ६ ॥

॥ दाल शोलमी ॥

॥ वृंदावनमां रे नाथ पधारीया जी ॥ ए देशी ॥ इण अवसर रे तिहां
एक आवीयो जी, खेचर धृजते अंग ॥ सुण मंगलावती विजयना
साहिवा जी, शरण ग्रह्यं तुज चंग ॥ १ ॥ प्रहृजी मुज अनाथने उ
दरो जी, कहे नचचर कर जोडि ॥ मरण समो नय जगमां को नहिं जी,
हवे मुज वंधन ठोड ॥ प्र० ॥ २ ॥ एहवे आवी रे पूठें खेचरी जी,
खड्ग ग्रही करमांहे ॥ बली तस पूठें विद्याधर परवडो जी, आव्यो गडा
करें माहि ॥ प्र० ॥ ३ ॥ कहे विद्याधर चक्रायुध सुणो जी, ए पापीनी
यात ॥ मुकष्ट विजयमां वेतादये वमे जी, शुक्ला पुरी गुन ख्यात ॥ प्र० ॥
॥ ४ ॥ दत्त नरेश्वर विद्याधर तिहां जी, तेहनो हुं सुत वायुवेग ॥ मुज
सुकांता कूखनी कपनी जी, शांतिमती गुणदेग ॥ प्र० ॥ ५ ॥ एक दिवस
में विद्या दिपली जी, प्रकृति इण नाम ॥ गड मणिसागर पर्वतसाथवा जी,
साधे करि मन ठाम ॥ प्र० ॥ ॥ ६ ॥ विद्यासाधन करतां आवीयां जी,
ए विद्याधर ताम ॥ रूपें मोह्यो पुत्री मुज हरी जी, जों जों छुटनां
काम ॥ प्र० ॥ ७ ॥ पुत्रीनकिर्यें रीजी देवता जी, तुष्ट थइ तंणिवार ॥
नाठो रे तिहांथी ए कतावलो जी, आव्यो इहां निर्धार ॥ प्र० ॥ ८ ॥
तिहां नदि दीडी में पुत्री नदा जी, केहें धायो हुं आज ॥ राजन् मृकां
अपराधी नली जी, नदिं मृकुं माहाराज ॥ प्र० ॥ ९ ॥ अनिनाथी
पुत्रीशिलजंगनो जी, कस्यो गहनो में अंत ॥ अथधि निदाजे रे
वज्रायुध विजु जी, पूरवचव गिरंतत ॥ प्र० ॥ ॥ १० ॥ कहे प्रतिचां
धने कारण तुमें सुणो जी, तुज पुत्री दरी जेद ॥ पूण्यनयनो नेद न
थ्यां इहां जी, सांजलो नहुजन एद ॥ प्र० ॥ ॥ ११ ॥ निज प्रनु छानी
जाणी दरगवासा नी, थया सुणवा सावधान ॥ वेइ उपयोगने वज्रायुध
करे जी, सुणो तुमें मांमने कान ॥ प्र० ॥ ॥ १२ ॥ बोधे खंदे रे दाल पड

हो सधलो माल रे ॥ सू० ॥ वृद्धि करी तेणें सहु शिरें, अइ चोथी सुकुमार
 रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ ३३ ॥ उष्विया जोगिया रक्किया, चोथी रोहिणी नाम
 रे ॥ सू० ॥ एह उपनय मुनि ऊपरें, गुरुजीयें दीधो ताम रे ॥ सू० ॥ वै० ॥
 ३३ ॥ जेठ सुगुरु दीहित वहु, कण पंचक व्रत जाण रे ॥ सू० ॥ संघ स्वज
 न मिलावडो, नाख्या ते दुःखखाण रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ ३४ ॥ केइ करे
 आजीविका, व्रत उलें अविनीत रे ॥ सू० ॥ केइ व्रत पाले ऊजलां, प्रति
 बोधी न शकंत रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ ३५ ॥ बूज्या बहुने बूजवे, रोहिणी
 सम मतिमंत रे ॥ सू० ॥ तेह परें विस्तारजो, व्रत गिरुआ गुणवंत रे
 ॥ सू० ॥ वै० ॥ ३६ ॥ श्रीजिन वीरतणे समे, होशे एह संबंध रे ॥ सू० ॥ धन
 ज्ञानी परकाशीयो, सुणी अया सहु दृढसंध रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ ३७ ॥ शीख
 लेइ देवराजनी, मुनि विचरे उजमाल रे ॥ सू० ॥ संयम साधि अति नलो,
 कर्म कियां विसराल रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ ३८ ॥ अनुक्रमें केवल पामीने,
 नृप साध्युं अरिहंत रे ॥ सू० ॥ सिद्ध अया जिहां सहजनां, शाश्वत सुख अनंत
 रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ ३९ ॥ श्री हेमंकर जिनवरें, जांख्यो ए अवदात रे
 ॥ सू० ॥ परखी लीजें हो प्राणीया, धर्मरथण एकांत रे ॥ सू० ॥ वै०
 ॥ ३० ॥ प्रथम अहिंसा तिम मृषा, स्तेय विषयनो त्याग रे ॥ सू० ॥ परि
 ग्रह विरमण जाणीने, जे करे ते माहाजाग रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ ३१ ॥
 जिनवाणी निसुणी घणां, प्रतिबूज्यां नविवृंद रे ॥ सू० ॥ संयम देशविर
 ति धरे, नइक गुण आनंद रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ ३२ ॥ वज्रायुध जिन वां
 दीने, धर्म तणो लेइ लाज रे ॥ सू० ॥ निज नयरीयें आविया, पाले रा
 ज्य अदंज रे ॥ सू० ॥ वै० ॥ ३३ ॥ चोथे खंमें पन्नरमी, ढाल कही जि
 नवाणी रे ॥ सू० ॥ रामविजय कहे सांजली, करो आतमहित जाणी रे
 ॥ सू० ॥ वै० ॥ ३४ ॥ सर्व गाथा ॥ ४६८ ॥ श्लोक तथा गाथा ॥ ११ ॥

॥ दोहा ॥

॥ संघ चतुर्विध स्थापियो, बहु साधु परिवार ॥ हेमंकर अरिहंतजी,
 पुहवी करे विहार ॥ १ ॥ हवे वज्रायुध राजियो, न्यायरीतें चालंत ॥
 बेरी वश कीधा सवे, गुणमणि रोहण संत ॥ २ ॥ अन्यदिन आयुधशा
 लामां, चक्र ऊपन्युं सार ॥ अछाही उत्सव करी, साध्या पट् खंम सार ॥ ३ ॥
 विजय जलुं मंगलावती, वरती सधले आण ॥ लाख चोराशी गज तुरी

लाख चोराशी निशाण ॥ ४ ॥ चोसठ सहस्र अंतेउरी, रूपें रंच समा
न ॥ जनपद सहस्र वत्रीश पति, वत्रीश सहस्र राजान ॥ ५ ॥ श्री
वज्रायुध चक्रधर, वेठा सनामजार ॥ तिण अवसर जे नीपन्धुं, ते
निसुणां अधिकार ॥ ६ ॥

॥ ढाल शोलमी ॥

॥ वृंदावनमां रे नाथ पधारीया जी ॥ ए देशी ॥ इण अवसर रे तिहां
एक आदीयो जी, खेचर धृजते अंग ॥ सुण मंगलावती विजयना
साहिवा जी, शरण असुं तुळ चंग ॥ १ ॥ प्रभुजी मुळ अनाथने उ
दरो जी, कहे नचचर कर जोडि ॥ मरण समो नय जगमां को नहिं जी,
हवे मुळ बंधन ठोड ॥ प्र० ॥ २ ॥ एहवे आवी रे पूठें खेचरी जी,
खल्ल ग्रही करमांहे ॥ बली तस पूठें विद्याधर परबडो जी, आव्यो गदा
करें साहि ॥ प्र० ॥ ३ ॥ कहे विद्याधर चक्रायुध सुणां जी, ए पापीनी
वात ॥ मुकच विजयमां वेतादये वसे जी, गुक्का पुरी गुन ख्यात ॥ प्र० ॥
॥ ४ ॥ दत्त नरेश्वर विद्याधर तिहां जी, तेहनो हुं सुन वायुवेग ॥ मुळ
मुकांता कूखनी ऊपनी जी, शांतिमती गुणदेग ॥ प्र० ॥ ५ ॥ एक दिवस
में विद्या दिवली जी, प्रकृति इण नाम ॥ गड मणिसागर पर्वतसाधवा जी,
साधे करि मन ठाम ॥ प्र० ॥ ॥ ६ ॥ विद्यासाधन करतां आवीयो जी,
ए विद्याधर ताम ॥ रूपें मोह्यो पुत्री मुळ हरी जी, जों जों छटनां
काम ॥ प्र० ॥ ७ ॥ पुत्रीनक्तियें रीजी देवता जी, तुष्ट थड तंणि वार ॥
नाठो रे तिहांथी ए कतावजो जी, आव्यो इहां निधार ॥ प्र० ॥ ८ ॥
तिहां नवि दीठी में पुत्री तदा जी, केहें धायो हुं आज ॥ राजन् मृको
अपराधी जणी जी, नहिं मूकुं माहाराज ॥ प्र० ॥ ९ ॥ अजिजापी
पुत्रीशिलानंगनां जी, करयो एहनो में अंत ॥ अथधि निहाजे रे
वज्रायुध विलु जी, पूरवजय विरनंत ॥ प्र० ॥ ॥ १० ॥ कहे प्रनिशो
धने कारण नुमें सुणां जी, तुळ पुत्री हरी जेद ॥ पूरवजयनां नेद न
थ्यो इहां जी, सांचजो सहजुजन एद ॥ प्र० ॥ ॥ ११ ॥ निज प्रनु डानी
जाणी अरुसीया जी, यथा सुणवा सावधान ॥ देड उपयोगने वज्रायुध
कहे जी, सुणां सुभें मांमीने कान ॥ प्र० ॥ ॥ १२ ॥ सोधे गर्भें रे दाज थड

शोलमी जी, नवि सुणो वात रसाल ॥ रामविजय कहे धन्य उपगारीया
जी, वज्रायुध रे नूपाल ॥ प्र० ॥ १३ ॥ सर्वगाथा ॥ ४८७ ॥ ३१ ॥

॥ ढाल सत्तरमी ॥

॥ मरुं रे सुहावा नयणडे ॥ ए देशी ॥ वात सुणो वैरागनी, कहे वज्रा
युध नरदेव ॥ वाहाला ॥ पूरवजव संबंधथी, होवे राग वैरागनी टेव ॥ वा०
॥ १ ॥ वात सुणो वैरागनी ॥ ए आंकणी ॥ ऐरवतें जंबुद्वीपमां, एक बंध्य
पुर नामें गाम ॥ वा० ॥ बंध्यदत्त राजा जलो, करे धर्म तणां शुच काम ॥ वा०
॥ वा० ॥ २ ॥ राणी सुलक्षणा कूखनो, एक तनय नलिनकेतु सार ॥ वा० ॥ मावि
त्रने वहालो घणुं, जरयौवन कांति अपार ॥ वा० ॥ वा० ॥ ३ ॥ तेहज नयर
मांहे वसे, एक धनमित्र सारथवाह ॥ वा० ॥ श्रीदत्ता नारी जली, दत्त
सुत जनम्यो उत्साह ॥ वा० ॥ वा० ॥ ४ ॥ यौवन वय परणावियो, तेह
मनोहर रूप निधान ॥ वा० ॥ कन्या नामें प्रचंकरा, सवली अति सुंदर
वान ॥ वा० ॥ वा० ॥ ५ ॥ जर यौवन जामिनी थड, मन्मथ वसवानुं
धाम ॥ वा० ॥ प्रीतमसाथें प्रेमनी, करे क्रीडा अति अनिराम ॥ वा० ॥
वा० ॥ ६ ॥ एक दिन मास वसंतमां, लेइ नारी प्रचंकरा साथ ॥ वा० ॥
दत्त ते वनमांहे आवीयो, करे क्रीडा जलसंधात ॥ वा० ॥ वा० ॥ ७ ॥
देवकुंवर देवांगना, मानुं उतरियां आकाश ॥ वा० ॥ दंपती दोय दिजगुं
मल्यां, विरुउ एह विषयनो पास ॥ वा० ॥ वा० ॥ ८ ॥ तव राजकुंवर
तिहां आवियो, तेह नलिनकेतु तिए ठाय ॥ वा० ॥ देखी प्रचंकरा मोहि
यो, मन अटक रहुं तिहां जाय ॥ वा० ॥ वा० ॥ ९ ॥ मृगनयनी मनमोहनी,
मनमांहे वसी ते आय ॥ वा० ॥ शुद्धि बुद्धि सवि चूली गयो, रह्यो कुमर त्यां
लगन लगाय ॥ वा० ॥ वा० ॥ १० ॥ कामातुर सवलो थयो, तेणें लज्जा मूकी
दूर ॥ वा० ॥ विकल करे माणास जणी, ए प्रेमपयोनिधि पूर ॥ वा० ॥ वा०
॥ ११ ॥ यडुक्तं ॥ विकलयति कलाकुशलं, हसति शुचिं पंमितं विडंबयति ॥
अधरयति धीरपुरुषं, कृणेन मकरध्वजोदेवः ॥ १ ॥ कृशः काणः ० ॥ २ ॥
पूर्वढाल ॥ यौवनगर्वित राजगुं, कुल शील न कीध विचार ॥ वा० ॥ ते
ह प्रचंकरा अपहरी, आव्यो गृह राजकुमार ॥ वा० ॥ वा० ॥ १२ ॥
पियु तस टलवलतोरह्यो, अहोअहोजुडजोरनी वात ॥ वा० ॥ धींगो परधन
नोगवे, लंव खाये देइ जात ॥ वा० ॥ वा० ॥ १३ ॥ जुलम इत्यो जाणी करी,

बहु लोक थयां दिजगीर ॥ वा० ॥ जोर न चाले रायगुं, तस विरहें
 कंत अथीर ॥ वा० ॥ वा० ॥ १४ ॥ हा हा प्रचंकरा कामिनी, तें अथ
 टुं कीधुं कैम ॥ वाहाली ॥ विरहव्यथामां नाखीयो, विस्तार्यो नवरस
 प्रेम ॥ वा० ॥ वा० ॥ १५ ॥ एक दिन दत्त उद्यानमां, मुनि केवलज्ञान
 दिणंद ॥ वाहाला ॥ वांटीने निसुणी देगना, मन पाम्यो परमानंद ॥ वा०
 ॥ वा० ॥ १६ ॥ देशन सुणी घरे आवियो, करि दानादिक गुनधर्म ॥
 वा० ॥ आयुःक्यें चवि ऊपन्यो, कव्वविजयमांहे निज कर्म ॥ वा० ॥
 वा० ॥ १७ ॥ महेंद्रविक्रम वेताढ्यमां खेचर चूपति वजवंत ॥ वा० ॥
 तास तणे कुत्रे उपन्यो, नामें अजितसेन गुणवंत ॥ वा० ॥ वा० ॥ १८ ॥
 कमला दो तस कामिनी थइ. हवे नलिनकेतु कुमार ॥ वा० ॥ पितरनुं राज्य
 लही करी, करे कीडा अनेक प्रकार ॥ वा० ॥ वा० ॥ १९ ॥ प्रचंकरागुं
 रंगणुं, सुख माणे रात ने दीस ॥ वा० ॥ वेठां सातमी जूमिका, एक दिन मन
 थगि जगीज ॥ वा० ॥ वा० ॥ २० ॥ पंच वरण वादल थयां, सोहे वावती
 रंगवनाव ॥ वा० ॥ नजरें निहाले दोय जणां, थयो कौतुक ख्याल जमाव
 ॥ वा० ॥ वा० ॥ २१ ॥ थयां विसराल ते ततरुणें, पवनें दल नाख्यां
 दूर ॥ वा० ॥ स्वप्नोपम एम देखिने, मनें आव्युं वेराग्यनुं पूर ॥ वा० ॥
 ॥ वा० ॥ २२ ॥ धन थोवन सवि कारिमुं, जेवुं वादजनुं स्वरूप ॥ वा० ॥
 अदो जुं एहने कारणें, श्यां श्यां करे प्राणी विरूप ॥ वा० ॥ वा० ॥
 २३ ॥ पुज्ज ए नवि कारिमा, सवि अस्थिर ए तन धन जोग ॥ वा० ॥
 साचा करीने सदस्या, हुं चीनां कामिनी जोग ॥ वा० ॥ वा० ॥ २४ ॥
 मे मलिन कयां निज आनमा, परतरुणी केरे गग ॥ वा० ॥ कृणिक ए
 तुगने कारणें, बहु पाप कणुं निर्जाग्य ॥ वा० ॥ वा० ॥ २५ ॥ पतित
 घणो मुक जेद्वो, गुण तारे विणु जिन माग ॥ वा० ॥ अवे संयम तप
 आदरें, तरवा जवनिंधु अनाग ॥ वा० ॥ वा० ॥ २६ ॥ निज मुन राज्य
 लही करी, श्लेमंकर प्रचुनें लाथ ॥ वा० ॥ नलिनकेतु वन आदर्यां, विच
 यो महि घड मुनिनाथ ॥ वा० ॥ वा० ॥ २७ ॥ शम श्मवंतो साधुजी,
 विरुं गुणमणि जंमन ॥ वा० ॥ दोय नलिन आचार जे, मुनि पाजे रं
 चाचार ॥ वा० ॥ वा० ॥ २८ ॥ नदिं मसता निज देवनी, पदुसाप त
 रण गोवाज ॥ वा० ॥ पाती करन ह्य कंवनी, घइ मुक्तिपें गया मन

काल ॥ वा० ॥ वा० ॥ ३९ ॥ नलिनीकेतु सिद्धने नमुं, हुं कर जोडीने
 जाल ॥ वा० ॥ कर्मनो कचरो काढीयो, धरियें तस ध्यान त्रिकाल ॥ वा०
 ॥ वा० ॥ ३० ॥ चोथे हो खंमें सत्तरमी, कही रामविजयें एह ढाल ॥ वा० ॥
 बलिहारी गुणवंतनी, जे राखे हो मनहुं वालि ॥ वा० ॥ वा० ॥ ३१ ॥ ५१० ॥
 ॥ दोहा ॥

॥ वली वज्रायुध नृप कहे, प्रचंकरा जे नारि ॥ सुव्रता गुरुणीसंगतें,
 चांझायण तप सार ॥ १ ॥ शुजनावें तप आदरी, मरण लही ते नारि ॥
 शांतिमती हुइ ताहरी, पुत्री गुण चंमार ॥ २ ॥ पूरवजव नरतार ए, अ
 जितसेन नचचार ॥ दीठी विद्या साधती, प्रगढ्यो मोह विकार ॥ ३ ॥
 तिण कारण इण अपहरी, पवनवेग सुण साच ॥ कोप म कर ए ऊप
 रें, साचे मारग राच ॥ ४ ॥ शांतिमती तुं. पण निसुणी, मूक्य कोप वि
 ण काज ॥ वैर नेह जीरण नहिं, एम बोले मुनिराज ॥ ५ ॥

॥ ढाल अठारमी ॥

॥ म्हाने दीधो आइ जी आदेश के, हुं वडी रामतमें रम्यां हो राज ॥ ए
 देशी ॥ निसुणी निसुणी वज्रायुधनी वात के, विहु विद्याधर चिंतवे हो राज ॥
 धन धन एहनुं ज्ञान अपूरव जाति के, कर जोडीने वीनवे हो राज ॥ १ ॥
 मलिया मलिया थें अमने महाराज के, दिन वलीया हवे माहरा हो राज
 टलिया टलिया नरम गरीबनिवाज के, में सेवक ठां आहरा हो राज ॥ २ ॥
 नांखे नांखे शांतिमती तजि रीप के, पूरव जवना नाथने हो राज ॥ खमजो
 खमजो गुनहो मुऊ जूमीश के, जे मूक्यो तुम साधने हो राज ॥ ३ ॥ कीधो
 कीधो विहुं राजवीयें मेल के, श्री वज्रायुध आगलें हो राज ॥ सीधां सी
 धां मन कीधां नेलसेल के, साजन न रहे आमले हो राज ॥ ४ ॥ बोले
 बोले श्री वज्रायुध राय के, सजा सहु उदेशीने हो राज ॥ एतो एहनो पूर
 वजव कह्यो जाय के, हवे सुणो आगल वेसिने हो राज ॥ ५ ॥ लेजे लेजे
 शांतिमती ए दीख के, विहुं विद्याधरगुं मली हो राज ॥ करजे करजे अ
 गुणने उवेखि के, निर्मल तप रत्नावली हो राज ॥ ६ ॥ पाली पाली अण
 सण सायक दाय के, सागर आउ ईशानमां हो राज ॥ होजे होजे इइ वडो
 सुरलोक के, गुण गाजे सुर तानमां हो राज ॥ ७ ॥ तेणें अवसरें वायुवेग
 मुणिंद के, अजितसेन मुनिने वली हो राज ॥ परगट होजे केवल नाण

दिएन्द्र के, आवज्ञे इंद्र ए मन ग्लो हो राज ॥ ७ ॥ करज्ञे करज्ञे उत्सव
 विविध प्रकार के, ईशानेइजी लजि लजी हो राज ॥ लेई लेई जान घ्रपा
 र के, सुग्लोकें जाज्ञे वली हो राज ॥ ९ ॥ इंद्र तिहांधी उत्तम कुल अथ
 तार के, लहीने दीक्षा साधज्ञे हो राज ॥ करतां करतां जय विहार के,
 गुण गुणगणो वाधज्ञे हो राज ॥ १० ॥ शोधी शोधी कर्मतणो करि अंत के,
 शिचलीजाने पामज्ञे हो राज ॥ धरज्ञे धरज्ञे एहंतुं ध्यान सुचिंत के,ते सवि
 द्युःखने वामज्ञे हो राज ॥ ११ ॥ दाख्युं दाख्युं पटखंम केरे नाथ के, अ
 धिज्ञाने वालदे हो राज ॥ सांजली सांजली सयलडो साथ के, हर्ष
 द्विचटने बहुलो लहे हो राज ॥ १२ ॥ साहुं साहुं तुम्ह तणुं ज्ञान के, का
 लत्रय दीपक जिस्थुं हो राज ॥ कीजें कीजें तास गुणज्ञान के, अवर
 कांइतुं नहिं इस्थुं हो राज ॥ १३ ॥ शांतिमती ने वायुवेग महीश के,
 अजितमेन त्रीजो सही हो राज ॥ प्रणमी प्रणमी पाय चक्रीश के,
 निजस्थानक पहोता वही हो राज ॥ १४ ॥ रुडे रुडे राज्य द्वे नरवेव
 के, पाजे नित्य चढती कला हो राज ॥ कुंवर रुडा सहस्रायुध करे
 मेव के, विनय गुणो करी आगला हो राज ॥ १५ ॥ सहस्रायुध घरे नाम
 जपंतीनारी के, तेनी कूखें ऊपन्यो हो राज ॥ रुडो रुडो कनकशक्ति कु
 मार के, जग्योवन वय नीपन्यो हो राज ॥ १६ ॥ परणावी तस कामि
 नी शोय रसाज के, कनक वसंत जोटियें हो राज ॥ माला सेना पद
 सुकुमार के, रंजा न आवे दोडियें हो राज ॥ १७ ॥ सुख विजसंतो रात ने
 दीन के, फाल गयो केतो वही हो राज ॥ दाल अटारमी चांधे खंमं जगीश
 के, रामविजय जांखी सही हो राज ॥ १८ ॥ सर्वगाथा ॥ ५४१ ॥ २५ ॥

॥ दोहा नारडी ॥

॥ कनकशक्ति कुमार, स्त्रींतयानें एकदा ॥ पहोतो गहन मज्जार, कीडा
 कर्मो कृतिनयी ॥ १ ॥ पतनांत्यतन करंत, कांइ नर दीडो कुंवरें ॥ तिहां
 जडने पुंतेन, कडो मुज ए कारण हिस्थुं ॥ २ ॥ नेर कहे वेनाद्वय, वामी
 इं ननचारीयो ॥ एग गुण गुणखणादत, विद्यापद एक ज्ञिपयो ॥ ३ ॥
 कही न गके आकाश, चंचेची नीचो पदुं ॥ कुमार कहे परकाय, पद पुं
 नक परवटुं ॥ ४ ॥ पद लजिय अनुमार, पुगुं प्रेम जहां यणो ॥ निग
 खेवर निग नार, विद्या दीधि कुमारने ॥ ५ ॥ लेण प्रकानी गीनि, विद्या

साधी कुंवरें ॥ वेदु स्त्रीशुं शुनचित्त, मन मानी मोजें फरे ॥ ६ ॥ जमतो
हिमगिरि ठाम, गयो कुमर ते अन्यदा ॥ दीठ विपुलमति नाम, मुनि वि
द्याधर वंशना ॥ ७ ॥ तास चरण प्रणमेवि, प्रिया सहित बहु प्रेमशुं ॥
वेसे कर जोडेवि, कनकशक्ति बहु विनयशुं ॥ ८ ॥ धर्मतणो उपदेश, मुनि
वरजी नांखे जलो ॥ दूरें होय किलेश, शिवसुखनो दायक सही ॥ ९ ॥

॥ ढाल उंगणीशमी ॥

॥ रे जीउ जगत सुपनो जाण ॥ ए देशी ॥ कहे मुनिवर निसुण
प्राणी, कारिमो संसार ॥ ए रूप यौवन पूर जलनुं, विणसतां नहिं
वार ॥ मनमांहे आशा बहुत धरतो, फरत देश विदेश ॥ धन काज सारो
दिवस धावे, धर्म नहिं लवलेश ॥ १ ॥ रे जीव चेत चतुर सुजाण ॥ ए
आंकणी ॥ आण माने मोह केरी, जिण कीयो हेरान ॥ प्रपंच पुजल खेल
न लहे, ए अनादि पुराण ॥ संयोग एह वियोग सार्थे, नित्य माने सोय ॥
त्रम जाल पडियो प्राणीया, शुंही गयो नव खोय ॥ रे जी० ॥ २ ॥ हे
शुद्ध चेतन रूप तेरो, अनंतगुण पर्याय ॥ रुद्धि घटमें प्रगट दीसे, करे
सोइ उपाय ॥ निरावरण समाधि जोगी, योगसें चित्त लाय ॥ आनंदधन
उपगार तेरो, तुंही एक सहाय ॥ रे जी० ॥ ३ ॥ करि धर्मवस्तु सचाव
जाणी, मोहमिथ्या दूर ॥ ध्येय ध्याता ध्यान एकी, जावथी सुखपूर ॥
नूर प्रगटे विषय विघटे, नेद जाये नासी ॥ यूं शुद्धधर्में साध्य साधन,
सहज लील विलास ॥ रे जी० ॥ ४ ॥ परचाव पुजल ऊंच कुलमां, रूप
लक्ष्मी विलास ॥ वर कामिनीके जोग सुंदर, बहुरी दासी दास ॥ ठकुराइ
चिंतित काम होवे, सवहि माने आण ॥ धर्मसाधन करत ए फल, आनु
पंगिक जाण ॥ रे जी० ॥ ५ ॥ ज्युं पुण्यसार कुमार पायो, सर्व चिंतित
जोग ॥ वर रुद्धि लाधी कीर्ति वाधी, कामिनी संयोग ॥ कहे कनक
शक्ति कुमार मुनिकों, कहो उनकी वात ॥ कहे ज्ञानी सुन हो प्राणी, पुण्य
सें सुखशात ॥ रे जी० ॥ ६ ॥ ढाल ॥ त्रिभुवन तारण तीरथ पास चिंतामणि
रे ॥ ए देशी ॥ गोपालक पुर क्षेत्र, नरतमां हे दीपतुं रे के ॥ नरतमांहे दीपतुं ॥
सुंदर शोभा सार, सवि पुर जीपतुं रे के ॥ स० ॥ तिहां धर्माशिरदार,
पुरंदर नामथी रे के ॥ पु० ॥ जेठ वसे गुणवंत, प्रसिद्धो दामथी रे के ॥
प्र० ॥ १ ॥ तस घर पुण्यसिरी श्य, नामें पद्मिनी रे के ॥ नामें ० ॥

प्रीतमद्यं बहु नेह, सुरूप सोहागणी रे के ॥ सु० ॥ गुण सवजा संतान,
 नहिं एक तेहन रे के ॥ न० ॥ एहिज महोटी खोट, चाहे जग जेहने रे
 के ॥ चा० ॥ १ ॥ पुत्र नणी बहु आश, स्वजन प्रेरे यणुं रे के ॥ स्व० ॥
 नवी परणे ग्ये थाय, प्रिया दिल् दूमणुं रे के ॥ प्रि० ॥ कुलदेवी आग
 ल जइ, वेहु एम उज्वरे रे के ॥ वे० ॥ स्वामिनि सुतनी चिंता, कृण कृ
 ण सांनरे रे के ॥ कृ० ॥ ३ ॥ कोण करगे तुज जक्ति, विमासण ठे
 घणी रे के ॥ वि० ॥ जूयो ज्ञान प्रयुंजी, मया कगे अम नणी रे के ॥
 म० ॥ देवी कहे सुण जेठ, होगे सुत सुंदरु रे के ॥ हो० ॥ पुण्य करंतां
 गुणमणि, रोदण नृधरु रे के ॥ गे० ॥ ४ ॥ हर्षित हूउ जेठ, घणुं मनमां
 रली रे के ॥ घ० ॥ चिंते माहरी आलथी, नाग्यदशा बली रे के ॥ ना० ॥
 पुण्य तणां करे काज, दयागुण आदरे रे के ॥ द० ॥ दीन दुःखी जे
 लोक, तेउने उदरे रे के ॥ ते० ॥ ५ ॥ पुण्यतिरी कुलदेवी, संजारी हेज
 मां रे के ॥ सं० ॥ एक दिन रयणी मजार के, सूती नेजमां रे के ॥ सू० ॥
 दीतां शोलकला, संपूरण चंदनो रे के ॥ पू० ॥ विनचियो जइ जेठ के,
 सुपन लायां जजो रे ॥ सु० ॥ ६ ॥ होगे पुत्ररतन, मनोरथ पूरण रे के
 ॥ म० ॥ जेठ कहे सुत आब्या, संकट चूरगे रे के ॥ सं० ॥ हर्ष लही
 मनमांदि, गर्ज प्रतिप्रालना रे के ॥ ग० ॥ कासें जनम्यो पुत्र, करे बहु
 लालना रे के ॥ क० ॥ ७ ॥ उत्सव कीथ अपार, अनेक वधामणां रे के
 ॥ अ० ॥ नाम धम्युं पुण्यभार, मजी नाजन घणां रे के ॥ म० ॥ फलि
 या मनोरथ नार के, मात पिता तणा रे के ॥ मा० ॥ देखी सुतमुख
 चंद के, जपनी नहिं मणा रे के ॥ द० ॥ ८ ॥ पंच थान नृत केहे, वीटा
 हे गदे रे के ॥ वी० ॥ चिं जियो सुत एम, सहु सुखथी कहे रे के ॥
 स० ॥ पंच नरन थयां नाम, निशाले पाहव्यो रे के ॥ नि० ॥ सकल कला
 अच्यार, करं निव्य अनिनवो रे के ॥ क० ॥ ९ ॥ रत्नसार एक जेठ, तणी
 निहां दीजरी रे के ॥ न० ॥ रत्नसुंदरी इण नाम, नणे तिहां गुणजरी रे के
 ॥ न० ॥ ते विहं जोडे जोडा, जोहे नणे नजां रे के ॥ हो० ॥ मांदो
 मांदे विवाद, करे ते गुणनिजां रे के ॥ क० ॥ १० ॥ चपलपणाथी
 जां के, पोले आकली रे के ॥ जो० ॥ पुण्यसार नैदाने, जगहे व्याकु
 ली रे के ॥ ज० ॥ शाख नणां रे विवाद, करे अमरच चदी रे के ॥ क० ॥

तिल नवि सांखे बोल के, बोले चडवडी रे के ॥ वो० ॥ ११ ॥ रीपाणो
 पुण्यसार, कुमांर कहे इस्थुं रे के ॥ कु० ॥ रे मुग्धा मुज साथ, विवाद
 करे किस्थुं रे के ॥ वि० ॥ यद्यपि तुं गुणवंत, कलावंत पडवडी रे के ॥
 क० ॥ आखर परण्या पूंठे, पुरुष पग मोजडी रे के ॥ पु० ॥ १२ ॥ पुरुष
 पनोता सार, कह्या संसारमां रे के ॥ क० ॥ दासीपरें घरकाज, करिश
 परिवारमां रे के ॥ क० ॥ त्रटकी बोले बोल, चढावी रीपने रे के ॥ च० ॥
 कोइक जाग्यविशालने, वरिश हुं ईशने रे के ॥ व० ॥ १३ ॥ तुज जेवा
 कंगाल, घणा जगमां फरे रे के ॥ घ० ॥ मुज जेवी गुणवंती, किमही न
 आदरे रे के ॥ कि० ॥ बोव्यो ताम कुमार, वरुं जो तुजने रे के ॥ व० ॥
 जो करुं किंकरी तुज तो, माने मुजने रे के ॥ मा० ॥ १४ ॥ बोली चट
 की चंम रे, मूरख शुं लवे रे के ॥ मू० ॥ जोरें अनन्यप्रीति, दंपती केम
 संजवे रे के ॥ दं० ॥ थयो बहु वार विवाद, हैयाना रोषशुं रे के ॥ हे० ॥
 कुंवर चिंते रीप ए, अवसरें पोपशुं रे के ॥ अ० ॥ १५ ॥ जो जो बोले बोल,
 किहांनी किहां थइ रे के ॥ कि० ॥ विद्यावादनी वातें, वात हामें गइ रे
 के ॥ वा० ॥ ते पुण्यसार कुमार, आव्यो निज घर जणी रे के ॥ आ० ॥
 मुखपंकज थयुं म्लान, आरति मनमां घणी रे के ॥ आ० ॥ १६ ॥
 सूतो त्रूटी खाट, जइ एकण दिशें रे के ॥ ज० ॥ शैठ पुरंदर नोजन,
 काज आव्या तिस्यें रे के ॥ का० ॥ देखी पुत्रने सूतो, ठेकाणे शून्यमां रे
 के ॥ ठे० ॥ पूठे कारण कोण, शुं चिंतो मन्नमां रे के ॥ शुं० ॥ १७ ॥
 वात कहे वत्स आज, विचार जे ताहरे रे के ॥ वि० ॥ जीवन प्राणा
 धार, तुं एकज माहरे रे के ॥ तुं० ॥ पूठयुं आग्रह जोरें, तदा कहे तात
 जी रे के ॥ त० ॥ रत्नसुंदरी परणावो, मुज ए वातजी रे के ॥ मु० ॥
 १८ ॥ रत्नसार व्यवहारी, नी ए अंगजा रे के ॥ नी० ॥ ए परणावे पुष्ट,
 होशे महारी मज्जा रे के ॥ हो० ॥ तात कहे सुण पुत्र, हजी तुं बाल ठे
 रे के ॥ ह० ॥ तो हमणां शी वात, जण्यानो काल ठे रे के ॥ ज० ॥
 १९ ॥ यौवन समयें तास, करेशुं विवाहलो रे के ॥ क० ॥ परणाव्या
 नो अम्ह, घणो ठे उमाहलो रे के ॥ घ० ॥ परणावा माटें आम, थाये
 कां काहलो रे के ॥ था० ॥ जाग्यवती ते नारी, थइश जस नाहलो रे के
 थ० ॥ २० ॥ पुण्यसार कहे वात, न मानुं ए सही रे के ॥ न० ॥ ते सा

थें विवाह, मेजां दमणां जइ रे के ॥ से० ॥ पत्रें तुम साथें नोजन, कर
 षुं हुं बही रे के ॥ क० ॥ कहे पुरंदर कठ, जमीजें हा कही रे के ॥
 ज० ॥ २१ ॥ चौथे खंमं टाल, कही उंगणीशमी रे के ॥ क० ॥ बालप
 णानी वात, कही साकर समी रे के ॥ क० ॥ बुध श्रीसुमतिविजय
 कवि, सेवक विनये रे के ॥ से० ॥ रामविजय कहे धन्य, विचारी जे लवे
 रे के ॥ वि० ॥ २२ ॥ सर्वगाथा ॥ ५७८ ॥ श्लोक तथा गाथा मली ॥ २२ ॥

॥ दोहा ॥

॥ नोजन करि कठया पत्री, लइ साथें परिवार ॥ जेठ पुरंदर आचीयो,
 रत्नसार घरवार ॥ १ ॥ आदर मान दिये घणां, मामे आसन सार ॥
 सामी पथाया आंगणे, धन्य अमचो अवतार ॥ २ ॥ कही स्वा
 मी कारण कियुं, कहे पुरंदर वात ॥ रत्नसुंदरी तुम सुता, पुण्यसार
 अम जात ॥ ३ ॥ जोडी नली जुगती अत्रे, मेजीजें विवाह ॥ इण का
 रण आव्या अहुं, मनमां धरि उत्साह ॥ ४ ॥ रत्नसार कहे जेठजी, ए
 तो मद्दानि काज ॥ तुम कयुं करुणा करि, मीथां बांठित गज ॥ ५ ॥
 देवी तुम सुतने सुता, रत्नसुंदरी सार ॥ पुण्य विना किदांथी मजे,
 पुण्यसार नग्तार ॥ ६ ॥

॥ टाल वीशमी ॥

॥ नेटो नांजी ॥ ए देशी ॥ तात नमीपें वेठी कन्या, बोले इण परें
 थारी ॥ ना ना नहिं परगुं हुं एदने, वात ए सुक न सुदावी ॥ १ ॥ नाय
 कही जी ॥ दां रे तुमं शीदने समजायो, थलगा रदो जी ॥ ए आंकणी ॥ जे
 जाणो ने अवर कोइने, नातजी सुक परणायो ॥ बरकुंवारी रदिय तं वारु, पण
 पुण्यसार न गावो ॥ नाय० ॥ २ ॥ जेठ पुरंदर चिंते मतमां, जुठ बोले
 शी घाला ॥ सुक सुग आया करे परणाया, पण खोटा एदना चाला ॥
 ना० ॥ ३ ॥ बालपणे ए एदनुं बोले, यौवनमद मतवाली ॥ आगल
 सुक सुतने ए साथें, न मजे सुखनी नाजी ॥ ना० ॥ ४ ॥ रत्नसार
 कहे मग्धा बाला, ए शं बोली जाणे ॥ पीतवाल निठनुं जे घाल्युं, ने कण
 मनमां आणे ॥ ना० ॥ ५ ॥ एदने हुं नमजावीज सुधी, तुम सुतने
 पराजे ॥ ए कन्यानी कन्या नदारी, सातमां ज्ञाप न देजे ॥ ना० ॥ ६ ॥
 नयन सुर्गति पादो वर्तयां, परिजनसुं धरं आख्या ॥ सुन पुन्यसार अथां

गें तेडी, नेद सहू समजाव्यो ॥ ना० ॥ ७ ॥ वत्स तुज्जे ए योग्य न
 कन्या, बालपणे वाचाली ॥ आगल थापे ए शिर ठाणां, एहवी नजरें
 चाली ॥ ना० ॥ ८ ॥ यडुक्तं ॥ कुदेहां विगतस्नेहां, लज्जाशीलकुलोक्ति
 ताम् ॥ अतिप्रचंमां दुस्तुंमां, गृहिणीं परिवर्जयेत् ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ पुण्य
 सार पुनरपि एम बोले, तात कह्युं ए साचुं ॥ पण परण्या विण मुज
 पिताजी, वचन थौंय ठे काचुं ॥ ना० ॥ ९ ॥ बुद्धिमंत मनमांहे विचारे, वांक न कां
 हिं पितानो ॥ अवर उपाय करी परणेशुं, एम चिंती रह्यो ठानो ॥ ना० ॥
 १० ॥ एक दिन जनकवयणथी जाणी, सचोवाइ कुलदेवी ॥ कुसुम धूप
 नैवेद्य करीने, बहु आदरचुं सेवी ॥ ना० ॥ ११ ॥ कर जोडी आगल
 मद मोडी, ऊनो तन संकोडी ॥ मा हुं ते पुण्यसार पनोतो, वर दीधो
 तें कोडि ॥ ना० ॥ १२ ॥ माटे मुज तरुणीनुं वांठित, जब पूरेशो माता ॥
 तव उठीश हुं इहांथी अलगो, थारो मुज सुखशाता ॥ ना० ॥ १३ ॥
 करी प्रतिज्ञा अन्न जल त्यागें, वेठो धरि एकतारी ॥ कहे देवी हलवे
 तुज होशे, कारजसिद्धि विचारी ॥ ना० ॥ १४ ॥ चिंता म म कर मनमां
 कुंवर, कर पारण पुण्यसार ॥ नोजन करि लेइ तात अनुज्ञा, गयो निशा
 लें तिवार ॥ ना० ॥ १५ ॥ थइ निश्चित करे अवशोपित, सकलकला
 अन्यास ॥ बालपणुं वीत्युं तव यौवन, पाम्यो लील विलास ॥ ना० ॥
 १६ ॥ चोथे खंमं वीशमी ढालें, रामविजय कहे वाणी ॥ जे संबंध होवे
 ते नटले, सांजलो श्रोता प्राणी ॥ ना० ॥ १७ ॥ सर्वगाथा ॥ ६० १ ॥ श्लोक ॥ १३ ॥

॥ दोहा ॥

॥ पुण्यसार कुंवर जलो, सकल कजानो जाण ॥ देवयोग वांठित
 दुठ, द्यूतव्यसन सहिनाण ॥ १ ॥ लाग्यो रंग कुसंगनो, जिम उज्ज्वल
 पट नील ॥ वासित आतम इव्यने, विणसंतां नहिं ढील ॥ २ ॥ दुर्जन
 संग न कीजियें, जो लहियें लस्क दीनार ॥ कीर्त्ति जाये कुल तणी, मेलो
 होय अवतार ॥ ३ ॥ वाखुं मात पिता तणुं, न करे तेह लगार ॥ व्यसन
 विदुधो ते घणुं, धिक् धिक् कर्मविकार ॥ ४ ॥ लक्ष्म मूव्यनुं एकदा, नृप
 आनरण अमूव्य ॥ निजगृहथी लेइ निसख्यो, पुण्यसार प्रतिकूल ॥ ५ ॥
 शूतकारनुं लाख धन, माथे चढीयुं तास ॥ तेमांहे जइ सोंपियुं, आ

नृपण उल्लास ॥ ६ ॥ एम धन विणसाड्युं घणुं, न गणे कोइनी लाज
॥ घृत समुं नहिं जगतमां, व्यसन कोइ शिरताज ॥ ७ ॥

॥ ढाल एकवीशमी ॥

॥ नानो नाहलो रे ॥ ए देशी ॥ मात पिता घणुंए कहे रे, पण वाखो
न रहे सोय ॥ धिक् धिक् कर्मने रे ॥ उलंजा आवे घणा रे, अहोनिश
करे दोय ॥ धि० ॥ १ ॥ जीवहूंती वाहालोवणो रे, पण थयो बेरी समान ॥
धि० ॥ ताजन बोलावे नहिं रे, न लहे आदर मान ॥ धि० ॥ २ ॥ एकदिवस
नृपें मागीयुं रे, नृपण शेठनी पास ॥ धि० ॥ जइ जोयुं आवासमां रे, न
लखुं चिंते विमासि ॥ धि० ॥ ३ ॥ पुण्यसारें ग्रह्युं ए सही रे, नहिं बीजो
लेवणहार ॥ धि० ॥ गूढ बली अन्यवस्तुनो रे, एह विनाशणहार ॥ धि० ॥ ४ ॥
ए राखण योगो नहिं रे, पुत्ररूपें रिपु एह ॥ धि० ॥ घरहूंती हवे काढवो
रे, थयो एह साथें नेह ॥ धि० ॥ ५ ॥ यतः ॥ यदर्थं खिद्यते लोकेयत्नश्च क्रियते
मदान् ॥ नेपि संतापदा एवं, दुःपुत्रा हा नवंत्यहो ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ हाटें
पुरंदर आवीयो रे, तिहां आव्यो पुण्यसार ॥ धि० ॥ पूठी खबर अलंकारनी
रे, जिम तिम लव्यो तेली वार ॥ धि० ॥ ६ ॥ कोप्यो शेठ कहे इस्थुं रे,
जा जा दुष्ट गमार ॥ धि० ॥ ते नृपण लाव्या विना रे, नाविश मुऊ घर
वार ॥ धि० ॥ ७ ॥ वचनें तरज्यो ते घणुं रे, निर्दय जाली कंठ ॥ धि०
॥ वाहालो पण बेरी थयो रे, काढयो ते उल्लंठ ॥ धि० ॥ ८ ॥ तातवचन
मुणि नीलखो रे, पुरवाहिर तेलि वार ॥ धि० ॥ तांऊ पडी दिन आय
म्यो रे, करे मनमांहे विचार ॥ धि० ॥ ९ ॥ हवे किहां जाउं एकलो
रे, न लहुं मार्गनी मुदि ॥ धि० ॥ अहो कुकर्म में गुं कथुं रे, किहां गइ
मदारी मुदि ॥ धि० ॥ १० ॥ एहवे एक वड देखीयो रे, कोटर बहु
विस्तार ॥ धि० ॥ निर्जय जाणी जावगा रे, पेठो तेद मजार ॥ धि० ॥
११ ॥ शेठ पुरंदर आवियो रे, नांत नमे घरवार ॥ धि० ॥ जामिनी पूठे
कथने रे, किहां पुण्यमार कुमार ॥ धि० ॥ १२ ॥ राजनृपणनी वार
ता रे, ननि नांखी आमून ॥ धि० ॥ में शिद्धाने कारणे रे, काढयो
ने प्रतिकून ॥ धि० ॥ १३ ॥ वान नृणी विलखी घइ रे, आव्युं
हृदय जगाय ॥ धि० ॥ गुं मुख देखाडो मुने रे, मुन काटी लंघ्याय
॥ धि० ॥ १४ ॥ तन सुकुमार ए बालुलो रे, गी गति होशे तान ॥

धि० ॥ वल्लभ केम जाजो नहिं रे, ते सुतने निष्कासि ॥ धि० ॥ १५ ॥
 जो तुम्हें काढयो पुत्रने रे, तो तुम्हें केडें जावो ॥ धि० ॥ ते तेडीने माह
 रा रे, मंदिरमांहे आवो ॥ धि० ॥ १६ ॥ एम निर्जृंठयो नारीयें रे,
 पुत्र संजारी चित्त ॥ धि० ॥ पुरमां जोवा नीसखो रे, विरुड मोहनी
 रीति ॥ धि० ॥ १७ ॥ पियु अंगल घर को नहिं रे, एकजडी रहि
 नारि ॥ धि० ॥ मंदिर श्रुंतुं देखीने रे, चालो आंसुनी धार ॥ धि०
 ॥ १८ ॥ हा घरदूंती नाहलो रे, काढयो में रीसाल ॥ धि० ॥ कंतें
 कोप करी घणो रे, काढयो वाल वियाल ॥ धि० ॥ १९ ॥ एम अ
 चिंत्युं शुं थयुं रे, चिंतातुर चित्तमांहि ॥ धि० ॥ ऊची उंवर आवीने रे,
 जोउं आवंतो नाह ॥ धि० ॥ २० ॥ चोथे खंमें एकवीशमी रे, राम
 विजय कहि ढाल ॥ धि० ॥ हवे संबंध पुण्यसारनो रे, सांजलो नवि
 उजमाल ॥ धि० ॥ २१ ॥ सर्व गाथा ६३ ॥ श्लोक तथा गाथा मली ॥ २४ ॥

॥ दोहा ॥

॥ पुण्यसार तिण रातमां, वड उपरें दोय सार ॥ देवी दीठी अति
 नली, तेज तणो नहिं पार ॥ १ ॥ मांहोमांहे वातो करे, निसुणो मांमी
 कान ॥ साहसिकमां शिरतिलो, पुण्यसार वलवान ॥ २ ॥ एक कहे
 बीजीप्रत्यें, सुण वहेनी गुणवंत ॥ रातें एह रमवा तणी, वेला ठे
 एकांत ॥ ३ ॥ बीजी बोले शुं हुवे, व्यर्थ नमे चूमांहि ॥ कौतुक देखीजें
 किहां, तो जश्यें उत्साहि ॥ ४ ॥ ते बोली सांजल वहेनी, वल्लभ
 पुर परधान ॥ तिहां निवसे व्यवहारियो, धनप्रवर अनिधान ॥ ५ ॥ धन
 वती तेहनी नारजा, तस पुत्री ठे सात ॥ धर्मसुंदरी नयसुंदरी, काम
 सुंदरी विख्यात ॥ ६ ॥ मुक्तिसुंदरी मनमां वसी, जाग्यसुंदरी जाण ॥ सोजा
 ग्यसुंदरी सातमी, गुणसुंदरी खुणखाण ॥ ७ ॥ कन्या वरने कारणें,
 धन शेतें बहु मान ॥ त्रंबोदर आराधियो, देई मोदकदान ॥ ८ ॥ प्रत्यह
 थड बोव्यो निपुण, आजथी सप्तम दीस ॥ लग्नवेलायें रातमां, धरतो
 अधिक जगीश ॥ ९ ॥ वेहु स्त्रीपूठें आवशे, शेत तणो एक नंद ॥ ते
 परशेजे ताहरी, कन्या धरि आनंद ॥ १० ॥ आज दिवस सहि सातमां,
 जश्यें जोवा काज ॥ कौतुक होशे अति नलुं, वहेनी तिहां कणे आज ॥

११ ॥ ए तरु उपर बेसीने, चालीजे आकाश ॥ जीव्यापें जोयुं नहुं,
पूरीजे मन आग ॥ १२ ॥

॥ ढाल बावीशमी ॥

॥ जोली नावजजी नावज महारी जात रंधाव्य, सेजे मारुजी हो
जात मंगाचीयो जी ॥ ए देवी ॥ सुणि वाणी जी वाणी सुणि ते पुण्य
सार, मनढानी मांहे हो अति दर्पित दुड जी ॥ गुणखाणी जी गुण
खाणी ए देवी रे दोय, जाग्यें मजी मुज्जने अचरिज जुठ जी ॥ १ ॥ ह्वे
जोउं जी जोउं रे ह्वे कांतुक वात, तेह जोउं वल्लनीपुर केहवो जी ॥ जोउं शे
उने जी शेत किम्यो धनवंत, कुमरें विचार कस्यो मन एहवो जी ॥ २ ॥
दोय देवी जी देवीयें कीध हुंकार, तेह बडपादप चाव्यो अंबरें जी ॥
बड कोटर जी बडकोटर पुण्यसार, रह्यो रे प्रभुजीनुं समरण करे जी ॥
३ ॥ जो इहांथी जी जो इहांथी पडुं रे निर्धार, तो रे चेतन ताहरी गति
शी हुये जी ॥ शी चिंता जी रे शी रे चिंता एह योग, मजे तस जय प्रभुजी
सहामुं जुये जी ॥ ४ ॥ ह्णमांहे जी रे ह्णमांहे ततकाल, ते वल्लनीपुर
वन बड आवीयो जी ॥ दोय उत्तरी जी रे दोय उत्तरी देवी सुरंग, नवल
निरुपम वेप वनावीयो जी ॥ ५ ॥ दोय चाली जी रे चाली हो रमजम
गत, वात करंती हो हसि हनि प्रेमनी जी ॥ तस पूठें जी रे तस पूठें पुण्य
सार, चाव्यो हो ठानो अजयतनु ठवी वनी जी ॥ ६ ॥ लंबोदर जी रे लंबोदर
गुदहार, वेदिका उपर मंमप तिहां रच्यो जी ॥ तहु मलियां जी रे
मलियां हो नाजनवृंद, नय नव रंगें हो रस सवजां मच्यां जी ॥ ७ ॥ तिहां
कसरी हो जी तिहां कुमरी हो सोदरे रे मात, मनुं सुरजांकयी अमरी कतरी
जी ॥ तिहां सोदर्य हो जी सोदर्य माये सोदलागें गीत, दर्पणुं देज हिये वदलो
भरी जी ॥ ८ ॥ मंमपनी हो जी मंमपनी रे पाम, ते नागी जाती देखी रे
धिल्लट्टे उल्लसुं जी ॥ तस पूठें रे पूठें दीजे तेह कुमार, निरग्वे हो रूढ लागे
ममट्टे नित्यो जी ॥ ९ ॥ नुम्हें आवां जी रे आवां रे मदारें आंगणें आन,
अरज पयां कुमने कर जोडीने जी ॥ दलि बोलो जी रे दलि बोलो अम
साथ, वात कगें कंगर मद मोडीने जी ॥ १० ॥ येनारी जी हो येनारी
सहु मान, जेठ करे एम नंदरने विननि जी ॥ लंबोदरजी हो लंबोदरे नुम्ह
वीर, परगो तुजा माहरी तपें गति जी ॥ ११ ॥ एम कदिने हो जी एम

कहिने शुन चीर, वसनयुगल तेहने पहेरावियां जी ॥ लखमूयने हो जी
 लखमूयने अलंकार, सोहे कुंवर सहुने मन जाविया जी ॥ १२ ॥ शुन
 वेला जी हो शुन वेला रे मंमाण, धवल मंगल गाये सुंदर गोरडी जी ॥
 करमेलो हो जी करमेलो तिहां कीध, परण्यो कन्या साते गुण उरडी
 जी ॥ १३ ॥ मुज तातें जी हो मुज तातें नजुं कीध, रीप करी जे
 मुज उपर अति घणी जी ॥ नहिंतर मुज जी हो नहिंतर मुज एह जान,
 होत किहांथी अचिंत्यो सुखणी जी ॥ १४ ॥ करि विवाहजी हो करि
 विवाह मनरंग, वधूसहित ते शेठने मंदिरें जी ॥ बहु उत्सव हो जी
 बहु उत्सव करे इच्य, प्रेमशुं पथराव्या सौध ऊपरें जी ॥ १५ ॥ सिंहास
 न हो जी सिंहासन निज कंथ, रहि मुख आगल ऊनी कामिनी जी ॥
 कहो वालम हो जी कहो वालम अम आज, सकल कला शीखी जेह
 स्वामिनी जी ॥ १६ ॥ सुणो जोली हो जी जोली सुणो मोरी वात, एह
 कला मुज मनडे नवि गमे जी ॥ यहुक्तं ॥ अत्यंतविडुषां नैव, सुखं मूर्ख
 नृणां न हि ॥ अर्जनीया कलावद्भिः, सर्वथा मध्यमाः कलाः ॥१॥ पूर्वढाल ॥
 एह पद्यनो हो जी पद्यनो अरथ विचार, करवा हो लागी कामिनी तिण
 समे जी ॥ १७ ॥ मन चिंते हो जी मन चिंते पुण्यसार, वृद्ध रखे जाये
 गगनें वही जी ॥ जो आशे हो जी आशे जी कालविलंब, तो ते देवी उमी
 जाशे सही जी ॥ १८ ॥ करे कुंवर हो जी कुंवर दिशि अवलोक, तव
 गुणवंती बोली गुणसुंदरी जी ॥ शुं स्वामी हो जी देहचिंता उत्पन्न, जे
 एम जूवो ठो चिहुं दिशि फरी फरी जी ॥ १९ ॥ कहे एमहीज हो जी एम
 हीज मुज मनमांदि, वात सुणी कहे ते निजस्वामीने जी ॥ हुं आबुं होजी
 प्रीतमजी तुम्ह साथ, प्रेमशुं पाउधारीजें हो कामने जी ॥ २० ॥ अधनूमियें
 होजी रहि अवला एक पास, मनमां करे पुण्यसार विचारणा जी ॥ जे
 खटिका हो जी एक लखीयो तिहां श्लोक, नारवटें करी सूधी धारणा
 जी ॥ २१ ॥ यतः ॥ दोहो ॥ किहां गोवालो किहां वध्वही, किहां लंबोदर
 देव ॥ आव्यो वेटो विहिवसीण, गयो सत्त य परणेवि ॥ २ ॥ पूर्वढाल ॥ जामि
 नीने होजी कुमर कहे रहो दूर, देहचिंता जिम मुज सुखथी हुवे जी ॥ गुण सुंदरी
 हो जी उनी रही तिण ठाय, वाट तिहां वालमनी घणी जोवे जी ॥ २२ ॥ चोथे
 खंमें हो जी ए वावीशमीढाल, रामविजय कहे नवि जावें सुणो जी ॥ पुण्य उप

रें हो जी ए संबंध रसाज, आगल वात तणो रस ठे घणो जी ॥ १३ ॥ ६६५ ॥ २५ ॥

॥ दोहा ॥

पुण्यसार कतावलो, आव्यो वटतरु पास ॥ कोटरमां पेटो जई, पास्यो
चित्त उल्लास ॥ १ ॥ एह्वे ते पण देवता, आवी नाग्यवज्ञेण ॥ बड ऊप
र उंची चढी, वेठी रंग रसेण ॥ २ ॥ देवशक्तियें ते कप्तियो, बड अंवर
अनिराम ॥ तुरत क्षेत्र जइ कतखो, पुर गोवाल वन ठाम ॥ ३ ॥ एह्वे
शहेर नमी घणुं, तेह पुरंदर शेर ॥ थये प्रनातें आवीने, विशाम्यो बड हेठ ॥ ४ ॥

॥ ढाल त्रेवीशमी ॥

॥ आज रही रंगमहोलमें केसरीया ॥ ए देशी ॥ रघणी विहाणी
रवि ऊगीयो ॥ हुं वारी ॥ पुहवीय थयो प्रकाश रे ॥ हुं वारी लाल ॥ बोल
ण लाग्यां पंखीयां ॥ हुं ॥ गयो अंधकार सवि नाश रे ॥ हुं वाण ॥ १ ॥
वटकोटरथी नीसखो ॥ हुं ॥ तव पुण्यसार कुमार रे ॥ हुं ॥ वस्त्रान्तर
ण विराजतो ॥ हुं ॥ देवकुमर अवतार रे ॥ हुं ॥ २ ॥ सुत देखी दिल
चक्षुस्युं ॥ हुं ॥ वत्स वत्स कहेतो तात रे ॥ हुं ॥ दोडीने आवी म
ल्यो ॥ हुं ॥ हखी साते धात रे ॥ हुं ॥ ३ ॥ वत्स तुऊ विण ए
यामिनी ॥ हुं ॥ बेरिणी गइ विकराल रे ॥ हुं ॥ सूरज परें तुने
देखीने ॥ हुं ॥ मुऊ मनकज उजमाल रे ॥ हुं ॥ ४ ॥ वत्स आव्यो
तुं वाजहो ॥ हुं ॥ फलियां वांत्रित आज रे ॥ हुं ॥ में तुऊ रीप करी
घणी ॥ हुं ॥ तुऊ शीखामण काज रे ॥ हुं ॥ ५ ॥ पठी मन पस्ताणो
घणुं ॥ हुं ॥ तुत विना ग्रन्थ नंसाण रे ॥ हुं ॥ तुम बुद्धि लेवा नी
सग्यां ॥ हुं ॥ नमतां प्रहर गया चार रे ॥ हुं ॥ ६ ॥ सुत कर जोटी
वीनवे ॥ हुं ॥ सवल ए मद्भागं वांक रे ॥ हुं ॥ अयगधीमांहे में सत्री
॥ हुं ॥ आडो वाव्यो आंक रे ॥ हुं ॥ ७ ॥ गुनां खमोजी हवे माह
रो ॥ हुं ॥ सुतवत्सल तुमें संत रे ॥ हुं ॥ पुत्र कुपुत्र जगमां दुये ॥
हुं ॥ मायित्र ननि विद्वंत्त रे ॥ हुं ॥ ८ ॥ पुत्र पिता वेहु आविया ॥
हुं ॥ श्रियहे अर्थ न माय रे ॥ हुं ॥ जननीने सुत जइ मिय्यो ॥ हुं ॥
आख्यां आंसु जराय रे ॥ हुं ॥ ९ ॥ सुत खोजे बेमारीने ॥ हुं ॥ नेहें
पेजी भाय रे ॥ हुं ॥ सुत शान्ता तुम्ह एतयां ॥ हुं ॥ शिदां तुइ
करो ममजाय रे ॥ हुं ॥ १० ॥ मान पिता वेहु नानजे ॥ हुं ॥ कहे

मांझी सवि वात रे ॥ हुं० ॥ विस्मय मनमां ऊपन्यो ॥ हुं० ॥ अहो
 अहो सुत अवदात रे ॥ हुं० ॥ ११ ॥ जाग्य जुठ सुतनुं वडुं ॥ हुं० ॥
 एहवी रुद्रि विशाल रे ॥ हुं० ॥ रातमांहे आवी मली ॥ हुं० ॥ फलियो
 पुण्य रसाल रे ॥ हुं० ॥ १२ ॥ कहे पुण्यसार तुम्ह शीखडी ॥ हुं० ॥
 कल्पतरुनी वेल रे ॥ हुं० ॥ वांठितदायक ए दुइ ॥ हुं० ॥ सूकी में
 व्यसननी हेल रे ॥ हुं० ॥ १३ ॥ आनूपण लक्ष् मूव्यनुं ॥ हुं० ॥
 तनहूँती ऊतार रे ॥ हुं० ॥ देइ द्यूतकारने लावियो ॥ हुं० ॥ नृपनूपण
 तेणिवार रे ॥ हुं० ॥ १४ ॥ लइ नृपने ते सोंपियुं ॥ हुं० ॥ शेठ
 पुरंदरें ताम रे ॥ हुं० ॥ हवे पुण्यसार समाचरे ॥ हुं० ॥ गृहीनां उत्तम
 काम रे ॥ हुं० ॥ १५ ॥ व्यसन निवाखां वेगलां ॥ हुं० ॥ थयो सूधो
 शाहुकार रे ॥ हुं० ॥ पितर ह्ये हरख्यां घणुं ॥ हुं० ॥ सोंप्यो सवि
 व्यापार रे ॥ हुं० ॥ १६ ॥ चोथे खंमं त्रेवीशमी ॥ हुं० ॥ ढाल कही
 नित्यमेव रे ॥ हुं० ॥ राम कहे नर ते जला ॥ हुं० ॥ वारे व्यसननी
 टेव रे ॥ हुं० ॥ १७ ॥ सर्वगाथा ॥ ६७६ ॥ श्लोक तथा गाथा ॥१५॥

॥ दोहा ॥

॥ हवे निसुणो नारी तणो, पूंवल जे अधिकार ॥ गुणसुंदरी पाठी
 वली, आवी कहे विचार ॥ १ ॥ गयो सूकीने नाहलो, धरत जिम
 धूतेवि ॥ खोटारे खोटुं कखुं, नूंमी एहनी टेव ॥ २ ॥

॥ ढाल चोवीशमी ॥

॥ राम सीताने धीज करावे ॥ ए देशी ॥ सुणी वात सहू विलखाणी रे,
 टोले मली श्वास नराणी ॥ फट नूंमी ए शुं कीधो रे, कंयने तें जावा
 दीधो ॥ १ ॥ केड कामणगारानी सूकी रे, इण वातें सवली चूकी ॥ तुं
 तो हती घणुं माही रे, केम गइ एम एणें वाही ॥२॥ कहे वहेनड हुं तो
 जोली रे, में जाण्यो रंग ठे चोली ॥ नवि जाणे वाहालो उवेखी रे, हुं तो
 रही सामुं देखी ॥ ३ ॥ अहो आपणी शी गति आणे रे, कंय विण केम
 दीहा जाणे ॥ विरहातुर रोवे गाढी रे, ते नवपरिणीता लाडी ॥ ४ ॥
 थयो सोर ते महोल मजारें रे, माय ताय आव्यां तिण वारें ॥ कही वात
 घणुं दिलगीर रे, सूकी गयो नणदल वीर ॥ ५ ॥ तेह नाखंती घणा
 आंसु रे. बोले पुण्यसारनी सासू ॥ में गुणवंत जाणी आपी रे, परणीने

तें संतापी ॥६॥ रामत रसमां रंगीजो रे, पियुगुं मेव्यो तुम्हें मेलो ॥ तुमें कां न
 कयुं कर जाली रे, कंथ जाउं उत्तर आजी ॥७॥ जंबोदर देवें दीधो रे, पण
 लक्षण ए नहिं सीधो ॥ व्यसनी दीसे ए माठो रे, आचूपण जेई नाठो
 ॥ ८ ॥ कोण आगल वात ए कहियें रे, प्रचु जेम राखे तेम रहियें ॥ कहे
 जनक सुणो तुम्हें वेटी रे, सवली चूकी गुणपेटी ॥ ९ ॥ पण वात
 करंतां मीठी रे, सहिनाणी कांइ तस दीठी ॥ नाम ठाम तुमें काहिं
 जाणो रे, मुऊ आगल तेह वखाणो ॥ १० ॥ कहे गुणसुंदरी गुण
 जाची रे, तात वात सुणो मुऊ साची ॥ इण दीप तणे परकाशें रे, लख्युं चारवटे
 उछासें ॥ ११ ॥ परजातें वांचणुं जोई रे, नावी होवे ते होई ॥ ज
 खियो ते लेख न चूके रे, अणचिंत्यां आणी मूके ॥ १२ ॥ नवि जाये
 बेरिणी रात रे, दुःखणी थइ वेठी सात ॥ जुवो सुखमां शूल उपायुं रे, कयुं
 आपणुं उदयें आव्युं ॥ १३ ॥ प्रजात समय थये वांची रे, कहे ते गुण
 सुंदरी राची ॥ गोपालव पुरथी आवी रे, परणी गयो ते फरि जावी ॥ १४
 ॥ सुणो तात ए देवने योग रे, आवी मलीयो ए जोग ॥ वेप नरनो मुऊने
 आपो रे, बहु साथ संघातें आपो ॥ १५ ॥ ते नगर जणी हुं जावुं रे,
 पियुडाने खोली लावुं ॥ पटमातमांहे करुं काम रे, नहिंतर मुऊ व
 द्विहुं ठाम ॥ १६ ॥ सुणी वात पिता मन जाची रे, कन्या नरवेप व
 नाची ॥ बोत्रावी सवले साथ रे, हियडे समरी जगनाथ ॥ १७ ॥ गुण
 सुंदर सारथवाह रे, एम नाम धराव्युं उल्लाह ॥ गोपालव पुरने मार्गी
 रे, चाव्या हियडे धरी गग ॥ १८ ॥ केतेइक दिवमें आवी रे, उ
 नखा मेग देवराची ॥ लइ जेटणुं अनि बहु माल रे, जेव्यो पुरनो नृपाल
 ॥ १९ ॥ गय रीज्यो दे बहु मान रे, अपावे श्रीडां पान ॥ नजें आव्या
 तुमें व्यवहारी रे, दीमां ठो माणास चारी ॥ २० ॥ ग्हां अम नगरीमां
 आदीं रे, व्यापार करे उल्लाही ॥ न करे तुम को तुंफार रे, तुम्ह साचें
 वन्यां अम प्यार ॥ २१ ॥ एक वार इहां आवेवुं रे, जे काज दोये ने
 कतेवुं ॥ ग्हे ते नगरीमां ग्हां रे, व्यापार करे उठरनें ॥ २२ ॥ पुण्यसार
 सुणी गुणवंत रे, आव्यां मनवाने नंत ॥ गुणसुंदर ने पुण्यवार रे,
 मजिया विहु लपे अपार ॥ २३ ॥ थइ मांढोमांहे मित्राई रे, प्रगटी घृ
 म्य पुण्यार्थ ॥ घाला मनमांहे सरसी रे, प्रीतम जेइवुं सुण निरखी ॥

१४ ॥ चोवीशमी चोथे खंमें रे, ढाल पूरण राग अखंमें ॥ कहि रामविजय
सुविचारी रे, धन्य ए गुणसुंदरी नारी ॥ १५ ॥ सर्व गाथा ॥ १३ ॥ श्लोक ॥ १५ ॥

॥ दोहा ॥

॥ रात्रि दिवस जेलां रहे, प्रीति परस्पर जोर ॥ मुख हरखे देखी
नजरें, जेणि परें चंड चकोर ॥ १ ॥ अम नयरें जलें आवीया, सज्जन त
मो सुजाण ॥ तुम ऊपर रीजे घणुं, अहो अमारां प्राण ॥ २ ॥ साहूका
र तुमें सही, नाम धराव्युं नित्य ॥ पण अमचित्त चोरी लियुं, चोर परें
तुमें मित्त ॥ ३ ॥ मित्र तुमें इहां कणे रहो, मत जाशो निज धाम ॥ फर
मावो अम चाकरी, जे तुम होये काम ॥ ४ ॥

॥ ढाल पच्चीशमी ॥

॥ राजेंड मुने वहाला लागो ॥ ए देशी ॥ एणें अवसरें हवे सांजलो
रे, रत्नसुंदरीनी वात ॥ यौवन आवी अति जली ॥ यौवन आवी
अति जली ॥ एतो कामरमणी साहात ॥ १ ॥ पिताजी हो वात सुणो
मुऊ सार ॥ ए तो गुणसुंदर जरतार ॥ पिता ० ॥ महारे अवर नहिं निरधार
॥ पि ० ॥ महारुं जलुं रे कीधुं किरतार ॥ पि ० ॥ मुने न गमे ए पुण्यसार
॥ पि ० ॥ घणुं शुं कहुं वारंवार ॥ पि ० ॥ एहनी याइश खिजमतगार ॥ पि ० ॥
मुऊ न फरे एह विचार ॥ पि ० ॥ वा ० ॥ ए अंकणी ॥ जाव लही तनया तणो रे,
गुणसुंदरनी पास ॥ रत्नसार आव्यो वही ॥ र ० ॥ एतो धरी मनमां उद्वास
॥ पि ० ॥ १ ॥ ऊठी आसन आपीयुं रे, पूठयुं कहो मुऊ काज ॥ केम करुणा
कीधी इहां ॥ के ० ॥ अम उपर एवडी आज ॥ पिता ० ॥ ३ ॥ रत्नसार कहे
शेठजी रे, तुमशुं हो तनया रे मुऊ ॥ परणवा इहे अठे रे ॥ प ० ॥ एतो
करवा वातनुं गुऊ ॥ पिता ० ॥ ४ ॥ गुणसुंदर चित्त चिंतवे रे, खोटी
हो एहनी रे आश ॥ विहु नारी विवाहथी रे ॥ वि ० ॥ एतो
केम चाले घरवास ॥ पि ० ॥ ५ ॥ यत्किंचित् उत्तर देइ रे, वारुं हो
एहने विमास ॥ नहिंतर जे गति माहरी रे ॥ न ० ॥ एतो होशे ते गति
तास ॥ पि ० ॥ ६ ॥ एम चिंती कहे शेठने रे, जे तुमें कह्यो रे विचार ॥
विण पूठे मावित्रने रे ॥ वि ० ॥ ए तो न होय कुल आचार ॥ पि ०
॥ ७ ॥ वासी हुं देशांतरी रे, नवि जाण्युं मुऊ ठाम ॥ तो गुणवंती
नंदिनी रे ॥ तो ० ॥ एतो केम काढी थो आम ॥ पि ० ॥ ८ ॥ यतः ॥ कुग्राम

वासिष्ठस्य, गुरुमोक्षानिलापिणाम् ॥ त्रिगुणाधिकवर्षाणां, नैव देया मुकं
 न्यका ॥ १ ॥ पूर्वद्वाल ॥ रत्नसार कहे तुं सही रे. पुत्रीये धाखोचित ॥ अवरजुं नाम
 न मांजले रे ॥ अ० ॥ एतो मानो वात ए मित्त ॥ पि० ॥ ए ॥ यतः ॥ श
 त्रुनिर्वधुरूपैः सा, प्रक्षिप्ता दुःखसागरे ॥ या दत्ता हृदयानिष्ट, रमणस्य
 कुलांगना ॥ २ ॥ पूर्वद्वाल ॥ आग्रहथी तेषां मानीयुं रे, सबल जावीनो योग ॥
 माह्या रे माहापण करे रे ॥ मा० ॥ एतो आवी मजे ते योग ॥ पि०
 ॥ १० ॥ उत्सव कीयो अति घणो रे, रत्नसारें तेषि वार ॥ परणावी
 निज पुत्रिका रे ॥ प० ॥ ए तो गुणसुंदरने सार ॥ ११ ॥ सुणो चवि,
 निवति वही संसार ॥ मत करजो को अहंकार ॥ सु० ॥ तमें बोलो बोल
 विचारि ॥ सु० ॥ इहां न चले हो कोइ उपचार ॥ सु० ॥ एहना अवर
 मखाइ चार ॥ सु० ॥ नि० ॥ ए आंकणी ॥ पुण्यसार ते जाणीने रे, गयो कुलदेवी
 पाम ॥ मात जुठ ए गुं थयुं रे ॥ मा० ॥ मुज महोटी हती तुज आश
 ॥ सु० ॥ १२ ॥ हवे महारे नहिं जीवुं रे, शिर लेदी दीयुं तुज ॥ बोल
 गयो हवे गुं रखुं रे ॥ वो० ॥ मुने कांइ पडे नहिं मुज ॥ सु० ॥ १३ ॥ देवी
 कहे कां आकलो रे, तुं वत्स थाये एम ॥ रत्नसुंदरीगुं ते कहे रे ॥ रत्न० ॥
 मुकचिंतित न हुठ प्रेम ॥ सु० ॥ १४ ॥ देवी कहे दीधी जिका रे, तेहमां
 नहिं संदेह ॥ नहिं ए जावी ताद्री रे ॥ त० ॥ मम कर मन साहस एह
 ॥ सु० ॥ १५ ॥ पुण्यसार कहे नवि घटे रे, संग्रहवी परनारि ॥ परणी ए
 गुणसुंदरें रे ॥ प० ॥ नहिं इहां कोइ विचार ॥ सु० ॥ १६ ॥ देवी कहे
 यली एहवुं रे, गुं समजे नहीं ज्ञान ॥ ए नही तहारी बधना रे ॥
 प० ॥ मुक नाथ दीये एम ज्ञान ॥ सु० ॥ १७ ॥ माथे चटावीने दे
 वीनुं रे, कदाण कठयो उजमाल ॥ मन चिंतें पुण्यसाग्री रे ॥ म० ॥
 मुक फलजे मनोग्य सार ॥ सु० ॥ १८ ॥ बोये स्वर्दे पंचवीजमी रे,
 राज सुणो एक चिन ॥ गम कहे पीपु नारीनी रे ॥ ग० ॥ हवे परगट
 शोभे प्रीति ॥ सु० ॥ १९ ॥ स्वर्गाथा ॥ ३३६ ॥ श्लोक तथा गाथा ॥ ३७ ॥

॥ दोहा ॥

॥ गुणसुंदरी चिन चिंतये, परगट न ज्ञयो नाथ ॥ इत्य न स्वमाथे
 विगलनुं, मे हवे रसुं न जान ॥ १ ॥ पूर्णावधि म्वट मासनी, संपूर्ण पर
 पंच ॥ काष्ठपिता मजोटी रवी, मेजो लघजो संघ ॥ २ ॥ पुन जाशिर

चाव्यो तदा, वह्निप्रवेश निमित्त ॥ वात सकल पुर विस्तरी, जळें तैल
 लिम जत्त ॥ ३ ॥ सुंदर वाला वेशमां, गुणसुंदर मुखफूल ॥ कोशक
 वैराग्यें नड्यो, मरण करे ठे कबूल ॥ ४ ॥ जनमुखधी नृप सांजजी,
 शेठ पुरंदर लेइ ॥ रत्नसार पुण्यसारशुं, आव्या तिहां दोडेइ ॥ ५ ॥ लोक
 मल्यां लाखो गमे, कहे राजा सुण वत्स ॥ आण कियों तुज अवगुणी,
 जांखो करि मन स्वस्थ ॥ ६ ॥ म मर म मर बालुआ, कां करे न
 क्कण काठ ॥ तुं माह्यो दूतो घणो, शो ए ताहारो ठाठ ॥ ७ ॥ रत्नसार
 कहे माहरी, तनुजा अति सुकुमार ॥ कां संतापो तेहने, विरुई विरहनी
 जाल ॥ ८ ॥ जो अपराध तियों कियो, तो दाखो मुज कां न ॥
 रोप निवारो बालहा, आपो मुजने मान ॥ ९ ॥ आण न लोपी माहरी,
 नवि कोइनो अपराध ॥ पण मुज इष्ट वियोगनुं, मनमां दुःख अगाध
 ॥ १० ॥ एम कहेतो मुख बाहिरें, नाखंतो निःश्वास ॥ ऊतावलशुं आ
 वीयो, कुमर चितानी पास ॥ ११ ॥

॥ ढाल ठवीशमी ॥

॥ सल्लणी योगिणी रूडी वे ॥ ए देशी ॥ राय विचाखुंसहिए मरजे, जाव्यो
 न रहे जोर ॥ बालेसर कोई एहवो ठे, एम कहे करतो सोर ॥ १ ॥ सितावीयें
 कोइ राखो वे, अरे हां बालेसर ते मुज दाखो वे ॥ एआंकणी ॥ जेह कहे
 ते काज करुं हुं, कां मरे मुज हजूर ॥ वाट जोतां हजे एहनां, मावित्र
 रह्यां ते दूर ॥ सि० ॥ २ ॥ अहो एहनुं मुखफूल सल्लुणुं, अहो एहनी
 तनुकांति ॥ विण कारण ए कां मरे एहनी, कल न पडे गति चांति ॥
 सि० ॥ ३ ॥ नागर कहे पुण्यसार ठे एहनो, साचो अंतर मित्त ॥ वात
 माने ए एहनी, साहिव निसुणो सुपवित्त ॥ सि० ॥ ४ ॥ राय कहे पुण्य
 सार जश्ने, समजावो अविलंब ॥ मित्रनुं दुःख एम देखीने, शा माटे करो
 ठो विलंब ॥ सि० ॥ ५ ॥ पुण्यसार पासें जइ तेहनी, एम करे अरदास ॥
 आ सुखलीजा मूकीने, मरवानी कां करे आश ॥ सि० ॥ ६ ॥ तरुण
 पणो तुम रूप अनोपम, ठो संपद आवास ॥ मन मूकी मुज आगलें,
 दुःखनुं कारण प्रकाश ॥ सि० ॥ ७ ॥ सा कहे एहवो कोइ न कहिंये,
 जस आगल दुःखवात ॥ हृदययी कंठें आविने, पाठी फरी हृदयें जात
 ॥ सि० ॥ ८ ॥ कहे पुण्यसार ए ताहरी चेष्टा, हास्य तणी करनार ॥

मुक्त आगल पढवो कियो कहो, जिम लहुं मुक्त अपार ॥ सि० ॥ ९ ॥
 कहे प्रीतमने पुण्यपनोती, ते संजलावी अजोक ॥ तुमें लख्यो किं वा
 नहिं, सातुं कहां मूकी शोक ॥ सि० ॥ १० ॥ कहे पुण्यसार सही में लखीयो.
 सा कहे ते हुं नारी ॥ गुणसुंदरी नामें तुमें जे, मूकी तोरण द्वार ॥
 सि० ॥ ११ ॥ कंत तुमारे कारण सबलो, ए में कीय प्रवास ॥ बालेसर
 मूकी मने, जला आब्या तुमें इहां नासि ॥ सि० ॥ १२ ॥ करि प्रसाद
 मगावी आपो, मुजने द्वे स्त्रीवेष ॥ कुंवर वात सुणी इत्ती, मनमां
 समज्यो सुविज्ञेय ॥ सि० ॥ १३ ॥ वेप मगाव्यो दो धरथी वारु, विनतानो
 तेणि वार ॥ तन पहेस्यो शोचे जली, मानुं रंज तणो अवतार ॥ सि० ॥
 १४ ॥ रम जम नूपुर पाय मनोहर, कर चूडी उर द्वार ॥ तिलक धनुं
 शिर ओजनुं, गोगी गुणनो जंमार ॥ सि० ॥ १५ ॥ कहे पुण्यसार नरपति
 आगल, बहू वंदे तुम नेह ॥ देखी लहु विस्मय लनुं, अहो कौनुक महोदु
 एह ॥ सि० ॥ १६ ॥ ए कोण रूपवती अति रुडी, गमा रमा अनुहार
 ॥ सारथवाह केम यइ, रही ए नयर मजार ॥ सि० ॥ १७ ॥ वात
 लहु पुण्यसार प्रकासी, धुरहुंती आमूल ॥ सांचली लहुने उपन्यो आनंद, ए
 वात अमूल्य ॥ सि० ॥ १८ ॥ पाय लागी सासु सलगने, दीये एम ने
 आशीष ॥ ए नर बहूनी जोडली, चिरं जीवो कोडि बरीस ॥ सि० ॥ १९ ॥
 कुजवंती तुक पाखें कहां कोण, शोधी लीये जरतार ॥ ए चनुगइ ताद
 री, नवि दीठी अमें नंमार ॥ सि० ॥ २० ॥ रत्ननाद विजखो यइ मनमां,
 वीनरियां पुत्र नृप ॥ मुक्त पुत्री परणी एणें, तंदनुं द्वे कवण स्वरूप ॥
 सि० ॥ २१ ॥ राव कहे इहां जुं पृठवुं, ते पण एदनी नारि ॥ जे माटे
 एदनी प्रिया, परणी एणें प्रेम अपार ॥ सि० ॥ २२ ॥ पुण्यदशा ज्यो
 एम जागी, जागी जावठ तंत ॥ रत्नसुंदरी यइ जागजा, पुण्यनाग अयो
 तल कंत ॥ सि० ॥ २३ ॥ लहु रूपे आब्यां निज मंदिर, बगव्यां जय जय
 कर ॥ मान पिता दरख्यां धरुं, बहूबगवती एह कमार ॥ सि० ॥ २४ ॥
 सोये नंमें स्त्रीशमी दाले, श्री तुमतिनिजय गुन शिष्य ॥ गमनिजय
 कहे एम पुण्यर्था, पत्तोने मन सबल जर्गीस ॥ सि० ॥ २५ ॥ ॥ २५ ॥ ॥ २५ ॥

॥ अंश ॥

॥ वात गइ वजनीपुं, प्रगट थयो निज कंत ॥ जाणीने पद अंगना,

आवी तिहां गुणवंत ॥ १ ॥ सासु ससराने नमी, वे कर जोडी वाल ॥
 मंदिर आवी कंतनें, पाय पडे ततकाल ॥ २ ॥ मोहनगारा नाहजी,
 ठांमी अम निर्धार ॥ कोण नरोसे मूकीने, इहां आव्या आधार ॥ ३ ॥
 जाणी प्रीति तुमारडी, नर कोइना नवि थाय ॥ अमें घहेली गोरडी, जे
 रहियें एम अवटाय ॥ ४ ॥ पण पीयु साथें रूपणुं, कीधे केही सिद्धि ॥
 शुं महापण तुम आगलें, अमें अवला निर्बुद्धि ॥ ५ ॥ दोहा सोरती ॥
 पिशु तुम साथें मान, अमने करवुं नवि घटे ॥ पग पहेरीजें निदान, ला
 खेणी पण पानही ॥ ६ ॥ रत्नसुंदरी मनमांहे, चिंते इणो साचुं कसुं ॥
 पुरुप वडा जगमांहि, गर्व कस्यो घेली थइ ॥ ७ ॥ महोटा बोल म बोल, कल न
 पडे ए कर्मनी ॥ माणस फूटा ढोल, ताणी वात करे जिके ॥ ८ ॥

॥ ढाल सत्त्यावीशमी ॥

॥ देशी चंझावलानी ॥ पुण्यसार माने घणुं रे, आठे नारी पनोती ॥
 प्रीतम साथें प्रेमनी रे, वात करे सुख जोती ॥ त्रूण ॥ वात करे सुख
 जोती रे श्यामा, हेज घणुं हैये धरती वामा ॥ दोगुंदकपरें ते सुख माणे,
 ऊग्यो आशम्यो दीह न जाणे ॥ १ ॥ जी वालेसरजी रे ॥ ए आं
 कणी ॥ कवही रमे रंग महोलमें रे, कवही वाडी जाय ॥ कवही जलक्रीडा
 करे रे, जामिनीशुं मन लाय ॥ जामिनीशुं मन लाइ रे जाइ, देखो पूरवली रे
 कमाइ ॥ आवी तेवारें अचिंती आइ, कृणमां दोलत डुनियां पाइ ॥ जीण
 ॥ २ ॥ पुरमां नामीचो थयो रे, पुण्यथकी पुण्यसार ॥ दोलतना
 दोरा तणो रे, वाध्यो बहु विस्तार ॥ वाध्यो बहु विस्तार कमाई,
 करतां कंचन कोडि उपाई ॥ सहेर तणी पामी जेठाई, लीधी इकत बहुत
 नलाई ॥ जी वाण ॥ ३ ॥ इण अवसरें नूमंमलें रे, वृजवता नवि जीव ॥
 नवसायरमां वूडतां रे, जेह असंदीन दीव ॥ जेह असंदीन दीवनी
 सरिखा, सूधी जीवाजीव परीक्षा ॥ ज्ञानसागर मुनि वनमां आवे. राजा
 दिक सहु वांदण जावे ॥ ४ ॥ जी मुनीश्वरजी रे ॥ ए आंकणी ॥ जेठ
 पुरंदर आवीयो रे, साथें लेइ पुण्यसार ॥ गुरु वांदी मुणे देशना रे,
 आणी जाव अपार ॥ आणी जाव अपार रे प्राणी, ए संसारने खांटो
 जाणी ॥ कूडी काया कूडीमाया, आडो आवे ए धर्म सहाया ॥ जीरे मुनीण ॥
 ५ ॥ विहडे सुत तन ऊपन्यो रे, विहडे वंधव साचो ॥ विहडे अर्थ ए संचि

यो रे, धर्म न विहडे जाचो ॥ साची धर्मतणी ए सगाइ, इह नव परनव
 बहु सुखदायी ॥ मित्र जुहार नमो ए कहियें, रात्रि दिवस ए ध्यानमां
 रहियें ॥ जी वा० ॥ ६ ॥ ते वेहु जेदें जांखीयो रे, श्रावक ने अणमार ॥ पहेजो
 परंपर हेनु ने रे, बीजो अनंतर सार ॥ बीजो अनंतर कारण कहियें,
 अंतर मुहूरतमां शिव लहियें ॥ उत्कर्षे करे नव सात आठ, एवो श्रीजिन
 आगमपाठ ॥ जी वा० ॥ ७ ॥ धर्म धर्म सहुको कहे रे, पण न लहे
 तस मर्म ॥ आत्मधर्मने आदरे रे, नवि बंधाये कर्म ॥ नवि बंधाये
 कर्म ए नामें, स्थापनाइव्यें सहु जग कामें ॥ जावनिहेपा नामें राचो,
 ते मुनि मारगमांहे साचो ॥ जी वा० ॥ ८ ॥ पूठे सुणि गुरुदेशना
 रे, शेर प्रंदर साचुं ॥ कहो पुण्यसारें शुं कखुं रे, पूरवन्नव पुण्य जाचुं
 ॥ पूरवन्नवतुं पुण्य प्रकासो. कहे मुनिवर मत राखो सांसो ॥ नीतिपुरें
 कोई कुलपूत, पहेले जयें दूतो गतसुत ॥ जी वा० ॥ ९ ॥ खेद लह्यो
 संसारयी रे, चरण ग्रखुं गुरु पासें ॥ लइ दीक्षा शिक्षा लहे रे, संयमपंथ
 अच्यामें ॥ संयमपंथें सुधो चाले, पंच समिति त्रण गुप्तिने पाले ॥
 कायगुप्ति दृढता नदिं तेहवी, मुनिमारगमां दाखी जेहवी ॥ जी वा०
 ॥ १० ॥ मंग मगादि परिमहें रे, कायोत्सर्ग मफार ॥ स्थिरता न रहे
 देहनी रे, बलि बलि बहेलो पारे ॥ पारे बली बली बहेलो जेवारें, जांखे मजुरु
 शांख नेवारें ॥ आवश्यक खंमन नवि कीजें, प्राण जते पण नवि चूकीजें
 ॥ जी वा० ॥ ११ ॥ वतः ॥ वरमग्निमि पवेसो, वरं विमुक्षेण कम्मणा
 मरणं ॥ मा गहिय जयचंगो, माजीयं खजिय तीलत्त ॥ १ ॥ पूवेदाल ॥
 फरि फरि मारग दोदिलो रे, दाग्यो न आवे हाये ॥ शाना नाग्रमां
 पथ्या रे, लहे दुःख कखुं जिननाथें ॥ कखुं साचुं जिननुं सइहियें, जिम
 तीपुं ते निम निर्वहियें ॥ अत पालंतां चीत न थइयें, तो बहेजें शिव
 पुमां जइयें ॥ जी वा० ॥ १२ ॥ पापनीरु नव पामियो रे, दूतो असद
 पणो पाले ॥ निर्वदे त्रण गुप्तिने रे, वेयावज संजाले ॥ वेयावज कं
 शुक्तीनी, धर्म अनर मोजी चीनी ॥ मरण लही ययां मुर मोधम्मो,
 निशांयी चवी सुक सुत थयो कर्म ॥ जी वा० ॥ १३ ॥ प्रवचन माना
 मानने रे, पाती सुखें निम जेने ॥ ज्ञान प्रिया परणी सुयें रे, पूर्य दुएय
 संकने ॥ पूर्ये पाती एक नेणें कष्टें, आठमी नारी जरी दुण सुटें ॥ ते

माटें परमाद निवारी, संपूरण पालो सुविचारी ॥ जी वा० ॥ १४ ॥ जेव
पुरंदर सांचली रे, मन पाम्यो वैराग्य ॥ ग्रहे दीक्षा गुरुजीकने रे, आणी
अनुचव राग ॥ अनुचव वात हैयामां राखी, पुण्यसार आवक मुनि
साखी ॥ वंदी जनक मुनि घर आया, रात दिवस तेहना गुण गाया ॥
जी वा० ॥ १५ ॥ आवक व्रत आराधतो रे, पाले शुद्ध आचार ॥ दान
सुपात्रें दे जलां रे, पुण्य करे पुण्यसार ॥ पुण्यसार करे पुण्य कमाई,
आठ रमणी साथें उत्साही ॥ अनुक्रमें पुत्रने सोंपी नार, सजुरु पासें
थया अणगार ॥ जी वा० ॥ १६ ॥ चारित्र पाली रूयडुं रे, नाव धरी
उजमाल ॥ मुकें गयो मुनिराजीयो रे, वडूं हुं त्रण काल ॥ वडूं वात
मुनीश्वरें जांखी, कनकशक्ति आगल हित राखी ॥ चोथे सत्यावीशमी ढाल,
रामें मुनि गुण गायारसाल ॥ जी वा० ॥ १७ ॥ इति पुण्यसारसंबंधः ॥ ७९ ॥ १७

॥ दोहा ॥

॥ निसुणी श्री गुरुदेशना, कनकशक्ति नृपनंद ॥ संयम सूधुं आदरे,
मनमां धरि आनंद ॥ १ ॥ विपुलमति मुनि तेहने, दे हितशिक्षा सार ॥
संयम मारग दोहिलो, जेहवी खंदाधार ॥ २ ॥ निरतिचारपणे तुमो,
पालेजो निर्धार ॥ व्रत लेई पाले खरां, धन्य तेहनो अवतार ॥ ३ ॥ व्रतिनी
विमलमति कने, दोय नारी लिये दिस्क ॥ तजि संसार विराग नजी,
चाले रूडी शीख ॥ ४ ॥ कनकशक्ति मुनि विचरतो, सिद्धपर्वतें आय ॥
एक रात पडिमा रह्यो, शिला उपर शुभ ठाय ॥ ५ ॥ पूरव नवनो
मत्सरी, हेमचूलान्ध्र देव ॥ करे उपसर्ग तिहां घणा, वैरजावनी टेव ॥ ६ ॥
मुनि निश्चल ध्यानें रह्यो, जाणे सुरगिरि टूंक ॥ विद्याधर मलि वारियो,
देव गयो मुनि मूक ॥ ७ ॥ प्रहसमे प्रतिमा पारिनें, विचरंतो नृपीठ ॥
रत्नसंचया अत्रियो, गिरुठ सुगुण गिरिठ ॥ ८ ॥ सुरनिपात उद्या
नमां, काउस्सग रहियो सोय ॥ मुनिध्यानें लीनो सबल, वातिकर्म मल
धोय ॥ ९ ॥ उज्ज्वल केवल ऊपन्युं, ऊजहल जाणे दिणंद ॥ सुर नर विद्या
धर मली, उत्सव करे अमंद ॥ १० ॥ वज्रायुध करि नक्ति बहु धन
धन तुम्हो मुणिंद ॥ कर्मकटक जींत्युं सबल, निर्मल ज्ञान दिणंद ॥ ११
॥ देशन मुणि घेर आविया, वज्रायुध नरदेव ॥ अहोनिश सारे जेहनी,
सोल सहस यक्ष सेव ॥ १२ ॥

॥ ढाल अठथावीशमी ॥

॥ गुण गिरुआ गुण गिरुआ गोडी पाम हो ॥ ए देवी ॥ गुण जरिया
 गुण जरिया दरीयानी परें, मुनिजनने मुनिजनने बहु परिवार हो ॥ जय
 वंता जयवंता हो जिनवर आविया जी ॥ वणुं प्यारा वणुं प्यारा सहु मन
 जाविया जी ॥१॥ नव कमलें नव कमलें कनकने पद थरे, वर अतिशय वर
 अतिशय गुणचंमार हो ॥ जग बहाला जग बहाला जिणंद पथारीया
 जी ॥ २ ॥ तिण नयरीयें तिण नयरीयें तिण उद्यानमां, तिण वेला तिण
 वेला त्रिभुवन जाण हो ॥ जगनायक जगनायक आवि समोसग्या जी ॥
 ३ ॥ सुर मलिया सुर मलिया चार निकायना, वर हुंडुत्रि वर हुंडुहि गयण
 घुरंत हो ॥ जगबहाला जग बहाला जिणंद पथारिया जी ॥ ४ ॥ हेमं
 कर हेमंकर जिननी वधामणी, वनपालक वनपालक दीधी तिवार हो ॥
 मनमोहन जगसोहन श्रीजिन आवीया जी ॥५॥ धन थापी धन थापी
 बहु वनपालने, नृप चाव्यो नृप चाव्यो वंदन काज हो ॥ मन मोहन जगसोहन
 श्रीजिन आवीया जी ॥ ६ ॥ प्रदक्षिणा परदक्षिणा त्राण देई करी, पर
 मेश्वर परमेश्वरने परणाम हो ॥ कर जोडी कर जोडी एम स्तवना करे
 जी ॥७॥ त्रिगुणातम त्रिगुणातम त्रिगुण व्यतीत ठो, त्रिभुवनना त्रिभुवनना
 नायक त्रिहु काल हो ॥ त्रिकरणगुं त्रिकरणगुं हो में दिलमें धर्या जी ॥८॥
 थाज पावन थाज पावन थइ मुऊ देवडी, जनें जेट्या जनें जेट्या श्रीजिन
 पंद हो ॥ मुऊ दोदग मुऊ दोदग सवि नाथी गयां जी ॥ ९ ॥ थाज
 जाणुं थाज जाणुं फल्यो मुऊ थांगणुं, सुरपादप सुरपादप नृक दीदार
 हो ॥ गुजयोगें गुजयोगें हो तुं प्रहृ जेट्टीयो जी ॥ १० ॥ सवि जिनने
 सवि जिनने हो वंता थागलें, वजासुय वजासुयजी कर जांठि हो ॥ प्रहृ
 नांवे प्रहृ नांवे हो तुलजित रंजना जी ॥११॥ नवकूपें नवकूपें हो मोदकूपें
 पथ्यो, नवि जाणे नवि जाणे विषयनां पाम हो ॥ वणुं गना वणुं गना
 हो मोदमा प्राणीया जी ॥१२॥ अरजेंवे अरजेंवे हो विरय जिजा जित्या,
 नरजलमां नरजलमां बहनां जाव हो ॥ धर्मपाठण धर्मपाठण हर वनें
 श्रीने जी ॥ १३ ॥ रुं रुदियें रुं रुदियें हो शण केई नश्या, सुर विघ्न
 सर विघ्न नरवर जांठि हो ॥ जग मूढनां जग मूढनां हो जोगें स्वयं
 कथ्यो जी ॥१४॥ कथा नेरे कथा नेरे हो धर्मना काठीया, नेशमां ए

तेहमां ए अतिहि अवन्न हो ॥ मोहराजा मोहराजा ए रागरूपें रह्यो जी ॥
 १५ ॥ कह्यो पहेलो कह्यो पहेलो हो आलस नामथी, मोह वीजे मोह
 वीजे हो त्रीजे अवरण हो ॥ दंज चोथो दंज चोथो हो क्रोध ए पांच
 मो जी ॥ १६ ॥ ठांमीजें ठांमीजें प्रमाद ठां सही, वली सत्तम वली
 सत्तम कृपणतो जाव हो ॥ नय अष्टम नय अष्टम शोक नवम कह्यो
 जी ॥ १७ ॥ वलि दशमुं वलि दशमुं अज्ञानपणुं कहुं, अग्यारमो अ
 ग्यारमो कह्यो व्याक्षेप हो ॥ द्वादशमो द्वादशमो कुतूहल वारीयें जी ॥
 १८ ॥ सहुथी ए सहुथी ए वलीयो कह्यो तेरमो, विषयानो विषयानो
 सवले वांक हो ॥ काम नोगें काम नोगें ए दोय शवद नजे जी ॥
 १९ ॥ यडुक्तमागमे ॥ जीवाणं जंते कामी नोगी गो० जीवा कामीवि नोगी
 वि से केणछाणं जंते एवं बुच्चइ जीवा कामीवि नोगीवि सोतिंदिय चरिंदिया
 इ पडुच्चकामी जिप्रिंदिय घाणिंदिय फासिंदियाइ पडुच्च नोगी नेरइयाणं जंते
 कामी नोगी गो० नेरइया कामीवि नोगीवि एवं असुरकुमाराणं जीव थण
 य कुमाराणं पुढवीकाइयाणं जंते कामी नोगी गो० नोकामी नोगी नेर
 इया एवं जाव तेइंदियाणं चउरिंदियाणं कामीवि नोगीवि एवं जीव वे
 माणियाणं इत्यादि॥पूर्वढाल॥कहि देशन कहि देशन केमंकर विचुजी, विपयानें
 विपयानें निवारो दूर हो॥तो शिवसुख तो शिवसुख पामी शाश्वतां जी ॥२०॥
 प्रचुजीयें प्रचुजीयें प्रकाशी देशना, अडवीशमी अडवीशमी चोथे खंम हो ॥
 ढाल निसुणी ढाल निसुणी हो हृदयमां राखजो जी ॥ २१ ॥ ७३० ॥ २९
 ॥ दोहा ॥

॥ इण अवसर पूठे तिहां, सहस्रायुध नृपनंद ॥ कर जोडी चरणो
 नमी, जांखो नयनानंद ॥ १ ॥ नगवन् तातें केम जही, पूर्व अपर नवत्रा
 त ॥ वायुवेगादि खेचर तणी, ते जांखो अवदात ॥ २ ॥

॥ ढालउंगणत्रीशमी ॥

आज हजारी ढोलो आवज्ञे ॥ ए देशी ॥ कहे एम केमंकर जगधणी,
 सांजल सहस्रायुध नृप ॥ सुगुण प्राणीजी ॥ ज्ञानरयण जगमां वहुं ॥
 तुक तातें हो अवधिज्ञानथी, जांखुं ए नवतुं स्वरूप ॥ १ ॥ सुगुण ॥
 ॥ झा ० ॥ ए आंकणी ॥ प्रचु कहो केता चेद ते तेहना, कदि
 करुणा जगदाधार ॥ जिणंद राय जी, वलिहारी प्रचुनामनी ॥ कहे चेद

अत्रे पंच एदना, मति श्रुत ने अवधि मन धार ॥ सु० ॥ ज्ञा० ॥
 २ ॥ निम मनःपर्यव चोष्टं सही, पंचम केवल निःकलंक ॥ सु० ॥ दोय
 चेदे परोक्ष ए जाणीये, प्रत्यक्ष त्रिहुं चेदे निःशंक ॥ सु० ॥ ज्ञा० ॥ ३ ॥ दोय विक
 ल्य एक संकल्पथी, प्रत्यक्षमांहे त्रिहुं चेद ॥ सु० ॥ चेद अष्टावीश प्रथमना,
 श्रुत चउदस जाणां अखेद ॥ सु० ॥ ज्ञा० ॥ ४ ॥ पट चेद अवधि मन आणी
 ये, मनःपर्यव दोय विकल्प ॥ सु० ॥ क्वाधिक ज्ञान ते पाचसुं, तेदमां
 नहिं कोय संकल्प ॥ सु० ॥ ज्ञा० ॥ ५ ॥ एम चेद एकावन ज्ञानना, मतिना
 तेहमां वदु होय ॥ सु० ॥ मतिषयोय यणा अत्रे, वृद्धि स्मृति प्रज्ञा जो
 य ॥ सु० ॥ ज्ञा० ॥ ६ ॥ मति कहीये हो जायी कालनी, वृद्धि संप्रतिकालनी
 जाण ॥ सु० ॥ स्मृति जदीये काल अतीतनी, प्रज्ञा त्रिहुं काल वयाण ॥
 सु० ॥ ज्ञा० ॥ ७ ॥ वली ए चिहुं चेदे जाणीये, अत्यातिकी पहेली वृद्धि ॥ सु० ॥
 वेनयिकी वीजी वली, कार्मणकी वीजी त्रिहुं ॥ सु० ॥ ज्ञा० ॥ ८ ॥ चांथी
 कही पाणिमिकी, वृद्धि ए चिहुं चेद विचार ॥ सु० ॥ अणदीतुं अण
 खांचसुं, उपजे ते पहेली सार ॥ सु० ॥ ज्ञा० ॥ ९ ॥ ए उपर गेहा तणां, प्रह
 प्रवामे संबंध ॥ सु० ॥ निसुणे सपली ए परेदा, मति उपर ए प्रबंध ॥
 सु० ॥ ज्ञा० ॥ १० ॥ अथ गेहकनबंधः ॥ नयरि अवंतीमांहे वने, अरिकेशरी
 नामे नरेश ॥ सु० ॥ ते नवरीनी समीपने, एक मद्दोटी शिला सुविशेष ॥
 सु० ॥ ज्ञा० ॥ ११ ॥ नाम समीपे हो नट तणुं, एक नाम अत्रे इक्षिवंत ॥
 सु० ॥ नट रंगजर वने निहां, नवल गुणी कलावंत ॥ सु० ॥ ज्ञा० ॥ १२ ॥ तन
 पर पुत्र मोदामणां, गेहक नामे एक बाल ॥ सु० ॥ लघुनवमां माना
 मुठ, मन कपणुं इत्यथगाल ॥ सु० ॥ ज्ञा० ॥ १३ ॥ रुक्मिणी नामे वीजी
 गरी, तन जनके, हो तमणी सार ॥ सु० ॥ योगन मद उन्मत्त दुड, न
 माणे गेहवने लगार ॥ सु० ॥ ज्ञा० ॥ १४ ॥ योग्य अने वली योग्यतां, जगमां
 रि सुगहलां शोष ॥ सु० ॥ बालपणे माना मरे, जग ए सम इत्य न
 कोय ॥ सु० ॥ ज्ञा० ॥ १५ ॥ गेहक चिने हो माहरी, जो मार सुई इण गार ॥
 सु० ॥ ए रुक्मिणी गणनी नथी, मुक्त मानवी मात्र लगार ॥ सु० ॥ ज्ञा० ॥ १६ ॥
 गेहक योग्यां एम करे, न गरे मुं मुक्त गेहगत ॥ सु० ॥ एण अगल
 कर्ण गरी, जोसे सवे सहे निगाल ॥ सु० ॥ ज्ञा० ॥ १७ ॥ ए प्रहली जोडी
 गिवां, करे हो विशु सुजयी शाय ॥ सु० ॥ मुक्त कहे नुते किन्तु, मुक्त

जेवो हो नावे दाय ॥सु०॥ज्ञा०॥१०॥ वचन सुणी अजिमाननुं, मन चिंते रोहक बाल ॥ सु० ॥ विण मान उतारे हो एहनुं, मुज जन्म जीवित आल ॥सु०॥ज्ञा०॥११॥ यतः ॥ अवंध्यकोपस्य निहंतुरापदां, जवंति वश्याः स्वयमेव संपदः ॥ अमर्षेऽन्येन जनस्य जंतुना, न जातहार्देन न वि द्विपा दरः ॥ १ ॥ ज्वलितं न हिरण्यरेतसं, चयमास्कंदति नस्मनां जनः ॥ अजिन्तूनयादसूनतः, सुखमुज्जंति न धाममानिनः ॥१॥ पूर्वढाल ॥ अपराध देशने एह शिरें, मुज जनकने करुं अनिष्ट ॥ सु० ॥ एह मान उतारुं हो एहनुं, तो मुज चिंतित होवे इष्ट ॥ सु० ॥ ज्ञा० ॥१०॥ नवि सुणो हवे बुद्धि औत्पातिकी, करे रोहक ते अधिकार ॥सु०॥ चोथे उंगणत्रीशमी ढालमां, मतिज्ञानतणो विस्तार ॥सु०॥ ज्ञा०॥११॥ सर्वगाथा ॥०५३॥ श्लोक ॥३१॥

॥ दोहा ॥

॥ एक दिन घरने आगणे, सूता जनक ने जात ॥ यामिनिमां सहसा कहे, अहो अहो नर कोइ जात ॥१॥ घरमांथी कोइ नीसख्यो, कहे पिता देखाड ॥ ते कहे ते ऊमी गयो, पाड्यो पिता भ्रममांन ॥१॥ रंगशूर मन चिंतवे, अहो मुज कुलटा नारि ॥ वृद्धपणे परण्यो सही, मुजने पड्यो धिक्कार ॥३॥ यतः ॥ मूर्खस्य काव्यकरणं, गीतमकंठस्य द्यूतमधनस्य ॥ वृद्धस्य विषयवांठा, परिहासपदानि चत्वारि ॥ १ ॥ एकोगोत्रे स जवति पुमान् यः, कुटुंबं विजर्ति, सर्वस्य द्वे सुमतिकुमती संपदापन्नमित्ते ॥ स्त्री पुंवच्च प्रजवतितरां तस्य गेहं विनष्टं, वृद्धो यूना सह परिचयात्त्यज्यते कामिनीभिः ॥१॥ ठप्पय ॥ एकां करे अवाज, लाज एकांशुं मंमे ॥ एकांसोंपे देह, नेह एकांशुं ठंमे ॥ एकां करे संकेत, एक जाली समजावे ॥ तन मन अंतर उंर, एक शिरवाय ढोलावे ॥ कामिनी जाति अवगुण घणा, मीठे बोलन श्रीजीयें ॥ इसी निर्लज नफट नारिंशुं, कबू नेह न कीजीयें ॥१॥ कवित ॥ करिकोकउ० ॥ रविचरियं० ॥ जलमये० ॥ इस्तुं विचारी नारिंशुं, ययो विरक्त मन तेह ॥ लाख कखा गुण एहने, पण नहिं मुजुं नेह ॥ ४ ॥

॥ ढाल त्रीशमी ॥

॥ उदयापुररी राजरंजा, म्हें दीगा एक अचंजा ॥ ए देगी ॥ रंगशूर मन चिंतवे जी, जूठी नारी जात ॥ मुह मीठी वातो करे जी, जहेर गले पुनि वात के ॥ १ ॥ रमणी रुडी राज दीस, पण ए खांटी विशवा

बीजं ॥ १ ॥ आंफणी ॥ एम मनमान्याहुं मद्रा जी, करनी हांसे केजि ॥ तो
 दवे ॥ आथें किसी जी, प्रीनि ए विपनीवेल के ॥ २० ॥ २ ॥ कुज लळा
 लोपी ॥ शणै जी, न गणी परजव चीनि ॥ नारी वेद कुशीलिणी जी, एह
 थी हुं विपरीत के ॥ २० ॥ ३ ॥ यतः ॥ अचूतणो मोदइ वंनवागी,
 अकिंचणां मोदइ दिक्धारी ॥ लळाजुआ सोदइ एकपती, बुकीजुउ सो
 दइ रायमंती ॥ १ ॥ पूर्वदाल ॥ जोवां वातनी वातमां जी, चित्त फग्निं ततकाल ॥
 ते नामुं जोवे नदिं जी, प्रांति बडी चंमाल के ॥ २० ॥ ४ ॥ नजर न
 मांसे नाहजो जी, केम दीसे दिल रोष ॥ दनी न बोले देजहुं जी, किण
 कारण ए शोष के ॥ २० ॥ ५ ॥ आण न जोपी एदनी जी, चालंतां
 एक चित्त ॥ ग्लमांदिं केम रूपणुं जी, पडीयुं आवि अचिंत के ॥ २० ॥
 ६ ॥ परनर साथें नवि रमी जी, हुं खूयी निकलंक ॥ काली कीकी किम
 थइ जी, कंत तणी विणवंक के ॥ २० ॥ ७ ॥ दिवस वे चार थया जिस्वे
 जी, न थम्यो रोष लगाए ॥ अलगी शय्या लेइ रह्यो जी, मन वंचे नर
 तार के ॥ २० ॥ ८ ॥ यतः ॥ आज्ञानंगोनरेशणां, गुरुणां मान
 मर्दनम् ॥ प्रयक् शय्या च नारीणा, मगन्धवध उच्यते ॥ २ ॥ पूर्वदाल ॥ एम जुरे
 वंठी थणुं जी, गलहजो वेइ गाल ॥ एहवे रमतो आनीयो जी, नादानो
 रोदक बाल के ॥ २० ॥ ९ ॥ आबीनेकजो रह्यो जी, कां रोवे एम मान ॥
 ते कहे मुक उपर थणुं जी, रीताणां नुक तात के ॥ २० ॥ १० ॥ बल्ल
 कांड जाएयुं जोवे जी, तो कहे मुणते साय ॥ ताहगी गति तुंदिज लदे
 जी, कहे उरउनां राच के ॥ २० ॥ ११ ॥ चमकी चिंते चिनमां जी, जीने
 एह बलाय ॥ कर जोडी एम बीनवे जी, बल्ल हुं नादरी माय के ॥ २०
 ॥ १२ ॥ आणुं प्रमन्न नुक उपरें जी, नदिं जोपुं नुक आण ॥ कणि अनुकृज
 पिता जने जी, अठ नदंयो में जाण के ॥ २० ॥ १३ ॥ रोडो कहे म
 करे नुमें जी, चिंता जिमी मनमांदि ॥ पुनरपि पुत्र पिता वने जी,
 पेशा रपणीयें न्यांदि के ॥ २० ॥ १४ ॥ चटकी चिहु दिशि न्यांनी जी,
 वान हरे मे शोष ॥ बांजी कठयो आकजो जी, जाये ए नर शोष के
 ॥ २० ॥ १५ ॥ जनक हरे किरां मुणते जी, देवाहो मे जंत ॥ निज
 कर्म ननुसोदही जी, धनजावे मे संत के ॥ २० ॥ १६ ॥ राया नर
 ए तो यही जी, शिरां वे मे नर भीत ॥ रोडो कहे मे पूर्ये जी, एहो

इज नर दीठ के ॥ २० ॥ १७ ॥ रंगशूर मन चिंतवे जी, हा-हा वालक
 बुद्धि ॥ विण वांके विनता तजी जी, सबल थयो निर्बुद्धि के ॥ २० ॥
 १८ ॥ रोपशम्योमन मांहिलो जी, थयो रमणी अनुकूल ॥ चूक्यो सबल
 अजाणते जी, में कीधुं प्रतिकूल के ॥ २० ॥ १९ ॥ कृणमां नांग्यां
 रूपणां जी, जामिनी ने जरतार ॥ सुख विलसे संसारनां जी, सफल
 गणे अवतार के ॥ २० ॥ २० ॥ रुक्मिणी रहे कर जोडीने जी, जक्ति
 करे जरपूर ॥ तुं वत्स मारे वालहो जी, तुऊ अजा वला रहो दूर के ॥ २०
 ॥ २१ ॥ पण न करे वेसासडो जी, माय तणी जे शोक्य ॥ जो धीरुं हं
 एहने जी, तो फल पामुं रोक के ॥ २० ॥ २२ ॥ जोजन करवाने समे
 जी, वेसे जनकनी साथ ॥ पण मरती ते अहोनिशें जी, राखे सुतने
 हाथ के ॥ २० ॥ २३ ॥ चोथे खंमें त्रीशमी जी, ढाल कही मन रंग ॥ हवे
 श्रोता निसुणो तुम्हें जी, आगल बहु उठरंग के ॥ २० ॥ २४ ॥ ८८१ ॥ ३५
 ॥ दोहा ॥

॥ रोहक साथें एकदा, रंगशूर निज काम ॥ गयो उक्केणी नयरीयें,
 जोवा सरिखुं ठाम ॥ १ ॥ चोरासी चहुटां जलां, दीपे अति मंमाण ॥
 देवचुवन रलियामणां, निरखे तेह सुजाण ॥ २ ॥ द्विप्रातट वेसारीने,
 रोहक ने रंगशूर ॥ काज निमित्तें नयरमां, पहोता आनंदपूर ॥ ३ ॥ बुद्धि
 मंत रोहो तदा, नगरी तणुं स्वरूप ॥ आलेखे निज अकलथी, द्विप्रातटें
 अनूप ॥ ४ ॥ तस पोले थइ पोलीयो, ऊनो रहियो आप ॥ रेणुमयी
 नगरी जोइ, मनमां नहिं संताप ॥ ५ ॥

॥ ढाल एकत्रीशमी ॥

॥ आख्याननी देशी ॥ तिण अवसर नयरीनो नरपति, आव्यो
 अल्प परिवारें ॥ अथ उपर चढियो अजवेसर, जोतो ख्याल तेवारें
 ॥ १ ॥ नयरी अवंती जिहां आलेखी, तिहां दोडीने आवे ॥ तव रोहो
 आवीने आडो, नरपतिने समजावे ॥ २ ॥ हा हा किहां जाय ते ध
 सीयो, कां नगरीने जांजे ॥ वाल तुरंगम वहेजो पाठो, गइ करुं तुं लाजें
 ॥ ३ ॥ चित्त चमक्यो नरपति इम बोले, वाग तुरंगम केरी ॥ जो साहे
 तो निरखी जोउं, नयरि उक्केणि जजेरी ॥ ४ ॥ ते कहे हुं नहिं ताहरो
 चाकर, जा चाव्यो इण वाटें ॥ एतुं जे खाइजें जगमां, ते मीठाई माटें ॥ ५ ॥

सुखी थई नृपति एम पूने, थहो केहनो ए जायो ॥ सेवक कहे रंगशूर
 नटावो, तन सुत रोहक गावो ॥ ६ ॥ वाजे वेशें बहु बुद्धिमंतो, सकल
 कजानो जाना ॥ वात चुणी नरपति मनमांहे, पाभ्यो सवजी शाता
 ॥ ७ ॥ वेर थानी नरपति एम चिंते, बुद्धिपरीक्षा कीजे ॥ जो मन माने
 तो रोहकने, मंत्रीश्वरपद दीजे ॥ ८ ॥ कहेवाड्युं एक नर नंथाते, तिण
 गामें राजायें ॥ बहु इव्यें नुम एक इव्य केरो, करो प्राणाद उत्साहे ॥ ९ ॥
 गाम लांक मलियां सहु चेजां, वात विचार ए उंमो ॥ जो नवि कहेवा
 टीणुं उत्तर, मानगे नृपति नुंमो ॥ १० ॥ पण कोइने मति एह न
 सुजे, चिंतातुर थइ रदियां ॥ गेतो रोहक कहे जनकने, नृख न जाये
 सही था ॥ ११ ॥ कहे रंगशूर पडख वलन दमणां, विपमो नृप आदेश ॥
 थाय्यो ते तम चिंता महोटी, कहे रोहक कहां लेग ॥ १२ ॥ वात
 कही सहु ए तव बोव्यो, एहमांहे गुं गूहा ॥ कहां जाई नोजन काजे,
 वेता गुं दिखूहा ॥ १३ ॥ पूने कहीश हुं उत्तर एहनां, सहु नोजन करि
 थाय्या ॥ गंहापानें तिणें नृपनरने, सहु साखें समजाव्या ॥ १४ ॥ जा
 कतेजे तुक नरपति थ्रागल, महोटी शिला इहां एक ॥ तेंणें नृपयोग्य
 मंदिर निपजगे, इव्य मूको सुदियेक ॥ १५ ॥ सुणि दरख्यां सहुये नृप
 थ्रागल, जइ तिण सेवक जांग्यो ॥ कहे राजेश्वर एह प्रभुत्तर, तुजने
 केणें थ्राख्यां ॥ १६ ॥ दीधो उत्तर वाजक रोहें, वात तुणी नृप दरख्यां ॥
 जेइयो दीधो नेदयोहीज में, इण नानें ए परख्यां ॥ १७ ॥ एक दिवस
 नृप एर वस्तने, सेहजीने नंजजावे ॥ नाचवजां ए चारे ने पाणी,
 सन मन इवज प्रावे ॥ १८ ॥ रोहकने वली पूने नवजा, कहे नृकपास
 ए शोधो ॥ थपिक नजीकें न जाणो हूमें, जतन करी ए सायो ॥ १९ ॥ ने
 आदेश प्रमाण कण्यो, राव तणुं गीजाणो ॥ एक दिन एर कुरुंदने
 सुधी, कहे नृपति नपराणो ॥ २० ॥ एकला एहने तुक कगयो, कहे
 गंजक सहु परेजां ॥ एहना मुख थ्रागल थ्राणीने, मुको इवण नदेजां
 ॥ २१ ॥ नेम कीधुं प्रतिविधने निरुवी, कुंडे सुलग जाणो ॥ नृप
 थ्रावत प्रमाण कण्यो इम, सहुनां खंजव जांग्यो ॥ २२ ॥ नदनंतर नित
 राहट जरीने, मोरलिपुं नृप गामें ॥ जिण माने निल नेदिय माने, नेज वेहुं
 थ्रम थामें ॥ २३ ॥ कहे रोहक थ्राणीवा पूने, निज जीजे ए तांजी ॥ दम

धारीसे तेल समर्प्यो, सांजलि सद्दुयें तोली ॥ १४ ॥ ते तिम कीधुं
 कारिज सीधुं, राय तणुं दिज उद्धस्युं ॥ वली मगावे वाट वेलुनी, मूटक
 वंधन करशुं ॥ १५ ॥ रोहें कहाव्युं राजनुं कारिज, करवुं अमें शिरजोरें ॥
 पण प्रमाण जोवा एक जीरण, मोकलो कटको कोर ॥ १६ ॥ एम
 प्रत्युत्तर दीधो पुनरपि, जीरण गज मोकलियो ॥ कहेवाड्युं यत्नें जाल
 वजो, ए हाथी डुर्वलीयो ॥ १७ ॥ एहनी हकीगत मुऊ सोंपवी,
 पण मूठ नवि कहेवो ॥ पालंतां मूठ तव चिंते, लोक शो उत्तर देवो
 ॥ १८ ॥ रोहें कहायुं ए तुम हस्ती, न लिये जल ने चारो ॥ नयणें न
 जोवे नृप कहे शुं मृत, जन कहे तुम अवधारो ॥ १९ ॥ नृप कहेवायुं कूप
 मोकलजो, ग्राम तणो एक मीठो ॥ रोहो कहे पुर कूपने मूको, एणें
 मारग नवि दीठो ॥ २० ॥ नृप कहुं अग्नि विना मुऊ पायस, रांधीने
 तुमें आपो ॥ चूर्णक ऊपर पायस पाचवी, दीधुं टव्यो संतापो ॥ २१ ॥
 चोथे खंमें एकत्रीशमी ठालें, बुद्धि परीक्षा कीधी ॥ मति उपर हेमंकर जिन
 जी, एहवी देशना दीधी ॥ २२ ॥ सर्व गाथा ॥ १ ॥ श्लोक तथा गाथा ॥ २ ॥

॥ दोहा ॥

॥ बुद्धिमंत जाणी जलो, नृप तेडाव्यो पास ॥ विरुद्ध व्यवस्थायें
 आवजे, सद्दुको सुणे उद्धास ॥ १ ॥ स्नान करी मत आवजे, महेजो पण नावेश
 ॥ यान चढी नवि आववुं, पालो पण न चलेस ॥ २ ॥ ऊवाडे मत
 आवजे, नव शिर ढांक्युं जोय ॥ नवि रात नवि दिवसमां, विहु परकें
 एक न होय ॥ ३ ॥ नवि ठाया नवि आतपें, नवि खाली नवि नेट ॥ जी
 तुं बुद्धिवली अठे, एम मुऊ आवी नेट ॥ ४ ॥ गारुड ऊपर ते चढयो,
 नूतल धरतो पाय ॥ नाही चंदन लेपयुत, संध्या काल उत्साह ॥ ५ ॥ शुद्धि
 पडवे दिन चालणी, शिर परि धरी सुरंग ॥ माटी लेई हायमां, चाव्यो
 धरि उठरंग ॥ ६ ॥ नृपपपेद ते आवीने, करे नृपने परणाम ॥ नेटण
 मूक्युं आगलें, माटीमय अन्निराम ॥ ७ ॥

॥ ढाल वत्रीशमी ॥

॥ जामण कारिज ऊपने जी ॥ ए देशी ॥ नृप पृठे रोहाप्रत्यें जी, तें
 शुं मूक्युं रे एह ॥ ते कहे जगमां तावडी जी, ए माटी गुणगेह ॥ १ ॥
 सुणो नर बुद्धि तणां ए काम, बुद्धि जग माने धणुं जी, बुद्धियकी लहे

वाम ॥ सुणो ॥ १ ॥ आंकणी ॥ स्वागत पूठी नृप घणुं जी, दीधुं बहु
 मन्मान ॥ पर्यदमांहे प्रजंतीयो जी, नवलां बुद्धिनिदान ॥ सु० ॥ २ ॥ बहु
 रत्ना वसुधा कद्दी जी, तेहमां नहिं नंदेह ॥ नीतिगात्रमां एहवुं जी,
 वचन कणुं धरि नैह ॥ सु० ॥ ३ ॥ वतः ॥ दाने तपति ज्ञायें च, वि
 द्धाने विनये नये ॥ विहमयानेव कर्तव्यो, बहुग्न्या वसुंधरा ॥ १ ॥
 वाजिवारणलोहानां, काष्ठपापाणवात्ससाम् ॥ नागीपुरुपतोयाना, मंतरं मह
 दंतम् ॥ २ ॥ पूर्वदाल ॥ अंगरक्षक करी आपियो जी, रोहाने तिण
 रात ॥ नृप कपटं सूतो तदा जी, ते सूतो नादात ॥ सु० ॥ ४ ॥ पहेले
 पहांरें जगाडीयो जी, रोहो कंये रे केम ॥ चिंतुं हुं कहां कृण करे जी,
 बकरी लीमी एम ॥ सुणो ॥ ५ ॥ कहे रोहो मुज आगने जी, जां जाणी
 हांय वात ॥ कहे राजन इम जाणिये जी, एहने कांठे यात ॥ सु० ॥
 ॥ ६ ॥ वीजे पीपज पाननोजी, आदि अंत गुरुजाव ॥ नृप पूत्रे निर्णय
 कयां जी, ए वेहु सरस्वे जाय ॥ सु० ॥ ७ ॥ तिमहीज वीजा याममां
 जी, खिलनडी संदेह ॥ अंत ज्याम तनु पुष्टनो जी, नम पण कहे गुण
 रोह ॥ सु० ॥ ८ ॥ चोथे प्रहरं कंटके जी, वीथ्या बोले रे ताम ॥ पूहुं
 कहां मुज केटला जी, जनक नुम्हारा म्यामि ॥ सु० ॥ ९ ॥ रे पापी हुं वा
 लीयो जी, केना जनक द्यंत ॥ सत्य कहुं हुं ताहरे जी, पंच जनक
 रे संत ॥ सु० ॥ १० ॥ ते केला कहे राजवी जी, धनद गजक अलि हांय ॥ कहुं
 हुं मानंग पांचमो जी, एहमां जूठ न कोय ॥ सु० ॥ ११ ॥ कहे नृप
 रे केम जाणीया जी, मुज गुणधी गजिंद ॥ ने गुण केला नव कहे जी,
 रोहो धरि आनंद ॥ सु० ॥ १२ ॥ परजा पाले नृप सही जी, धनद यणे
 धनदान ॥ गजक गट धनने करे जी, कंटक अजिनुं निदान ॥ सु० ॥ १३ ॥ गट
 कोष करवायकी जी, कहुं चंमाल नरेज ॥ निभय करवा मारने जी, आगी
 पूठे महीज ॥ सु० ॥ १४ ॥ माय कहे नारया पत्री जी, नम काले
 शय दीव ॥ राजक अलि सुणि नमजीयो जी, ए बुद्धिमंत गच्छि ॥ सु०
 ॥ १५ ॥ राधे लुम्मान्यो यणुं जी, जनमंत्रीमति मुन्य ॥ तेदने कीयो
 उदधी जी, राम्यां इगपरें मुज ॥ सु० ॥ १६ ॥ बुद्धि पहेली मारम
 कयां जी, गंडवनां दधान ॥ चोथे लुरें बरीगमी जी, दाल सुणो
 गहुं रोह ॥ सु० ॥ १७ ॥ ॥ १७ ॥ ॥ १७ ॥ ॥ १७ ॥ ॥ १७ ॥ ॥ १७ ॥

॥ दोहा ॥

॥ बीजी वैनयिकी कही, गुरुविनयें जे हुंत ॥ थोडी पण दीसे घणी,
गुरु उपकार महंत ॥ १ ॥ यतः ॥ शुचिर्नूपयण ॥ विनय वहुं कारण
कहुं, विद्यानें अधिकार ॥ शोचे विनयथकी जण्युं, शास्त्रमांहे ए सार
॥ २ ॥ यतः ॥ पुस्तकं प्रत्ययाधीतं, नाधीतं गुरुसन्निधौ ॥ सनामध्ये न
शोचंते, जारगर्जां स्व स्त्रियः ॥ १ ॥ यदुक्तमागमे ॥ विणयाउ नाणं हि,
नाणाउदंसणं दंसणाउ चरणं ॥ चरणेहिंतो मोको, मोके सुखं अणावाहं ॥ २ ॥
करिणीपदगायक तणा, ठात्र तणो उपदेश ॥ ए बुद्धि ऊपर जाणजो,
शास्त्रथकी सुविज्ञेप ॥ ३ ॥ घट चित्रादि क्रिया जली, शिल्पी तणुं विन्नाण ॥
कर्मथकी जे ऊपजे, सा कार्मिकी वखाण ॥ ४ ॥ सर्ववस्तुकृत नि
श्रया, जे परिणाम वज्ञेण ॥ बुद्धि होय पारिणामिकी, वयरस्वामी परें
जेण ॥ ५ ॥ सघली बुद्धि ऊपर कह्या, आगममां संबंध ॥ ग्रंथ तणुं
गौरव हुवे, न कह्या तस परबंध ॥ ६ ॥ मति आव्ये सहचारियुं,
प्रगटे श्रुत घटमांहि ॥ वस्तु त्रैकालिक जे जणे, वेदीजें जगमांहि
॥ ७ ॥ काल असंख्य तणा लहे, अतीत अनागत जाव ॥ अवधि सहित चिहुं
दिशि हुवे, अवधिनाण सजाव ॥ ८ ॥ जाव मनोगत जाणीयें, संज्ञी तणा
अज्ञेप ॥ जिनें मनःपर्यव ते कहुं, चोथुं ज्ञानविज्ञेप ॥ ९ ॥ जासक
लोकालोकनुं, निरावरण निरुपाधि ॥ प्रगटे केवल पांचमुं, विजसे सहज
समाधि ॥ १० ॥

॥ ढाल तेत्रीशमी ॥

॥ राम जणे हरि जठीयें ॥ ए देशी ॥ हेमंकर जिनजी कहे, सुण
सहस्रायुध सार रे ॥ ज्ञान अवधिथी रे जाणिया, वज्रायुधें अवतार रे ॥
तहत्ति करी तेणिवार रे, चरण नमे सुखकार रे, वज्रायुध हितकार रे,
जवजल पार उतार रे ॥ १ ॥ सहज सुंहालो रे राजवी ॥ ए आंकणी ॥
प्रभु वांटी घरे आवीयो, वज्रायुध नरराय रे ॥ पट् खंम केगे रे राजियो,
ठवे सुतने निज ठाय रे ॥ सहस्रायुध सुखदाय रे, पोतें थयो निर्माय
रे, समता साथें सहाय रे, संयम लेवा उत्साह रे ॥ सहजण ॥ २ ॥ चार स
हस राणी जली, राजन चार हजार रे ॥ साथें शूरा रे नीसखा, धन्य
तेहना अवतार रे ॥ जव ए जाण्यो असार रे, सातशें पुत्र परिवार रे,

आब्या वनह मजार रे, देव करे जयकार रे ॥ स० ॥ ३ ॥ प्रभुचरणे कर
 जोडिने, कहे वज्रायुध नूप रे ॥ तारो त्रिभुवन तातजी, तहारुं अकल
 स्वरूप रे ॥ पडिया नवजल कूप रे, तुं अवलंबनरूप रे ॥ केवलज्ञान अनूप
 रे, टाव्यो मोह विरूप रे ॥ स० ॥ ४ ॥ ले दीक्षा प्रभुजी कने, वज्रायुध
 नरदेव रे ॥ राज्य तजी समता नजी, अथा ततक्षण धर्मदेव रे ॥ सारे
 सुर नर सेव रे, नवि राखे अहमेव रे, साची जेहनी टेव रे, अहोनिश
 चरणनी हेव रे ॥ स० ॥ ५ ॥ शम दमवंता रे साधु जी, विचरे मही
 ततकाल रे ॥ ऊग्र विहारने आदरी, पाले मुनि उजमाल रे ॥ षट कायना
 प्रतिपाल रे, विषयथकी मन वाल रे, मदने मीण ज्युं गाल रे, वयण न
 नांखे आल रे ॥ स० ॥ ६ ॥ एक दिन मुनिवर आवीया, वज्रायुध
 रुपिराय रे ॥ सिद्धगिरिनी हो ऊपरें, रहिया काउस्सगग ठाय रे ॥ वज्र
 परें दृढकाय रे, टाव्या डुरित अपाय रे, एकाकी असहाय रे, ध्यान धर्म
 चित्त लाय रे ॥ स० ॥ ७ ॥ एक वरस पडिमा तणो, अजिग्रह मनमांहे
 धार रे ॥ मेरु शिखर जेम स्थिर रह्या, वज्रमुनि गुणधार रे ॥ सूधा श्रीअ
 एगार रे, वंडूं हुं वारो वार रे, धन्य तेहनो जमवार रे, गुणमणिरयण नंमार
 रे ॥ स० ॥ ८ ॥ एहवे हयग्रीव सुत हुंता, मणिकुंज मणिध्वज नाम रे ॥ बहु नव
 नमता रे ते हुवा, सुर अनुपम तनु धाम रे ॥ तिण दीगो मुनि ताम रे,
 रह्यो निश्चल एक ठाम रे, जाग्युं वैर निकाम रे, करे उपसर्ग उहाम रे ॥
 स० ॥ ९ ॥ तीखी दाढे फाडता, मुख नीपण विकराल रे ॥ एक सिंह
 दूजो रे वाघलो, अइ आब्या ततकाल रे ॥ पडिया मुनिने ख्याल रे, दंतें
 उखेडे खाल रे, मुनि चिंते उजमाल रे, रखे जीव थाये सुकुमाल रे ॥
 स० ॥ १० ॥ मुनिवर धारा हो ध्याननी, तिम तिम वाघे रे जोर रे ॥
 हाथी अइ चली आविया, साथें विदु करे सोर रे ॥ गुंदे दंतनी कोर रे,
 जीव तुं थाजे कठोर रे, डुःख सह्यां नरकें घोर रे, कीधां कर्म ए दोर
 रे ॥ स० ॥ ११ ॥ अथा वली साप ने सापिणी, फण मांमी फूफूआड रे ॥
 आवी समीपें हो साधुने, पग वींटे जिम जाड रे ॥ कड कड नांजे हो हाड
 रे, मुनि रह्या ध्यानशुं मांम रे, नाखे कर्म उपाड रे, पूरे मनहरुहाड
 रे ॥ स० ॥ १२ ॥ धन्य वज्रायुध साधुजी, नहिं मन रागनो अंश
 रे ॥ दूर कखो तिम क्रोधने, दीपायो निजवंश रे ॥ सकल मुनि अथ

तंस रे, गुण उज्ज्वल जिम हंस रे, नहिं प्रसादनो अंश रे, करे सद्गु जग प्रशंस रे ॥ स० ॥ १३ ॥ राहस ने वली राहसी, रूप करी अति चंम रे ॥ पासें आवी हो साधुने, वीवरावे परचंम रे ॥ रोप चढ्या द्योय लंछ रे, साधु चिंते घमंम रे, निमित्त मढ्युं उदंम रे, कर्म कखुं शत खंम रे, ॥ स० ॥ १४ ॥ एहवे आवी तिलोत्तमा, रंजा द्योय रसाल रे ॥ इंइ तणी रे इंशाणीयो, रूपें जाकजमाल रे ॥ वज्जायुध मुनि जाल रे, कर जोडी निज जाल रे, वंदन काज विशाल रे, आवी ते ततकाल रे ॥ स० ॥ १५ ॥ वीहिना देवी रे देखीने, नासण लाग्या रे ताम रे ॥ तरज्या देवीयें अति घणा, कां रे डुष्ट अलाम रे ॥ कीधुं तुमें कांइ काम रे, खोई निज नव माम रे, जाशो डुर्गति ठाम रे, हेतां जाउतुम नाम रे ॥ स० ॥ १६ ॥ वांदी मुनिवर पावला, ऊची जोडीने हाथ रे ॥ जय वज्जायुध मुनीश्वरा, शमतानारी नाथ रे ॥ क्रोध कखो जिण मात रे, साचा शिवपुर साथ रे, मद कीधो तुमें हाथ रे, तरिया नवजल पाथ रे ॥ स० ॥ १७ ॥ मुनिगुण गाये रे मानिनी, नाटक करे बहु रंग रे, वीणा वंश ने वांसली, वाये बहु उठरंग रे ॥ वालीने निज अंग रे, मुनि मुख जोती सुचंग रे, वज्जायुधजी निःसंग रे, रहिया ध्यान अचंग रे ॥ स० ॥ १८ ॥ मुनि स्तवना करि वंदीने, समकित्त निर्मल कीध रे ॥ ते देवी निजस्थानकें, पहोती कारज सिद्ध रे ॥ वज्जायुध सुप्रसिद्ध रे, त्रिहु जुवनें यश लीध रे, अनुजवरस बहु पीध रे, दान अचय जग दीध रे ॥ स० ॥ १९ ॥ एक वरस पडिमा रही, पारी विचरे मुनीश रे ॥ श्रीवज्जायुध साधु जी, नहिं जेहने मन रीश रे ॥ दिन दिन चढती जगीश रे, सेवे सुर नर ईश रे, साधु तणा अहोनिश रे, गुण धारे सत्तवीश रे ॥ स० ॥ २० ॥ चोथे खंम ते त्रीशमी, ढाल कही अनिराम रे ॥ धन्य मुनि जे एहवा, तेहनां सिऊजे काम रे ॥ नित्य उठी लीजें नाम रे, करो प्रजातें प्रणाम रे, शांतिप्रभु गुणगान रे, हयें करे मुनि राम रे ॥ स० ॥ २१ ॥ सर्व गाथा ॥ १७४ ॥ श्लोक ॥ ३९ ॥

॥ दोहा ॥

॥ श्री केमंकर जिनवरु, लक्ष चोराशी मेल ॥ पूरव पाली आउखुं, सिद्ध थया गुणकेलि ॥ १ ॥ सिद्ध बुद्ध परमात्मा, पारंगत परमिष्ठ ॥ परमज्योति पावन पुरुष, प्रभु प्रणमं ते इच्छ ॥ २ ॥ चिदानंद चेतनध

णी, एम अनेक जस नाम ॥ प्रह ऊठी नित्य समरतां, सीजे वांठित काम
॥ ३ ॥ पिहिताश्रव नामें जला, ते प्रचुना गणधार ॥ एकदिन आवि
समोसद्या, चरण करण गुणधार ॥ ४ ॥

॥ ढाल चोत्रीशमी ॥

॥ आज हुं तो अलजइ रे वहेनी ॥ ए देशी ॥ श्रीसहस्रायुध रे
स्वामी, तुम्हने अरजकरुं शिर नामी ॥ श्री स० ॥ ए आंकणी ॥ वनपा
लक उजाणो आवी, दीधी हर्षे वधामणी लावी ॥ श्री स० ॥ १ ॥
आज मुऊ वनमां रे आव्या, श्रीपिहिताश्रव गणधर जाव्या ॥ श्री० ॥ २ ॥
उपशम रसना रे दरिया, मुनि षट्काय तणा पीयरीया ॥ श्री० ॥ ३ ॥
जोतां मुऊ मन रे वसीया, सांजलि जूरमणीना रसीया ॥ श्री० ॥ ४ ॥
राज्य सहु ठे रे सारुं, पण ए मुनिनुं दरिसण प्यारुं ॥ श्री० ॥ ५ ॥
वात सुणी सहस्रायुध राया, करवा निर्मल आपणी काया ॥ श्री० ॥ ६ ॥
वहु जन सार्थे रे आया, वांदण श्री गणधरना पाया ॥ श्री० ॥ ७ ॥
तीन प्रह्णिण रे देवे, वांदी वेसे मुानपद सेवे ॥ श्री० ॥ ८ ॥ कहे गण
धर गुण धरीयें अंगें, परहरीयें परसाद असंगें ॥ श्री० ॥ ९ ॥ पंच ने
आतनी संख्यायें कहीयें, हेमंकर जिनवाणी सहहीयें ॥ श्री० ॥ १० ॥ एहने
सेव्ये बहु यया डुःखीया, जिणें ए सूक्या ते सहु सुखीया ॥ श्री० ॥ ११ ॥
॥ यतः ॥ प्राणीनामंतरस्थाधी, नह्यालस्य समोरिपुः ॥ नास्त्युद्यमसमं
मित्रं, यं कृत्वानावसीदति ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ रहे अनादिनो विपयनी वगमां, ते
हनुं कारण कामिनी जगमां ॥ श्री० ॥ १२ ॥ यडुकं ॥ स्मितेन जावे
न च लङ्गया जिया, पराङ्मुखैरर्थकटाह्वीहितैः ॥ वचोत्तिरीर्ष्याकल
हेन जीलया, समस्तजावैः खलु वंधनं स्त्रियः ॥ २ ॥ सत्यं जना वचिम
न पक्षपाता, ह्योकेषु सर्वेष्वपि तथ्यमेतत् ॥ नान्यन्मनोहारि नितंविनी
न्यो, डुःखैकहेतुर्न च कश्चिदन्यः ॥ ३ ॥ पूर्वढाल ॥ इणपरें निसुणी
गणधर वाणी, सहस्रायुध कहे जोडी पाणी ॥ श्री० ॥ १३ ॥ तुं मुऊ
तारक रे मलिया, आजयी महारो दाहाडो वलियो ॥ श्री० ॥ १४ ॥
प्रचु मुऊने कीजे हवे चेलो, वाघे साहरो पुण्यनो वेलो ॥ श्री० ॥ १५ ॥
अनुक्रमें तात साधुने मलीया, मनना सयल मनोरथ फलीया ॥ श्री०

॥ १६ ॥ शतवज सुतने राज्य जजावी, ले सहस्रायुध संयम जावी ॥ श्री०
 ॥ १७ ॥ अइ गीतारथ विचरे वसुधा, मुखथी बोले वाणी न मुधा ॥ श्री०
 ॥ १८ ॥ श्रीवज्रायुध साथें विचरे, संवेगरंगमां हैयडुं पसरे ॥ श्री०
 ॥ १९ ॥ करता विविध तपस्या सारी, प्रतिबोधंता बहु नर नारी ॥
 श्री० ॥ २० ॥ आव्या नगर ईपत्प्राग्जार ॥ मुनिवर करता दोय विहार
 ॥ श्री० ॥ २१ ॥ चोथे खंमं चोत्रीशमी ढालें, राम कहे धन्य जे एम पाले
 ॥ श्री० ॥ २२ ॥ सर्वगाथा ॥ १००० ॥ श्लोक तथा गाथा मलीने ॥ ४३ ॥
 ॥ अथ कलश ॥

॥ राग धन्याश्री ॥ धन धन ए मुनिवर वड जागी ॥ श्रीवज्रायुध ने
 सहस्रायुध, शुद्ध किरिया गुणरागी ॥ ध० ॥ १ ॥ चोरासी लख योनि ख
 मावी, सुमति दशा मति जागी ॥ दुष्कृत पाप आलोई सघलां, चउशरणां
 करे त्यागी ॥ ध० ॥ २ ॥ अणसण पादपोपगम आराधे, मुनिवर दोय
 वैरागी ॥ अष्टम जव एम योग विलासी, कीर्ति जइ जग वागी ॥ ध० ॥ ३ ॥ काल
 करी नवमे त्रैवेयकें, रुद्धि बहुली कर लागी ॥ एकत्रीश सागर आयु उपना,
 वेहु थया सोजागी ॥ ध० ॥ ४ ॥ सुख विलसे अति सुंदर वांछित, जव नवमे
 अनुपंगी ॥ इव्य जिनेश्वरके गुण गावो, दरिसण गुणके प्रसंगी ॥ ध०
 ॥ ५ ॥ ते प्रभुके गुणराशिकी रचना, रास कीयो में उमंगी ॥ चोथो
 खंम संपूरण कीनो, सुणजो सहु एकरंगी ॥ ध० ॥ ६ ॥ मंगलमाला
 जाकजमाला, सुणतां होवे सुचंगी ॥ श्री सुमतिविजयगुरु चरण प
 साथें, कीर्ति कमला अजंगी ॥ ध० ॥ ७ ॥ सर्वगाथा ॥ १००७ ॥ श्लोक
 तथा गाथा ॥ ४२ ॥ प्रथम खंम गाथा ॥ ४३७ ॥ द्वितीय खंमगाथा
 ॥ ८२८ ॥ तृतीयखंम गाथा ॥ ८३४ ॥ चतुर्थखंम गाथा ॥ १००७ ॥
 चारे खंमनी गाथा ॥ ३१०६ ॥ चारे खंमना प्रास्ताविक श्लोक तथा गाथा
 ॥ ११८ ॥ खंम चारनी ढाल ॥ ११३ ॥ इति श्रीशांतिनाथप्रबंधे रासबंधे
 द्वादशजवनिवंधे आम्रनिपात्याद्यनेकाविमृश्यकारिनृपचरित्रानुविद्धपुण्यसा
 राधिकारसंबंधोऽष्टमनवमजववर्णननामा चतुर्थः खंमः संपूर्णः ॥ ४ ॥

॥ अथ पंचमखंरुस्य प्रारंभोऽयम् ॥

॥ दोहा ॥

॥ विहरमान जिन वंदियें, सीमंधर जगवंत ॥ युगंधर बीजा नमुं,
अतुली बल अरिहंत ॥ १ ॥ त्रीजा बाहु जिणंदने, हुं नित्य करुं प्रणाम ॥
श्री सुजात स्वयंप्रज बली, रूपनानन गुणधाम ॥ २ ॥ अनंतवीर्य सूरि
प्रनो, श्री विशाल जिनराज ॥ वज्रधर चंडानन नमो, चंडवाहु शिवकाज
॥ ३ ॥ श्री जुजंग ईश्वर विभु, नेमिप्रज वीरसेन ॥ महानड देवजस
जयो, अजितवीर्य गुजसेण ॥ ४ ॥ ए बीजे वंदी विभु, रचशुं पंचम खंरु ॥
कान देइ श्रोता सुणो, ए संबंध अखंरु ॥ ५ ॥ नव दशमो श्री शांतिनो,
सुणतां मंगलमाल ॥ निडा विकथा परहरी, निसुणो थइ उजमाल ॥ ६ ॥
जिनगुण सांजलतां थकां, जन्म होथ सुपवित्र ॥ बोधिबीज निर्मल करे,
मुनिजन कहे महंत ॥ ७ ॥

॥ ढाल पहेली ॥

॥ माली केरे वागमां, दोय नारिंग पक्के लो ॥ दोण ॥ ए देशी ॥ जंबुपूर्व
विदेहमां, पुष्कलावइ विजया लो ॥ अहो पुष्कलावइ विजया लो ॥ नयरी
तिहां पुंरिगिणी, दीपे अति विजया लो ॥ अहोण ॥ दीण ॥ १ ॥ लाठ वसे
वासो जिहां, सुख संपत्ति सघली लो ॥ अण ॥ सुण ॥ चोराशी वाजारनी, दीपे
कृति सवली लो ॥ अण ॥ दीण ॥ २ ॥ तिहां राजे राजेश्वरु, घनरथजी नामें लो
॥ अण ॥ घण ॥ अरिहंत पदवीयें उपन्या, सुर नर शिर नामे लो ॥ अण ॥ सुण ॥
॥ ३ ॥ अडहिय सहस लक्षण धरे, अंगें अति वारु लो ॥ अण ॥ अण ॥ अंतर
लक्षण अति घणां, दीपे दीदारु रे लो ॥ अण ॥ दीण ॥ ४ ॥ तस गृहिणी दोय
सुंदरी, प्रीतिमती पहेली लो ॥ अण ॥ प्रीण ॥ बीजी मनोहरी मानिनी,
पियु नेहें घहेली लो ॥ अण ॥ पिण ॥ ५ ॥ हवे वज्रायुधजी चवी, प्रीतिमती
नी कूखें लो ॥ अण ॥ प्रीण ॥ मेघ सुपनसूचित सही, अवतरिया सखूखें
लो ॥ अण ॥ अण ॥ ६ ॥ रथसुपनें सूचित नलो, सहस्रायुध आयो लो ॥ अण ॥
सण ॥ मनोहरी उवरमां उपन्यो, पुण्यवंत सुहायो लो ॥ अण ॥ पुण ॥ ७ ॥
पूरण कालें पुत्र दो, दोय राणीयें जाया लो ॥ अण ॥ दोण ॥ उत्तम लक्षणें
उपता, कंचनवर्णकाया लो ॥ अण ॥ कण ॥ ८ ॥ माचतणां मन मोहता,

रूपें रंगीला लो ॥अ०॥रू०॥ मुख पूरण शारदशशी, रतिकांत ठवीला लो
 ॥अ०॥र०॥ए॥ नाम धरे उत्सव करी, "मेघरथ" "दृढरथजी" लो॥अ०॥मे०॥
 सज्जन सद्गुने वालहा, टाले अनरथ जी लो॥अ०॥टा०॥१०॥ गिरि चंपक
 परें वाधता, पंच धावें पालीता लो॥अ०॥पं०॥ योग्य कला अन्यासने, सुख
 मां लालिता लो ॥अ०॥सु०॥११॥ अध्यापक पासें वने, जणवाने मूक्या
 लो ॥अ०॥न०॥ सकल कला शीखे तिहां, कोइ वात न चूक्या लो ॥अ०
 को० ॥ १२ ॥ पुरुष तणी व्होंतेर कला, रूडी अन्यासें लो ॥ अ०॥रू०॥
 लिखित गणित आलेख्यनी, नाट्य गीत सरासें लो ॥अ०॥ना०॥१३॥ वादि
 त स्वर तिम द्यूत ए, अन्न पान विधि जाणो लो ॥अ०॥अ०॥ शयन आचू
 पणविधि जली, आर्या गाथा वखाणो लो ॥अ०॥आ०॥१४॥ गीति प्रहे
 लिका श्लोक ए, गंधयुक्तिने कहियें लो ॥अ०॥गं०॥ तरुणीप्रसाधन ल
 क्णें, नर स्त्री हय लहियें लो ॥अ०॥न० ॥ १५ ॥ गजलक्षण वावीशमी,
 गोलक्षण रूडां लो ॥ अ० ॥गो०॥ ताम्रचूड लक्षण जलां, मीढनां नहिं
 कूडां लो ॥अ०॥ मी०॥१६॥ चक्र ठत्र मणि दंमना, काकिनी अति केरा
 लो ॥ अ० ॥ का० ॥ चर्मलक्षण ए ग्रंथमां, दाख्यां ठे जलेरां लो ॥ अ०
 दा०॥ १७ ॥ चंड सूरज ग्रह राहुना, लहे चरित्र विचारा लो ॥ अ० ॥
 ल०॥ सूपकार विद्याकार वे, मंत्रगत निर्धार लो ॥अ०॥मं०॥१८॥ रहगत
 व्यूह प्रतिव्यूहने, लहे चार प्रतिचारा लो ॥ अ० ॥ल०॥ परिमाण स्कंधा
 चोरनुं, पुर वास्तु स्कंधावारा लो ॥अ०॥पु०॥१९॥ निवेश वली ए त्रण्यना,
 हय गजनी शिद्धा लो ॥अ०॥ ह० ॥ तत्त्ववाद नयशास्त्रमां, धनुर्वेद दक्षा
 लो ॥अ०॥ध०॥२०॥ तेम मणि सोवननी कला, धातुर्वादे माह्या लो ॥अ०
 धा० ॥ बाहुदंम दृष्टि मुष्टिने, युद्धें जाये न वाह्या लो ॥अ०॥ यु० ॥२१॥
 नियुद्ध वली वाग्युद्धमां, वेदु वांधव कुशला लो ॥ अ० ॥ वे० ॥ सर्प वहि
 जल स्थंननं, अंतर केणें न कल्या लो ॥अ० ॥अं०॥२२॥ पत्रनेद वेदक
 तणी. कृपि वाणिज्यकर्मनी लो ॥अ०॥कृ०॥ वली पलितनाशनकरी, कला
 कारक शर्मनी लो ॥अ०॥क०॥ २३ ॥ अथवा पद्मीरुत तणी, व्होंतेरमी
 कहियें लो ॥अ०॥व०॥ कला व्होंतेर नर तणी, आगमथी ए लहियें लो
 ॥अ०॥आ०॥२४॥ जाण थया एहना घणुं, यौवन वय पाया लो ॥अ०॥
 यौ०॥ मनमोहन मनवालहा, सद्गुनेमन जाया लो ॥अ०॥स०॥२५॥ सुमंदिर

पुरनो धणी, निहृत्तारि नरिंदनी लो ॥ अ० ॥ नि० ॥ प्रियमित्रा ने मनोरमा,
 मेघरथ वखा सुकनी लो ॥ अ० ॥ मे० ॥ १६ ॥ तेहज नृपनी लघु कनी, दृढर
 थनें आपी लो ॥ अ० ॥ दृ० ॥ सुमतिनामें सुखदायिनी, रतिरसनी वापी लो
 ॥ अ० ॥ २० ॥ १७ ॥ सुख विलसत संसारनां, मेघरथजीनी जाया लो ॥
 अ० ॥ मे० ॥ सुत नंदिपेण मेघसेन ठे, प्रसव्या सुखदाया लो ॥ अ० ॥ प्र० ॥
 १८ ॥ दृढरथने एक सुत थयो, रथसेन विचारी लो ॥ अ० ॥ २० ॥ ते
 त्रणे नणे एकठा, बुद्धि सद्गुनी सारी लो ॥ अ० ॥ बु० ॥ १९ ॥ सुख संपत्ति वि
 लसे घणी, अहो पुण्यनी लीला लो ॥ अ० ॥ पु० ॥ नेह घणो बहु बंधवने,
 रहे अहोनिश चेला लो ॥ अ० ॥ २० ॥ २० ॥ पहेली हो पंचम खंरुनी, ढाल
 रूडी वखाणी लो ॥ अ० ॥ ढा० ॥ श्री सुमतिसुगुरु सेवक कहे, धन्य एह
 कमाणी लो ॥ अ० ॥ ध० ॥ ३१ ॥ सर्वगाथा ॥ ३० ॥

॥ दोहा ॥

॥ घनरथ राजा एकदा, पुत्र पौत्र परिवार ॥ तखतें वेठा आवीने,
 सुंदर शोना सार ॥ १ ॥ मेघरथ जांखे तिण समे, निज पुत्रोने आम ॥
 वत्स कला मुऊ आगलें, परकासो गुणधाम ॥ २ ॥ प्रश्नोत्तर पूठो तुमो,
 कहो तस उत्तर सार ॥ जनकवचन सुणी वोलियो, लघु बंधव तेणि
 वार ॥ ३ ॥ तद्यथा ॥ श्लोक ॥ कथं संवोधयते ब्रह्मा, दानार्थे धातुरत्र कः ॥ कः
 पर्यायश्च वाक्यानां, कोवाऽलंकरणं सताम् ॥ १ ॥ ज्येष्ठ कहे सुण वांधवा, एहनो
 उत्तर खास ॥ “ कलान्यास ” इति वली, कहे लघु बंधव उह्वास ॥ ४ ॥
 श्लोक ॥ द्वितीय प्रश्नः ॥ दंमनीतिः कथं पूर्वे, महाखेदे क उच्यते ॥ कोऽवलानां
 गतिर्लोक, पालः कः पचमोमतः ॥ २ ॥ ज्येष्ठ कहे ए शुच कहुं, “महिपति” एवुं
 नाम ॥ हवे हुं पूठुं ते कहो, मेघसेन अनिराम ॥ ५ ॥ तद्यथा तृतीयप्रश्नः ॥
 श्लोक ॥ किमाशीर्वचनं राज्ञां, का शंनोस्तनुमंमनं ॥ कः कर्त्ता सुख दुःखानां,
 पात्रं च मुकृतस्य किम् ॥ ३ ॥ ए उत्तर देवा नणी, अणजाण्या सद्गु कोय ॥
 मेघरथजी तव कहे, “जीवरक्षाविधि” जोय ॥ ६ ॥ पुनरपि मेघरथेनोक्तं ॥
 श्लोक ॥ सुखदा का शशांकस्य, मध्ये च लुवनस्य कः ॥ निपेधवाचकः कोवा,
 का संसारविनाशिनी ॥ ४ ॥ कहे घनरथजी “जावना”, पद चिहुं प्रश्नं
 थाय ॥ उत्तर एवो सांनजी, सद्गु हरख्या मनमांहि ॥ ७ ॥ दृण विनोद एहवो
 कस्यो, प्रश्नोत्तरनो सार ॥ इण अवसर जे नीपनुं, ते निमुणो नर नारि ॥ ८ ॥

॥ ढाल बीजी ॥

॥ चूडले जोवन जल रह्यो ॥ ए देशी ॥ हो राजन ॥ गणिका एक आवी
 तिहां, कुर्कुट लेई एक ॥ राजन ॥ हारे न महारो कूकडो, कोइ आगल सुवि
 वेक ॥ राजन ॥ १ ॥ वात सुणो वारू परें, न करो कोइ गुमान ॥ रा० ॥
 जो कोइ गर्व करे मनें, तो आणो कूकड इण ठाण ॥ रा० ॥ वा० ॥ २ ॥
 हो राजन ॥ जो हारे मुज कूकडो, तो आपुं धन लह् ॥ रा० ॥ जो कोइ
 हारे अवरनो, तो लह् लहुं प्रत्यह् ॥ रा० ॥ वा० ॥ ३ ॥ हो० ॥ गर्व
 घणो करती तदा, निसुणी मनोरमा नारी ॥ रा० ॥ नृप दुकमथी मोक
 ल्यो, निज कुर्कुट तेण वार ॥ रा० ॥ वा० ॥ ४ ॥ हो० ॥ जूजण ला
 ग्या कूकडा, नृप आगल दरवार ॥ रा० ॥ उलट पालट थाये वने, चंचू चरण
 प्रहार ॥ रा० ॥ वा० ॥ ५ ॥ हो० ॥ अरुण नयण ततह्ण थयां, आथडिया
 जेम योध ॥ रा० ॥ वाच्या पण न रहे केमें, वैरथकी डुर्वोध ॥ रा० ॥
 वा० ॥ ६ ॥ हो० ॥ त्रिहु ज्ञाने शोजित प्रचु, श्रीधनरथ राजान ॥ रा० ॥
 कहे मेघरथ कुंवर जणी, सुण वत्स सुगुण निधान ॥ रा० ॥ वा० ॥ ७ ॥
 हो० ॥ ए वे पंखीमांहिलो, नहिं हारे कोइ एक ॥ रा० ॥ कहे मेघरथ
 कारण किस्थुं, कहे नृप वैर ए ठेक ॥ रा० ॥ वा० ॥ ८ ॥ हो० ॥ ऐ
 रवतानिध क्षेत्रमां, रत्नपुरें द्योय सार ॥ रा० ॥ धनद सुदत्त नामें वसे,
 वणिक करे व्यापार ॥ रा० ॥ वा० ॥ ए ॥ हो० ॥ मित्राई वेहुने
 वनी, पण घरनामसकीन ॥ रा० ॥ गंत्रीयें जोडी बलदने, जाय पर
 गामें दीन ॥ रा० ॥ वा० ॥ १० ॥ हो० ॥ नार नरे अतिही घणो, चूख
 तृपा वली तेम ॥ रा० ॥ बलद विचारा गुं करे, सहे निज कृतने एम ॥
 रा० ॥ वा० ॥ ११ ॥ हो० ॥ मिथ्यात्वें मोह्या घणुं, कूड तोलां ने मान ॥
 रा० ॥ करे अन्याय उपाज्युं, धन मेळ्युं ए निदान ॥ रा० ॥ वा० ॥
 १२ ॥ हो० ॥ एक दिवस धन कारणें, वढीया ते वेहु जोर ॥ रा० ॥
 अन्योन्यें एकेकने, दीध प्रहार कठोर ॥ रा० ॥ वा० ॥ १३ ॥ हो० ॥
 आरतध्यानें ते मुआ, धन अनरथ करनार ॥ रा० ॥ नेह तोडावे पलक
 में, दुवे प्रत्यह् संहार ॥ रा० ॥ वा० ॥ १४ ॥ हो० ॥ नरचव हारी ते
 दुवा, स्वर्णकुलाने कूज ॥ रा० ॥ द्योय हस्ती सोहामणा, लोन बडो
 प्रतिकूल ॥ रा० ॥ वा० ॥ १५ ॥ हो० ॥ कंचनकजश पहेलो थयो,

ताम्रकलश अग्निधान ॥ रा० ॥ बीजो वेदु निज युद्धना, यथा स्वामी
 बलवान् ॥ रा० ॥ वा० ॥ १६ ॥ हो० ॥ एक दिवस तटिनीतटें, अटता
 द्योय अमल ॥ रा० ॥ पडिया युद्धनी लालचें, नडिया ते जेम मल ॥
 रा० ॥ वा० ॥ १७ ॥ हो० ॥ पूरववैरें प्रेरिया, रोप चढ्या मदवंत ॥
 रा० ॥ वींधाणा दंतोशलें, वेदु ते पाम्या अंत ॥ रा० ॥ वा० ॥ १८ ॥
 हो० ॥ नयरी अयोध्या ऊपन्या, द्योय सैरन उदंम ॥ रा० ॥ नांदीमित्रने
 मंदिरें, शिंगाला परचंम ॥ रा० ॥ वा० ॥ १९ ॥ हो० ॥ राजकुमरें ते
 संग्रह्या, वेदु लडाव्या ताम ॥ रा० ॥ मरण लह्युं रोपें नखां, जोजो वैरनां का
 म ॥ रा० ॥ वा० ॥ २० ॥ हो० ॥ तेहिज नयरमां ऊपन्या, द्योय घेटा
 दृढकाय ॥ रा० ॥ नडता ते शृंगाग्रशुं, निधन लह्या तिण ठाय ॥ रा० ॥
 वा० ॥ २१ ॥ हो० ॥ कुर्कुट ए वेदू थया, पूरव नवने वैर ॥ रा० ॥ रोपा
 रुण नयणां करी, युद्ध करे एणि पेर ॥ रा० ॥ वा० ॥ २२ ॥ हो० ॥
 तेमाटे वेदुमांहीथी, कोइ न जीत्या जाय ॥ रा० ॥ वैर वधाखां नव
 नवें, आवी आमां थाय ॥ रा० ॥ वा० ॥ २३ ॥ यतः ॥ वैरं विश्वानरो
 व्याधि, विषया व्यसनानि च ॥ महानर्थाय जायंते, वकाराः पंच वर्धिताः
 ॥ ५ ॥ हो० ॥ पंचम खंमं सोहामणी, बीजी ढाल विचार ॥ रा० ॥ वैर
 न कीजें कोइशुं, समजानो ए सार ॥ रा० ॥ वा० ॥ २४ ॥ ७० ॥ ५ ॥

॥ दोहो सोरठी ॥

॥ कहे मेघरथजी कुमार, घनरथजीने आदरें ॥ तात कहुं ते सार, बीजुं
 पण कारण इहां ॥ १ ॥ दोहो ॥ केवल वैर नहिं इहां, ठे बीजुं पण हेत ॥
 कहुं पिताजी सांजलो, ते तुम्हने संकेत ॥ २ ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥

॥ मोरा साहिव हो, श्री शीतल नाथ के ॥ ए देशी ॥ इह नरतें हो
 वरतें वैताढ्य के. नयर सुवर्णनाच नामथी ॥ श्रेणि उत्तरें हो खेचर
 शिरदार के, गरुडवेग ठे शुनमति ॥ १ ॥ तस अंगज हो चंद्र सूरथी
 द्योय के, तिलक पदें सोह्यामणा ॥ जिनपडिमा हो सुरगिरिने टूक के,
 नमवा चाव्या दोजणा ॥ २ ॥ मुनि दीठा हो तिहां सागरचंद्र के, चारण
 श्रमण गुणें नखा ॥ प्रणामीने हो वेठा जइ पास के, सकल कलायें अलं

कखा ॥३॥ कर जोडी हो निसुणे मुनि वाणी के, पूरवजव पूढे किस्यो ॥
 कहे नाणी हो सुणो धातकी खंम के, ऐरवतें वज्रपुर इस्यो ॥ ४ ॥ तिहां
 अजयथी हो घोपान्निध राय के, हेमतिलकानो नाहलो ॥ दोय कुंवर
 हो जय विजयनो तात के, सोजागी महिमानिलो ॥ ५ ॥ शंखचूपति
 हो पुर एहवे सुवर्ण, के तस पृथिवीराणी जणी ॥ एक तनया हो ठे
 कंचनवर्ण के, पृथ्वीसेना बहु गुणी ॥ ६ ॥ आवी साहमी हो स्वयंवर
 थइ तेह के, परणी अजयघोष कंधने ॥ मृगनयणी हो मनोहर सुकु
 मार के, मन मानी घणुं संतने ॥ ७ ॥ वनमांहे हो अन्य दिवस वसंत
 के, नृप चाव्यो रमवा जणी ॥ शतराणी हो साथें उद्यान के, वनशोना
 जोवे घणी ॥ ८ ॥ तिहां जोती हो वनतरुवरराजि के, पृथ्वीसेना पदमि
 णी ॥ मुनि देखे हो दांत मदन महंत के, धन्य घडी मुज आजनी ॥९॥
 सुणी देशन हो पामी प्रतिबोध के, आण लही नरतारनी ॥ ग्रहे दीक्षा हो शिक्षा
 धरे अंग के, समजावें नवतारिणी ॥ १० ॥ अनुमोदी हो वलीयो नूपाल
 के, निजपुरमांहे आवीयो ॥ पडिलाने हो एकदिन श्री अनंत के, जिन
 ठद्धस्थनो जावियो ॥ ११ ॥ नृप आंगण हो प्रगट्यां पंच दिव्य के, जय
 जय सुर मुख उजरे ॥ लह्युं केवल हो जगवंत अनंत के, अनुक्रमें सुर
 सेवा करे ॥ १२ ॥ तस पासें हो वेहु तनय संघात के, दीख अजय
 घोष आदरे ॥ वीश स्थानक हो सेवे मुनिराय के, जिनपद नीकाचित करे
 ॥ १३ ॥ सुत मुनिशुं हो अच्युत सुरलोक के, अजयघोष सुरवर थया ॥
 तिहांथी चवी हो श्री अजयघोषजीव के, राजा धनरथजी हुवा ॥ १४ ॥
 जयविजयना हो चवीया दोय जीव के, तुम्हें बंधव वेहु अवतखा ॥ एम
 नांख्युं हो सागरचंद साधु के, पूरवजव सुणी चित ठखां ॥ १५ ॥ कहे
 मेवरथ हो ते खेचर दोय के, पूरवजव नेहें करी ॥ तुम नमवा हो मल
 वाने काज के, आव्या इहां चित हित धरी ॥ १६ ॥ चरणायुध हो जू
 जता देखि के, वेहुजण वेहु अहिष्ठिया ॥ निज आतम हो गोपवीने आंदि
 के, विद्येपवलणुं पड्छीया ॥ १७ ॥ सुणी एदहुं हो मेवरथजीनुं वयण के, ते खे
 चर परगट थइ ॥ कर जोडी हो धनरथजीना पाय के, प्रणमे हियडे गह
 गही ॥ १८ ॥ अन्ह पूरव हो नवचा तुम्हें तात के, जाग्यजत्रे प्रभु ने
 टीया ॥ थयां लोचन हो सफलां जगनाथ के, दुःख दोहग सवि मेटी

यां ॥ १९ ॥ नमी नेहें हो पहोता निज गेह के, गुरुपासैं व्रत आदरी ॥
 तप डुप्कर हो करे किरिया सार के, चरण नृपतिनी चाकरी ॥ २० ॥
 घनघाती हो ह्य कीधां चार के, उज्ज्वल केवलसिरि वखा ॥ सुख
 पास्या हो शिवपदनां सार के, पलकमांहे नवजल तखा ॥ २१ ॥ च
 रणायुध हो हवे ते निजवात के, पूरव नवनी सांजली ॥ मनमांहे हो
 कीधां निज पाप के, निंदे दोय वली वली ॥ २२ ॥ प्रणमीने हो घन
 रथ प्रचु पायके, अरज करे निज वाणीयें ॥ अपराधी हो स्वामी अम्हे
 जोर के, पाप प्रचुर कखां प्राणीयें ॥ २३ ॥ घनरथजी हो कहे समकित
 शुद्ध के, धर्म अहिंसा लक्षणें ॥ जावपूर्वक हो सदहिने दोय के, काल
 करे तिहां ततक्षणें ॥ २४ ॥ नूताटवी हो मांहे ताम्रचूल के, स्वर्णचूल
 नामें नला ॥ देवयोनिमां हो थया ते नूतदेव के, अद्भुत रूपें ऊजला ॥
 २५ ॥ उपयोगी हो ज्ञानें ते जोय के, वेसि विमानें आविया ॥ प्रण
 मीने हो घनरथना पाय के, कर जोडी कहे जाविया ॥ २६ ॥ धन्य
 स्वामी हो तुं जगदाधार के, अम्ह अनाथने उदखा ॥ तुम्हें कीधो हो
 महोठो उपकार के, ध्येयपणे हवे आदखा ॥ २७ ॥ लहि आणा हो पहोता
 निज गाय के, पांचमे त्रीजी ढालमां ॥ शुचसंगति हो करतां निश दीस
 के, फल लहीयें ततकालमां ॥ २८ ॥ सर्व गाथा ॥ १०० ॥ १ लोक तथा गाथा ५

॥ दोहा ॥

॥ हवे घनरथजी राज्यने, पालंतां एक दीस ॥ नव असारता मन वसी,
 चिंते एमजगदीश ॥ १ ॥ विषय अनंता कालना, वलग्या ए जीव केड ॥ चेत
 चेत चेतन चतुर, टेव विषयनी फेड ॥ २ ॥ लोकांतिक सुर आवीया, इण
 अवसर उजमाल ॥ वूज वूज त्रिभुवनधणी, विषयथकी मन वाल ॥ ३ ॥ ती
 रथ स्थापी नविकने, करो हेम कव्याण ॥ जय जय प्रचु चिरनंद तुं, कहे
 सुर जोडी पाणि ॥ ४ ॥ दान देइ संवत्सरी, थापी मेघरथ पाट ॥ घनरथजी
 संयम लीये, मूकी सवि उच्चाट ॥ ५ ॥ केते काले पामियुं, उज्ज्वलकेवल ना
 ए ॥ नव्य जीव प्रतिबोधता, विचरे श्रीजिनजाण ॥ ६ ॥ मेघरथजी सुख जोग
 वे, नयरी पुंमरिगिणीराज ॥ दृढरथ चाईशुं नजां, करे धर्मनां काज ॥ ७ ॥

॥ ढाल चौथी ॥

॥ वाडी फूली अति नली ॥ मन नमरा रे ॥ ए देशी ॥ एक दिन नृप

मेघरथजी ॥ आणंदा रे ॥ बंधु रमणी परिवार ॥ घणुं सुखकंदा
 देवरमण उद्यानमां ॥ आणं ॥ आव्यो अवनि आधार ॥ घणुं ॥
 शोकें रहित अशोकने ॥ आण ॥ नीचे वेगो राय ॥ धण ॥ ता
 जेम चंडमा ॥ अण ॥ तिम शोचे समुदाय ॥ धण ॥ १ ॥ एहवे
 आवीने ॥ आण ॥ मांमथुं नाटक सार ॥ धण ॥ चर्म वसन आयुध
 ॥ आण ॥ नाचे विस्मयकार ॥ धण ॥ ३ ॥ ते नाचंतां आवीधुं ॥
 एक विमान उत्तंग ॥ धण ॥ सुंदर एक नरनारीनुं ॥ आण ॥ त
 युगल सुचंग ॥ धण ॥ ४ ॥ नारी पूढे पियु कोण ए ॥ आण ॥ कां
 रथ मनरंग ॥ धण ॥ सुण वैताढघथी उत्तरे ॥ आण ॥ नयरी अलक
 चंग ॥ धण ॥ ५ ॥ विद्युतरथ कुल उपन्यो ॥ आण ॥ ए खेचर
 रथ ॥ धण ॥ वेगवती एहनी नारजा ॥ आण ॥ धर्म करण र
 ॥ धण ॥ ६ ॥ धातकी खंमं जिन वांदवा ॥ आण ॥ दाहाह दंपती
 ॥ धण ॥ वांदी पाठां वलतां इहां ॥ आण ॥ भी वलीयो नूभे
 ॥ धण ॥ ७ ॥ सहसा ए केम नीपन्युं ॥ आण ॥ गयो ह के, जि
 धण ॥ सामान्य ए नरपति नहीं ॥ आण ॥ चिं प्रतिघाति, ज
 ॥ विमान तणी खलना दुइ ॥ आण ॥ एहने दीगो मुजने, ज
 चूत रूप कीधां घणां ॥ आण ॥ नाटक करवा हवैए व अन
 राणी इण पूरवें ॥ आण ॥ गुं कीधुं पियु पुण्य ॥ आण ॥ काचित्त क
 पामीयो ॥ आण ॥ कहो गुणरयण अगण्य ॥ धण ॥ १० ॥ एखर थया
 पुरी ॥ आण ॥ कुलपुत्रक राजगुप्त ॥ धण ॥ शंखिके दुवा ॥ १४ ॥
 आण ॥ निर्धनतायें विलुप्त ॥ धण ॥ ११ ॥ करे वतखा ॥ ए
 ॥ आण ॥ एक दिन काठने क ॥ धण ॥ गयां वनमा ॥ १५ ॥ क
 ॥ आण ॥ तिहां दीत्ये ॥ धण ॥ १२ ॥ नमवा हो म
 आगलें ॥ आण ॥ कहे सु ॥ धण ॥ १३ ॥ आरणायुध हो
 आण ॥ दे मनोवांठित शर्म ॥ धण ॥ एहकी कहे सिंहपु
 आण ॥ प्रभु कहां कांइ उपाय ॥ धण ॥ नारी परधरनी
 आण ॥ करो करुणा सुपसाय ॥ धण ॥ इःखीयां क गोपवीने आंदि
 ॥ आण ॥ तप वत्रीश कल्याण ॥ धण ॥ चाथ नमि वेगं
 अछम दोय गुणखाणि ॥ धण ॥ १५ ॥ गुरुदत्त राधा सुरत
 पती वि मेठ

आ० ॥ पारणे एक दिन साध ॥ ध० ॥ प्राशुक अन्न ने पाणीये ॥ आ० ॥
 पडिलान्यो निरावाध ॥ ध० ॥ १६ ॥ काले ग्रहे अणगारता ॥ आ० ॥
 नारी ने ते नाह ॥ ध० ॥ राजगुप्त गुरुथी सुणे ॥ आ० ॥ तप अधिकार
 उत्साह ॥ ध० ॥ १७ ॥ तप कहां विविध प्रकारनां ॥ आ० ॥ बोल्यां शक्ति
 विशेष ॥ ध० ॥ पण आंबिल वर्धमाननो ॥ आ० ॥ महिमा अधिको रेप
 ॥ ध० ॥ १८ ॥ एकेक वधते आंबिले ॥ आ० ॥ शतसंख्या जगे सार
 ॥ ध० ॥ उलीने ठेहडे करे ॥ आ० ॥ पारणुं निरतिचार ॥ ध० ॥ १९ ॥
 उली उलीने ठेहडे ॥ आ० ॥ एकेक कह्यो उपवास ॥ ध० ॥ मन चढते
 अंतर विना ॥ आ० ॥ नहिंतर पारण खास ॥ ध० ॥ २० ॥ सहस पंच
 आंबिल कहां ॥ आ० ॥ तेम उपरें पंचास ॥ ध० ॥ शत उपवास उली
 तणा ॥ आ० ॥ ए तप कीजे उल्लास ॥ ध० ॥ २१ ॥ चौद वरस त्रण्य
 मासनी ॥ आ० ॥ उपरें दिन वलि वीश ॥ ध० ॥ मान कहुं ए तप तणुं
 ॥ आ० ॥ सूत्रमांहे जगदीश ॥ ध० ॥ २२ ॥ राजगुप्त ऋषि आदरे
 ॥ आ० ॥ ए तप आनंद पूर ॥ ध० ॥ शमतारसमां जीलतो ॥ आ० ॥
 दिन दिन चढते नूर ॥ ध० ॥ २३ ॥ काल करी सुर ऊपन्यो ॥ आ० ॥ ते
 पंचम सुरलोक ॥ ध० ॥ तिहांथी चवी सिंहस्थ थयो ॥ आ० ॥ इण
 नवे ए गतशोक ॥ ध० ॥ २४ ॥ शंखिका पण तिहां अवतरी ॥ आ० ॥
 वेगवती थइ नारि ॥ ध० ॥ सिंहस्थने वल्लन घणुं ॥ आ० ॥ पूरवनेह
 विचार ॥ ध० ॥ २५ ॥ मेघस्थना मुखथी सुणी ॥ आ० ॥ निज पूरव
 चै प्रवदात ॥ ध० ॥ प्रतिवृज्यो सिंहस्थ तदा ॥ आ० ॥ धन धन उत्तम
 अर्वाति ॥ ध० ॥ २६ ॥ मेघस्थने वंदी वल्यो ॥ आ० ॥ सिंहस्थ निजघर
 स्थ वि ॥ ध० ॥ तनयने राज्य वेसारिने ॥ आ० ॥ ग्रहे संयम समजाव
 सुर ज ॥ २७ ॥ श्रीघनस्थ जिनवरकनें ॥ आ० ॥ तप तपियां असराल
 संयम ली। कर्म खपी केवल लही ॥ आ० ॥ मुक्ति गया ततकाल ॥ ध० ॥
 ए ॥ जब्य जीवे प्रस्थ नृप आविया ॥ आ० ॥ वनहूंती निज धाम ॥ ध० ॥
 वे, नयरी पुंरिगिलां नली ॥ आ० ॥ करे गुन धर्मेनां काम ॥ ध० ॥ २९ ॥
 पंचमे ॥ आ० ॥ नव दशमो अधिकार ॥ ध० ॥ रामवि
 ॥ वाढी फुली ॥ आ० ॥ आगल बहु विस्तार ॥ ध० ॥ ३० ॥ १३४ ॥ ५ ॥

॥ दोहा सोरठी ॥

॥ हवे एक दिन मेघरथ, पौषध व्रत लेवा जणी ॥ नूपण मूकि गरथ,
आवे पौषधशालमां ॥१॥ वेगो आसन योग, योगीश्वर जिम मन रली ॥
मूकी इंडिय चोग, पौषध व्रत लेई करी ॥ २ ॥ धर्म कहे एकचित्त, राजे
श्वर आगें तदा ॥ एहिज ठे जगमित्र, अवर न को ऊगारजे ॥ ३ ॥
जोतां ए संसार, लाग्युं जेवुं पलेवडुं ॥ कोइ न ठारणहार, जीवदया
विण जीवने ॥ ४ ॥ मानी लीधुं सुख, मुज मनमां माने नहिं ॥ जस
अंतें होय दुःख, ते सुख केहा कामनुं ॥५॥ सुख सहजें जे होय, जे उपाधि
ते सुख नहीं ॥ ए गति न्यारी कोय, सुख दुःख पुजलथी लखुं ॥ ६ ॥

॥ ढाल पांचमी ॥

॥ जगतगुरु हीरजी रे ॥ ए देशी ॥ एणे अवसर एक पंखियो रे, थर
थर ध्रुजते अंग ॥ पारावत आवी पञ्चो रे, नृप मेघरथने उत्संग ॥ १ ॥
राजेश्वर राखीयें रे ॥ तुं शरणागत साधार, घणुं गुं नांखीयें रे ॥ ए
आंकणी ॥ मनुज वाणी एम बोलतो रे, तरल नयन नयनीत ॥ मत
वीहे तुं वापडा रे, नृप संतोपे हित रीत ॥ रा० ॥ २ ॥ एम नरपति
बोलावियो रे, खेचर थयो निर्जीक ॥ तावत् त्यां एक आवियो रे, पंखी
सिंचाणो नजीक ॥ रा० ॥ ३ ॥ सुण राजन तुज क्रोडमां रे, ठे पंखी मुज
नह ॥ मूक मूक पारेवडो रे, हुं नूरख्यो तुं घणुं दह ॥ रा० ॥ ४ ॥ कहे मेघरथ
ए माहरे रे, शरणागत थयो जेह ॥ युक्त न काढी आपतां रे, जीवतां
ए देह ॥ रा० ॥ ५ ॥ दूतदूती राखे तेणें रे, कृत्र कखुं जगमांहि ॥
ते पद जो हुं न जालवुं रे, तो नामें गुं थाय ॥ रा० ॥ ६ ॥ यतः ॥
दोहो ॥ केशरीकेश लुजंगमणि, गरणां ए सुहडांह ॥ सती पयोहर
कृपण धन, चढो हाथ सुवांह ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ परप्राणें निजप्रा
णनुं रे, पोषण न घटे तुज ॥ नरक कारण हिंसा कही रे, कारज म
कख अचुज ॥ रा० ॥ ७ ॥ एक पित्र ठेदे ताहरे रे, अंगें होय असमाधि ॥
तेम बीजाने पण सही रे, हिंसा ए महोदो व्याधि ॥ रा० ॥ ८ ॥
पज नखतां एहनुं रे, तृप्ति होगे तिलमात्र ॥ पण पंखीना प्राणनी रे,
शी गति होगे चात ॥ रा० ॥ ९ ॥ वय पंचेंडियनो करे रे, महापरि
ग्रह आरंज ॥ मांस तणा आहारथी रे, नरकायुनो प्रारंज ॥ रा० ॥ १०

॥ यदुक्तमागमे ॥ कहसुं जंते नेरइया उयत्ताए कम्मं पकरंति गो० चउहिं
कारणेहिं नेरधिया उयत्ताए कम्मं पकरंति तं महारंजयाए महापरिग्गहि
याए पंचिंदिय वहेणं कुणपाहारेणं ॥३॥ इति जगवत्यां ॥ पूर्वढाल ॥ हिंसा
थकी निसुणो सही रे, नरकें गयो रे निपाद ॥ जीवदयाथी वानरी रे,
स्वरग गइ रे आहाद ॥ रा० ॥ ११ ॥ कहो स्वामी ते कोण दुआ रे,
तव मेघरथ नूपाल ॥ श्येनपंखी प्रतिबोधवा रे, कहे उपदेश रसाल ॥
रा० ॥ १२ ॥ हरिकांता नामें जली रे, नयरी निरुपम ठाम ॥ त्यां
हरिपालान्निध जलो रे, राजेश्वर गुणधाम ॥ रा० ॥ १३ ॥ तिण न
यरी परिसर घणां रे, शाखामृगनां रे वृंद ॥ वनमांहे क्रीडा करे रे,
फल फूल खाइ आनंद ॥ रा० ॥ १४ ॥ निर्दयने कृतघ्नी घणो रे, यम
किंकर उपमान ॥ घातक नाम निपाद ठे रे, ते नयरीमां अजाण ॥
रा० ॥ १५ ॥ व्यसन आहेडानुं घणुं रे, लाग्युं पूर्वनुं पाप ॥ नित्यप्रतें
जीव हणे बहु रे, उपजावे परिताप ॥ रा० ॥ १६ ॥ श्यो मृगधामां दोष ठे
रे, ते बोले एम आल ॥ निज आतमने पोपवा रे, दुष्ट घणुं उजमाल
॥ रा० ॥ १७ ॥ यदुक्तं मृगयान्जिलाणुकैः ॥ अवलस्वकुलाशिनो जपान,
निजनीडंडुमपीडिनः खगान् ॥ अनवद्यतृणार्दिनो मृगान्मृगयान्नुन्नहि चूनु
तां घ्नताम् ॥३॥ पूर्वढाल ॥ तेहमां हरिप्रिया नामथी रे, वानरी जइक एक ॥
मांसविरत माही घणुं रे, मनमांहे वस्यो रे विवेक ॥ रा० ॥ १८ ॥ हवे ते
निपाद एकण समे रे, शस्त्र ग्रही निज पाणि ॥ वनमांहे मृगया आ
वीयो रे, करवा जीवनी हानि ॥ रा० ॥ १९ ॥ आगल जातां देखीयो
रे, वाघ सवल विकराल ॥ जय पामी वृद्धें चढयो रे, ते घातक ततकाल
॥ रा० ॥ २० ॥ पादप ऊपर पूरवें रे, रहि कपिविनता तेह ॥ वाघजयें
मुख फाडिने रे, थर थर धूजे देह ॥ रा० ॥ २१ ॥ ते देखी वीहिनो वली
रे, तव वानरी निज रूप ॥ थइ तस पासें आवियो रे, तेह निपाद वि
रूप ॥ रा० ॥ २२ ॥ विश्वासें तस वानरी रे, जोवे शिरना केश ॥ मस्तक
मूकी उत्तंगमां रे, सुतो विटप सन्निवेश ॥ रा० ॥ २३ ॥ वाघ जोइ
नीचो रह्यो रे, निडामांहे निपाद ॥ वानरीने जांखे इस्युं रे, सुण सुग्धा
गतसाद ॥ रा० ॥ २४ ॥ गुं उपकार कख एवढो रे, नहीं कोई तस
जाण ॥ जे उपकारने उलखे रे, चाकरी तास प्रमाण ॥ रा० ॥ २५ ॥ वली

विशेषें मानवी रे, जगमां हे गुणचोर ॥ सांजल हुं कहुं तुजनें रे, माण
सथी जलां ठोर ॥ रा० ॥ १६ ॥ पंचमखंमें पांचमी रे, ढाल कही मन
रंग ॥ वातज कहेजे वाघलो रे, माणस ऊपर चंग ॥ रा० ॥ १७ ॥ १७ ॥ १७ ॥
॥ दोहा ॥

॥ वाघ कहे सुण वानरी, एकण ग्राम मजार ॥ शिवस्वामी नामें
वसे, वाडव वेदविचार ॥ १ ॥ एक दिवस ते नीसखो, करवा तीरथ यात्र
॥ जमतां अटवीमां पड्यो, सुधो हुवो तृपार्त्त ॥ २ ॥ जल खोलंतां चिहुं
दिशें, जीरण दीतो कूप ॥ जल कारण आव्यो तिहां, वाडव आतुररूप
॥ ३ ॥ रज्जु करी तृणमय तदा, करपत्रक तिहां वांधि ॥ जल कारण
मांहे धखो, ब्राह्मण रूडी संधि ॥ ४ ॥ तिण दोरें वलगी तदा, कूपथकी
कपि एक ॥ बाहिर आव्यो ते तदा, चिंते द्विजवर ठेक ॥ ५ ॥ सफल
थयो आयास मुऊ, थयुं एहने आशान ॥ कूप पड्यो में उडखो, महोदुं
जीवितदान ॥ ६ ॥ बीजी वारें नीसखा, वाघ जुजंग संत्रांत ॥ दोडी
ब्राह्मण पग पड्या, हरख्यां मन अत्यंत ॥ ७ ॥ उपगारी जाणी नमे, ते त्रिहुं
मां कपि ताम ॥ जातिस्मृति अकर लखी, द्विजने जणावे आम ॥ ८ ॥
अहो मधुरा नगरी वसुं, अहुं तुम्हारे वश ॥ एक वार तिहां आववुं, करणुं
नक्ति अवश्य ॥ ९ ॥ वली तमने एक वीनवुं, एहमां अठे मनुष्य ॥
ते मत काढो तुम्ह जणी, करजे अहित प्रत्यक्ष ॥ १० ॥

॥ ढाल ठही ॥

॥ काया कामिनी वे लाल ॥ ए देशी ॥ ते एम जांखी वे लाल, निज स्था
नक गया ॥ द्विज एम चिंतेवे लाल, ए उत्तम हुया ॥ त्रूटक ॥ ए हुया उत्तम
मनुज सत्तम, सकल जीवमांहे शिरें ॥ मुऊ पास हुंतां एह मानव, कही
ने ते केम मरे ॥ १ ॥ कीजें सहुने वे लाल, शक्तियें उपकारडो ॥ मानो
बहुने वे लाल, जीवित प्यारडो ॥ त्रू० ॥ प्यारडो जीवित जगत जनने,
तिहां नहिं संदेह ए ॥ ते माटें एहने करुं उपकृति, सफल होवे एह ए ॥ २ ॥
काढ्यो तेहने वे लाल, दोरी मूकी करी ॥ पामें आव्यो वे लाल, प्रणमे
हित धरी ॥ त्रू० ॥ हित धरी प्रणमे चरण तेहनां, पूठियुं तुं कोण ठे ॥
ते कहे मधुरा नगरिवासी, स्वर्णकार अहुं रुचे ॥ ३ ॥ काज उदेशी वे
लाल, आव्यो इहां कणे ॥ तुं परदेशी वे लाल, कूपें जीरणे ॥ त्रू० ॥

जीरण कूपें जलहकाजें, पड्यो तृष्णातुर थयो ॥ उगीयो कूपकमांहे तरुवर,
शाखा अवलंबी रह्यो ॥४॥ एहवे तरप्या वे लाल, अहिमुख आवीया ॥ जल
पीवाने वे लाल, कूप लंबावीया ॥ त्रू० ॥ लंबाविया सम दुःख माटें, वैर ठांमीने
रह्या ॥ उगारीया तें सुगुण आवी, एह वीतक सविकह्यां ॥५॥ सुण उपकारी
वे लाल, मधुरा आवुं ॥ अहोनिश तुम्हचुं वे लाल, समरण जावुं
॥ त्रू० ॥ आवुं अमचे नयर द्विजवर, नक्ति करचुं तुम तणी ॥ इम
कही चाव्यो तेह सोवन, कार नयरी आपणी ॥ ६ ॥ तीरथ करतां वे
लाल, ते द्विज अनुक्रमें ॥ केते दिवसें वे लाल, मधुरा संक्रमे ॥ त्रू० ॥
संक्रमे मधुरावनमांहि, आवीयो तव उलख्यो ॥ वानरो हरख्यो हृदय
मांहे, तेह अनुमानें लख्यो ॥ ७ ॥ चरणे नमियो वे लाल, फल आगल
धर्यां ॥ कहे उपशमियो वे लाल, तुम गुण सांजखा ॥ त्रू० ॥ सांजखा
तेहवे वाघने पण, करे नक्तिनावें नख्यो ॥ अज्ञानथी वनराजसुतने, हणी
नूपण ढग कख्यो ॥८॥ जूउं तिर्येचें वे लाल, गुण नवि उलख्यो ॥ वाचा पाली
वे लाल, धिक् नरनो लख्यो ॥ त्रू० ॥ जुउं नरनो लख्यो हवे तुम्हें, देइ आ
शिप पुर गयो ॥ करी तीरथयात्र पूठे, किहां नाडिंधम रह्यो ॥ ९ ॥ खो
ली काढयो वे लाल, तेह कलादने ॥ नयणे निरखी वे लाल, लह्यो आ
हादने ॥ त्रू० ॥ आहाद लहियो द्विजें पण तिणें, निरखी नीचुं जाली
युं ॥ मनमांहि चितें रखे मागे, हेज सघळुं गालीयुं ॥ १० ॥ बांजण वो
व्यो वे लाल, नाडिंधम गुणी ॥ गुं नवि जाणो वे लाल, माया अवगुणी
॥ त्रू० ॥ अवगुणी माया हवे जाया, अटवी तुम नूली गइ ॥ सुणी कतयो
तुरत प्रणमे, सुरत मुज्जने नवि रही ॥ ११ ॥ कहे कर जोडी वे
लाल, परकासो मुने ॥ कारज वहाळुं वे लाल, जे होये तुने ॥ त्रू० ॥ ते
कहे मुज्जने एह नूपण, किणही दीधुं दक्षिणा ॥ एहनुं मुज्ज मूल्य आपो,
सुणि कलाद विचक्रणा ॥ १२ ॥ तेहने सोंपी वे लाल, गयो तटिनीज
जें ॥ स्नान करेवा वे लाल, तन मेलो मलें ॥ त्रू० ॥ मलें मेलो स्नान
करवा, गयो हवे इण अवसरें ॥ वाजतो पडहो देखी पासें, कान ते उंचा
धरे ॥ १३ ॥ किणहिक माखो वे लाल, नृपअंगज जलो ॥ नूपण काजें
वे लाल, ए कुल चांदलो ॥ त्रू० ॥ चंदलासम ते हांय दीतो, जेणें ते
नवि दाखजो ॥ वध्य नर हांजे नहीं तर, हियामां मत राखजो ॥ १४ ॥

सोनी चिंते वे लाल, ए महारुं घड्युं ॥ कर्म संयोगें वे लाल, कर आवी
 चढ्युं ॥ ३० ॥ आवी चढ्युं मुऊ तेह महारो, नहिं गोत्री नहिं सगो ॥ तिण
 कारण कां करुं अनरथ, एम थयो मन ऊनगो ॥ १५ ॥ गुण वीसारी वे
 लाल, जइ पडहो ठव्यो ॥ नूपण देइ वे लाल, नृप आगें लव्यो ॥ ३० ॥
 लव्यो ब्राह्मण वात दाखी, नृपें वांधी मगावीयो ॥ पूठीया पौराणिक
 घणा, श्यो दंम इण शिर आवियो ॥ १६ ॥ ते कहे स्वामी वे लाल, ज्ञाता
 वेदनो ॥ करता महोटी वे लाल, वंश उहेदनो ॥ ३० ॥ वंशनो उहेद
 करता, हण्यां नहिं कोइ दोष ए ॥ रासजारोहण कखो ततकण, नृप
 चढयो घण रोप ए ॥ १७ ॥ राजादेशें वे लाल, बाहिर काढीयो ॥
 चंदन लेपी वे लाल, बांध्यो गाढीयो ॥ ३० ॥ गाढीयो बांध्यो वध्य
 चूमि, लेई जाता चिंतवे ॥ मुऊ कख्यां पूरव उदय आव्यां, रोये शुं होवे
 हवे ॥ १८ ॥ मुऊने मलियो वे लाल, कृतघ्न ए वडो ॥ वानर वाघें वे
 लाल, कखो मुऊ परवडो ॥ ३० ॥ परवडुं कखुं में न कीधुं, अचिंती आपद
 नडी ॥ कहे द्विजवर श्लोक दोय तिहां, सुणे खलक तिहां खडी
 ॥ १९ ॥ तद्यथा ॥ व्याघ्रवानरसर्पाणां यन्मया न कृतं वचः ॥ तेनाहं
 दुर्विनीतेन, कलादेन विनाशितः ॥ १ ॥ वेश्याऽहाराजचौराश्च, नीरमार्जार
 मर्कटाः ॥ जातवेदा कलादश्च, नविश्वास्या इमे क्वचित् ॥ २ ॥ पूर्वढाल ॥ दोय
 पद्य जणतां वे लाल, श्रवणें सांजव्यां ॥ वाड विचालें वे लाल, जुजगें अट
 कव्यां ॥ ३० ॥ अटकव्यां जुजगें एह द्विजवर, जिणें अमने उहखा ॥ हा
 हा ते गुणवंत महोटा, आज एम कष्टें जखा ॥ २० ॥ उक्तं च ॥ उपकारिणि
 विश्रब्धे, साधुजने यः समाचरेत्पापम् ॥ तं जनमसत्यसंधं, जगवति वसुधे
 कथं वहसि ॥ ३ ॥ अशनमात्रकृतज्ञतया गुरोर्न पिशुनोपि शुनो लजते
 तुलाम् ॥ अपिवहूपकृते सखिता खले, न खलु खेलति खेलतिका यथा
 ॥ ४ ॥ रूपवंत गुणहीन ॥ पूर्वढाल ॥ अहि मन चिंतवे वे लाल, बहुगुण
 जेहनो ॥ कांश्क थाउं वे लाल, ऊरण एहनो ॥ ३० ॥ थाउं ऊरण मन
 विमासी, गयो वाडी क्रीडती ॥ तिहां राजकन्या मसी ततकण, पडी
 धव देइ दोडती ॥ २१ ॥ दासीमुखथी वे लाल, नृप ए सांजव्युं ॥ हा हा
 चांखे वे लाल, मन थयुं व्याकुलुं ॥ ३० ॥ व्याकुलुं मन करि चित्त
 चिंते, दुःख समकालें नड्युं ॥ हजी एकनो मुऊ पार नाव्यो, बीजुं एम

आवी पड्युं ॥३१॥ नृपें बहु तेडया वे लाल, तिहां कणे मांत्रिका ॥ जाण
 ने जोपी वे लाल, बहुला तांत्रिका ॥ त्रू० ॥ तांत्रिका कोश्यी पार नाव्यो,
 कहे एम मंत्रवादीयो ॥ मुऊ अठे निर्मल ज्ञान स्रधुं, नहिं हुं उन्मा
 दीयो ॥ ३३ ॥ जेहने निहणे वे लाल, ते निकलंक ठे ॥ इणे कांतारें
 वे लाल, उद्धरिया अठे ॥ त्रू० ॥ उद्धर्या एणें व्याल वानर, वाघ नाडिं
 धम वली ॥ ते इहां आव्यो पूजियो फल, फूलशुं कपि मन रली ॥ ३४ ॥
 तेम वली वाघें वे लाल, एहनी नक्तिने ॥ तुऊ सुत हणियो वे लाल,
 वलीये शक्तिने ॥ त्रू० ॥ शक्तिवलीये एह नूपण, आपीयुं लेइ एहने ॥ ते माटें
 राजन् कहुं तुऊने, म मारिश गुणगेहने ॥ ३५ ॥ इण द्विज जोले वे लाल, मौष्टि
 कने कहुं ॥ ते रुतघनथी वे लाल, तें सघलुं लहुं ॥ त्रू० ॥ लहुं स
 घलुं डुष्ट जाणी, हुकम मारणतो कीयो ॥ विचमांहि जातां तेह चुजगें,
 एह द्विज अवलोकियो ॥ ३६ ॥ मूकावणने वे लाल, तुऊ पुत्री
 मसी ॥ जो ए मूको वे लाल, तो जीवे हसी ॥ त्रू० ॥ हसी जीवे राय
 पूठे, कोण प्रत्यय ए सही ॥ अवतारीयो जिण मंत्रवादीयें, ते चुजंगम
 तिहां वसी ॥ ३७ ॥ तिणे सवि मान्युं वे लाल, द्विज नृपें मेलीयो ॥ सपें
 चूशी वे लाल, विष पाठो लियो ॥ त्रू० ॥ लीयो विष सा हूइ निर्विष,
 हर्ष सहु कोई लह्या ॥ कहे मंत्रवादी निसुणि वाडव, धन्य अहि जातें
 कह्या ॥ ३८ ॥ पंचम खंरुं वे लाल, ठठी ढालमां ॥ प्रत्युपकारी वे लाल,
 एहवी चालमां ॥ त्रू० ॥ चाल एहवी जेह राखे, गुण कखो न विसारे ए ॥
 मुनि रामवाणी सुणो प्राणी, जइयें तस बलिहार ए ॥ ३९ ॥ ३०ए ॥ १३॥
 ॥ दोहा ॥

॥ क्रूर जीव रुतगुण लहे, नलहे मनुष्य रुतघ्न ॥ जगाख्यो अहियें एने,
 कखुंकलाद विघ्न ॥ १ ॥ वात सकल मांफी कही, नृप आगल द्विजराज ॥
 तुष्टचित्त राजा थइ, दीधुं देशनुं राज ॥ २ ॥ शिवस्वामी द्विज देश निज,
 पूजा नागविधान ॥ नागपंचमी पर्वनुं, वरताव्युं मंझाण ॥ ३ ॥ एह कथा
 वाघें कही, वानरी आगें सार ॥ माणस जेहवो को नहिं, रुतघ्न वडो
 गमार ॥ ४ ॥ जेम दुःख दीधुं सोनीयें, ब्राह्मणने निर्यार ॥ तेम तुऊ
 दुःख देशे सही, एह निपाद विचार ॥ ५ ॥ नरु महेज ए माहरुं. शुं
 कहुं वारो वार ॥ हरिप्रिया हर्षें करी, निज जीवित उगार ॥ ६ ॥ कपि

नारी सारी घणुं, मूके नही निषाद ॥ विश्वासें रह्यो माहरे, उंध्यो मन
आहाद ॥ ७ ॥ जो नाखुं हुं एहने, तो लागे मुऊ पाप ॥ चिंती अणबोली
रही, नहिं मनमां संताप ॥ ८ ॥

॥ ढाल सातमी ॥

॥ वीरमाता प्रीतिकारिणी ॥ ए देशी ॥ वाघ बेसी रह्यो तरुतलें,
मन एम विमासे ॥ धन्य तिर्यंच पण एहवी, धरे प्रीति उल्लासें ॥ १ ॥ धन धन
तेह जग प्राणीया, मळ्या ठेह जे नापे ॥ इर्जन इष्ट चूंमा सही, प्रीति
अधविच कापे ॥ ध० ॥ १ ॥ तेह निषाद जब जागीयो, तब वानरी
सूती ॥ देइ उत्संग शिर तेहनें, सुवे पुण्य पनोती ॥ ध० ॥ ३ ॥ व्याघ्र
आवी समीपें कहे, सुण व्याध तुं वात ॥ म कर विश्वास वानरी तणो,
सहि लहिश उपघात ॥ ध० ॥ ४ ॥ तुं सुखें जीव दीये मुऊने, एह वान
री बाला ॥ सप्तदिन कुधित आजीविका, शमे अग्निनी ज्वाला ॥ ध० ॥
५ ॥ नहिं दीये तो तुऊने सही, यज्ञे इःखनुं हेतु ॥ वानर जाति कोइनी
नो हे, जिम जूत ने प्रेत ॥ ध० ॥ ६ ॥ निसुण न सुण्युं पुररायने, हण्यो
वानरे मूठें ॥ कहे रे निषाद मुऊ आगलें, कहो वातए रूडे ॥ ध० ॥ ७ ॥
ते कहे नागपुर नयरमां, नृप पावक नामें ॥ एकदा वक्रतुरगें चढी, गयो
केलि आरामें ॥ ध० ॥ ८ ॥ अश्व दोडावतां अपहरी, गयो रायने लेइ ॥
जमतां वनमां तृषातुर अयो, उदयें अशुन आवेइ ॥ ध० ॥ ९ ॥ एक वानर मळ्यो
तेहने, फल उत्तम दीधां ॥ वारिसर तास देखाडीयुं, नृप कारज सीधां ॥
ध० ॥ १० ॥ वारिपान फलनकृण करी, तरु शीतल ठांही ॥ राय वेठो
तदा पूठयी, सह्यु आवीयुं धाई ॥ ध० ॥ ११ ॥ सैन्य सार्थें नृप पुर व
ळ्यो, ग्रही वानर सार्थें ॥ जाणि उपकार आपे जला, फलमोदक हाथे
॥ ध० ॥ १२ ॥ पासें राख्यो नृपें तेहने, अंगसेवना काज ॥ मास वसं
तमां एकदा, गयो वनंतर राज ॥ ध० ॥ १३ ॥ केलिघर पुष्पक्रीडा करी,
नृप शांत अइ सोवे ॥ अंगरकक कपि पासें ते, रह्यो चिहुं दिशि जोवे ॥
ध० ॥ १४ ॥ चमर गुंजित आव्यो तदा, नृप अंगपर वेठो ॥ खड्गधारी
तदा वानरें, निज नयणले दीठो ॥ ध० ॥ १५ ॥ स्वामिनी जक्ति करते
अके, कपि बुद्धि उबेदी ॥ चमर मारण मियें रायनी, मूठें कंधरा ठेदी ॥
ध० ॥ १६ ॥ जे दूतो अति हितकारीयो, अयो अतिहि इःखकारी ॥ जाति

ए मूढ वानर तणी, किसी एहसुं यारी ॥ ध० ॥ १७ ॥ वात निसुणी
निपादे करी, तदा वानरी नाखी ॥ वाघ आगल पडी वापडी, धिक् एह
वा साखी ॥ ध० ॥ १८ ॥ वाघ कहे खेद नवि कीजियें, कखो जेहवो
संग ॥ तेहसुं फल तुजने हूवुं, नहिं नीचथी रंग ॥ ध० ॥ १९ ॥ यडुक्तं
॥ चोपाइ ॥ नीच तणो नव कीजें संग, जो कीजें तो होवे जंग ॥ हाथ
अंगारो ग्रहे जेकोय, कां दाजे कां कालो होय ॥ १ ॥ दोहो ॥ संगति की
जें साधुकी, हरे उरकी व्याधि ॥ उठी संगति नीचकी, आते पहोर उपाधि
॥१॥श्लोक॥ गुणिनः समीपवर्ती, पूज्यलोकेषु गुणविहीनोपि ॥ विमलेक्षण
प्रसंगा, दंजनमाप्नोति काणाक्षि ॥ ३ ॥ पूर्वढाल ॥ तत्र उत्पन्नमति
वानरी, जणावे निज शानें ॥ हित कहुं प्राण ठे माहरां, एह पुढने ठाणें
॥ ध० ॥ २० ॥ आगलथी ग्रहो एहने, पठे अंग तुज हाथे ॥ तेम कखुं तेणे
देइ पुढने, चढी वृद्धने माथे ॥ ध० ॥ २१ ॥ वाघ विलखो अइने बख्यो,
थयो अदृश्य तिण वेला ॥ उतखां वृद्धथी ततदणें, नर वानरी चेलां ॥
ध० ॥ २२ ॥ निजलतावास लेई गई, अवगुण न संजाख्यो ॥ धन्य जगत
जिहां एहवां. करे पशु उपकारो ॥ ध० ॥ २३ ॥ निज शिशु पास मूकी करी,
गइ फुल फल लेवा ॥ इष्टं नूखें नख्यां वाल ते, जूउ नीचना हेवा ॥
ध० ॥ २४ ॥ यडुक्तं ॥ गाथा ॥ अलमेव विबुआणं. मुहमेव अहीण
तह्य मंदस्स ॥ दिठि वियं पिसुणाणं, सच्चं सबस्स जयजणयं ॥ ४ ॥
खंमीकउवि पक्कालीउवि चुस्सीकउवि चुस्स व ॥ जीहाफलाइउवि हु, जणेइ
दाहं अहो पिसुणो ॥ ५ ॥ दोहो ॥ नटा नूप चुयंगमह, ए मुह इहिलां
हंति ॥ वेरीवींठीवाणीयो, पूठें दाह दियंत ॥ ६ ॥ पूर्वढाल ॥ फल लेइ आवी ते
वानरी, सूतो ते नर देखि ॥ पासं निजवाल दीठां नही, पडी त्रांति सुवि
शेष ॥ ध० ॥ २५ ॥ तोहि उगडी तेहने दीठां, फल अति घण
मीठां ॥ वाल जोवा जणी नीकली, तिण साथें नवि दीठां ॥ ध० ॥ २६ ॥
वृद्धशाखाहंती पूरवें, जूउ पापीयें पाडी ॥ वाल नदण कखां पणतदा, न
बोली किस्सुं आडी ॥ ध० ॥ २७ ॥ जुवो गुणवंत तिर्यचमां, कह्या सातमी
हालें ॥ धन्य जेहकष्ट आवी पडे, एम निज मन वाले ॥ ध० ॥ २८ ॥ २४५ ॥ १८ ॥

॥ दोहा सोरठी ॥

॥ चिंते इष्ट विचार, मनमां खेदाकुलथको ॥ अहो महारां व्यापार,

आज सकल निष्फल थयो ॥ १ ॥ खाली केम जाउं गेह, बीजो को मलियो नहीं ॥ एम चिंती हणि तेह, वानरी खंधें लेइ चव्यो ॥ १ ॥ जाये घर नणी जाम, प्रकट थई कहे वाघलो ॥ नीच कखुं शुं काम, विण वांके हणी वानरी ॥ ३ ॥ पुत्र तणी परें जेण, पापी तुजने पालियो ॥ ह एतां केम करेण, तुज हियडुं चाव्युं हहा ॥ ४ ॥ रे पापीया अजाण, मुह लेईने जा परो ॥ कृतघ्नी तुज समान, अवर कोइ दीगो नहिं ॥ ५ ॥ एम निर्जैठी वाघ, विटने मूकीने गयो ॥ कुकर्मजलधि अताग, घेर आव्यो ते पापीयो ॥ ६ ॥

॥ ढाल आठमी ॥

॥ घरे आवोजी आंबो मोरीयो ॥ ए देशी ॥ वात सुणी जनमुखथकी, पुरनाथ कोप्यो ततकाल ॥ जग कडवां कर्म न कीजियें ॥ ए आंकणी ॥ हुं वानर प्रतिपालना, करुं ए थयो वानरकाल ॥ ज० ॥ १ ॥ आण लोपी एणें माहरी, ग्रही लावो बांधी मुज पास ॥ ज० ॥ काम कखुं एणें आकरुं, नवि जोयुं रे कांही विमासि ॥ ज० ॥ २ ॥ यडुक्तं ॥ आझा जंगो ॥ राजसेवकें जइ आणीयो, माखो महोकम तेणी वार ॥ ज० ॥ हुकम कखो मारवा तणो, लेइ चाव्या ते निरधार ॥ ज० ॥ ३ ॥ वाघ मव्यो मारग कहे, एहनुं मारण नहीं युक्त ॥ ज० ॥ सेवकें जइ नृपने कखुं, आव्यो कौतुकथी सुणि उक्ति ॥ ज० ॥ ४ ॥ वाघ कहे पापी घणुं, मत मारो एहने राय ॥ ज० ॥ पापी पापें हो आपणो, लेवाये रे एम कहेवाय ॥ ज० ॥ ५ ॥ विस्मय लही राजा कहे, तुम्हें पशु रूपी नरवाणी ॥ ज० ॥ मुज मन ए कौतुक घणुं, परकासो तुम्हें गुण खाणी ॥ ज० ॥ ६ ॥ कहे वाघ उद्यानमां आवीया, मुनि नांखजे माहरी वात ॥ ज० ॥ एम कही गयो वाघलो, हरख्यो नृप सुणी अवदात ॥ ज० ॥ ७ ॥ देशथकी काढयो परो, नरपतियें तेह निपाद ॥ ज० ॥ बहु लोक निर्जैठयो अति घणुं, गयो धरि मनमां विखवाद ॥ ज० ॥ ८ ॥ आगमन सुणि गुरुराजनुं, नृप आव्यो वंदन काज ॥ ज० ॥ वेठो आवी ने आगलें, गुरु देशन दे घनगाज ॥ ज० ॥ ९ ॥ गुरु कहे शोह न कीजियें, कोइ ऊपर सुण नरचंद ॥ ज० ॥ वली विश्वासीनो शोह जे, सहु पातकमांहे इंद ॥ ज० ॥ १० ॥ नृप अंजलि जोडी कहे, प्रभु नांखो निर्म

ल ज्ञान ॥ ज० ॥ कपिनारी मरी किहां गइ, मुऊ दाखो मागुं मान ॥
 ज० ॥ ११ ॥ कहे गुरु सुण सावधानशुं, मरी तेह गई सुरलोक ॥ ज० ॥
 यडुक्तमागमे ॥ गाथा ॥ तव संजम दाए जुउं, पगईए नदउं किवा लूउं ॥ गुरुव
 यणरउं निच्चं, मरीउं देवे सुरो जाई ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ कहे पुनरपि नृप
 गुरु नणी, नांखो मुऊने गतशोक ॥ ज० ॥ १२ ॥ बिदु जेदे नीच निपाद
 ते, कुण गति लहेजे नगवंत ॥ ज० ॥ कहे मुनि नरक विना नहिं, एह
 ने अन्य स्थानक संत ॥ ज० ॥ १३ ॥ पंचाश्रवने सेवतो, विपयें विव
 शीकृत जेह ॥ ज० ॥ कृतघ्न निर्दय पापीयो, परडोहकारीमां रेह ॥ ज० ॥ १४ ॥
 दुर्ध्यानी कूराशयी, नर नरक तणो अधिकारी ॥ ज० ॥ कहे मुनिवर प्र
 स्तावथी, बीजी दोय गति विस्तार ॥ ज० ॥ १५ ॥ माया नियडीने सेव
 तो, शततारत होय सदाय ॥ ज० ॥ आर्त्तध्यानमांहे मरी, जीव तिर्ये
 चगतिमां जाय ॥ ज० ॥ १६ ॥ मार्दव आर्जव गुण नखो, गतदोष ने अल्पकपा
 य ॥ ज० ॥ न्यायी गुणग्राही जीवडो, मरिने ते मानव थाय ॥ ज० ॥
 १७ ॥ कहे नृप मुनिवरने वली, केम वाघ वोव्यो नरबोल ॥ ज० ॥
 सुण नूप कारण एहनुं, पहेले सुरलोकें अमोल ॥ ज० ॥ १८ ॥ सामा
 निक सुरनी प्रिया, चवी आवी मनुज मजार ॥ ज० ॥ देवी रखवाल
 सुरें मली, पूठयुं देवी जरतार ॥ ज० ॥ १९ ॥ स्वामिन् एह विमानमां, कुण
 देवी होजे इण ठार ॥ ज० ॥ कहे ते वननी एक वानरी, लेहेजे आवी अवतार ॥
 ॥ ज० ॥ २० ॥ तेमांहेलो एक देवता, आव्यो करी वाघनुं रूप ॥ ज०
 ॥ तास परीक्षा कारणें, वोव्यो नरवाणी अनूप ॥ ज० ॥ २१ ॥ निपाद
 अने वली वानरी, तेह साथें बहुत विवाद ॥ ज० ॥ कखो वली दृष्टांत
 कक्षां घणां, मनमांहे धरि आहाद ॥ ज० ॥ २२ ॥ वाघ स्वरूप गुरुयें
 कयुं, नृप निमुणि लह्यो वैराग्य ॥ ज० ॥ निज सुतने राज्य नलाविने, नृप च
 रण ग्रहे वडनाग्य ॥ ज० ॥ २३ ॥ राजरूपि हरिपालजी, पाली संयम
 व्रत सार ॥ ज० ॥ सोयर्मे सुर लोकमां, पाम्यो सुरनो अवतार ॥ ज० ॥
 २४ ॥ पंचमे आठमी ढालमां, कही ए मेघरथजी वात ॥ ज० ॥ राम
 विजय कहे सांजलो, हने श्येनतणो अवदात ॥ ज० ॥ २५ ॥ इति निपाद
 वानरीकथा समाप्ता ॥ सर्वगाथा ॥ २७६ ॥ श्लोक तथा गाथा मली ॥ १९ ॥

॥ दोहा ॥

॥ जीवहिंसाथी जिम लह्यो, नरक तणो अवतार ॥ ते निषाद परें
पंखीया, कां जाये नव हारि ॥१॥ पाप करमथी पामियो, पंखीनव नव
मांहि ॥ वली कुकर्म करवाथकी, दीसे नरकनी चाहि ॥२॥ तव सिंचाणो
बोलीयो, तुं सुखीयो राजन्न ॥ धर्माधर्म विचारमां, वरते तहारुं मन्न ॥३॥
मुज नहें तुज शरणुं ग्रह्युं, पण हवे शी मुज पेर ॥ कुधा राक्षसी हुं
ग्रह्यो, जाउं कोने घेर ॥ ४ ॥ सुण वलि शाह पुरूष तुं, वांढे नहिं विरू
प ॥ राख्यो नूख्यो मुजने, सघले संत स्वरूप ॥ ५ ॥ नूख्याने सूजे नहिं,
कृत्याकृत्यविचार ॥ सांजल शुं जाणे नहिं, नीतिशास्त्र अधिकार ॥ ६ ॥
यडक्तं ॥ विवेकोद्गीर्दयाधर्षो, विद्यास्नेहश्च सौम्यता ॥ सत्त्वं च जायते
नैव, कुधार्त्तस्य शरीरिणः ॥ १ ॥ प्रतिपन्नमति प्रायो, लुप्यते कुन्निपीडितैः॥
इत्यर्थे नीतिशास्त्रोक्तो, दृष्टान्तः श्रूयतां प्रचो ॥ २ ॥

॥ ढाल नवमी ॥

॥ वाइ रे अमने रेंटीयडे मंदाण्यां ॥ ए देशी ॥ सुण मेघरथ राजे
श्वर वाहला, जीवदयाना रागी रे ॥ नूख उपर एक नीतिशास्त्रनी, वात कहुं
वैरागी रे ॥ १ ॥ रायजी मुजने नूखडली संतापे रे ॥ नूखडली नितुरता
नुं कारण रे, नूखडली नेहनुं निवारण रे ॥ रा० ॥ ए आंकणी ॥ निर्जल
मरुमंमलमां कूउ, प्रियदर्शन अहि निवसे रे ॥ नीर समीपें बिलमां रहे
तां, अहोनिश दिलमां ऊल्लसे रे ॥ रा० ॥ २ ॥ जेकादिक बहु जीवनुं न
कण, करतो तिहां सुखें रहेतो रे ॥ एक गंगदत्त दर्डर संघातें, प्रीति घणी
ते वहेतो रे ॥ रा० ॥ ३ ॥ कूपमध्यवासी वली तिहांकणे, एक चित्र
लेखा नामें रे ॥ सारिका सुगुणा साथें अहिजी, वहालपणुं घणुं कामे रे
॥ रा० ॥ ४ ॥ एम करतां कोइ कालें द्वादश, वार्षिक दुइ अनावृष्टि रे ॥
जल नीतुं कूपकनुं जलचर, जीव तणी नहिं सृष्टि रे ॥ रा० ॥ ५ ॥ वृत्ति
बेद अहिनो तव हूउ, गंगदत्त पंक खाई रे ॥ वेला निर्गम करे एक दिन ते,
जुजग कहे सुण जाई रे ॥ रा० ॥ ६ ॥ मित्र घणी पीडा ठे मुजने, ते
कहे शुं मुज नांखो रे ॥ वहालेसर मन मलियुं तिहां कण, ठाना ठानी
म राखो रे ॥ रा० ॥ ७ ॥ कुधावेदना गाढी मुजने, मित्र दमे ठे जाणो
रे ॥ मरण समान नहिं नय महोठो, परनव दलिद समाणो रे ॥ रा० ॥ ८ ॥

पंथ समान जरा नहिं जगमां, चूख समी नहिं वेयण रे ॥ ते माटे
 वालेश्वर तिम करि, जिम थिर रहे मुज चेषण रे ॥ रा० ॥ ए ॥ गंगदत्त
 चिंते इण कूपक, सघला जीव विणास्या रे ॥ ए इष्टातमनी मुज ऊपर,
 हणवा दीसे आशा रे ॥ रा० ॥ १० ॥ करि उपाय ए इष्टातमथी,
 आप जणी ऊगारुं रे ॥ स्वारथ साधीजें आपणानो, नीतिवचन संनारुं रे
 ॥ रा० ॥ ११ ॥ यतः ॥ स्वार्थं च साधयेद्दिमान्, स्वार्थं चंशोहि मू
 र्वता ॥ नास्त्युपायः स कोऽप्यत्र, येन सर्वोऽपि रज्यते ॥ ३ ॥ पूर्वढाल ॥ कहे प्रिय
 दर्शनने ते गंगदत्त, सुण स्वामी तुज काज रे ॥ महानदी इहना ललचावी, जल
 चर जावुं आज रे ॥ रा० ॥ १२ ॥ पण तिहां जावा शक्ति नहिं मुज, चंचुपुटें
 चित्रलेखा रे ॥ जो ऊपाडी तिहां पहांचाडे, करुं उपगार विज्ञेपा रे ॥ रा०
 ॥ १३ ॥ थइ प्रसन्न जुजग आदेशें, चित्रलेखा लेइ उमी रे ॥ कोइक
 महोटा इहमां महेली, वाट जोवे तट रूडी रे ॥ रा० ॥ १४ ॥ कहे सा
 रिका निसुणो गंगदत्त, कही वेला केम कीजें रे ॥ स्वामी प्रियदर्शन
 चूख्या ठे, काज करी आवीजें रे ॥ रा० ॥ १५ ॥ गंगदत्त कहे सुण
 चित्रलेखा, वात विचारी करीयें रे ॥ चूख्या प्रियदर्शननी संगति, हवे
 केमही नादरीयें रे ॥ रा० ॥ १६ ॥ सारिकां प्रति गंगदत्तः कथयति ॥ श्लोक ॥
 बुद्धितः किं न करोति पापं, क्षीणा नरा निःकरुणा नवंति ॥ आ
 ख्याहि नडे प्रियदर्शनस्य, न गंगदत्तः पुनरेति कूपम् ॥ ४ ॥ पूर्वढाल ॥
 ते माटे तुजने हुं वारुं, म कश्चि संगति एहनी रे ॥ चूख अने वली
 माकण वेहु, जगमां नोहे केहनी रे ॥ रा० ॥ १७ ॥ एम समजी ते मन
 मां आठी, पाठी फरि गइ ठाणे रे ॥ श्येन कहे मेघरथजी चूख्यां, कृत्या
 कृत्य न जाणे रे ॥ रा० ॥ १८ ॥ तेमाटे मुजने संतोपो, कहे मेघरथ
 सुण जाई रे ॥ शामाटे तूं रहे ठे चूख्यां, देवं आहार मगाई रे ॥ रा० ॥
 १९ ॥ कहे पंखी आमिय विण मुजने, अन्य आहार न जावे रे ॥ कहे
 नृप ते मंगावी आपुं, एम कां आकुज थावे रे ॥ रा० ॥ २० ॥ मुज नजरें
 प्राणी तन नेदी, जो तुं आपे ताजूं रे ॥ तो मुज आतम संतोपाये, नमजे
 तुज मुजवाजूं रे ॥ रा० ॥ २१ ॥ पंचम खंरु नवमी ढालें, आवी मलियुंटाणुं रे ॥
 हवे मेघरथजी सत्य राखजे, आगल तेह बखाणुं रे ॥ रा० ॥ २२ ॥ ३० ॥ ४ ॥ २३ ॥

॥ दोहा ॥

॥ मेघरथजी मन चिंतवे, परने नव डुहवाय ॥ निज तनु ठेदीने दीयुं,
जिम एसंतोषाय ॥ १ ॥ कहे नृप सांजल रयेन तुं, ए पंखी नारोजार ॥
मुज तनुमांस तुला धरी, आपुं करि आधार ॥ २ ॥ वात पंखी तिण
पडिवळी, तुला मगावी ताम ॥ पारावत एकण दिसे, मूक्यो लेऽ अन्निराम
॥ ३ ॥ तींखी बुरिकायें ठेदीने, निज तनु मांसना खंम ॥ मूके बीजे
त्राजुवे, धीरज धरी अखंम ॥ ४ ॥ देवमाया कोऽ आकरी, न हुवे सरि
खो तोल ॥ मांस खंम तिम तिम धरे, मनसा करी अमोल ॥ ५ ॥ तो
पण सम थाये नहिं, तव राजन निज अंग ॥ संकल्पी वेठो तुला, अहो
दयागुण चंग ॥ ६ ॥

॥ ढाल दशमी ॥

॥ रंगीला राणा, रहो रहो सनतकुमार ॥ ए देशी ॥ अंतेउर सघलो
मव्यो जी, मलीयो रे सवि परिवार ॥ अहो स्वामी शुं मांमीयो जी, जी
वित त्याग विचार ॥ १ ॥ रंगीला राणा, रहो रहो मेघरथ राय ॥ ठवी
ला स्वामी, कहो अम अवगुण कांय ॥ हठीला स्वामी, एम केम ठेदीयें
काय ॥ ए आंकणी ॥ एक पंखीने कारणें जी, कां करो साहस एम ॥
तमें अमने घणुं वालहा जी, अविहड तुमशुं प्रेम ॥ रंगीला ० ॥ २ ॥ हा हा
हा सहुये करे जी, नयण न खेंचे रे धार ॥ वालेसर केम अवगणो जी, तु
म्हें अम प्राण आधार ॥ रंगी ० ॥ ३ ॥ ए दीसे कांऽ कारिमो जी, देवतणो
रे प्रकार ॥ नहिंतर एह कपोतमां जी, केम होवे एवडो नार ॥ रं ० ॥
४ ॥ ज्ञानवंत पण नवि लहे जी, पर उपकार रसेण ॥ सरलपणे वेयुं न
हिं जी, चिंतवे करुणा वशेण ॥ रं ० ॥ ५ ॥ धन जगतीमां जे करे जी,
अंगीकृत निर्वाह ॥ ए पुजल परकामने जी, आवे ए लाज अथाह ॥
रं ० ॥ ६ ॥ दान सार ठे वित्तनो जी, सत्य ठे वचननो सार ॥ आयुसार ए
कीर्त्ति ठे जी, देहनो सार उपकार ॥ रं ० ॥ ७ ॥ स्वारथीयुं सहुये मव्युं
जी, वारें ठे मुज आज ॥ पण ए प्राण नवोचर्वे जी, वार अनंती ए
राज ॥ रं ० ॥ ८ ॥ मन देखी दृढ रायनुं जी, चलत कुंमलद्युति होय ॥
नूपण अंगें विराजता जी, आवी नम्यो सुर कोय ॥ रं ० ॥ ९ ॥ जो राजेश्वर
धन्य तुं जी, धन धन तोरी रे माय ॥ धन तुम अन्वय ऊजलो जी,

धन्य धन्य घनरथ ताथ ॥ रं० ॥ १० ॥ वीरशिरोमणि तुं वडो जी, जी
 वित जन्म प्रमाण ॥ ईशानेंईं तुम तणां जी, प्रभु आज कीध वखाण ॥
 रं० ॥ ११ ॥ अणसहेतो ते वर्णना जी, आव्यो परीक्षा काज ॥ वढता
 पूरव मत्सरें जी, दीग कपोत ने वाऊ ॥ रं० ॥ १२ ॥ ते वेहुने में आश्र
 यी जी, आण्या तुम्हारी रे पास ॥ तुम परख्या हरख्यो मनें जी, हवे तु
 म चरणनो वास ॥ रं० ॥ १३ ॥ हवे नृप पूढे एहने जी, बेर हुडं केम
 देव ॥ सुर कहे अनरथ कारिणी जी, माठी ए लोचनी देव ॥ राजेश्वर
 महोटा, सुण सुण बैरनी वात ॥ १४ ॥ ए आंकणी ॥ एहिज नयरी
 मां हुवो जी, सागरदत्त अजिधान ॥ वणिक विजयसेना जली जी, घरणी
 ए सुगुण निधान ॥ रा० ॥ १५ ॥ युगल पणे तस उपन्या जी, धन नंदन सुत
 दोय ॥ यौवन वय धन कारणें जी, गया परदेजें रे दोय ॥ रा० ॥ १६ ॥
 नागपुर नगरें गया जी, करताजी वणिक व्यापार ॥ बहुमूलुं उपराजियुं
 जी, रयण तिहां एक सार ॥ रा० ॥ १७ ॥ ते वेहु वंधव रयणने जी,
 लोचें पड्या रे निर्लज्ज ॥ मांहोमांहे एकेकनो जी, चिंतवे घात अकज्ज
 ॥ रा० ॥ १८ ॥ एक दिन नदीयें नाहतां जी, मांज्यो तिहां रे विवाद ॥
 धिक् धरतीमां को नहिं जी, लोच समो उन्माद ॥ रा० ॥ १९ ॥ एक कहे
 उपराजियुं जी, रयण ए में बहुमूल्य ॥ बीजो कहे महारी कला जी,
 जणियुं सवे तुऊ धूल ॥ रा० ॥ २० ॥ रोप चढयो विहुने मनें जी, अरु
 ण नयण थयां ताम ॥ जल अगाधमां जूऊता जी, पडीया ते दोय अ
 काम ॥ रा० ॥ २१ ॥ आर्त्तथ्यानें ते सूवा जी, यया पंखी वनमांहि ॥
 पूरवजव वैरें मल्या जी, युद्ध करे मांहोमांहि ॥ रा० ॥ २२ ॥ एम कही सुर
 लोकें गयो जी, सुर करतो गुणग्राम ॥ सज्ज अंग नृप देखिने जी, हरखलह्यो
 सहु ताम ॥ रा० ॥ २३ ॥ पंचमे खंमें सांजलो जी, दशमी ढाल सुरंग ॥
 राम कहे धन्य जेहने जी, अविहड धर्मनो रंग ॥ रा० ॥ २४ ॥ ३३ ॥ ३३ ॥

॥ दोहा ॥

॥ कहो स्वामी ए कोण हतो, निरपराथ जे आय ॥ एम तुमने संकट
 दियुं, जांखो सहु समजाय ॥ १ ॥ कहे मेवरथ कीधां करम, पूरव बेर
 निबंध ॥ नव जमतां आवे उदे, वजीयो अहो संबंध ॥ २ ॥ आ नवथी
 नव पांचमे, नव दगि ने यजदेव ॥ अनंतवीर्य अपराजिता, हुंता कृत

सुरदेव ॥ ३ ॥ तिण जव अम्हचो रिपु हतो, दमितारि
तनया अम्हें अपहरी, कीधुं नबलुं काम ॥ ४ ॥ ते जमी र ठेदीने दीयुं,
जरताष्टापद पास ॥ तापस सुत तपि बालतप, थयो ईशान सुर जारोजार ॥
इंद्रप्रशांसा सांचली, अणसदहतो ताम ॥ इहां आवीने जे ती तिण
नहिं अजाण्युं काम ॥ ६ ॥

॥ ढाल अग्यारमी ॥

मोजां मारे रे सालूडावाली ॥ ए देशी ॥ मेघरथजीना मुखथी निसुरि
सजा सदु जन वाणी ॥ धन धन एराजेश्वर गिरुआ, मलीया अमने न तो
रे ॥ १ ॥ ए सुत रूडो रे घनरथजी वालो ॥ प्राण देइ पोतानां परगट, पाहो
कस्यो वहालो रे ॥ ए सुत ० ॥ ए आंकणी ॥ जीवदया कीधी जेणें वहा
ली, धन जननीनो जायो ॥ अंतेंउर पुरजन सदु मलि मलि, मेघरथजीने
गायो रे ॥ ए ० ॥ २ ॥ वात सुणी निजजव सुरजवनी, पंखी वेदु समजाणा ॥
जाति समरण पामी ततकृण, क्रोध तजी दुआ शाणा रे ॥ ए ० ॥
३ ॥ कहे स्वामी अम्ह संवेग आव्यो, तुम्ह करुणायी साचो ॥ हवे
प्रकासो आतमने हित, जाण्यो जव करि काचो रे ॥ ए ० ॥ ४ ॥ कहे
मेघरथ मदथी मन वालो, समकित सूधुं पालो ॥ पाप नाशन अणस
ण संजालो, निज आतम अजुवालो रे ॥ ए ० ॥ ५ ॥ बेदु पंखी करे
अणसण किरिया, उपशमरसना दरीया ॥ संजारे मन पंचम किरिया,
सुरजुवनें अवतरीया रे ॥ ए ० ॥ ६ ॥ पौपध पारीने कीधुं पारणुं, रा
ज्यजीना सुख विलसे ॥ पण जाणे प्रनाव पोतानो, नावमांहि दिल
उत्तसे ॥ ए ० ॥ ७ ॥ परिसह उपसर्गे नवि वीहे, संवेगवासी अदीणो ॥
एक दिन अठम करि पडिमायें, सुनि जेम ध्यानें लीणो रे ॥ ए ० ॥ ८ ॥
अडविस लाख विमाननो स्वामी, अड इंशाणीनो कामी ॥ एंशी सहस
सामानिक केरो, कहे अधिपति शिर नामी रे ॥ ए ० ॥ ९ ॥ निज माहा
त्म्येनिर्जित सदु जग, गतकल्मष जितकामो ॥ नावी जिन तुमने कर जोडी,
एह करुं परणामो रे ॥ ए ० ॥ १० ॥ पासं रही निसुणी कहे देवी, कुण
गुणवंत निहाली ॥ स्वामी तुमें प्रणाम ए कीधो, कहो अम उत्तर वाली
रे ॥ ए ० ॥ ११ ॥ इंद्र कहेसुण त्रैलोक्यसुंदरी, नयरी पुंरुगिणीस्वामी ॥
मेघरथ अठम तप रह्यो ध्यानें, तास नम्यो शिर नामी रे ॥ ए ० ॥

धन्य धन्य धनरक्षीन रह्यो जेम योगी, कोइ चलावी न शके ॥ इंशादिक
 वित्त जन्म प्रमण, अंश न ध्यानथी चसके रे ॥ ए० ॥ १३ ॥ निसुणी सुरूपा
 रं० ॥ ११ ॥ इंशतणी इंशाणी ॥ आवी चलावा मेघरथजीने, पासें ते
 पूरव मर रे ॥ ए० ॥ १४ ॥ रूप करी रमणीनुं वारू, कामणगारी
 थी ॥ शोज शृंगार करीने सुंदरी, आवी उनी एकांतें रे ॥ ए० ॥ १५ ॥
 म सुकुमारी रूप रसाली, जमुह वनी अणियाली ॥ मेघरथजीने जोवे
 देवो, कामिनी घणुं लटकाली रे ॥ ए० ॥ १६ ॥ तन अंगुक परहुं करि
 महोनी, कनी अंगने मोडे ॥ मेघरथजीनें निरखे सहामी, पण ते न
 मां, न जोडे रे ॥ ए० ॥ १७ ॥ अम्हें अमरी तुम ऊपर मोहन, आवी
 रूपनी मोही ॥ पूरो अम्हारो मनोरथ वहाला, एक वार साहासुं जोई रे
 ॥ ए० ॥ १८ ॥ तुज दरिसणनी तरशी प्रीतम, कजाणी अम्हें आवी
 ॥ सूकी सुरपति जेवो स्वामी, तुम मुझ अम जावी रे ॥ ए० ॥ १९ ॥
 नयण वयणना चाला करती, वलि वलि जोवे फरती ॥ मेघरथजीनी
 ध्यानदशा तव, नहिं तिलमात्र उसरती रे ॥ ए० ॥ २० ॥ चुजआलिं
 गन देती पासें, आवी कहे नहिं कूडुं ॥ कहे मुखचुवन करती प्रीतम,
 ए मुखपंकज रूडुं रे ॥ ए० ॥ २१ ॥ हाव ने जाव विलास ने विभ्रम,
 करि करिने ते थाकी ॥ कीधा अनेक उपाय चलाववा, कांहिं न राख्युं वाकी रे
 ॥ ए० ॥ २२ ॥ एम अनुकूल कखा बहुतेरा, आखी रयण विहाणी
 ॥ थयो प्रजात मग्या नहिं ध्यानं, तेह घणुं जंखाणी रे ॥ ए० ॥ २३ ॥
 शांत थई निज रूप देखाडी, स्तुति करवाने लागी ॥ धन्य धन्य मेघरथजी
 तुम जीवित, रागदशा नवि जागी रे ॥ ए० ॥ २४ ॥ अम चेष्टायें लोह
 मयी पण, पुरुष गलीने जाइ ॥ पण लवलेश चलयुं नहिं तुमचुं, चित्त ए
 अधिक वडाई रे ॥ ए० ॥ २५ ॥ धन्य तुम्हो कृतपुण्य तुम्हो ठो, इंई व
 खाएया तेहवा ॥ ज्ञमंमलआखंमलसुगुणा, कोइ नहिं तुमजेहवा रे ॥ ए० ॥
 २६ ॥ खमो अपराध न करणुं एहचुं, पुनरपि काम कदापि ॥ मेघरथजी
 अमो घणुं पस्ताणी, तुमने इहां संतापी रे ॥ ए० ॥ २७ ॥ ते अमरी प
 होती निज स्थानक, मेघरथ पडिमा पारी ॥ करे पारण विधिचुं बहु सायें,
 देव गुरुने संजारी रे ॥ ए० ॥ २८ ॥ धन मनना वलीया दृढधर्मी,

मेघरथजीने वंदो ॥ पंचम खंमें ढाल अग्यारमी, राम कहे चिर नंदो
रे ॥ ए० ॥ ३ए ॥ सर्वगाथा ॥ ३६ए ॥ श्लोक तथा गाथा मली ॥३३॥

॥ दोहा ॥

॥ एक दिन राजसजा जोडी, बेठा मेघरथ राय ॥ वनपालक आवी
करी, अरज करे सुखदाय ॥ १ ॥ स्वामिन् तुम मनवल्लहा, वनमां
बहु परिवार ॥ समवसखा घनरथ प्रभु, जगतीजन आधार ॥ २ ॥ देइ
पारितोषिक घणुं, धन हिरण्यनी राशि ॥ मेघरथजी परिवारचुं, वंदण
चव्या उल्लास ॥ ३ ॥ जिनवर वांदी जावचुं, बेठा मनने कोड ॥ दीये
देशन प्रभु नवि जना, निसुणे बे कर जोडि ॥ ४ ॥

॥ ढाल बारमी ॥

॥ देशी वणजारानी ॥ सुणो प्राणी जी ॥ कहे घनरथजी जगवान्, ध्यान
धरो मन धर्मनो ॥ सुणो प्राणी जी ॥ सु० ॥ सहु आथ ए अथिर निदान,
फलपाक ए शुज कृतकर्मनो ॥ सु० ॥ १ ॥ सु० ॥ मेली अनंती वार, पुजल
राशि ए प्राणीये ॥ सु० ॥ सु० ॥ फरि फरि चाहे तास, शी मति तास
वखाणीये ॥ सु० ॥ २ ॥ सु० ॥ नहिं कोइनुं जग कोय, स्वारथनुं सहुये
सगुं ॥ सु० ॥ सु० ॥ जेहने मलीये आपणो जाणि, ते जाणे एहने ठगुं
॥ सु० ॥ ३ ॥ सु० ॥ नवि जाणे ठगातो आप, माया विलुद्धो जीवडो
॥ सु० ॥ सु० ॥ एतो ज्ञाननयणे करी अंध, गुं करे सजुरु दीवडो
॥ सु० ॥ ४ ॥ सु० ॥ छलहां जे चउ अंग, तेहमां मूल तुम्हें लहो ॥
सु० ॥ सु० ॥ हाखुं न आवे हाथ, पठें केहेशो जे नवि कह्यो ॥ सु० ॥ ५ ॥
सु० ॥ सार्थें न आवे कोय, धन रमणी नवि ताहरी ॥ सु० ॥ सु० ॥ जाणे
तुं मूढ सजाव, में मेली ए माहरी ॥ सु० ॥ ६ ॥ सु० ॥ मान चढ्यो मद जोर,
हुं करतां ए जावनो ॥ सु० ॥ सु० ॥ ए व्यवहारनी चाल, निश्चय आप
स्वजावनो ॥ सु० ॥ ७ ॥ सु० ॥ ठो सुखनां रे सरीख, तो छुःख कारण कां
वहो ॥ सु० ॥ सु० ॥ ते सुखचुं एक हेतु, सार धर्म ते सदहो ॥ सु० ॥ ८ ॥
सु० ॥ परहरिने परमाद, धर्म करे जे उम्मह्या ॥ सु० ॥ सु० ॥ आपद
पण होय सुख, शूर तणी परें सुख लह्यां ॥ सु० ॥ ए ॥ सु० ॥ इण
अवसर गणधार, पूठे शूर कवण हुं ॥ सु० ॥ सु० ॥ कहे घनरथजी
अरिहंत, धर्म तणुं माहातम जूउं ॥ सु० ॥ १० ॥ सु० ॥ जंबूद्वीप मजार,

राज एम सांजव्यो, लोक तणो आलोच ॥ रखे राजा वत्सराज दुवे,
मनमां धरे संकोच ॥ ६ ॥ मंत्रीश्वर हाथे कस्यो, देई बहु सन्मान ॥ सैन्य
गजादिक वश करी, आप थयो राजान ॥ ७ ॥

॥ ढाल तेरमी ॥

॥ पंचसयां धण परहरी ॥ ए देशी ॥ नृप वीरसेनजी सांजव्युं, पुर
पति हुउ देवराजो रे ॥ आधि ने व्याधि निपीडियो, कहे ए कीधुं अ
काजो रे ॥ १ ॥ धिक् धिक् राजनी मोहनी ॥ ए आंकणी ॥ न गणे बंधव
लाजो रे ॥ नेह न राखे रे बापचुं, एम कहे नरराजो रे ॥ धि० ॥ २ ॥
गुणवंतो ए बेसी रह्यो, अगुणी आगल कीधो रे ॥ पण मुज कांइ चले
नहिं, चिंतित काज न सीधो रे ॥ धि० ॥ ३ ॥ राज लही देवराजीयो,
थयो बलियो सपराणो रे ॥ सहु सामंतने वश करी, देशमांहे गवराणो रे
॥ धि० ॥ ४ ॥ जन अनुराग न को धरे, सहु वत्सराज वखाणो रे ॥ एक माता
ना रे उदरना, पण अंतर बहु जाणो रे ॥ धि० ॥ ५ ॥ राजसजामां रे नित्य
प्रतें, आवे वत्सराज कुमारो रे ॥ विनयी वडा बंधव तणो, विनय न
चूके लगारो रे ॥ धि० ॥ ६ ॥ कुण आंजे नयन मृगांगना, कोण चीतरे
मोरनां पिंठो रे ॥ उत्पलदल संधि कुण रचे, एम उत्तम विनयने प्रीठो
रे ॥ धि० ॥ ७ ॥ सहज विनयगुण देखिने, सकल प्रजा धरे रागो रे ॥
अहो वत्सराज समोवडे, नहिं नृपसुत वडजागो रे ॥ धि० ॥ ८ ॥ दुष्ट
हृदयनो रे चिंतवे, मंत्रीचुं देवराजो रे ॥ गुणें वधतो जन वालहो, वैरी
ए वत्सराजो रे ॥ धि० ॥ ९ ॥ राज्य हरजो रे आपणुं, बांधव एह म
जाणो रे ॥ शत्रु वध्यो गुण नवि करे, नीतिनुं वचन प्रमाणो रे ॥ धि० ॥
१० ॥ वेहु मल्या दुर्बुद्धिया, वायु अनल जेम होइ रे ॥ करे कुविकल्प
नी कल्पना, कीजें उपाय ए कोई रे ॥ धि० ॥ ११ ॥ कहे मंत्री सुण
साहिवा, जो इहां रहे वत्सराजो रे ॥ तो नहिं हित तुजने सही, एम
जाणो महाराजो रे ॥ धि० ॥ १२ ॥ काढो वाहिर एहने, पुरहूंती इण
वारो रे ॥ करजो अनिष्ट कनिष्ट ए, पाम्युं राज म हारो रे ॥ धि० ॥
१३ ॥ नृप मनमां वसी वातडी, निर्लज थइ निठोरो रे ॥ बंधव तेहने
अवगुणी, बोले वयण कठोरो रे ॥ धि० ॥ १४ ॥ तेडी कहे वत्सराजनें,
जा मुज नयरने मूकी रे ॥ कुजनी लज्जा रे लोपिने, बोव्यो नीतिने चू

की रे ॥ धि० ॥ १५ ॥ कहे वत्सराज विचारिने, वांधव आण प्रमाणो
 रे ॥ आच्यो मंदिर मातने, नमवा संत सुजाणो रे ॥ धि० ॥ १६ ॥ चर
 ए नमी आगल रह्यो, बोले सुण गुणवाडी रे ॥ सगे रे सहोदरें काढी
 यो, देशहंती मुने माडी रे ॥ धि० ॥ १७ ॥ वात सुणी डुःखणी थई,
 नयण ऊरें बहु नीरो रे ॥ हृदय जराइ रे आवीयुं, जूहे आंसूडां चीरो रे
 ॥ धि० ॥ १८ ॥ सुण वत्स तुज विण माहरां, प्राण घणुं अकलाये रे ॥
 जीवन जाया रे तुज विना, घडी वरसां सो थाये रे ॥ धि० ॥ १९ ॥
 तुज विण मंदिर मालीयां, ए मुज खावा धायो रे ॥ तुज विण रयणी
 वैरण थइ, मुजने केमही न जायो रे ॥ धि० ॥ २० ॥ माटें वत्स सुण
 माहरा, आविश तहारी हुं साथें रे ॥ सुख डुःख सहेणुं रे एकठां, मात
 ग्रही रही हाथे रे ॥ धि० ॥ २१ ॥ वत्स कहे सुण मावडी, अति विपमो
 परदेशो रे ॥ तुम्हें इण मंदिरमां रह्यो, यो मुजने आदेशो रे ॥ धि० ॥
 २२ ॥ मात कहे सुण वालुडा, शी ए वात प्रकाशो रे ॥ इहां रहेतुं मुज
 नवि गमे, तुज थवासें मुज थवासो रे ॥ धि० ॥ २३ ॥ अरथ नहिं देवरा
 जणुं, जे तुजने अपकारी रे ॥ बहेन संघातें रे आवणुं, तुज साथें निर्धारी
 रे ॥ धि० ॥ २४ ॥ सुत माडी मासी वली, कीध विचार विमासी रे ॥ राम
 कहे खंन पंचमे, तेरमी ढाल ए जासी रे ॥ धि० ॥ २५ ॥ सर्वगाथा ॥ ४१६ ॥

॥ दोहा ॥

॥ रोपें चढ्यो तव राजियो, देवराज तेण वार ॥ वाहन सवि खोंची
 जियां, माय तणां निर्धार ॥ १ ॥ वत्सराज वहालो कियो, इण भूक्यो मुज
 आज ॥ श्यानी ए मुज मावडी, अंश न राखुं लाज ॥ २ ॥ जे कोइ जाणो
 एहोनी, साथें सेवक आज ॥ तेहने में हणवो सही, एम बोले देवराज
 ॥ ३ ॥ नहिं आचूपण तेहवां, नहिं वसन चुनपास ॥ उदाली लीधां सवे,
 अहो अहो कर्म विलास ॥ ४ ॥

॥ ढाल चौदमी ॥

॥ डुःखनी मारी हे. सुतीथी सरोवरियारी पाल हे, कागदियो न आच्यो
 मद्दारा राज, विण परदेशरो ॥ ए देशी ॥ डुःखनी मारी हे, मायडी नयण
 ऊरें नीर हे, सुतने रे लेइने बहेनी साथ, वाहर नीमरी ॥ पुरनां वा
 सी हे. निसुणीने वात मल्यां नरवृंद हे, हा हा ए हुवो कवण प्रकार, सुध

बुध वीसरी ॥ १ ॥ धिक् धिक् सुतने हे, नेहडलो ठांमीने दीधो ठे
 ह हे, नफट निहेजो महारा राज, राजा ए हुवो ॥ कांहीं न चाले हे, जोरावर जे
 आपण कीधां कर्म हे, उदयें एम आवे महारा राज, प्रत्यक् ए जुठ
 ॥ २ ॥ कोइ न करशो हे, कोइ न करशो गर्व गुमान हे, साथें ने कमाइ
 महारा राज, आवे थाहरी ॥ सहु स्वारथना हे, स्वारथना सहु ए ठे जगमां मित्त
 हे, पडतीरे वेलां महारा राज, नकोइ पाहरी ॥ ३ ॥ रोयण लाग्यां हे, पुरवा
 सी साजननां वृंद हे, फट फट रे अन्यायी महारा राज, दैव तें गुं कथुं ॥
 वत्स सारीसा हे, वत्सने सारीसा कुमर सुजाण हे, वनमां रे काठंतां थारुं
 राज, काज किस्युं सथुं ॥ ४ ॥ साजन महारा हे, मेंं ठां थाहारा पगनी रजने
 तोल हे, प्रजा पोकारे उजी राज, जीवनजी रहो ॥ साहिव महारा हे, ए हुठ
 कवण विचार हे, उजा रे रहीने महारा राज, वातडली कहो ॥ ५ ॥ कुंवर
 बोले हे, सहुने ठे महारो जुहार हे, गुनह खमेजो महारा राज, जे कीधो होय
 थाहरो ॥ कुंवर बोले हे, वहेलां मित्तस्यां आवी कहेस्यां वात हे, हमणां रे नट
 काये महारा राज, वीरो कोप्यो माहरो ॥ ६ ॥ पुरशुं चाल्या हे, साथें माता ने
 मासी दोय हे, आगल चालंतां वाटें राज, सबल वेला पडी ॥ कुंवर नानो
 हे, साथे घरडी मोकरडी दोय नारी हे, मारगमांहे चूलां महारा राज, एम
 आपद नडी ॥ ७ ॥ कोने कहीयें हे, कोने कहियें सुखडःखडानी वात हे, एवो रे
 नहिं कोइ महारा राज, कान देई सुणे ॥ त्रिहु जण चाले हे, त्रिहु जण किहां
 इक सरोवरीधारी पाल हे, उजां रे न राखे महारा राज, कोइ घर आंगणे
 ॥ ८ ॥ मोशी महारी हे, दीसोठो सबल सुंहाली जाति हे, कहोने किण कार
 ण महारा राज, सुत जेइ नीसखां ॥ डःखनी मारी हे, धारिणी राणी कहे
 ताम हे, अमें दोय मोशी महारा राज, मरमेश्वरनां विसखां ॥ ९ ॥ डःखनी
 मारी हे, कंथ विहूणी सुत जेइ साथ हे, चाल्या रे वर्तवा महारा राज,
 अमें परदेशमां ॥ उत्तर देवे हे, उत्तर देवे लोक जणी ते आम हे, कोइ नथी रे
 महारा राज, एवा वेशमां ॥ १० ॥ अनुक्रमें आया हे, देश अवंतीमांहे नय
 रि उक्केणी हे, वाडीमां वडठायी महारा राज, वीशामो लियो ॥ धारिणी
 चिंते हे, फट फट रे तें दैव कीशुं ए कीध हे, मुने वीरसेनवधूने कष्ट सबल
 दीयो ॥ ११ ॥ जविका सुणजो हे, कहे घनरथजी अरिहंत हे, कीधी रे क

माइ महारा राज, एम आवे उदे ॥ पंचम खंरु हे, राग अखंरु चौदमी
ढाल हे, कठिण न कीजे महारा राज रामविजय वदे ॥११॥४४१॥१३॥

॥ दोहा ॥

॥ विमलाने कहे धारिणी, जाठ नयर मजार ॥ जोइ आवो कोइ आ
शरो, वहेनी प्राणाधार ॥ १ ॥ तुं मुऊ जीवननी जडी, थइ डुःखनी सा
रीख ॥ साची तुं मानी जणी, जली कबूली जाख ॥ २ ॥ विमला
आवी नयरमां, इत उत जोवे ठाम ॥ पण कोइ बोलावे नहिं, बाई
आवो आम ॥ ३ ॥ एक लच्छी वाइ विना, थाइ न दे कोइ मान ॥ जखा
शहेरमां नामिनी, फिरे विहूणी शान ॥ ४ ॥ सोमदत्तने मंदिरे, ना
मिनी जमती चूर ॥ पहोतीप्रेमें पारखी, दीसे कोइ सनूर ॥ ५ ॥ तात विदेशी
तुं अमो, मुऊ जगिनी जाणेज ॥ वसवानी कोइ जायगा, वतलावो धरि
हेज ॥ ६ ॥ कहे शेट आ उरडी, वसवानी ठे खास ॥ पण जाडुं
देशो किस्थुं, आगलथी परकाश ॥ ७ ॥ विमला कहे गुं आपीयें, नाटक
नहिं कांइ पास ॥ पण स्वामी घर ताहरे, थई रहेगुं दास ॥ ८ ॥ जो
जन अमने आपजो, शेट तमे शिरदार ॥ कुंजर मुखथी कण गिरे,
कीडीने आधार ॥ ९ ॥ वात कबूल करी तेणें, आवी वहेनी पास ॥
तेडी लावी धारिणी, अंगज सहित उछास ॥ १० ॥

॥ ढाल पन्नरमी ॥

॥ एण सुगरीये मन मोहियुं ॥ ए देशी ॥ धारिणी विमला वत्सराजगुं,
तिहां आवी रही गुन ठामो ॥ करे सोमदत्त शेटनी चाकरी, जुठ कर्म
तणा ए कामो ॥ १ ॥ जग कीधां हो कर्म न नृटियें ॥ ए आंकणी ॥ एम
जांखे हो त्रिभुवन नाथ ॥ सुर अमुर नरादिक सांजले, सद्गु सांजले
मुनिवर साथें ॥ ज० ॥ २ ॥ जीहो उदरजरण अति दोहियुं, करे
परघर केरुं काजो ॥ वत्सराज चिंते चित्तमां थाणुं. हा हा किहां गयुं महारुं
राजो ॥ ज० ॥ ३ ॥ जीहो मुऊ माडी मासी वडी, करतां जेहनी बहु सेवो ॥
ते पाणी नरे परघर रही, अहो अहो ए गुं कखुं देवो ॥ ज० ॥ ४ ॥
वत्सराज चरावे हो वाठरु, जेम तेम चाले गुजरानो ॥ वनमां जमतां एकण
दिनें. वीशमियो गुन तहवाणो ॥ ज० ॥ ५ ॥ राजकुंवरना गच्छ तुण्या
तिहां, करे शत्रु तणां अन्यास ॥ धेनु चरती हो भूकीने वत्सजी, तिहां पहां

तो धरि उह्नासो ॥ ज० ॥ ६ ॥ तेहमांहे जइ ऊजो रह्यो, जोवे
लकनो वेध सुजाणो ॥ यदि चूके समीपग नर तदा, तव थाये वदन
मलाणो ॥ ज० ॥ ७ ॥ जेह विंथ्य न चूले हो तेहने, प्रशंसे थइने खुशालो ॥
तेह देखी कलाचार्य चिंते, कोइ दीसे कोविद बालो ॥ ज० ॥ ८ ॥ तव पूबुं
कलाचारज तिहां, वत्स तुं कोण किहांथी रे आव्यो ॥ वत्सराज कहे दुं
तातजी, देशांतरी एम समजाव्यो ॥ ज० ॥ ९ ॥ कहे आचारज हर्षे करी,
वत्स लेइ करे धनु तीरो ॥ देखाड कलाकुशल पणुं, अम आगल सा
हस धीरो ॥ ज० ॥ १० ॥ अवसर जाणीने कला तणो, अतिशय प्र
कासे वीरो ॥ जोइ कुंवर सहु चित्त चमकिया, अहो गुणजलनिधि गंजीरो
॥ ज० ॥ ११ ॥ जीरे नोजन आव्यां हो जावतां, राजकुंवरने काजे
रसालो ॥ गुणी जाणीने पासें बेसारीयो, जमाज्यो नाग्य विशालो ॥ ज०
॥ १२ ॥ यतः ॥ कला कलौ कामगवी समाना, सर्वार्थसंसाधनसाव
धाना ॥ कला विदेशे परमं हि मित्रं, कलासमं नास्त्यमृतं पवित्रम् ॥ १ ॥
पूर्वढाल ॥ जीरे संगति सरखानी मली, मन पाम्यो हो प्रीति अपारो ॥
गुणीने हो गुणीशुं गोठडी, सहु जाणे रे एह विचारो ॥ ज० ॥ १३ ॥
यतः ॥ मृगा मृगैः संगमनुव्रजंति, गावश्चगोनिस्तुरगास्तुरंगैः ॥ मूर्खाश्च
मूर्खैः सुधियः सुधीनिः समानशीलव्यसनेषु सख्यम् ॥ २ ॥ पूर्वढाल ॥ दिन वधो
वहि गयो वातमां, रखवाल विना वत्स तेहो ॥ समकालेंवलि तेह आवियो,
पुरमां सोमदत्तने गेहो ॥ ज० ॥ १४ ॥ कहे जेठजी विमलाने तिहां,
आज वहेलां केम वत्स रूपो ॥ रखवाल एहनो क्यां गयो, वत्सराज ए
कवण सरूपो ॥ ज० ॥ १५ ॥ बाल नावे ए साथें रूडुं नहीं, एम वात
करंतां तेहो ॥ वत्सराज आव्यो संध्यासमे, मय्यो मायने अधिक सनेहो
॥ ज० ॥ १६ ॥ वत्स बेला केम थइ एवडी, कहे कल्पित वात विचारी ॥ मुज
उंध आवी वनमां घणी, रह्यो सूइ तिहां निर्धारी ॥ ज० ॥ १७ ॥ कोइक आवीने
जगाडीयो, हमणां दुं आव्यो माडी ॥ वत्स एम असुर न कीजियें, कहे
विमला हो प्रीति जाडी ॥ ज० ॥ १८ ॥ तिम वली बीजे दिन एम रह्यो,
त्रीजे दिन एमज कीधुं ॥ जेठें उजंनो दीधो घणो, एहथी मुज काज न
सीधुं ॥ ज० ॥ १९ ॥ कहे रीप नराणी मावडी, परदेश आव्यां इण
गामो ॥ परमंदिरवास ए कष्टथी, नोजन पर हाथ ए कामो ॥ ज० ॥ २० ॥

जीरे कर्मकरीनुं आकरुं, मुऊ माथे कलंक असारो ॥ वली उलंजा ए
 ताहरा, न खमाये वत्सकुमारो ॥ ज० ॥ ११ ॥ जीरे वयण सुणी माडी तणां,
 दोव्यो वत्सराज कुमारो ॥ माय वाठरुथ्यां चारिश नहीं, नहिं महारो
 वंश गमारो ॥ ज० ॥ १२ ॥ ढाल ॥ नहिं चारुं रे नव लख धेनु ॥ ए
 देशी ॥ नहिं चारुं रे मोरी माय, ना रे मा नहिं चारुं ॥ महारे केडे
 कोण उजाय ॥ ना० ॥ हारे ए तो दोडीने अजगां जाय ॥ ना० ॥ हारे ए तो
 अटवुं उपवनमांय ॥ ना० ॥ ए आंकणी ॥ श्री वीरसेन नरेश्वर
 महारो, सबल पिता गुणधार रे ॥ धारिणी माता तहारो जायो, न करुं
 ए काम गमार ॥ ना० ॥ १ ॥ कड वांधी लइ लाकडी हाथे, आखो
 दिन केड करवी रे ॥ वर नूख्यो रहिश पण माडी, ए सेवा नादरवी
 ॥ ना० ॥ २ ॥ कला बहुतेरी महारी शीखी, सघली नूजी जवाय रे ॥
 सुणो माडी माती वलि महारी, ए मुजने न सोहाय ॥ ना० ॥ ३ ॥
 कहेवुं ए सोमदत्तने अमचो, सुत वाठरुथ्यां न चारे रे ॥ मन माने
 तेहने ए सोंपो, उलंजो न देशो लगारे ॥ ना० ॥ ४ ॥ घणुं करशे तव
 घर राखेजे, जेम सो तेम पञ्चास रे ॥ माडी मनमां चिंता न करशो, शी करवी
 परआश ॥ ना० ॥ ५ ॥ कहे माडी सुण वत्स वाळुडा, नोजन कि
 हांथी करशो रे ॥ जो एहना मुख सामुं जोशो, तो कोइ दिन उदरने नरशो ॥
 ना० ॥ ६ ॥ वत्स कहे हुं आजथी नोजन, मन माने त्यां करणुं रे ॥
 पण एहनी उंशीवाल न राखुं, जेम तेम करि निर्वहणुं ॥ ना० ॥ ७ ॥
 नित्य प्रत्यं राजकुमरनी पासें, नोजन करवा जाय रे ॥ वत्स अवेजो
 कां एम आवे, घर तुं कां नवि खाव ॥ ना० ॥ ८ ॥ वत्स एम किम
 रीताणे सरजे, के अथवा जमे क्यांहीं रे ॥ वात कही माडीने मांमी,
 हर्ष जही मनमांहि ॥ ना० ॥ ९ ॥ ढाल विचारें मात ने सुतनी, वत्स चरावण
 वात रे ॥ नांखी रे निसुणो नविचण जावें, धन धन एहनी जाति ॥
 ना० ॥ १० ॥ ढाल पूर्वनी ॥ जीरे एक दिन आव्यां होआंगणें, देखे माय
 घणुं दिजगीर ॥ तव पूजे हांशी तुम एवडी, दिलमांहे दीसे ते पीर ॥ ज०
 ॥ १३ ॥ वत्स तुं घरचिंता नवि करे, नहिं लुऊ विण को आधार ॥ राखुं
 अन्य सर्वे अजगुं उदां, नहिं घरमांहे इंधणजार ॥ ज० ॥ १४ ॥ जीरे शहे
 रनां वास ए सांकडो, सवि वात तणी तंगास ॥ जीरे जल इंधण वजी

दोहिलां, दोहिलानी न पूगे आश ॥ ज० ॥ १५ ॥ जीरे कहे वत्स साहसिया
 शिरे, जइ लावुं इंधण नार ॥ मुज एक अपावो कुठारिका, कावा कृति
 तिम सुविचार ॥ ज० ॥ १६ ॥ प्रजात थये सवि तेम कछुं थइ, पूरी
 ए पन्नरमी ढाल ॥ खंम पंचमे रामविजय कहे, हवे आगें संबंध
 रसाज ॥ ज० ॥ १७ ॥ सर्व गाथा ॥ ४७ए ॥ श्लोक ॥ १५ ॥
 ॥ दोहा ॥

॥ खांधे कुहाडी लेइ चव्यो, वनह नणी वत्सराज ॥ नाना डुम
 जोतो थको, वन गहर तरुराज ॥ १ ॥ जो देखुं कोइ सरल तरु, तो
 ठेदी तस खंम ॥ कावा नरीने पूरुं हुं, मनोरथ माय अखंम ॥ २ ॥ तिहां
 एक दीतुं देवकुल, मांहे विराजे यहु ॥ नक्ति करे नागर जना, महिमा
 जास प्रत्यहु ॥ ३ ॥ तस आगल एक सरल ठे, चंदनतरु सुगंध ॥
 कुंवर विचारे बावना, चंदननो ए गंध ॥ ४ ॥ तस अनुसारें तिहां
 गयो, साहसथी अहिराज ॥ नासीने दूरें गया, कुमरनां सीध्यां काज
 ॥ ५ ॥ यहुनुं कानन जाणीने, कियों नवि ठेयो पूर्व ॥ ते तरु ठेदीने
 लिया, काष्ठना खंम अपूर्व ॥ ६ ॥ कावा नरीने चालीयो, निज घर ते
 उजमाल ॥ पुरपोले आव्यो तदा, पोल जडी ततकाल ॥ ७ ॥ ते नगरी
 मांहे अठे, शाकिनीनुं नय जोर ॥ पुर कपाट नवि ऊघडे, रवि प्रगठ्या
 विण कोर ॥ ८ ॥ रात पडी पाठो वव्यो, आव्यो यहुने ठाम ॥ कावा तरु
 अवलंविने, मांहे पेटो ताम ॥ ९ ॥ देइ कपाट आमां तदा, मूकी कुहाडी
 पास ॥ एकदेशें सूतो जई, वत्सराज सुविलास ॥ १० ॥

॥ ढाल शोलमी ॥

॥ आवे रे उलगाणा तहारी कांकणीने कुंवे ॥ ए देशी ॥ इण अथ
 सर वैताढथी रे, मध्यरात्रि मनोहार रे सोहे ॥ आव्यो रे तिहां खेच
 रीनो वृंद मन मोहे ॥ १ ॥ रम्य विमानथी ऊतरी रे, आवी मंमपमांहि रे
 नामा ॥ यौवनना पुरमांहे शोचती ते श्यामा ॥ २ ॥ करि शृंगार टोले मली
 रे, करे विनोदनी वात रे ठवीली ॥ सहीयो रे आजनी ए यामिनी रंगीली
 ॥ ३ ॥ रस नरी रमियें रातमां रे, मनमां धरी आणंद रे टोला ॥ नृत्य
 कीजें अंग वाली आज नावजोली ॥ ४ ॥ घम घम घमके घूघरी
 रे, ठम ठम ठवती पाय रे बाला ॥ हाथे विणा ताल लेइ किन्नरी रसा

जा ॥ ५ ॥ उर कंचुक कलिया जला रे, उठण नवरंग चीर रे रूडी ॥
 कर दीपे कंकणां ने सोवननी चूडी ॥ ६ ॥ येइ येइ करती नाचती रे,
 लीये घूमणली घेर रे माती ॥ विच विच जीणे स्वरें वांसलीने वाती ॥ ७ ॥
 कुंचिकाविवरें देखतो रे, मन हरखे वत्सराज रे वारु ॥ जलुं थयुं आज
 दीठो नाच में दीदारु ॥ ८ ॥ रमि रमि रंग जरी रातमां रे, स्वदें जीनां
 चीर रे धामी ॥ द्वाण एक कामिनी ते नूतलें विशामी ॥ ९ ॥ नूतन
 पहेरी वस्त्रने रे, मूकी जीनां चीर रे दोडी ॥ रात थोडी जाणिने उजाणी
 जेम घोडी ॥ १० ॥ रत्नसपणे रयणें जड्यो रे, पडीयो कंचुक एक रे
 दीपे ॥ नूमितल शोचतो ए इंधुविंव जीपे ॥ ११ ॥ वार उघाडी उतावली रे,
 दोडी लाधो तेणें रे रंगें ॥ मांहे पेतो द्वार देइ वद्धने प्रसंगें ॥ १२ ॥
 आगल जातां सांचव्युं रे, मांहे प्रजावती ताम रे बोली ॥ सहीधरो
 चारवाण माहरो हुं नूली ॥ १३ ॥ ते कहे जा उतावली रे, वेगवती
 जेइ साथ रे चावी ॥ बहेनी तुं चाल वेगें मीलि जेइ आवी ॥ १४ ॥
 आवी तिहां जोवे घणुं रे, नव दीठो तिण ठाण रे चिंते ॥ किहां गयो
 नहिं कोइ मानवी एकांतें ॥ १५ ॥ शुं थयुं केणें लीधो हजे रे, तेह
 थमूलक माल रे तहारो ॥ प्राणजीवन महारो ए कंचुड घणुं प्यारो
 ॥ १६ ॥ कोण लीये एटली वारमां रे, लागी वेला नहिं कांइ रे आली ॥
 प्राणप्रिय देजे मुने आज घणी गाली ॥ १७ ॥ कहे सखी आतुर शुं
 हुवे रे, नहिं इहां आहक कोई रे धाखो ॥ तें पण सहि इहां कंचुड
 विसाखो ॥ १८ ॥ खोली हमणां काढुं रे, उरयो वायुधीदूर रे दीमे ॥
 धर मन धीरज विशवा विशे ॥ १९ ॥ जोती ताम विहुंजणी रे,
 देखी विदंगिका एक तरुमालें ॥ नर इहां गूढ कोइ देवलें निहाले ॥ २० ॥
 द्वार देखी दृढ गर्जनां रे, बोली अत्रला दोंय रे त्राडी ॥ आप थम कंचुड
 तुं द्वारने उघाडी ॥ २१ ॥ मूरख कांइ मरवा तणी रे, त्रोंश थई तुळ आज
 रे पापी ॥ किहां हवे जाइग थमने तुं संतापी ॥ २२ ॥ वयण सुणीपण
 एहवां रे, न चव्यो चिंत जगार रे वीरो ॥ वीरमेन वंगजात साहसिक
 धीरो ॥ २३ ॥ यरु तणो जय आणीने रे, नवि उघाडे द्वार रे वेइ ॥ आवी
 सुवन बाहार ने मंत्रणुं करेइ ॥ २४ ॥ चानो नयरमां जोइये रे, एहनो लगे
 कोइ दोंय रे मीठो ॥ तंहनो बोलाव्यो ए बोले सही धीठो ॥ २५ ॥ चिंतीने

चाली खेचरी रे, नयरमां सुणवां साद रे उजाणी ॥ कर्मयोगें आवी
 जिहां धारिणी ठे राणी ॥ १६ ॥ सुत विरहें रोवे घणुं रे, धारिणी
 विमला दोय रे राणी ॥ निडडी हराम दुइ डुःखडे नराणी ॥ १७ ॥ हा
 वीरसेन नृपवंशना रे, साहसिया शिरदाररे जाया ॥ कोण कष्ट थयुं तुने मेलि
 केम माया ॥ १८ ॥ राज्य तजीने नीसखां रे, देशांतर परगेह रे वासैं ॥
 एह सवे आदखां अमें ताहरे नरोसे ॥ १९ ॥ वत्स इंधणने मोकव्यो रे, अम्हें
 पापीणीयें आज रे जोरें ॥ मन धखुं डुःख अमें नेहडे रे तोरे ॥
 २० ॥ नाम सुणी वत्सराजनुं रे, खेचरी आवी दोय रे पाठी ॥ देव
 कुलें मातरूपें एम बोले आठी ॥ २१ ॥ हा वत्स जोतां तुं मव्यो रे,
 खोव्युं सारुं शहेर रे जाई ॥ मुखडुं देखाड आवी अम्हने उजाई ॥ २२ ॥
 वत्स विमासे चित्तमां रे, न घटे आणी वेल रे माडी ॥ किम आवे वेडमांही
 आवडी उजाडी ॥ २३ ॥ मुज माडी मासी नोहे रे, ए सही मायारूप
 रे जाणी ॥ बोलतां में एहनी रे विक्रिया पिढाणी ॥ २४ ॥ धैर्य धरी
 बोले नहीं रे, गुं करे एह कंगाल रे पाडी ॥ वाज आवी आफ
 रडी जायशे रे त्राडी ॥ २५ ॥ आण न लोपाई यकनी रे, बोली
 बोलीने ताम रे थाकी ॥ कथन रघुं नहिं कहेणनुं रे वाकी ॥ २६ ॥ रवि
 ऊग्यो रजनी गई रे, खेचरी गइ निज गम रे रोइ ॥ जुठ एम जाइयो कर्म
 गति कोइ ॥ २७ ॥ एम संबंध आवी मले रे, गुजनो उदय होवे जाम
 रे जोतैं ॥ साहसिक नर वरे लाठ एम पोतैं ॥ २८ ॥ यतः ॥ दोहो ॥
 साहसियां लढी मिले, नहु कायर पुरिसेह ॥ कानें कुंमल रयणमय,
 आंखे अंजनरेह ॥ १ ॥ श्लोक ॥ उद्यमः साहसं धैर्यं, बलबुद्धिपरा
 क्रमम् ॥ पडेते यस्य विद्यंते, तस्माद्देवोपि शंकते ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ पंचम
 खंमं शोलमी रे, ढाल कही सुखकार रे राची ॥ वात कहे श्री जिन धनर
 थजी साची ॥ २९ ॥ सर्वगाथा ॥ ५३८ ॥ श्लोक तथा गाथा ॥ २७ ॥

॥ दोहा ॥

॥ थयुं प्रजात रवि प्रगटियो, विवर कुंचिकामध्य ॥ सूर्य रुचि जेदी
 तदा, कुमर लही तव संधि ॥ १ ॥ देवमंदिरथी नीसखो, ते कूर्पासक लेइ ॥
 श्रीखंम तरुकोटर विचें, मूके यत्न करेइ ॥ २ ॥ कावड लइ खंधें धरी,
 काष्ठ खंम लेइ हाय ॥ निजपुरजणी कतावलो, चाव्यो जिम मृग

नाथ ॥ ३ ॥ देइ प्रतोलीपालने, काष्ठखंम ततकाल ॥ नयरमांहे ते
 संचख्यो, मलपंतो गजचाल ॥ ४ ॥ जातां परिमल ऊठव्यो, दिशि अच
 लोके लोक ॥ गंध किहांथी एहवो, एम चिंते गतशोक ॥ ५ ॥ ए कोइ
 शंघणवाहकु, जाये एम अवहील ॥ कोइ तस बोलावे नहीं, ते पण
 चाव्यो सलील ॥ ६ ॥ निजमंदिर आव्यो वही, हरखां मासी मात ॥
 वत्स जोवरावी वाटडी, एम केम मोरा जात ॥ ७ ॥ वात कही कंचुक
 विना, नारो मूकी घरमांहि ॥ खंम एक मासीकरें, दीधो तिण उत्साहि
 ॥ ८ ॥ तस अनुमतथी वेचीयो, गांधीआपण तेह ॥ इव्य आणीने
 आपीयुं, वत्स हाथ ससनेह ॥ ९ ॥

॥ ढाल सत्तरमी ॥

॥ मुरली सांचलवा जइयें ॥ ए देशी ॥ वत्स कहे सुणो माडली, ए
 धन व्यो तुमें सार ॥ न कीजें चाकरी ॥ ए नीठे वली अवरना, करजो
 दाम विचार ॥ न कीजें चाकरी ॥ १ ॥ जाहुं आपजो जेतने, मत रहेजो आ
 धीन ॥ न की ० ॥ हुं तो स्वेहायें क्रीडशुं, नयरमां आखो दिन्न ॥ न ० ॥ २ ॥ घेर
 आविश सूवा कारणें, म करशो फिकर लगा ॥ सजूणी मातजी ॥ शी
 चिंता तुमने हवे, आव्यो आपद पार ॥ स ० ॥ ३ ॥ एम कहीने आवीयो,
 राजकुंवरनी पास ॥ सजूणा साहिवा ॥ ते कहे काले कही किश्युं,
 नाव्या अम आवास ॥ सजूणा साहिवा ॥ ४ ॥ ते कहे मुज शरीरमां,
 कांइक दूती आधि ॥ स ० ॥ तेणें तुम पासें नावीयो, आज टली
 असमाधि ॥ स ० ॥ ५ ॥ कहे पाठक वत्स ताहरुं, कुण स्थानक मुने
 दाख ॥ स ० ॥ कवण जनक माता दुवां, मुजशुं चेद म राख ॥ स ०
 ॥ ६ ॥ कुंवर कहे सुणो तातजी, हमणां म पूठगो वात ॥ स ० ॥
 प्रस्तायें सवि माहरो, जांखीज हुं अवदात ॥ स ० ॥ ७ ॥ जाय जाणीने
 तेदनी, ताणी न पूठगुं तास ॥ स ० ॥ कुंवर ते आपे तेदने, वसन ने
 जोजन खास ॥ स ० ॥ ८ ॥ पुण्यदशा जागी जजी, मान लहे सवि
 ताम ॥ स ० ॥ पर पण पोतानां थयां, अही अही पुण्यनां काम ॥ स ०
 ॥ ९ ॥ एक दिवस पाठकवरु, जेइ सवि ठात्र संघात ॥ स ० ॥ वत्सरा
 जशुं आवीयो, नृप समीप विख्यात ॥ स ० ॥ १० ॥ करी प्रणिपात यथो
 चित्तें, वेतो तेह कुमार ॥ स ० ॥ वत्सराज दीतो तदा, देवकुमर अवता

कांइ संपद वली तेम आय ॥ सु० ॥ ३ ॥ पण आवी तुमेंज इहां रे,
 रहियां गोपवी आप ॥ ते जेम जेम मुजने सांजरे रे, कांइ तेम तेम
 होवे संताप ॥ सु० ॥ ४ ॥ आवे व्यसन एह देवथी रे, नहिं इहां संतने
 लाज ॥ न लह्यां नयरीमां रह्यां रे, कांइ ए में कीध अकाज ॥ सु० ॥
 ५ ॥ हा परघरनी चाकरी रे, तुमें कीधी निर्धार ॥ गाल सबल शिर
 माहरे रे, कांइ बेठी ए जमवार ॥ सु० ॥ ६ ॥ जेम जेम तुम्ह डुख सांजरे
 रे, तेम तेम हृदय नराय ॥ पण सहु ए वश कर्मने रे, कांइ आपणुं कीधुं
 न आय ॥ सु० ॥ ७ ॥ किं बहुना ह्वे हाथणी रे, वहेनी वेसो आवि ॥
 कर जोडी करे विनति रे, कांइ जेठ सोमदत सजाव ॥ सु० ॥ ८ ॥ में अविनय
 कीधो घणो रे, हीन कराव्युं काम ॥ ते खमजो मुज स्वामिनी रे, हुं हुं
 तुमारे नाम ॥ सु० ॥ ९ ॥ ते कहे वांक नहिं किस्यो रे, तुमचो इहांकणो
 जेठ ॥ केडे लाग्युं पापीयुं रे, कांइ पेट करावे वेठ ॥ सु० ॥ १० ॥ शहेरमां
 फरतां अम्ह नणी रे, दीधो तुमें आश्रम ॥ दोहिला दिन वोलावीया
 रे, कांइ दियुं अमें आशिप तुम ॥ सु० ॥ ११ ॥ अहित अयुं होय अम्हथी रे,
 ते खमजो अपराध ॥ तुम्हें गिरुआ गुणवंत ठो रे, कांइ उपगारी वली साथ
 ॥ सु० ॥ १२ ॥ खमी खमावी एणी परें रे, आवे नृप आवास ॥ त्रिहु
 वहेनी वत्सराज्युं रे, कांइ आनंद अधिक उल्लास ॥ सु० ॥ १३ ॥
 नृप उतरवा आपीयुं रे, मंदिर सुंदर एक ॥ सामग्री संयुत करी रे, कांइ
 राख्यो सबल विवेक ॥ सु० ॥ १४ ॥ सुखें रहेतां वत्सने रे, कहे नृप
 शी तुज चाह ॥ जे मागे ते तुजने रे, कांइ आपुं धरि उत्साह ॥ सु० ॥ १५ ॥
 ते कहे मुजने ताहरी रे, सेवानो ठे कोड ॥ रात दिवस तुम आगलें
 रे, कांइ रहेणुं वे कर जोडि ॥ सु० ॥ १६ ॥ संथ्यासमयें मुजने रे, मोकलजो
 मुज गेह ॥ एम कहीने करे चाकरी रे, कांइ हियडे धरि बहु नेह ॥ सु० ॥
 १७ ॥ मान घणुं महिपति तणुं रे, माने सघलां लोक ॥ कमलश्री पण
 नित्यप्रतें रे, कांइ खवर लीये तजी शोक ॥ सु० ॥ १८ ॥ एक दिवस
 महिपाल जी रे, विण मोकले वत्सराज ॥ सूतो वासघरे जइ रे,
 कांइ सुखमां नर शिरताज ॥ सु० ॥ १९ ॥ यामिक चिहुं दिजें आविने
 रे, रहिया तिहां दुशीघार ॥ खड्ग ग्रही वत्सराजजी रे, पण रहियो
 घरने वार ॥ सु० ॥ २० ॥ पंचम खमें अठारमी रे, ढाल यइ सुवि

पार ॥ रामविजय कहे वत्सना रे, कांइ पुण्यतणो नहिं पार ॥ सु० ॥ १ ॥ ६० ॥ ५ ॥
॥ दोहा ॥

वेनयवंत ऊनो रह्यो, सेवकपरें वत्सराज ॥ मध्यरात्रि बोली जिस्यें, तव
नाम्यो नरराज ॥ १ ॥ श्रवणें निसुण्युं दुःखनुं, कामिनीरुदन अपार ॥
मन चिंते महाराजजी, होशे कवण प्रकार ॥ २ ॥ बोलाव्या थामिक
गणी, नरपति ऊंचे साद ॥ पण कोई बोल्या नहिं, ऊंध्या निंद प्रमाद ॥
॥ ३ ॥ वत्सराज बोव्यो तदा, द्यो कारिज आदेश ॥ नृप कहे हजी वेगो
प्रभे, केम न गयो गृहदेश ॥ ४ ॥ विण दुकमें जाऊं नहिं, नृप कहे
ना निजधाम ॥ प्रेष्यपणुं न घटे तुने, कहिश ए अवरने काम ॥ ५ ॥
वत्स कहे महाराजजी, फरमावो मुऊ आज ॥ शिर जोरें करणुं सही,
महीं इहां मुऊ लाज ॥ ६ ॥

॥ ढाल उंगणीशमी ॥

॥ कहे सखि पीयुडे शुं कखुं ॥ सहि मोरी रे ॥ ए देशी ॥ कहे नृप
गुण वत्स माहरा ॥ गुण धोरी रे ॥ पलकमांहे मुऊ आज ॥ लीधुं चित्त
धोरी रे ॥ तुऊ विण कुण रयणी समे ॥ गुण धोरी रे ॥ पडिवळ्हे डुप्कर
काज ॥ लीधुं ० ॥ १ ॥ वत्स जाउं ऊतावला ॥ गुण ० ॥ कोण रोवे ए
कारि ॥ ली ० ॥ दुकम प्रमाण करी चव्यो ॥ गुण ० ॥ साहसिक शिरदार
ली ० ॥ २ ॥ शब्दतणा अनुसारथी ॥ गुण ० ॥ करी उद्धंघन चप्र ॥
ली ० ॥ गयो स्मशाननी नृमिका ॥ गुण ० ॥ सत्त्व संघातें छिप्र ॥ ली ० ॥
॥ ३ ॥ एक प्रदेशें सीमंतिनी ॥ गुण ० ॥ वसनाचरण विज्ञेय ॥ ली ० ॥
गोने ते सुकुमारिका ॥ गुण ० ॥ दीठी सुंदर वेग ॥ ली ० ॥ ४ ॥ पण
गेती अतिही घणुं ॥ गुण ० ॥ पूठे जइनें कुमार ॥ ली ० ॥ वदेन रोवे क्णिण
कारणें ॥ गुण ० ॥ कहे मुऊ दुःख विचार ॥ ली ० ॥ ५ ॥ चाव्यो जा परदे
शीया ॥ गुण ० ॥ शुं तुऊ पूठण काज ॥ ली ० ॥ शक्ति विना उपकारने
॥ गुण ० ॥ इठे मूर्खशिरताज ॥ ली ० ॥ ६ ॥ वत्स कहे तुं दुःखिणी ॥ गुण ० ॥
में मूकी न जवाय ॥ ली ० ॥ परदुःखें दुःखीया कह्या ॥ गुण ० ॥ मळान
जन जगमांय ॥ ली ० ॥ ७ ॥ सा कययति ॥ यस्य कस्याप्ययं दुःखं न
कथ्यते ॥ चडके ॥ जो नवि डुकं पत्तो, जो नवि डुकस्त निगदह नम
डो ॥ जो नवि डुहिए डुहिय, ता कित्त कहिल्लए डुकं ॥ १ ॥ वत्स

राजेनोक्तं ॥ नडे शृणु ॥ अहमवि डुःस्कं पत्तो, अहमवि डुक्कस्स निग्गह
 समत्तो ॥ अहमवि डुहिए डुहिउं, ता अम्ह कहिज्जाए डुस्कं ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥
 सा कहे सज्जन ते जुवा ॥ गुण ॥ तुं कोण गणतीमांहे ॥ लीण ॥ आज्य
 सुगंध घणो हुवे ॥ गुण ॥ पण तेजने शो गुण थाय ॥ लीण ॥ ७ ॥ केम
 मुज तुं नवि लेखवे ॥ गुण ॥ श्यो अवगुण तें दीठ ॥ लीण ॥ ते कहे बालक
 वेशमां ॥ गुण ॥ शुं तुजथी होवे इठ ॥ लीण ॥ ए ॥ कहे वत्स शुं न हणो धरा
 ॥ गुण ॥ तम ऊगंतो सूर ॥ लीण ॥ नहानो पण हरिनो शिशु ॥ गुण ॥
 नांजे मातंगपूर ॥ लीण ॥ १० ॥ शुं चिंतामणि नानडो ॥ गुण ॥ न
 करे दारिड दूर ॥ लीण ॥ दीपक दीसे बालुउं ॥ गुण ॥ पण करे तम
 चकचूर ॥ लीण ॥ ११ ॥ एम नहानामां गुण घणा ॥ गुण ॥ तेम
 मुजने पण जाण ॥ लीण ॥ बोली हसीने जामिनी ॥ गुण ॥ सांजल
 चतुर सुजाण ॥ लीण ॥ १२ ॥ ए नयरीमांहे वसे ॥ गुण ॥ मुज पियु
 पुरुष रत्न ॥ लीण ॥ विण अपराधें नरेश्वरु ॥ गुण ॥ शूलीयें विधुं ए
 तन्न ॥ लीण ॥ १३ ॥ लेइ आवी घृतपूरने ॥ गुण ॥ पियुमूख क्हेपण
 काज ॥ लीण ॥ हाथ न पहाँचे माहरो ॥ गुण ॥ रोउं तिण कारण आज
 ॥ लीण ॥ १४ ॥ कहे वत्स संतशिरोमणि ॥ गुण ॥ चढ मुज ऊपर
 खंध ॥ लीण ॥ पूर समिहित ताहरुं ॥ गुण ॥ मुज उपकारनी संधि ॥
 ॥ लीण ॥ १५ ॥ वाली कढोटो ऊपरें ॥ गुण ॥ उंची चढी विकराल
 ॥ लीण ॥ ठेदे आमिपपिंमने ॥ गुण ॥ हाथ लई ते पालि ॥ लीण ॥
 ॥ १६ ॥ ऊर्ध्व विलोके वत्सजी ॥ गुण ॥ दीतुं कुचेष्टित तास ॥ लीण ॥
 खड्ग खेंची कहे रंमिके ॥ गुण ॥ किहां जाइश हवे नाशि ॥ लीण ॥ १७ ॥
 उंची उमंतां जेहनां ॥ गुण ॥ परिधान चीवर हाथ ॥ लीण ॥ रहियां ते
 नाशी गइ ॥ गुण ॥ पापिणी जेम अनाथ ॥ लीण ॥ १८ ॥ घनरथ जिनने
 एहवे ॥ गुण ॥ पूठे प्राणी कोय ॥ लीण ॥ जगवंत कुण ए कामिनी ॥ गुण ॥
 कर्म करे गुण खोय ॥ लीण ॥ १९ ॥ कहे प्रभु देवी डुष्ट ते ॥ गुण ॥
 नर बलवाने अधर्म ॥ लीण ॥ करे अहोनिश शंके नहिं ॥ गुण ॥ कर
 ती एहवां कर्म ॥ लीण ॥ २० ॥ कहे प्रभु नरुण नवि करे ॥ गुण ॥
 मांस एह सुर जात ॥ लीण ॥ पण क्रीडा ए तेहोनी ॥ गुण ॥ जाणे
 नर साहात ॥ लीण ॥ २१ ॥ वत्सराज लेइ वख ते ॥ गुण ॥ आव्यो

नेज आवास ॥ ली० ॥ शयन कछुं सुखियो थयो ॥ गु० ॥ आनंद
नीज विलास ॥ ली० ॥ २२ ॥ पंचम खंफे उगणीशमी ॥ गु० ॥ ढाल
ढही ससनेह ॥ ली० ॥ रामविजय कहे रंगछुं ॥ गु० ॥ वत्स जयो
एणगेह ॥ ली० ॥ २३ ॥ सर्वगाथा ॥ ६३४ ॥ श्लोक तथा गाथा ॥ २६ ॥

॥ दोहा ॥

॥ वख लेई ते आवीयो, नृपपासें परजात ॥ करि प्रणाम कजो रह्यो,
हुवर कुलविख्यात ॥ १ ॥ नृप आगल सवि रातनो, जांख्यो तेणे विस्तंत ॥
रात सुणी विस्मय लह्यो, मासो ते नूकंत ॥ २ ॥ वसन तेह देवीतणुं,
आपुं नरपति हाथ ॥ रयणजडित देखी करी, हरख्यो ते नूनाथ ॥ ३ ॥
राणीने ते सोंपीछुं, हरखी मन अत्यंत ॥ पहेछुं पण कंचुक विना, शोचा
ने न लहंत ॥ ४ ॥ राणी कहे प्रीतम नणी, ए सरिखो कूर्पास ॥ आणी
थापो मुज्जे, प्राणेश्वर सुविलास ॥ ५ ॥ राय कहे वत्सराजने, पहेरण
वख समान ॥ जो कंचुक आणी दीये, तो हुवे हर्ष अमान ॥ ६ ॥
वचन प्रमाण कछुं तदा, जइ वन चंदनवृक्ष ॥ कोटरथी खेचरी तणुं,
आणी आपे दह ॥ ७ ॥ पहेरी सा परसन थइ, मासी दे आशीष ॥
वत्सराज चिरंजीव तुं, पूरी मनह जगीश ॥ ८ ॥

॥ ढाल वीशमी ॥

॥ नमो रे नमो श्री शत्रुंजय गिरिवर ॥ ए देशी ॥ जानें लोच धणे
रो बाधे, लुभा नवि ओजाय रे ॥ जेम जेम पूरणने धन सोंचे, तेम तेम
बहुली आय रे ॥ १ ॥ जानें ० ॥ ए आंकणी ॥ ते वेदु चीवरने अण
सरिखुं, निज उत्तरीय निहाजि रे ॥ कमलश्री करे मनमांहे आरति, कर
देई निज जाल रे ॥ ला० ॥ २ ॥ आरति धरती नृपति निहाली, पूठ्युं
आवी ताम रे ॥ श्याममुखी केम दीसे कामिनी, श्यो लुज मनमांहे
काम रे ॥ ला० ॥ ३ ॥ सुणो वालम कहेतां हुं लाजुं, कहे नृप शी मुज
लाज रे ॥ सुण सुंदरी ते लाज न कीजें, जेहथी विणमे काज रे ॥ ला०
॥ ४ ॥ राणी कहे उत्तरीय मजे जो, ए सरिखुं अवनेश रे ॥ तो मुज मन
संतोष लदे एम, कहे नामी निज शीश रे ॥ ला० ॥ ५ ॥ नृपति चिते
लोच तणां ए, ओच न दीसे कोय रे ॥ कामिनी जातें अयगुण प्राये,
जगमां बहुलो दोष रे ॥ ला० ॥ ६ ॥ यतः ॥ अनृत साहस माया,

मूर्खत्वमति लोचता ॥ अशौचं निर्दयत्वं च, स्त्रीणां दोषाः स्वप्नावजाः ॥ १ ॥
 पूर्वढाल ॥ कहे राजन तुज सम नहिं कोइ, अविवेकीण अविचारी रे ॥
 व्यर्थ मनोरथ वस्तु असत्ता, ए मति नहिं तुज सारी रे ॥ ला० ॥ ७ ॥
 कहे राणी प्रीतम ए साचुं, पण मुज आणी आपो रे ॥ प्राणजीवन
 मनोवंछित पूरण, तुम ऊपर अम दापो रे ॥ ला० ॥ ८ ॥ जोजन हठ
 लेई रही राणी, नृप मन चिंता महोटी रे ॥ कोपमंदिरमां पेठी कामिनी,
 लोचनी जाति ए खोटी रे ॥ ला० ॥ ९ ॥ मूरख बाल अने वनितानो,
 हठ सबलो जग होवे रे ॥ घरनी चिंता चित्त न आणे, निज सुख साहा
 मुं जोवे रे ॥ ला० ॥ १० ॥ कहे राजा वत्सराजने तेडी, साहसिया शि
 रदार रे ॥ दिव्य वसन आपीने मुजने, अनरथ कीध विचार रे ॥ ला०
 ॥ ११ ॥ ए तुज मासी लोचें प्यासी, नहिं संतोष लगार रे ॥ उढणी का
 ज लियो हठ सबलो, नहिं कोइ पूरणहार रे ॥ ला० ॥ १२ ॥ कहेण न
 माने मानिनी माहरुं, लोचथी लहण नाठां रे ॥ सात न पूराये ए नीति
 नां, वयण न दीसे माठां रे ॥ ला० ॥ १३ ॥ यतः ॥ अग्निर्विप्रोयमो
 राजा, समुद्र उदरं गृहम् ॥ सप्तैतानि न पूर्यते, याचंति च दिने दिने ॥ १ ॥
 ॥ पूर्वढाल ॥ वत्स विचारी कहे सुणो स्वामी, पूरवी मासी आशा रे ॥
 पटमासान्यंतर जो न पूरुं, तो करुं अग्नि प्रवेशा रे ॥ ला० ॥ १४ ॥ कहे
 राजन वत्स एम न कीजें, आकरी एह प्रतिज्ञा रे ॥ न कलाये विधि
 विविध कलाइ, नियति न बोले विज्ञा रे ॥ ला० ॥ १५ ॥ ते कहे तुम
 प्रसादें रूडुं, राजन् सघलुं यात्रे रे ॥ पण मुजने तुमें आपो आणा,
 जावीजाव जणात्रे रे ॥ ला० ॥ १६ ॥ लेइ नृपआणा मंदिर मांहे,
 जननी नमेवा आव्यो रे ॥ कर जोडी रहि आगाल ऊजो, सयल विचार
 सुणाव्यो रे ॥ ला० ॥ १७ ॥ मोहवर्षे माडी कहे तें वत्स, डुष्कर अंगी
 कीधो रे ॥ वत्स कहे हवे वात ए न फरे, वयणें बोल जे दीधो रे ॥
 ला० ॥ १८ ॥ कहे माडी मासी सुण अंगज, तुं अम्ह प्राणाधार रे ॥
 केम परदेशजणी मूकाये, मारग विपम अपार रे ॥ ला० ॥ १९ ॥ कहे
 वत्स सघलुं रूडुं यात्रे, द्यो आशीप पसाय रे ॥ चिंता मत करशो कोइ
 महारी. सायें पुण्य सखाय रे ॥ ला० ॥ २० ॥ धीर वीर जाणी कहे
 जननी, होजो तुम कल्याण रे ॥ वहेला काज करी वत्स बलजो, सुण

अम जीवन प्राण रे ॥ ला० ॥ ११ ॥ मायडी तिलक कखुं कुंकुमनुं,
दीधुं श्रीफल सार रे ॥ दधिजोजन करिने सिद्धि कीधी, श्री वत्सराज
कुमार रे ॥ ला० ॥ १२ ॥ कांइक संवल लेई साथें, पग पालो ते चा
व्यो रे ॥ खड्ग खेटक संयुत दक्षिण दिशि, हींमे हर्षखुं माव्यो रे ॥ ला०
॥ १३ ॥ नव नव जाति विनोदने जोतो, फरतो बहु पुर ग्रामें रे ॥ आग
ल एक अटवी तिहां आवी, नहिं मानवनुं नाम रे ॥ ला० ॥ १४ ॥
तिहां जातां प्राकारविराजित, लघुपत्तन एक वीतुं रे ॥ देखी विजन
वत्सराज विमासे, ए कांइ कोतुक मीतुं रे ॥ ला० ॥ १५ ॥ पंचम खंरु
ढाल वीशमी, राममुनि एम जांखे रे ॥ धन्य एहवे ठामें जे तिलजर,
नव मनमां नवि राखे रे ॥ ला० ॥ १६ ॥ सर्वगाथा ॥ ६६७ ॥ श्लोक ३१

॥ दोहा ॥

॥ नूत प्रेत राक्षस तणुं, दीसे पुर कोइ एह ॥ अथवा ए चिंता किस्ती,
जइ जोउं ससनेह ॥ १ ॥ नयरमांहिं जोवे जइ, महोदुं मंदिर एक ॥ लघु
वीजां तस पांखती, निरखे ते सुविवेक ॥ २ ॥ सजामांहि वेठो तिहां, वी
ठो पुरुष प्रधान ॥ तस परिवारने पूठीयुं, ए कोण सुगुण निधान ॥ ३ ॥
कुण नामें दीसे नगर, कुण स्वामी ए पास ॥ नर बोले ए नहिं नगर, नहिं
नरपतिनो वास ॥ ४ ॥ पण इहांथी नहिं हूकडुं, नहिं वेगखुं सार ॥ नूति
लकाजिय पुर अठे, चूरमणी उर हार ॥ ५ ॥ वैरसिंह नामें जलो, वैरी
गज पंचास्य ॥ रूपवती राणी तणो, प्रीतम लील विलास ॥ ६ ॥ तिए
पुरमां रंगें रहे, दत्त नामें एक शेर ॥ दोलतने दोरें करी, सद्दुये जेहथी
हेठ ॥ ७ ॥ श्रीदेवी नामें निपुण, नारी निरुपम रूप ॥ रति दाम्नी कीधी
जेणें, मोहन बेली अनूप ॥ ८ ॥ तेहनी कूखें उपनी, तनया अति सुवि
नीत ॥ श्रीदत्ता नामें जली, मात पिताने चिंत ॥ ९ ॥

॥ ढाल एकवीशमी ॥

॥ महाविदेह क्षेत्र सांझामणुं ॥ ए देगी ॥ नर यौवन आवी जनी,
वाला तन सुकुमाल ॥ लाल रे ॥ रूप कला गुण शोचती, चाले गजगति चाल
॥ ला० ॥ १ ॥ जुवो विपम गति कर्मनी ॥ ए आंकणी ॥ कोणें कली
न लाय ॥ ला० ॥ कर्मवर्गें सद्दु जीवडा, लहे सुख दुःख समुदाय ॥
ला० ॥ सुवोण ॥ २ ॥ श्रीदत्ता दुइ कर्मथी, दोषाक्रांत शरीर ॥ ला० ॥

जनक उपाय करे घणा, पण न टली तस पीर ॥ ला० ॥ जु० ॥ ३ ॥
मात पिता दुःखीयां थयां, चिंते मनमाहे एम ॥ ला० ॥ दोषी देव
ए रयणनो, कहो हवे कीजे ए केम ॥ ला० ॥ जु० ॥ ४ ॥ यतः ॥ चंडे
लांठनता हिमं हिमगिरौ द्वारं जलं सागरे, रुद्राश्रंदनपादपा विपधरैरंजो
रुहं कंटकैः ॥ स्त्रीरत्नेषु जरा कुचेषु पतनं विद्वत्सु दारिद्र्या, सर्वं रत्नमुप
ध्वेण सहितं दुर्वेधसा निर्मितम् ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ मूके नरने पाहरु,
कुमरी सेवा काज ॥ ला० ॥ रातमाहे सही ते मरे, महोदुं एह अकाज
॥ ला० ॥ जु० ॥ ५ ॥ जो न रहे कोइ पाहरु, ते कन्यानी पास ॥ ला० ॥
तो ते रयणीमां दुवे, सात पुरुषनो नाश ॥ ला० ॥ जु० ॥ ६ ॥ वात
सुणी नरराजीये, तेढाव्यो ते दत्त ॥ ला० ॥ तुज कन्या कुलखंपिणी,
वात सुणी में मित्त ॥ ला० ॥ जु० ॥ ७ ॥ जा मूकी मुज नयरने,
कोइक अटवी मजार ॥ ला० ॥ तुज कन्यादोषें रखे, थाये बहुजन
संहार ॥ ला० ॥ जु० ॥ ८ ॥ अइ दिलगीर ते नीसखो, लेई निज
परिवार ॥ ला० ॥ आवी अटवीमां रह्यो, घर करी सप्राकार ॥ ला० ॥
जु० ॥ ९ ॥ सेवक राख्या अति घणा, देई बहुला दाम ॥ ला० ॥ नाम
लखी गोला नखा, करे चिन्ही वधकाम ॥ ला० ॥ जु० ॥ १० ॥ नामुं
आवे जेहनूं, ते रहे चोकीदार ॥ ला० ॥ करे कन्यानी चाकरी, थाये
तस संहार ॥ ला० ॥ जु० ॥ ११ ॥ पण लोनें सहुको पडे, सहुने वहाला
दाम ॥ ला० ॥ दामथकी जगमां सही, डुण्कर पण करे काम ॥ ला० ॥
जु० ॥ १२ ॥ यडुक्तं ॥ यहुर्गामटवीमटंति विकटं क्रामंति देशांतरं, गाहंते
गहनं समुद्रमतुलं क्लेशां कृषीं कुर्वते ॥ सेवते रूपणं पतिं गजघटासंघट्ट
स्संचरं, सर्पति प्रधनं धनांधितधियस्तल्लोचविस्फूर्जितम् ॥ २ ॥ पूर्वढाल ॥
ते नरमांहेथी सही, एकेको मरे नित्य ॥ ला० ॥ अवर कोइ न रहे इहां,
सवली वरते ईति ॥ ला० ॥ जु० ॥ १३ ॥ ते माटे वारुं तुने, पंथी म
जा इण ठाम ॥ ला० ॥ जिण स्थानक नय उपजे, तिहां जइयें शो
काम ॥ ला० ॥ जु० ॥ १४ ॥ वात सुणी वत्तराजजी, उपगारी
शिरदार ॥ ला० ॥ धैर्य धरीने आवीयो, दत्त समीपें उदार ॥ ला० ॥
जु० ॥ १५ ॥ उत्तम नर जाणी करी, वेसाखो आसन्न ॥ ला० ॥ पान
वीडां आगल धखां, शेर अई सुप्रसन्न ॥ ला० ॥ जु० ॥ १६ ॥ मुख देखी

रीज्यो घणुं, पूठीधुं कुण तुमें संत ॥ ला० ॥ परकासो अम आगले, तुमें
महोटा माहंत ॥ ला० ॥ जु० ॥ १७ ॥ वासी हुं उळेणिनो, आव्यो
कारण माट ॥ ला० ॥ तुम दीते आज माहरे, दूर गया उच्चाट ॥ ला०
॥ जु० ॥ १८ ॥ वात करे दत्त आगले, जेहवे ताम पुमान ॥ ला० ॥ एक
आव्यो रलियामणो, सुंदररूप जुवान ॥ ला० ॥ जु० ॥ १९ ॥ आवी उजो रह्यो
आगले, मनमां घणुं विहाय ॥ ला० ॥ जेठ जणी पूठे तदा, केम ए नर कुम
लाय ॥ ला० ॥ जु० ॥ २० ॥ नाखी निशासो तव कहे, सुण शा पुरुष विचार
॥ ला० ॥ कर्म कठिन आव्यां उदे, धिक् महारो जमवार ॥ ला० ॥
जु० ॥ २१ ॥ गोपनीय पण ताहरी, आगल कहुं अवदात ॥ ला० ॥
मुळ तनयानी आकरी, कर्मकथानी वात ॥ ला० ॥ जु० ॥ २२ ॥ रय
णीयें यामिक जे रहे, आकरो कोशक दोष ॥ ला० ॥ रात समयमां ते
मरे, अशुच तणो ए पोप ॥ ला० ॥ जु० ॥ २३ ॥ आज ठे वारक ए
हनां, तेणें जंखाणी काय ॥ ला० ॥ मरण समो जय को नहिं, एम
नांखे जिनराय ॥ ला० ॥ जु० ॥ २४ ॥ वात सुणी वत्सराज वोजियो,
पर उपकारने काज ॥ ला० ॥ मुळहंती ए वगरे, तो लहुं त्रिभुवनराज
॥ ला० ॥ जु० ॥ २५ ॥ कहे वत्स मत वीहे मने, ताहरे साटें हुं जाइ
॥ ला० ॥ करिण कन्यानी सेवना, तुं रहे आनंदमांइ ॥ ला० ॥ जु०
॥ २६ ॥ जेठ कहे तुं प्राहुणो, करवुं घटे सन्मान ॥ ला० ॥ तुजने देवा
ये नहिं, मरणतणुं अपमान ॥ ला० ॥ जु० ॥ २७ ॥ यतः ॥ गुरुरग्नि
र्षिजातीनां, वर्णानां ब्राह्मणोगुरुः ॥ पतिरेव गुरुः स्त्रीणां, सर्वस्यान्यागतो
गुरुः ॥ ३ ॥ पूर्वदाल ॥ वत्स कहे तात ए में सही, कीधुं अंगीकार ॥
ला० ॥ परउपगारी नरें सही, एम कसुं शास्त्र मजार ॥ ला० ॥ जु० ॥ २८ ॥
यतः ॥ कृतोपचारः सर्वोपि, करोत्युपकृतिं जनः ॥ विनोपचारं यस्मात्ता, विपदः
सोऽत्र सङ्गतः ॥ ४ ॥ धन्यास्ते पशवोऽनून, मुपकुर्वति ये त्वचा ॥ परोपकारहीन
म्य, धिक्कानुषस्य जीवितम् ॥ ५ ॥ क्लेत्रं रक्षति घंवा, शृङ्ग गतकोष्ठीस्थितान्
कणान् गृह्णा ॥ दंतात्तृणं प्राणा, चरेण किं निरुपकारेण ॥ ६ ॥ किं तेन सुत
जातेन, येनात्मा दुर्जरः सदा ॥ समयोऽनोपकाराय, नाबुजां तेन नेन किम्
॥ ७ ॥ पूर्वदाल ॥ पंचम खंड एकवीशमी, धन एव्वा गुणवंत ॥ ला० ॥
रामविजय कहे तेहने, नित्यवठी नमो संत ॥ ला० ॥ जु० ॥ २९ ॥ ७० ॥ २९ ॥

॥ दोहा ॥

॥ हवे दत्त आणा लही, उपर नूमि वत्सराज ॥ कन्या ॥ ३ ॥
 यो, साहसिक शिरताज ॥१॥ वत्स देखि चित्त चिंतवे, अर्धापी देव
 ए कोइक राजा तणो, दीसे कुंवर पदुत्त ॥ २ ॥ ॥ चंडे

॥ ढाल बावीशमी ॥

॥ चतुर चोमासुं इण कुंगरीये न जइयें रे ॥ ए देशी ॥ रत्नमुप
 चिंते सा वाली रे ॥ नारी नहिं पण मारी हुं जाली रे ॥ पाहुरु,
 जने चांमाली, मुज माथे महोटी ए गाली ॥ चतुर विचारी ए अकाज
 न करीयें रे, पातकडां न करीयें, वहाला मनडां मांहे मरीयें ॥ जाणो
 ए नररयण तणी हत्यारी रे, कां मुजने इण कुलें अवतारी वात
 ॥ २ ॥ शां कखां कर्म कठिन में जूंमां रे, के कखां कोइणी,
 कंमां रे ॥ धि० ॥ ३ ॥ शाने धरी मुज कुखें तें माडी रे, एहवे,
 में तुजने लजाडी रे ॥ धि० ॥ ४ ॥ यइ मावित्रने हुं दुःखदायी
 जो काम आवी मुज चतुराई रे ॥ धि० ॥ ५ ॥ पास्यो मानव जव
 न आयो रे, कमें ए महोटी दोप लगायो रे ॥ धि० ॥ ६ ॥ हा हवे
 बूटीश ए पापो रे, राखो रे मुजने कोइ माय बापो रे ॥ धि०
 ॥ ७ ॥ एम चिंतवती हो अबला ते फुरे रे, नयणें वहे आंसुडांने
 रे ॥ धि० ॥ ८ ॥ आव्यो कुंवर तव वेगो बीजी शय्या रे, कुमरी वो
 तव मूकीने लज्जा रे ॥ धि० ॥ ९ ॥ हुं आव्यो आज तुज रखव
 रे, कुंवरी श्रीदत्ता मुजने उत्तर वालो रे ॥ धि० ॥ १० ॥ वात
 मनडांमांहे रीजी रे, वेहुनी चेदाणी कांहिं हैडानी मींजी रे ॥ धि०
 ११ ॥ रीजाणी चिंते एम घाटें रे, एहने उगारुं महारा जीवित साते
 ॥ धि० ॥ १२ ॥ एम चिंतवतां हो ततद्वण आवी रे, निंदरडी वैरण
 कुंवरी घेरावी रे ॥ धि० ॥ १३ ॥ उंधी जाणीने वत्स अधो नूमि जा
 काष्ठ लेइ आव्यो एक बुद्धि सखाई रे ॥ धि० ॥ १४ ॥ काष्ठ सुवासुं
 प जेम दीसे रे, ग्रही तरवार रह्यो एकण दिशें रे ॥ धि० ॥ १५ ॥ व
 तणी ठाया रह्यो बलीयो रे, धारिणी जायो नवि जाये कोनो ठलियो
 ॥ धि० ॥ १६ ॥ एणो अवसरें वातायन विवरें रे, मुख एक पेसंतुं
 तव कुमरें रे ॥ धि० ॥ १७ ॥ यइ सचेतो कुमर तव रहीयो रे, वज्र त

रीज्यो घणुं, ती ह्यो रे ॥ धि० ॥ १८ ॥ तेणें मुखें वासधरने निहाली रे,
 मद्दोटा माहंतं कर ततकाली रे ॥ धि० ॥ १९ ॥ मुडा अलंकृत अंगुलि
 कारण माट ॥ धिवल्लीयें मंफित घणुं सोहे रे ॥ धि० ॥ २० ॥ फूंकयकी
 ॥ जु० ॥ १८ ॥ टारो रे, वासचुवनमाहे व्याप्यो अंधारो रे ॥ धि० ॥
 आब्यो रलियामरसे जइ चामिक सेजें रे, तव कुंवरें हण्यो खड्गें सुतेजें रे
 आगळें, मनमां ॥ देवप्रनावें तस कर नवि पडियो रे, औपधियुग पड्यो
 लाय ॥ ला० ॥ ३२ रे ॥ धि० ॥ २३ ॥ एक धूमोपधि तेहमाहे ताजी रे,
 ॥ ला० ॥ कोहणी साजी रे ॥ धि० ॥ २४ ॥ अइ वेदना हाथ लीधो
 जु० ॥ २१ ॥ वी बोली हा हा मुजने वंची रे ॥ धि० ॥ २५ ॥ कहे कुंवर
 मुज तनयाज दासी रे, हवे मुज आगें किहां जाइश नासी रे ॥ धि० ॥
 णीयें चाप्रिज उपाडीने केडें उजाणो रे, नाठी देवी तस ताप न खमाणो
 मरे, अ० ॥ २७ ॥ पुण्यवलीया आगल कोण मंमे रे, पुण्य प्रवल वेरी
 हनो खंमे रे ॥ धि० ॥ २८ ॥ पाठो वली आब्यो वत्सराजां रे, पुण्य पसा
 न सवि सीधलां काजो रे ॥ धि० ॥ २९ ॥ आवी वेठा जव कुंवर सवाया
 प, खणी विहाणी तव वाहणलां वायां रे ॥ धि० ॥ ३० ॥ पंचम खंमेवावी
 ॥ मी ढालें रे, उग्यो सूरज वत्स मुखडुं निहाले रे ॥ धि० ॥ ३१ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥
 ॥ दोहा ॥

॥ इण अवसर ते कन्यका, जागी जूवे जाम ॥ अरुतांग दीवो कुंवर,
 हेडे दरखी ताम ॥ १ ॥ चिंतववा लागी चिंतें, ए कोइ पुरुपरतन्न ॥ स
 वल प्रनाव एहनो महि, दुष्टयकी न विपन्न ॥ २ ॥ अथवा जाग्युं जाग्य
 मुज, मलियो पुरुष प्रवान ॥ जो परणुं तो एहने, नहिं तो विषयपञ्चका
 ण ॥ ३ ॥ एम चिंती कदे सुंदरी, व्यसनयकी केम आज ॥ सूकाणा ते
 मुज कदो, गिरुआ गरिवनिवाल ॥ ४ ॥ सवल वात मांती कद्री, नि
 सुणी दरखी वाल ॥ रोम रोम तन उल्लस्युं, मन विकस्युं ततकाल ॥ ५ ॥

॥ दाल त्रयीशमी ॥

॥ लावलेदे मात मद्दार ॥ ए देशी ॥ वात करे वेहु तेह, दर्प धरी स
 सनेह ॥ आज अं ॥ आवी रे जल लेइ दाही कनी कने जी ॥ १ ॥ देखी
 अरुत अंग, पुन्य घयां मन रंग ॥ आ० ॥ अंठी रे आवी इनजेठनी आग
 लें जी ॥ २ ॥ जय स्वामी मुज आज, अरज सुणो महागज ॥ आ० ॥

लावी रे वधामणी नर कुशला तणी जी ॥ ३ ॥ हर्ष ह्ये न समाय,
 उठयो शेठ तव धाय ॥आ०॥ आव्यो रे ते पासें नयणें निरखतो जी ॥४॥
 श्रीदत्ता गुणखाणि, ऊनी जोडी पाणि ॥ आ० ॥ आप्युं रे शुन आ
 सन जनकने वेसवा जी ॥ ५ ॥ कहे दत्त साहसधीर, सुण पुरुषोत्तम
 वीर ॥ आ० ॥ रातें रे व्यसनांबुधि कहो केम निस्तखो जी ॥ ६ ॥ सत्त्व
 तणो आधार, मांमी कहे सुविचार ॥आ०॥ हरख्यो रे निसुणीने तेहनी
 वातडी जी ॥ ७ ॥ कहे दत्त सुण नरसिंह, महिमावंत अबीह ॥ आ० ॥
 दीधी रे में पुत्री तुज्जने माहरी जी ॥ ८ ॥ नहिं मुज पाड सुजाण, तुज
 गुणक्रीता जाण ॥ आ० ॥ तो पण रे व्यवहार ए मुज कहेवा तणो
 जी ॥ ९ ॥ कुंवर करे सुणो स्वामि, न लहो मुज कुज ठाम ॥ आ० ॥
 दीजें रे केम अणजाएयाने दीकरी जी ॥ १० ॥ दत्त नणे कुज जात,
 लक्षणथी लहि वात ॥ आ० ॥ कलिमां रे कुण कुज कलहंस तणुं कहे
 जी ॥ ११ ॥ ठानो न रहे सूर, तेज प्रताप पमूर ॥ आ० ॥ पायो रे तुं
 पुरुषशिरोमणि पुण्यथी जी ॥ १२ ॥ यतः ॥ आकृतिर्गुणसमृद्धिशंसिनी,
 नम्रता कुलविशुद्धिसूचिका ॥ वाक्क्रमः कथितशास्त्रसंक्रमः, सत्तमस्य
 ज्वतोविवोधकः ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ दीधुं कन्यादान, जे मुज जीव
 समान ॥ आ० ॥ आपुं रे शुं अधिकुं तुज्जने एहथी जी ॥ १३ ॥ करो
 करुणा वरो एह, नहिं अम मन संदेह ॥ आ० ॥ जाणुं रे तुमें अम कर
 चिंतामणि चढ्या जी ॥ १४ ॥ कुंवर कहे कहुं साच, पण निसुणो मुज
 वाच ॥ आ० ॥ जावुं रे मुज गिरुवे कारज वेगळुं जी ॥ १५ ॥ वलतो
 आवीश थाम, करशुं जे कहेशो काम ॥ आ० ॥ बोले रे दत्त वात कहो
 ते नवि मजे जी ॥ १६ ॥ एक वार परणी एह, पठें मन माने तेह
 ॥ आ० ॥ करजो रे कारिज ए अमची वीनति जी ॥ १७ ॥ कीधुं अं
 गीकार, हठ जाणी निर्धार ॥ आ० ॥ परणी रे श्रीदत्ता तिण दिन प
 चिनी जी ॥ १८ ॥ हरख्यां साजनवृंद, उत्सव अति आनंद ॥ आ० ॥
 रहीया रे एक रात्रि तिहां आवासमां जी ॥ १९ ॥ दंपती दिल नर
 प्रेम, दोगुंडुक सुर जेम ॥ आ० ॥ रमतां रे रंगेंछुं बोली रातडी जी
 ॥ २० ॥ नर यौवन वय पूर, दंपती चढते नूर ॥ आ० ॥ परिगल रे
 पूण्याइ ए जोडी मली जी ॥ २१ ॥ बीजे दिन वत्सराज, कहे नामिनी

सुण आज ॥आ०॥ महारे रे तुज आणा सिद्ध करवी सही जी ॥ ११ ॥
 कहे श्रीदत्ता नारी, वहाजेसर अवधार ॥ आ० ॥ तुमचो रे न खमाये
 विरहो बालहा जी ॥१२॥ विरहो मास वसंत, नवल नेह गुणवंत ॥आ०॥
 नूतन वय पंचम शर ए पांचे मल्या जी ॥ १४ ॥ पंचम अग्नि महंत,
 केम सहेवाये कंत ॥ आ० ॥ रमीचें रे रंगीले रस जर मालीये जी ॥
 ॥ १५ ॥ विलसो जोग विलास, पूरो वांछित आश ॥ आ० ॥ चिंता रे
 शी मनमां तुमने ते कहो जी ॥ १६ ॥ पंचम खंरुं ढाल, त्रेवीशमी सु
 साल ॥ आ० ॥ होवे रे साहसथी संपद सहेलमां जी ॥१७॥१७१॥३७॥
 ॥ दोहा ॥

॥ कहे वत्स वनिताप्रत्ये, जावुं न गमे मुज ॥ पण सांजज तुज आ
 गजे, कहुं माहुरुं गुज ॥ १ ॥ जो न जाउं देशांतरें, तो हुवे अग्निप्र
 वेश ॥ इहांकणे कांइ संशय नहिं, माटे द्यो आवेश ॥ २ ॥

॥ ढाल चौवीशमी ॥

॥ देशी जत्तीनी ॥ जत्ती ॥ कहे कामिनी जोडी पाणि, निसुणो प्रीतम गुणखा
 णी ॥ तुम विण मुज मन अकलाय, कृण वरस वरोवर थाय ॥१॥दोहो॥
 सज्जन तुमें मिधावशो, बहुगुणवंता नाह ॥ पण महारी गति शी होजे, उं
 चां शोच अथाह ॥ २ ॥ यत्ती ॥ शोच म करे रे कामिनि कांहिं, तुजगुं
 मुज अंतर नांही ॥ में प्राण दीयां तुज हाथे, तुं रात दिवस मुज साथे
 ॥ ३ ॥ दोहो ॥ साथ तुमारो बलहा, में करवो निरधार ॥ अवला कवेखी
 जशां, शो तुम नेह विचार ॥ ४ ॥ यत्ती ॥ नेह नवल निवाहो बहाला,
 दोहिलां मुज विरहनां जालां ॥ कंत करुणा करां रस चीना, मुज साथ
 ल्यो वीर नणदीना ॥ ५ ॥ दोहो ॥ सांजज सतनेही प्रिया, बहेजो बल
 नो आवि ॥ रमजुं रामत रंगजरी, नवरस नेह बनावि ॥ ६ ॥ यत्ती ॥ बनजे
 तुजगुं प्रीति जाजी, दे आणा मुज अग्ने राजी ॥ रहेतां विणसजे मुज काज,
 तुजगुं शी करवी लाज ॥ ७ ॥ दोहो ॥ लज्जा लोपीने कहे, नथण जंते
 नीर ॥ बहाजेतर आख्या विना, नवल न पहें चौर ॥ ८ ॥ यत्ती ॥ चिर
 कुंकुम काजल रेहा, न लेंचं तुम विण वण नेहा ॥ वलि कुमुमानरण तंबो
 ला, तुम आवये जेजे रंगोजा ॥ ९ ॥ दोहो ॥ रंगीजा बालम सही, ए
 मुज वेणीपंध ॥ तुम आवेदिज तृच्छं, एह अही में लंधि ॥ १० ॥ यत्ती ॥

संधा समरेजो स्वामी, विनवुं वुं अंतरजामी ॥ रहेशुं तनशुं इण वेशें,
 पण हृदय पियु जिण देशें ॥ ११ ॥ दोहो ॥ जिण देशें पियु संचरो,
 तिण देशें होजो हेम ॥ अक्सरें मुऊसंनारजो, मत वीसारो प्रेम ॥ १२
 ॥ यत्ती ॥ प्रेम मत विसारो पनोता, लही नव नवी नारी कंता ॥ वहेला
 वलजो हितवंता, कर जोडी कहे श्रीदत्ता ॥ १३ ॥ दोहो ॥ श्रीदत्ता कहे
 साहिबा, वहेलाही वलजोह ॥ रुंगरजीवी जीवजो, ऊंवर ज्युं फलजोह ॥
 ॥ १४ ॥ यत्ती ॥ फलजो तुम कहुं शिर नामी, नवि बोली जाणुं रति
 कामी ॥ जाउं एम कहेतां कातुं, मत जाउं वयण ए मातुं ॥ १५ ॥ दोहो
 कातुं वयण न बोलीयें, पीयु सीधावण वार ॥ जेम जाणो तेम युं कहे,
 नेह कवण नरतार ॥ १६ ॥ यत्ती ॥ नेहें आवुं संघातें ए वाणी, न चढे ए
 पियुजी प्रमाणी ॥ माटें करी चिंतित काज, वहेलुं दरिसण देजो राज
 ॥ १७ ॥ दोहो ॥ रीज्यो निसुणी नारीनां, वयण अमीरस तोल ॥ वीस
 रजो नहिं वालही, ए तहरा मुऊ बोल ॥ १८ ॥ यत्ती ॥ बोल देइ लेइ
 शेर आणा, कुमरें तव कीध प्रयाणा ॥ जातां एक आगल आवी, अ
 टवी अति नीपण चावी ॥ १९ ॥ दोहो ॥ चावा नील घणा जिहां, पर्व
 त अति उत्तंग ॥ जांस जाड ऊग्यां घणां, नहिं जिहां सज्जन संग ॥ २०
 ॥ यत्ती ॥ एहवी अटवीमांहे एक ठाम, दीठी एक नयरी अनिराम ॥ घर
 अत्रंजिह जिहां दीसे, जोतां मानव मन हीसे ॥ २१ ॥ दोहो ॥ वाहिर
 सरोवर पेखीयुं, अति शीतल जल चंग ॥ चरणानन पावन करी, वेठो पालें
 मनरंग ॥ २२ ॥ यत्ती ॥ मनरंगें वेठो जइ पालें, चिहुं दिशें निरखीने नि
 हाले ॥ जल वहेती दीठी बहु नारी, पूढयुं एकने जइ मति सारी ॥ २३
 ॥ दोहो ॥ मतिसारी पूढे तिहां, कुण नयरी कुण नूप ॥ हुं तुम पूढुं प्रेमशुं,
 जांखो सकल स्वरूप ॥ २४ ॥ यत्ती ॥ जांखो सकल स्वरूप विचारी, कहेशे हवे
 ते पनिहारी ॥ पंचमे चोवीशमी ढाल, कहे राम सुणो उजमाल ॥ २५ ॥ १६६
 ॥ दोहा ॥

॥ अंतर देवी वासियुं, ते कहे ए पुर सार ॥ क्रीडा करवा कारणें, सां
 जल चतुर कुमार ॥ १ ॥ अन्य नहिं राजा इहां, नहिं कोइनो अधिकार ॥
 ठे देवी अम स्वामिनी, अमें तेहनो परिवार ॥ २ ॥ कुमर कहे साचुं कयुं,
 जल वहो केणें काज ॥ ते कहे सांजल सापुरुप, वयण माहरुं आज ॥ ३ ॥

॥ ढाल पञ्चीशमी ॥

॥ शारद बुधिदायी ॥ ए देशी ॥ कहे ते देवनारी, सांचल साहस
धीर ॥ जननीना जाया, गिरुथा गुण गंजीर ॥ पावन पुरुषोत्तम, अतु
लीवज वड वीर ॥ अम्ह स्वामीनी वेदन, हजीव न आव्यो तीर ॥ बूटक ॥
तीर न आव्यो एकण देजें, अम्ह स्वामिनी नइ दूती ॥ तिहां कोइ
पुरुषें खड्ग प्रहारें, तेहने घणुं विगुती ॥ वांह तणी पीडा बहुतेरी, केमे
करार न थाय ॥ पीडा तेह निवारण काजें, नित्य जलयी सींचाय
॥ १ ॥ तिण कारण जलने, वहियें ए सुंदर जाण ॥ हजी वेदन न
शमी, सवजुं ए कर्म विनाण ॥ वत्सराज विमासी, बोले एणिपरें वाणी ॥
केम निज पीडाने, निवारण तेह अजाण ॥ ३० ॥ तेह अजाण यइ
केम वेठी, कहे देवी सुण साचुं ॥ ते प्रहार दायक अंगरकुक, देवतणुं बल
जाचुं ॥ तस प्रजावें ए वेदन न समे, मत मानेजो काचुं ॥ देवप्रजावथ
की पण अधिको, मानव महिमा राचुं ॥ २ ॥ वली आपधि युगज, दुतुं
एहने कर एक ॥ सप्रजाव मनोहर, दीतुं अम्हें सुविवेक ॥ व्यंतरपति
दीधुं, तुष्ट यईने ठेक ॥ फल देवी आगल, जांरुणुं तेषें अतिरेक ॥ ३० ॥
अतिरेकें एकें जग मोहे, वीजी बहु गुणकारी ॥ परघातोडव पीड निवा
रण, ए विहु आपधि सारा ॥ तेह पडी खड्गें जिहां ताडी, अम स्वामि
नी छःख पाइ ॥ आपधि पाडी लाज गमाडी, कीधी कर्म कमाई ॥ ३ ॥
वत्सराज परंपे, हुं हुं मानुष्य वैद्य ॥ टाळुं तस वेदन, एक साहित्यमांहे
सथ ॥ पण गुं मुज देजे, बोले देवी वचन ॥ मन चिंतित पामीश, सां
चल पुरुष रतन ॥ ३० ॥ पुरुपरतन सुणो मुज वाणी, हुं जाउं उजाणी ॥
मुज स्वामिनी पूत्री आचुं, इजां रहेजो गुणवाणी ॥ आची वात कहे
स्वामिनीने, ते कहे तेडी लावो ॥ दासी आची कहे सुण मानव, तुम
मुज साथें आवो ॥ ४ ॥ मारगमां जांवे, स्वामिनी अंग करार ॥ थये ते
ब्रह्मो, तुज कपर निरधार ॥ तव मागजे आपो, मुज कन्यायुग सार ॥
प्रासाद कपरें, जे ठे तुमचे आधार ॥ ३० ॥ तुम आधीन अठे लय
रुपें, यक्ष एक सपगणो ॥ चिंतित ठामें जे पद्मोचाटे, नतक्षणमां उजा
णो ॥ वली तुम पासें अठे जे वारु, कामितदायक सार ॥ एक पर्यंक
मनोहर मुज ए, आपो वानां चार ॥ ५ ॥ एम शीखवी साथें, खेइ

चाली तिण ठाम ॥ आव्यो देवीनी, पासें गुण अजिराम ॥ आप्युं नडा
सन, वेसे धरि मन रंग ॥ कहे देवी जाणे, जो तुं वैदक अंग ॥ ३० ॥ जो
वैदक जाणे तो सहारी, ह्य पीडा थइ वहेलो ॥ वत्सराज आमंवर का
रण, बोले वैदक पहेलो ॥ धूम्रौषधियें धूम्र करीने, अन्यथकी हरे पीडा ॥
वेदना सर्व शमी तस जुजनी, करवा लागी क्रीडा ॥ ६ ॥ तावत् ते बोली,
नइ तेहिज तुं होये ॥ मुज घातनो दायक, बीजो नहिं इहां कोय ॥ कहे
हा ते साचुं, दुइ हर्षित सुणी वाणी ॥ वत्स थइ हुं सुप्रसन्न, तुज साह
स गुण खाणी ॥ ३० ॥ गुणखाणी मागो मन्न मान्युं, जेह कहो ते
आपुं ॥ वांछित पूरुं दारिइ चूरुं, दुःख सघलुं तुज कापुं ॥ पूर्वोदित माग्युं
तेणें सघलुं, ते कबूल सवि कीधो ॥ देवी चिंते गृहनेद महारो, किएहिक
एहने दीधो ॥ ७ ॥ सुण सुण तुं सुपुरुष, जा कन्यायुग दीध ॥ पण
कहुं तस उत्पत्ति, सांजल तुं सुप्रसिद्ध ॥ मुज पासें ए बहु, दिन राखी
में एह ॥ पुण्यवंत ए ताहरे, नोग्य हरो ससनेह ॥ ३० ॥ ससनेहा
सांजल तुज आगल, वात कहुं अति मीठी ॥ पूर्ववैर तणी जगमांहे, कहु
इ करणी दीठी ॥ पंचम खंभें दुइ पंचवीशमी, ढाल सुणो नर नारी ॥
साहसिक नर संपति पामे, वत्सपरें सुविचारी ॥ ७ ॥ सर्वगाथा ॥ ७०ए ॥

॥ दोहा ॥

॥ कहे व्यंतरी ज्ञानथी, निजकन्या अवदात ॥ वत्सराज हरखें
सुणे, अचरिजवाली वात ॥ १ ॥

॥ ढाल ठवीशमी ॥

॥ कर्म न हूटे रे प्राणीया ॥ ए देशी ॥ गिरि वेताढघनी ऊपरें, चमर
चंचा पुरी सार ॥ गंधवाहगति नामें राजीयो, विद्याधर शिरदार ॥ १ ॥
कर्म न हूटे रे जीवडा, जे जे बंध विचार ॥ नवि खूटे विण नोगव्यां,
कीधां एह संसार ॥ क० ॥ २ ॥ नाम सुवेगा रे कामिनी, बीजी मदन
वेगा जोय ॥ प्रीतम ठडें रे चालती, रमणी रतिसम दोय ॥ क० ॥ ३ ॥
पहेली कूखें रे ऊपनी, रयणचूला वर नाम ॥ बीजी सोवनचूलिका,
जाइ गुणमणिधाम ॥ क० ॥ ४ ॥ यौवन आवी रे अति जली, मोहन गुण
मणिगेह ॥ मात पिता मनमां धरे, वरचिंता अतिरेह ॥ क० ॥ ५ ॥
॥ यतः ॥ जम्मंतीए सोगो, वड्ढंतीए च वड्ढए चिंता ॥ परणीयाए

दंमो, जुवइ पिया इस्किउं नित्रं ॥ १ ॥ नित्र धरसोमा परणे, हमंमणी कु
 लकलंक कलिचुवणं ॥ जेहिं न जाया धुआ, ते सुहिया जीवजोगम्मि ॥
 ॥ २ ॥ पूर्वटाल ॥ एक दिन एक मुनि आविया, विद्याधर गुणवंत ॥
 प्रणमी पूते रे जावणुं, मुज जांखो जगवंत ॥ क० ॥ ६ ॥ मुज पुत्री वर
 कोण हगे, कहे जानी अणगार ॥ होजे नर्ता रे वेहुनो, श्रीवत्सराज कु
 मार ॥ क० ॥ ७ ॥ नूचर वरगे रे एहने, पण नहिं तहारी रे पास ॥ नर
 पति कहे कोण एहनुं, कारण स्वामी प्रकाश ॥ क० ॥ ८ ॥ मुनि कहे
 गुण नृप ताहकं, ते एक मामनुं आय ॥ फरि पूते रे विवाहनो, हवे कहो
 कोण उपाय ॥ क० ॥ ९ ॥ मुनि कहे जगिनी रे ताहरी, नूचर शूर नरिंद ॥
 परणी प्रेम रे तेहणुं, अधिकी प्रीति अमंद ॥ क० ॥ १० ॥ अन्य वली
 हुइ तेहने, रमणी रूपनिधान ॥ चित्त हरी जीयुं रायनुं, तुज जगिनी
 अपमान ॥ क० ॥ ११ ॥ रंगे रमे राव तेहणुं, अहोनिग मंदिरमांय ॥
 वृट पढी तुज वहेनणुं, आव्युं उदे अंतगय ॥ क० ॥ १२ ॥ दिलमें शो
 क्य साले घणुं, शोक्य समुं नहीं दुःख ॥ अहोनिग रहे ठल ताकती,
 नावे निंद ने नूख ॥ क० ॥ १३ ॥ आरति मनमां रे अति घणी, मुज उपर
 नहीं मान ॥ तप नवि कीधुं रे पूग्वे, तो पामी अपमान ॥ क० ॥ १४ ॥
 हवे तप कहं कांइ आवते, जयें पामुं कांइ सुख ॥ एम जाणी तप आद
 मुं, कांइक शोक्यने दुःख ॥ क० ॥ १५ ॥ यतः ॥ आर्ता देवात्मस्यंति,
 तपः कुर्वति रोगिणः ॥ निर्धना विनयं यांति, वृद्धा नारी पतिव्रता ॥ ३ ॥
 पूर्वटाल ॥ तप करी काल कयो तेणें, अंतरी जातिनी देव ॥ अटवीमांहे
 रे उपनी, करे बहु देवी रे सेव ॥ क० ॥ १६ ॥ शूर नरिंदनी जेहिनी, तेहनी
 शोक्य सुजाण ॥ दानादिक गुण आदरी, दत्त घरे गुणखाणि ॥ क० ॥
 ॥ १७ ॥ अइ श्रीदत्ता रे नामथी, कन्या गुणह जंमार ॥ पूर्य वेरथी व्यंत
 री, दे तल दुःख अपार ॥ क० ॥ १८ ॥ यामिक नरने रे नित्यद्रणे, ते
 अथापि ए गीति ॥ देवीपारें ए मृकजां, कन्या धरि मन प्रीति ॥ क० ॥
 ॥ १९ ॥ रद्वेतां पामें रे तेहने, आवजे वत्सराज ॥ नरक्य करती रे वा
 रगे, वलगे सुधी रे जाल ॥ क० ॥ २० ॥ श्रीदत्ताने रे परणजे, तिहांथी
 निसरी नेद ॥ देवीह्यानके आवजे, याजे कारज एद ॥ क० ॥ २१ ॥
 एम करी मुनि उपत्या, नूचरनारें रे जंग ॥ कन्या प्राणी मृकी इदां,

मुज पासैं मन रंग ॥ क० ॥ ३३ ॥ विद्याधर तप आदरी, मासमांहे सु
 खकार ॥ मरि ययो व्यंतर अधिपति, पाम्यो सुख श्रीकार ॥ क० ॥ ३३ ॥
 ज्ञानें जाणी रे मुजने, ह्यरूपें यद्द एक ॥ किंकर मुजने रे आपियो, वारू
 करिय विवेक ॥ क० ॥ ३४ ॥ औषधियुगल पढ्यंक ए, कामित दायक
 दीध ॥ ते में सघलुं रे तुज दीयुं, वांढित कारज सिद्ध ॥ क० ॥ ३५ ॥ पं
 चम खंमें ठवीशमी, ढाल कही ए उदार ॥ रामविजय कहे द्वेषनां, फल
 कडुवां निर्धार ॥ क० ॥ ३६ ॥ सर्वगाथा ॥ ७३६ ॥ श्लोक तथा गाथा ॥ ४३ ॥

॥ दोहा ॥

॥ वात कही वत्सराजने, देवीयें मांढी सर्व ॥ परणावी द्योय कन्यका,
 सूकी मननो गर्व ॥ १ ॥ पुण्यपसायें सवि मिली, संपद नारी सार ॥ सुख
 विलसे संसारनां, श्रीवत्सराज कुमार ॥ २ ॥ एक दिन रंगविलासमां,
 रमतां नारी साथ ॥ प्रेम सहित पूढे प्रिया, कहो अमने प्राणनाथ ॥ ३ ॥
 किम इहां कणे अयुं आववुं, तब कुमरें निज वात ॥ करी प्रतिज्ञानी तिहां,
 सुणि हरखी ते धात ॥ ४ ॥ नारीयें कहुं देवीने, जाणि प्रतिज्ञा तास ॥
 शीख दीधी वत्सराजने, आवण निज आवास ॥ ५ ॥

॥ ढाल सत्त्यावीशमी ॥

॥ जीहो जाण्युं अवधि प्रयुंजने ॥ ए देशी ॥ जीहो विरहो अणसह
 ती थकी, जीहो पण दियो देवी आदेश ॥ जीहो प्रियासहित वत्सरा
 जने, जीहो आवजो वली इण देश ॥ १ ॥ सुगुण नर, तुमहुं प्रीति
 अपार ॥ सुगुण नर, तुम्हें कीधो उपकार ॥ सु० ॥ मत मेलो विसार
 ॥ सु० ॥ धन्य जीव्युं तुम्ह सार ॥ ए आंकणी ॥ जीहो वेसी पढ्यंकने
 चालियां, जीहो नन मारग पुण्यवंत ॥ जीहो चाले विमान तणी परें,
 जीहो आव्यां तेह तुरंत ॥ सु० ॥ २ ॥ जीहो श्रीदत्ताने मंदिरें, जीहो
 आव्यां वही आकाश, जीहो ऊठी प्रजातसमे तिस्यें ॥ जीहो श्रीदत्ता
 सुविलास ॥ सु० ॥ ३ ॥ जीहो देखी तुरंग पढ्यंकने, जीहो अति
 विस्मित थइ वाल ॥ जीहो केषों आय्यो पर्येक ए, जीहो ह्य चढे
 केम ए ढाल ॥ सु० ॥ ४ ॥ जीहो जोवे नजरें निहालीने, जीहो
 दीगो तव निज कंत ॥ जीहो द्योय नारीगुं क्रीडतो, जीहो शय्या
 गत गुणवंत ॥ सु० ॥ ५ ॥ जीहो जइ कहुं जनकनी आगलें, जीहो

पति ऊपर आवास ॥ जीहो आच्यो ते इहां माहगे, जीहो उपन्यो संव्रम
 तास ॥ सु० ॥ ६ ॥ शय्या तुरग तणी कही, जीहो वात सकल समजा
 इ ॥ जीहो हर्ष धरीने आवियो, जीहो सतम जूमीयें धाइ ॥ सु० ॥ ७ ॥
 जीहो आच्यो जाणी जेठने, जीहो उठयो ताम कुमार ॥ जीहो आदरमा
 न देई घणुं, जीहो जांख्यो निज अधिकार ॥ सु० ॥ ८ ॥ जीहो चरित्र
 सुणी विस्मित थयो, जीहो नक्ति करे बहु जाव ॥ जीहो तेदिन राख्या
 मंदिरें, जीहो उत्तम जास स्वजाव ॥ सु० ॥ ९ ॥ जीहो बीजे दिन लेइ आजा,
 जीहो त्रिहु नारी संवात ॥ जीहो शय्या उपर बेसीने, जीहो चाव्या थये
 प्रजात ॥ सु० ॥ १० ॥ जीहो ततक्षणमां ते आवियां, जीहो निज नवरें
 नचचार ॥ जीहो मंदिर आच्यां आपणे, जीहो उतरीयां ततकाल ॥ सु०
 ॥ ११ ॥ जीहो चिहुं जण सूतां मेजमां, जीहो आवी घर एकांत ॥ जीहो
 धारिणी विमला देखीने, जीहो चिंते कुण ए संत ॥ सु० ॥ १२ ॥ जीहो
 ए शय्या नहिं आपणी, जीहो कांइक ए विनाण ॥ जीहो चिंती पट
 परहो कस्यो, जीहो दीगो कुमार मुजाण ॥ सु० ॥ १३ ॥ जीहो त्रण त
 रुपी साथें तिदां, जीहो निज कुंवर निरखंत ॥ जीहो रोम रोम तन उ
 लस्युं, जीहो हेहुं हेजे दसंत ॥ सु० ॥ १४ ॥ जीहो लळाती पाठी वली,
 जीहो हलुवे हलुवे ताम ॥ जीहो इण अवसरें ते जागीयो, जीहो कुंवर
 गुणनुं ठाम ॥ सु० ॥ १५ ॥ जीहो माय मासीने पावले, जीहो दोडी
 करे प्रणाम ॥ जीहो पूठे विमला धारिणी, जीहो कुण कुण कीथां
 काम ॥ सु० ॥ १६ ॥ जीहो वात करे माय आगजें, जीहो मांमी वत्स
 कुमार ॥ जीहो ज्यो पुण्याई पुत्रनी, जीहो पामी हर्ष अपार ॥ सु० ॥
 ॥ १७ ॥ जीहो कामितदायी पत्यंकथी, जीहो लेइ उत्तरीय अमूख्य ॥
 जीहो नरपति पानें आवीयो, जीहो वत्सकुमार अनुकूल ॥ सु० ॥
 ॥ १८ ॥ जीहो गजेश्वर पूठे तदा, जीहो छेम कुणजनी वात ॥ जीहो
 वत्स जनें नुं आवियो, जीहो पाम्यां अमें सुख जात ॥ सु० ॥ १९ ॥
 जीहो जइ मासी चरणे नसी, जीहो करे उत्तरीयनी जेट ॥ जीहो कमल
 श्री कडे मुक विना, जीहो वत्स कोण दीयें मुक जेट ॥ सु० ॥ २० ॥
 जीहो चिरं जीव नुं बालुआ, जीहो मुक कामित दातार ॥ जीहो मा
 सीयें सन्मान्यां घणुं, जीहो गजायें पण नेणि गार ॥ सु० ॥ २१ ॥

जीहो रायें पूठ्युं वत्सने, जीहो वत्स किहां लाध्युं एह ॥ जीहो वात कहे
 वीतक तणी, जीहो पर्येक ह्य विण तेह ॥ सु० ॥ ११ ॥ जीहो देवीयें
 दीधुं वत्स ए, जीहो सुणी हरख्या राजान ॥ जी० ॥ जीहो धन्य धन्य
 सहु को कहे, जीहो वलीयो सुगुण निधान ॥ सु० ॥ १२ ॥ जीहो सुखें स
 माधें रहे तिहां, जीहो विलसे नव नव जोग ॥ जीहो निजनारीशुं रंगमां,
 जीहो सरिखो मव्यो संयोग ॥ सु० ॥ १४ ॥ जीहो पंचम खंमैं सत्तवी
 शमी, जीहो ढाल कही मनरंग ॥ जीहो रामविजय कहे पुण्यथी, जीहो
 लहियें सुक्क अचंग ॥ सु० ॥ १५ ॥ सर्व गाथा ॥ ७६६ ॥ श्लोक ॥ ४१ ॥

॥ दोहा ॥

॥ एक दिन कमलश्री तणे, अंगें उपन्यो व्याधि ॥ राय उपाय कखा
 घणा, पण न टली असमाधि ॥ १ ॥ राणीडुःखें दुःखीयो, राय करे अ
 ति शोर ॥ नयणथकी आंसू जरे, सबलुं मोहनुं जोर ॥ २ ॥ कला घणी
 नृप केलवी, लेखे न आवी कांय ॥ राणी परलोकें गइ, विरुइ कर्म वलाय
 ॥ ३ ॥ यतः ॥ सा नहि कला तं न, हि उंसहं तं न किंपि विन्नाणं ॥ जे
 सा धरिऊइ काया, खळ्ळंति कालसप्पेण ॥ १ ॥ पूर्वदोहा ॥ तास वियोगें
 राजवी, पड्यो शोकने पूर ॥ वत्सराज आवी कहे, शोक निवारो दूर
 ॥ ४ ॥ इण जग चिर नवि को रह्यो, सहु अनित्य संसार ॥ तन धन
 यौवन कारिमो, रमणी रुद्धि परिवार ॥ ५ ॥ यतः ॥ कुसग्गे जह उंस
 विंडुए, थोवं चिठ्ठइ लंवमाणए ॥ एवं मणुआण जीवियं, समयं गोयम
 मा पमायए ॥ १ ॥

॥ ढाल अठवावीशमी ॥

॥ वठी जावन मन धरो ॥ ए देशी ॥ वत्स कहे नृप सांजलो, एह
 अनित्यपणुं संसारें रे ॥ शुं धारे रे, अस्थिरने स्थिर करी चित्तमां ए
 ॥ १ ॥ जाव अनित्य संसारना, जलविंडु विद्युत् सम जाणो रे ॥ शुं
 माणो रे, वर्ण गंध रस फरसमां ए ॥ २ ॥ उत्पाद व्यय ने ध्रुव तणी,
 सवि इव्यें त्रिचंगी नांखी रे ॥ ए राखी रे, न रहे स्थिति संसारनी ए ॥ ३ ॥
 जिनवर चक्री जे दुवा, ते पण इहां स्थिर नवि रहिया रे ॥ शुं मोहि
 या रे, फूरे तुं परजावने ए ॥ ४ ॥ वार अनंत मव्यो सही, ते संबंथमां शुं
 राचे रे ॥ वली नाचे रे, तेहने ठंढें नट परें ए ॥ ५ ॥ चंचल ए लही

आउखुं, जे धर्ममांहे सीदाय रे ॥ न कहाय रे, ते शापुरुष शिरो
मणि ए ॥ ६ ॥ जिन अगदंकारें कखुं, शोक रोग निवारणहारु रे ॥ सारुं
रे, धर्मोपध करवुं बुधें ए ॥ ७ ॥ यतः ॥ उमिति पंमिताः कुर्युः, अश्रुपार्त
च मध्यमाः ॥ अधमाश्च शिरोवातं, शोकें धर्मविवेकिनः ॥ ३ ॥ पूर्वदाल ॥
इत्यादिक वचनामृतें, वत्सराजें नृप समजाव्यां रे ॥ ए जाव्यां रे, मन
उपदेश सोहामणी ए ॥ ७ ॥ नारीशोक निवारियां, वत्सराज वचनथी
वलीयो रे ॥ वलीयो रे, निज आत्म तेणें कखो ए ॥ ९ ॥ सुखमां
वाहे काजने, वत्सराज सबल सोनागी रे ॥ रागी रे, त्यागी जोगी अति
घणो ए ॥ १० ॥ एक दिवस वत्स नारीशुं, मंदिरमांहि एम विमासे
रे ॥ जासे रे, सुणो सुंदरी सोहामणी ए ॥ ११ ॥ जोजनने नृप तेडीयें, ए
प्रीतिनुं लक्षण लडीयें रे ॥ कहीयें रे, नीतिशास्त्रमांहे एहवुं ए ॥ १२ ॥
यइक्तं ॥ वदाति प्रतिगृह्णाति, गृह्यमाख्याति पृष्ठति ॥ जुंके जोजयते चैव,
पङ्क्तिं प्रीतिलक्षणम् ॥ ४ ॥ पूर्वदाल ॥ नृप आपण अनुरागीयें, तेडी
जें ए चडनागी रे ॥ जागी रे, जाग्यदशा ए आपणी ए ॥ १३ ॥ नारी
कहे सुण नाहला, ए वात विचारी कीजें रे ॥ न लीजें रे, नृपने निज
आवासमां ए ॥ १४ ॥ आज इहारी कीजियें, पण नृप आसंग न क
रीयें रे ॥ तो वरियें रे, सहेजें सुख संतारमां ए ॥ १५ ॥ विप दाटें होव
नापने, विप खलनी जीजें लडीयें रे ॥ कहीयें रे, तंम दृष्टि विप रायने ए
॥ १६ ॥ यतः ॥ वैरिनारीनरेंद्राणां, नागनीचनियोगिनाम् ॥ नखीनां च
न विश्वानः, कर्त्तव्यः शुनकांक्षिणा ॥ ५ ॥ पूर्वदाल ॥ ते माटें नुमने
कटुं, नृपघर जोजन मूकीजें रे ॥ चूकीजें रे, नवि एणि वातें कंवजी ए
॥ १७ ॥ वत्स कहे सुणो बालही. एणी वातें गौरव न वये रे ॥ अयधें
रे, नेष्ट्या विण चाले नदीं ए ॥ १८ ॥ आयह जाणी कंतनो, चलती ते
शोडी नारी रे ॥ नारी रे, वात सुणो तुम्हें बालहा ए ॥ १९ ॥ अमने मन
हेखाटजो, पत्नी जेम जाणां तेम करजो रे ॥ वरजो रे, स्वामी अभाग ला
जांने ए ॥ २० ॥ पंचम खंरु अटविममी, सुणो बाल कडी अति नारी
रे ॥ शिंतकारी रे, वचण देयासां गवियें ए ॥ २१ ॥ सर्वगाथा ॥ ७७२ ॥ ४७ ॥

॥ दोला ॥

॥ कामिनीयें वाणो घणुं, पण न राणो वर्यराज ॥ जोजनने नृप नो

तखो, वारू वयण समाज ॥ १ ॥ स्वामी पधारो आंगणे, करो पावन
 मुज गेह ॥ अरज अमारी चित्त धरो, जो मुज ऊपर नेह ॥ २ ॥ कहे
 राजन तुमशुं सदा, नहिं अंतर वत्सराज ॥ माटे जोजननो कियो, अव
 सर ठे घर आज ॥ ३ ॥ वत्सराज कहे साहिवा, ते शुच अवसर जाणि ॥
 जिए दिन राज पधारशो, मुज आंगणे गुणखाणि ॥ ४ ॥ कृपा करीने
 हा जणो, मुज मन हर्षित होय ॥ हठहंती नृप मानीयुं, निसुणी
 हरख्यो सोय ॥ ५ ॥

॥ ढालउंगणत्रीशमी ॥

॥ गेंडुडानी देशी ॥ घरे आवी सवी वात प्रकाशी, मनमां धरी उ
 त्साह ॥ अलवेलो रंगीलो नाह, अलवेलो हवीलो नाह, अलवेलो ठवीलो
 नाह ॥ अलवेलो ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ वाचुं अमारुं न करे वहालो, मन
 मां सुखरी चाह ॥ अलवेलो ॥ २ ॥ जामिनीशुं जुवनोपरिचूमें, जाग्यो
 क्रीडामांहि ॥ अल ॥ ३ ॥ रमणी सार्थें रसनी वातें, तिहां वेला बहु
 वही जाय ॥ अल ॥ ४ ॥ राजन चिंते हजी शुं न आव्यो, तेडण ए
 वत्स एण ठाय ॥ अल ॥ ५ ॥ नृप चिंते चित्तमां एहने घर, शी साम
 ग्री थाय ॥ अ ॥ ६ ॥ जोवा कारण चर एक मूक्यो, पोतानो तेणें राय
 ॥ अ ॥ ७ ॥ चर जोवे जइ घेर निहाली, नवि देखे रसवती कांइ ॥
 अल ॥ ८ ॥ परकाशे नृपतिनी आगें, सेवक पाठो आइ ॥ अ ॥
 ९ ॥ पुनरपि बीजो नर तिहां आवी, जुवे सज्जाइ तास ॥ अ ॥ १० ॥
 कहे नृपने घर धूम न दीसे, शी जोजननी आश ॥ अ ॥ ११ ॥ चिंते
 नृप जुठ कीध उगाइ, मनमांहि एम उदास ॥ अ ॥ १२ ॥ तव ते जो
 जन अवसर जाणी, वत्स आव्यो सुविलास ॥ अ ॥ १३ ॥ कहे राजेश्व
 रने कर जोडी, पाउधारो मुज आवास ॥ अ ॥ १४ ॥ थाय हवे असुर
 जोजनने, उगोजी लील विलास ॥ अ ॥ १५ ॥ नृप कहे शी हांसी
 मुज सार्थें, मांमी सुगुण निवास ॥ अ ॥ १६ ॥ विण सामग्री तेडे अ
 मने, ए तुजने सावाश ॥ अ ॥ १७ ॥ कोइ न मव्युं बीजुं हांसीने,
 जाग्यो तुज विश्वास ॥ अ ॥ १८ ॥ कहे वत्स तुं मुज साहिव तहारो,
 हुं तुं चरणनो दास ॥ अ ॥ १९ ॥ तुम हांसी करतां इहां मदारी,
 कुजलजा जाय नासि ॥ अ ॥ २० ॥ शुं तुम रसवती केरुं कारण,

आवो घरे उल्लास ॥ अ० ॥ ११ ॥ नृप ऊठयो उत्साह धरीने, जे हुंता
 निज पास ॥ अ० ॥ १२ ॥ आव्या सवि वत्सराजने मंदिर, जोवे नयणें
 तपास ॥ अ० ॥ १३ ॥ देखी मंमप अति रलीयाजो, हेंडे करेय विमास
 ॥ अ० ॥ १४ ॥ नहिं ए मानव माया दीने, देवतणी सुप्रकाश ॥ अ० ॥ १५ ॥
 पंचमे उंगणत्रीशमी ढालें, विरुठ मोहविलास ॥ अ० ॥ १६ ॥ अ० ॥ १७ ॥ १८ ॥
 ॥ दोहा ॥

॥ यथायोग्य मांमयां यणां, आसन उजाडज ॥ नृप हरख्यो मन
 मां यणुं, देखी ठाकम ठोल ॥ १ ॥ किम एणें एती वारमां, सवि कीधो
 सामान ॥ ए कांड जोवा सारिखुं, मन चिंते राजान ॥ २ ॥ नृप आवी
 वेग सहू, मांमया सोवन थाल ॥ पीरसे बहु प्रेमं करी, जज पकान्न
 रसाल ॥ ३ ॥ सखर सवादें सालणां, खाटां खारां सार ॥ रायंतां जोजे
 नखां, मरचालां मनोहार ॥ ४ ॥ चाखी चाखी स्वादने, पाम्या परमानंद ॥
 अहो अपूरव रसवती, करे प्रशंस नरिंद ॥ ५ ॥

॥ ढाल त्रीशमी ॥

॥ नाग कुमर कहे रायजी ॥ ए देशी ॥ वत्स विचारे चित्तमां, उत्सव
 अति नारी ॥ विणु वनिता शोचे नही, ए रसवती सारी ॥ १ ॥ मोहन
 गारी मानिनी, विणु तेह अजुणुं ॥ जोजन ए शोचे नहिं, दीसे ठे ऊणुं
 ॥ २ ॥ चिंतवी मंदिर ऊपरें, चढीयो चोवारी ॥ आवतो देखी नाहने,
 कजी घड नारी ॥ ३ ॥ प्राणजीवन पाउ धारीयें, धरा पावन कीजें ॥ नयण
 ससूणा नाहजा, कांड हुकम करीजें ॥ ४ ॥ बहाजी हो वेगें आवीने,
 नृप गोरव सारो ॥ तुम विण ए शोचे नहिं, घर आंगण महारो ॥ ५ ॥
 ते कुजवंती चिंतवे, स्त्रीने गुरु स्वामी ॥ वयण कहे जे कंतजी, करवुं शिर
 नामी ॥ ६ ॥ यडुकें ॥ गुरुरग्निर्दिजातीनां, वणिनां ब्राह्मणोगुरुः ॥ पति
 रेव गुरुःस्त्रीणां, सर्वस्यान्यागतो गुरुः ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ निजपियु आयह
 जाणीने, उठी अजवेनी ॥ आणा हो आपणा नायनी, नवि जाये ठेनी
 ॥ ७ ॥ पण परिणामें न्हुं नहिं, गुं कीजें हो बहेनी ॥ आपणने नि
 रखी करी, दृष्टि चजगें हो एहनी ॥ ८ ॥ मन पाखें ते मानिनी, शृंगार
 वनाचे ॥ अनुपम रूप वनी रमा, जल उपमा नावे ॥ ९ ॥ रम ऊम कर
 ती गंगुं, पीरसणने हो आवी ॥ जामिनी देखी नृपनी, गति जांति

तख्यो, वारू वयण समाज ॥ १ ॥ स्वामी पधारो आंगणे, करो पावन
मुज गेह ॥ अरज अमारी चित्त धरो, जो मुज ऊपर नेह ॥ २ ॥ कहे
राजन तुमशुं सदा, नहिं अंतर वत्सराज ॥ माटें जोजननो कित्यो, अव
सर ठे घर आज ॥ ३ ॥ वत्सराज कहे साहिबा, ते शुन अवसर जाणि ॥
जिण दिन राज पधारशो, मुज आंगणे गुणखाणि ॥ ४ ॥ कृपा करीने
हा जणो, मुज मन हर्षित होय ॥ हठहंती नृप मानीयुं, निसुणी
हरख्यो सोय ॥ ५ ॥

॥ ढालउंगणत्रीशमी ॥

॥ गेंडुडानी देशी ॥ घरे आवी सवी वात प्रकाशी, मनमां धरी उ
त्साह ॥ अलवेजो रंगीजो नाह, अलवेजो हठीजो नाह, अलवेजो ठवीजो
नाह ॥ अलवेजो ० ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ वाखुं अमारुं न करे वहाजो, मन
मां सुखरी चाह ॥ अलवेजो ० ॥ २ ॥ नामिनीशुं शुवनोपरिचूर्में, लाग्यो
क्रीडामांहि ॥ अल ० ॥ ३ ॥ रमणी साथें रसनी वातें, तिहां वेला बहु
वही जाय ॥ अल ० ॥ ४ ॥ राजन चिंते हजी शुं न आव्यो, तेडण ए
वत्स एण ठाय ॥ अल ० ॥ ५ ॥ नृप चिंते चित्तमां एहने घर, शी साम
ग्री थाय ॥ अ ० ॥ ६ ॥ जोवा कारण चर एक मूक्यो, पोतानो तेणें राय
॥ अ ० ॥ ७ ॥ चर जोवे जइ घेर निहाली, नवि देखे रसवती कांइ ॥
अल ० ॥ ८ ॥ परकाजे नृपतिनी आगें, सेवक पाठो आइ ॥ अ ० ॥
ए ॥ पुनरपि वीजो नर तिहां आवी, जुवे सज्जाइ तास ॥ अ ० ॥ १० ॥
कहे नृपने घर धूम न दीसे, शी जोजननी आश ॥ अ ० ॥ ११ ॥ चिंते
नृप जुठं कीध ठगाइ, मनमांहि एम उदास ॥ अ ० ॥ १२ ॥ तव ते जो
जन अवसर जाणी, वत्स आव्यो सुविलास ॥ अ ० ॥ १३ ॥ कहे राजेश्व
रने कर जोडी, पाउधारो मुज आवास ॥ अ ० ॥ १४ ॥ थाय हवे असुर
जोजनने, उठोजी लील विलास ॥ अ ० ॥ १५ ॥ नृप कहे शी हांसी
मुज साथें, मांफी सुगुण निवास ॥ अ ० ॥ १६ ॥ विण सामग्री तेडे अ
मने, ए तुजने सावाश ॥ अ ० ॥ १७ ॥ कोइ न मव्युं वीजुं हांसीने,
जांग्यो तुज विश्वास ॥ अ ० ॥ १८ ॥ कहे वत्स तुं मुज साहिव तहारो,
हुं तुं चरणनो दास ॥ अ ० ॥ १९ ॥ तुम हांसी करतां इहां महारी,
कुजलका जाय नासि ॥ अ ० ॥ २० ॥ शुं तुम रसवती केरुं कारण,

आवो घरे उल्लास ॥ अ० ॥ ११ ॥ नृप ऊठयो उत्साह धरीने, जे हुंता
निज पास ॥ अ० ॥ १२ ॥ आव्या सवि वत्सराजने मंदिर, जोवे नयणें
तपास ॥ अ० ॥ १३ ॥ देखी मंमप अति रलीयाजो, हैडे करेय विमास
॥ अ० ॥ १४ ॥ नहिं ए मानव माया दीसे, देवतणी सुप्रकाश ॥ अ० ॥ १५ ॥
पंचमे उंगणत्रीशमी ढालें, विरुठ मोहविलास ॥ अ० ॥ १६ ॥ स० ॥ ए १३ ॥ ४७ ॥
॥ दोहा ॥

॥ यथायोग्य मांमयां घणां, आसन उजाउल ॥ नृप हरख्यो मन
मां घणुं, देखी ठाकम ठोल ॥ १ ॥ किम एणें एती वारमां, सवि कीधो
सामान ॥ ए कांइ जोवा सारिखुं, मन चिंते राजान ॥ २ ॥ नृप आवी
वेठा सहू, मांमया सोवन थाल ॥ पीरसे बहु प्रेमें करी, जल पक्कान्न
रसाल ॥ ३ ॥ सखर सवादें सालणां, खाटां खारां सार ॥ रायंतां जोले
जखां, मरचालां मनोहार ॥ ४ ॥ चाखी चाखी स्वादने, पाम्या परमानंद ॥
अहो अपूरव रसवती, करे प्रशंस नरिंद ॥ ५ ॥

॥ ढाल त्रीशमी ॥

॥ नाग कुमर कहे रायजी ॥ ए देशी ॥ वत्स विचारे चित्तमां, उत्सव
अति जारी ॥ विणु वनिता शोचे नही, ए रसवती सारी ॥ १ ॥ मोहन
गारी मानिनी, विणु तेह अलूणुं ॥ जोजन ए शोचे नहिं, दीसे ठे ऊणुं
॥ २ ॥ चिंतवी मंदिर ऊपरें, चढीयो चोवारी ॥ आवतो देखी नाहने,
ऊनी थइ नारी ॥ ३ ॥ प्राणजीवन पाउ धारीयें, धरा पावन कीजें ॥ नयण
सदूणा नाहला, कांइ दुकम करीजें ॥ ४ ॥ वहाली हो वेगें आवीने,
नृप गौरव सारो ॥ तुम विण ए शोचे नहिं, घर आंगण महारो ॥ ५ ॥
ते कुजवंती चिंतवे, स्त्रीने गुरु स्वामी ॥ वयण कहे जे कंतजी, करवुं शिर
नामी ॥ ६ ॥ यडुकें ॥ गुरुरग्निर्विजातीनां, वर्णानां ब्राह्मणोगुरुः ॥ पति
रेव गुरुःस्त्रीणां, सर्वस्यान्यागतो गुरुः ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ निजपियु आग्रह
जाणीने, उठी अलयेली ॥ आणा हो आपणा नाथनी, नवि जाये ठेली
॥ ७ ॥ पण परिणामें रुडुं नहिं, शुं कीजें हो वहेनी ॥ आपणने नि
रखी करी, दृष्टि चजणे हो एहनी ॥ ८ ॥ मन पाखें ते मानिनी. शृंगार
वनावे ॥ अनुपम रूप वनी रमा, जस उपमा नावे ॥ ९ ॥ रम ऊम कर
ती रंगशुं, पीरसणने हो आवी ॥ नामिनी देखी नृपनी, गति जांति

जुलावी ॥ १० ॥ अहो अहो रूपनी उरडी, नर यौवन माती ॥ कामा
 तुर थयो देखीने, रमणी रंग राती ॥ ११ ॥ धन्य जीवित वत्सराजनुं,
 विलसे ए साथें ॥ मुज घरे एहवी एके नहिं, शुं कखुं जगनाथें ॥ १२ ॥
 नोजन जहेर समुं थयुं, तरुणीरंग लाग्यो ॥ उताख्यो नवि ऊतरे, ए प्रेमनो
 माघो ॥ १३ ॥ कामराग सरिखो नहिं, जग कोई अटारो ॥ पेसंतां दी
 से नहिं, ए राग कटारो ॥ १४ ॥ नोजन करी नृप ऊठीयो, वत्सें बहु
 सत्काख्यो ॥ काम वध्यो मन जेहने, ते न रहे वाख्यो ॥ १५ ॥ मंदिर आव्यो
 नृपति, महिला मन ध्यातो ॥ आहट दोहटमां पड्यो, न गमे कांइ वातो
 ॥ १६ ॥ मंत्रीश्वर बोलावीने, वात मननी हो दाखी ॥ तुम्हें मुज कदमी
 राजमां, सुख डुःखना सरिखी ॥ १७ ॥ मंत्रीश्वर पण तेहवा, नृप सरि
 खा हो विरुआ ॥ बाहिर मीठा जीतरें, कडुआ विपतरुआ ॥ १८ ॥
 मंत्री आलोची मनमां, माठी मति रीजे ॥ राजन ए वत्स जीवतां, तुम
 काम न सीजे ॥ १९ ॥ माटें कोइ उपायथी, वत्सराजने हणीयें ॥ कारिज
 साधन कारणें, पुण्य पाप न गणीयें ॥ २० ॥ हा हा एम करतां थकां,
 जग नीच न लाजे ॥ प्राण हणे खल पारकां, पोताने काजें ॥ २१ ॥
 वहेला थारुं ए वत्सने, करी कोइ उपाय ॥ पहाँचाडो थममंदिरें, जेम
 मने सुख थाय ॥ २२ ॥ रायें दुकम एहवो कख्यो, विपयारस वाह्ये ॥
 काम कुमाणसनुं कखुं, नरपति ए माह्ये ॥ २३ ॥ शो अनरथ नवि निप
 जे, विपयाथी हो वांको ॥ मति मूजावे हो नर तणी, कुण राय ने रांको ॥
 २४ ॥ पंचम खंमं त्रीशमी, ढाल रामें हो नांखी ॥ विपयथकी जय नविलहे,
 सुणो साजन साखी ॥ २५ ॥ सर्व गाथा ॥ २६ ॥ श्लोक तथा गाथा ॥ २७ ॥
 ॥ दोहा ॥

॥ मंत्री मली विचारीशुं, सिंहनामा सामंत ॥ ठे जोरावर आजने,
 समयें अति बलवंत ॥ १ ॥ तस थानक वेसारीयें, सनामांहे वत्सराज ॥
 रुठयो हणजे एहने, सिंह सरेंजे काज ॥ २ ॥ सना जुडावी चोंपशुं, वेतो
 नृप ततकाल ॥ वत्सराज आव्यो तदा, नृप नमवा उजमाल ॥ ३ ॥ वे
 साख्यो सिंहस्थानकें, मंत्री मली महंत ॥ वत्सराज निर्जय थको, वेतो
 धीरजवंत ॥ ४ ॥ सिंह तदा आव्यो तिहां, वेतो वत्सने देखि ॥ हैयडे कोपें
 कलकल्यो, जोइ रह्यो अनिमेष ॥ ५ ॥ सनामांहि बोव्यो नहीं, थाणी

नृप आशंक ॥ नृप सना सरिखा सवे, कुण राजा कुण रंक ॥ ६ ॥
 सना विसर्जी ततद्धणें, नृप मनमांहि चूक ॥ वत्सराजने मारवो,
 जाणे आज अचूक ॥७॥ वत्सराज मंदिर जणी, चाव्यो निर्जय ऊठी ॥
 मंत्री मली वकारियो, सिंह तणी तस पूठ ॥ ८ ॥ सिंह नाम तुमहुं
 सही, पण माटी पण शीयाल ॥ स्थानक वेगो तुम तणे, वत्सराज ए
 वाल ॥ ९ ॥ जीवंतां मृत सारिखा, तुम जेहवा बलवंत ॥ स्थानक
 खोवे आपणुं, ते कलि गुं जीवंत ॥ १० ॥ बडुक्तं ॥ मा जीयाद्यः परा
 वज्ञा, दुःखदग्धोपि जीवति ॥ तस्याजननीरेवास्तु, जननीक्लेशकारिणः ॥
 १ ॥ नाकनो लोच करेह, सीस सलोचो रक्किउं ॥ तिण माणस जीवेह,
 कलिमां काहुं कीजसी ॥ २ ॥ पादाहतं यडुडाय, मूर्धानमधिमोहति ॥
 स्वस्था देवापमानेपि, देहिनस्तद्वरं रजः ॥ ३ ॥

॥ ढाल एकत्रीशमी ॥

॥ वासुपूज्य जिन वारमा जी ॥ ए देशी ॥ वात सुणी क्रोधें चढयो जी,
 सिंह सबल विकराल ॥ निज मेलापक लेइ तदा, मलीयो वत्सने ततकाल
 ॥ १ ॥ होजी था सन्मुख शीयालीयाजी ॥ नहिं महेहुं तुज आज ॥
 आसन वेसी माहरे, तें उतारी मुज लाज ॥ होण ॥ २ ॥ केम रूठयो
 निज जीवनें जी, गुं न सुण्युं मुज नाम ॥ एम अवहेला तें करी, कोइ न
 करे ते कीधुं काम ॥ होण ॥ ३ ॥ बल पाठो बल ताहरुं जी, जोइयें
 रणमेदान ॥ वत्स बव्यो वीरसेननो जायो, सुणी योध युवान ॥ होण
 ॥४॥ जीम परें वेदू जड्या जी, अवसर लही वत्सराज ॥ नाख्यो उठाजी
 सिंहने, मृगपति परें करतो अवाज ॥ होण ॥ ५ ॥ पहाँचाव्यो यममंदिरें
 जी, जोतामां तेणि वार ॥ मुजट सवे नासी गया, हुठ सिंहतणो
 संहार ॥ होण ॥ ६ ॥ परनें चिंतवीयें जिस्थुं जी, तेहवुं आवे आप ॥
 परठज ताके पापीया ते, पामे एम संताप ॥ होण ॥ ७ ॥ सिंहसेना नाठी
 तदा जी, न खमाणो तस ताप ॥ जय पामी मुखें उच्चरे, कोइ राखो
 माय ने वाप ॥ होण ॥ ८ ॥ नृपने शरणें आवीयो जी, राखो तुमें
 नृनाथ ॥ अम अशरणने उद्धरो. जांखे एम सिंहनो साथ ॥ होण ॥९॥
 वत्स आव्यो निजमंदिरें जी, वात कही मन मेजी ॥ फल पाम्यो एह सिं
 हलो, जो कीधी मुज अवहेज ॥ होण ॥ १० ॥ कहे विद्याधर वंशनी जी, नारा

सुगुण निधान ॥ अम विद्या परजावथी, तुम्हें उताखुं तस मान ॥ हो० ॥
 ११ ॥ तुमें खोटुं कखुं साहिवा जी, अमने देखाडी दृष्टि ॥ कामवशें ए
 राजियो, करजे तुमने ए अनिष्ट ॥ हो० ॥ १२ ॥ पण स्वामी मत धी
 रजो जी, किसिय न करशो चिंत ॥ अहि वश करवो सोहिलो, पण राय
 न होवे मित्त ॥ हो० ॥ १३ ॥ यडुक्तं ॥ काके शौचं द्यूतकारेषु सत्यं, सर्पे
 क्हांतिः स्त्रीषु कामोपशांतिः ॥ क्लीवे धैर्यं मद्यपे तत्त्वचिंता, राजा मित्रं
 केन दृष्टं श्रुतं वा ॥ ४ ॥ पूर्वढाल ॥ हवे एक दिन ते मंत्रीशुं जी, राय
 करे आलोच ॥ काज न सीज्युं आपणुं, सामो उपजाव्यो शोच ॥ हो०
 ॥ १४ ॥ सिंह गयो मुज काजनो जी, रह्यो वैरी वत्सराज ॥ कहो
 मंत्री ए शुं थयुं, न थयुं कांइ चिंतित काज ॥ हो० ॥ १५ ॥ पण तुं
 मित्र जो माहरे जी, नहिं मुज डुर्जन कांय ॥ जेहने मित्र महोदधि, सुल
 जा तस लहेरी थाय ॥ हो० ॥ १६ ॥ सचिव कहे वाघण तणुं जी,
 दूध मगावो स्वामि ॥ मानधनी ए मानजे, सहेजे सरजे ए काम ॥ हो०
 ॥ १७ ॥ दरवारे वत्स आवीयो जी, कृत्य कखुं नृप एह ॥ करी प्रणाम
 पाठो वव्यो, आव्यो चिंतातुर गेह ॥ हो० ॥ १८ ॥ नारी कहे तुमने
 दीयो जी, वाघण डुग्धादेश ॥ चित्तमां एहनी शोचना, शी शोचो ठो प्राणे
 श ॥ हो० ॥ १९ ॥ कुमर कहे तमें केम लही जी, घर वेगं एह
 वात ॥ स्वामी अमें अंतरिद्ध थइ, नित्य आबुं तुमारी संघात ॥ हो० ॥
 २० ॥ स्वामी अम्हें जाण्युं हतुं जी, करजे ए तुमशुं कूड ॥ पण नि
 श्रय पियु जाणजो, पडजे एहने सुख धूड ॥ हो० ॥ २१ ॥ कहेण
 सुणो अमचुं तुमें जी, देवत तुरगारूढ ॥ अटवीमां जाठ तुमें, ठे एक
 देवी तिहां गूढ ॥ हो० ॥ २२ ॥ माता अमारी देवता जी, तेहनी सखी
 ते देवी ॥ तुरगथी उंलखजे सही, करजे तुमची बहु सेव ॥ हो० ॥
 २३ ॥ कहेजो कारिज तेहने जी, थारो वाघण रूप ॥ तुम साथें सही
 आवजे, देवीनां अकल स्वरूप ॥ हो० ॥ २४ ॥ आणी रायने सोंपजो
 जी, वधजे तुमारी लाज ॥ चढी तुरंगें चाव्यो वही, रमणी वयणें वत्स
 राज ॥ हो० ॥ २५ ॥ अटवीमांहे मूकीयो जी, जिहां देवीनुं ठाम ॥
 हय अहिनाणें उंलखी, कीधुं तस चिंतित काम ॥ हो० ॥ २६ ॥ वा
 घण थइ साथें चली जी, आवी नयरीमजार ॥ कान साहीने लावीयो

जी, तेहने वत्स नृपदरवार ॥ हो० ॥ २४ ॥ व्यंतरी वाघण उठली जी,
 देइ दोट तेवार ॥ कुमतिदायक मंत्री तणो, कीधो ततकृण संहार ॥
 हो० ॥ २८ ॥ नृप विहीनो मनमां घणुं जी, हां हां हां वत्सराज ॥ कां
 मुज्जे मारे इहां, नहिं महारे दूधनुं काज ॥ हो० ॥ २९ ॥ दीन वयण
 सुणी रायनां जी, वाघण कानें साहि ॥ निजघरें लाव्यो तेहनी, करे
 कामिनी नक्ति उत्साहि ॥ हो० ॥ ३० ॥ हर्षित थइ निजस्थानकें जी,
 व्यंतरी गइ ततकाल ॥ पंचम खंरु एकत्रीशमी, कहि काम उपर ए ढाल
 ॥ हो० ॥ ३१ ॥ सर्वगाथा ॥ एए४ ॥ श्लोक तथा गाथा मली ॥५१॥
 ॥ दोहा ॥

॥ नरपति मनमां चिंतवे, नय सबलो गयो जांजि ॥ साहसथी सवि
 संपजे, पण नावीजें वाज ॥ १ ॥ पुनरपि मंत्रीशुं मली, नरपति करे वि
 चार ॥ तेडी कहे वत्सराजने, जल्पतुं लावो वारि ॥ २ ॥ अंगरोग महा
 रो टले, वधे तेजनुं पूर ॥ तुऊ विण कुण आणे अवर, एक तुऊ मुख पर
 नूर ॥ ३ ॥ कहे ते पाणी किहां अठे, वंध्याटवीमजार ॥ वेहु पर्वत
 विच कूप एक, तिहां जल्पतुं वारि ॥ ४ ॥ करे सर्वदा ते गिरि, संगम
 अपगम जाव ॥ मीजन उन्मीजनपणे, जिम ते नयण स्वजाव ॥ ५ ॥
 वधें तक जोइ पेसवुं, शीघ्र आणवुं वारि ॥ डुक्कर पण अंगीकखुं कुम
 रें काम उदार ॥ ६ ॥ घर आवी नारी प्रत्यें, वात कही चित्त लाय ॥ ते
 कहे वात ए सहेल ठे, चिंता म करो कांय ॥ ७ ॥

॥ ढाल वत्रीशमी ॥

॥ प्राणी गिरिवरशुं मन लावो ॥ ए देशी ॥ अश्व आरोही तिहां
 पीयु जाउं, शकुनिकारूपें सारी ॥ ठे एक देवी वहेन अमारी, वांठितनी
 दातारी रे ॥ १ ॥ विरुई, विषयदशा जग दीती ॥ करे अकारिज ए घट
 प्रकटी. काम अग्नि अंगीठी रे ॥ विरुई० ॥ ए आंकणी ॥ अश्व चढी प
 दोतो तिण ठामें, श्री वत्सराज कुमार ॥ शकुनिका जाणी सखीनो व
 धन, पुठे मुख समाचार रे ॥ विरुई० ॥ २ ॥ कुमर कहायी तुंव न
 रीने, दीधुं ढील न कीधी ॥ पाठो वलियो जल खेईने, वांठित कारिज
 सिद्धि रे ॥ वि० ॥ ३ ॥ निजपुर आवी नृपने आप्पुं, देवतणो परजा
 वें ॥ सहु सांजजतां बोलवा लाग्पुं, तुंवमाहे सजावें रे ॥ वि० ॥ ४ ॥

कहे राजन् तुजने तुज मंत्री, कुमति तणो दातार ॥ वेहुमांहे कहे तेहुं
 नरुण, करुं एम बोले वारि रे ॥ वि० ॥ ५ ॥ नीरवचन निसुणी सवि
 पर्षद, विस्मय पामी चिंते ॥ पाणी ए केम बोले रे नाई, ए तो कांइ
 विपरीत रे ॥ वि० ॥ ६ ॥ म्लान थयो राजा एम चिंते, काज न
 सिउथुं महारुं ॥ कांइक वदन विकासी जंपे, धन्य वत्स धीरज तहारुं रे
 ॥ वि० ॥ ७ ॥ घेर विसर्जि वत्सने विमासे, मंत्री साथें मलीने ॥
 अहो असाध्य नहिं कांइ एहने, सुवनमां जाग्यवलीने रे ॥ वि० ॥
 ॥ ८ ॥ मंत्री चार मढ्या नृप जेहवा, परघर चांजण लीणा ॥ कूड कपट
 बल बध्नें हो जरिया, धिक् मानव जग हीणा रे ॥ वि० ॥ ९ ॥ कहे राज
 न् मन शुं रह्या मूंजी, जुवो अमची बुद्धि केही ॥ एक अठे ए केडे न
 कोइ, रमणी तुमची एही रे ॥ वि० ॥ १० ॥ देवी श्रीकन्या विवाहनो,
 मिय करीने एक कीजें ॥ दक्षिण दिशि एक यमघर महोटुं, तिहां वत्स
 पेसारीजें रे ॥ वि० ॥ ११ ॥ यम निमंत्रण करवा काजें, रायें वात व
 खाणी ॥ तुमें सवला मुज चिंताना कारक, सेवक गुणमणिखाणि ॥ वि०
 ॥ १२ ॥ रायें एक गर्ता निपजावी, दक्षिणदिशें अविचारी ॥ कामें
 अंध श्यो धंध न मांमे, काम कुगतिदातारी रे ॥ वि० ॥ १३ ॥ अग्नि
 प्रजाली तिहां नृप आव्यो, सुजट सहू तेडाव्या ॥ वत्सजणी बोलाव्यो
 ते पण, चांप धरीने आव्या रे ॥ वि० ॥ १४ ॥ नाम लेइ सुजटोने
 चांखे, तुमें कदमी मुज खासा ॥ काम कछुं जोश्यें एक इहांकण, जो
 करो अमची आशा रे ॥ वि० ॥ १५ ॥ फरमावो सहू कहे कर जोडी,
 यम तेडणने जावुं ॥ श्रीदेवी विवाहनी उपरें, नृप कहे सुजटने चावुं रे
 ॥ वि० ॥ १६ ॥ अग्निपूरित ए गर्तामार्गें, अइ यममंदिर जाय ॥ यम
 ने निमंत्रण जे करि आवे, ते मुज साचो सखाय रे ॥ वि० ॥ १७ ॥
 वात कहे सघला कहे स्वामी, ए अमथी नवि सीजे ॥ जाणो तेहुं
 डुण्कर बीजुं, कारिज अमने दीजें रे ॥ वि० ॥ १८ ॥ नृपें वत्सराजनी
 सहामुं नाव्युं, स्वामी हुकम मुज कीजें ॥ तुम आणा फुलमालतणी
 परें, शिर ऊपर धारीजें रे ॥ वि० ॥ १९ ॥ जइ यमने तुमें नोतरी आवो,
 कीधुं अंगीकार ॥ घर आवीने कामिनी आगल,मांमी कह्यो ए विचार रे ॥
 वि० ॥ २० ॥ पंचम खंमें दाल वत्रीशमी, धिक् धिक् विषय विकार ॥ राम कहे

जे विषयमां राता, ते नर मूढ गमार रे ॥ वि० ॥ ११ ॥ सर्वगाथा ॥ १०११ ॥ ५१ ॥

॥ दोहा ॥

॥ कामिनी कहे तव कंतने, गुं लीधुं ए काम ॥ ए नृप तुम केडें थयो,
मारणने सुणो स्वामि ॥ १ ॥ उगसार्थें उग थाइयें, धूतारे धूतार ॥ श्यो ख
लने उपकार ए, सुगुणा कंत विचार ॥ २ ॥ कहे वत्सराज खरुं कहो, पण
कीधुं अंगीकार ॥ मिथ्या में थाये नहिं, श्यो हवे एह विचार ॥ ३ ॥
यतः ॥ जिहेंकेवसतामुजे ॥ अन्यच्च ॥ वयणे जणियं खगं, कग्ग क
ज्जेण संधियं बाणं ॥ सुंदरि मुठ न काठ, मूआ ते वयण चुकइया ॥ ४ ॥
अलसायं ते एवि स, ज्जेण जे अस्करा समुद्धविद्या ॥ ते पत्तरटंक
किरि, य व नहु अन्नहा हुंति ॥ ५ ॥ पूर्वदोहा ॥ ते माटें अंगीकखुं, पा
लेवुं में सार ॥ वचनचूक जीव्या तणो, स्वाद किस्यो संसार ॥ ६ ॥
कहे कामिनी आधार एम, चिरं जीवो महाराज ॥ एणें विराजो मालिये,
उपकारी शिरताज ॥ ७ ॥

॥ ढाल तेत्रीशमी ॥

॥ लांध्या तोडा तोड रे राज, लांधी नदी रे बनास ॥ ए देशी ॥ कहे
कामिनी विद्याधरी राज, अलवेसर अम कंत ॥ सुख विलसो संसारनां
राज, शी मनमां धरो चिंत ॥ १ ॥ साहिवो रे महारो, उपगारी शिरताज ॥
साहिवो रे महारो, गिरुठ गरीवनिवाज ॥ साहिवो रे महारो, मोजी वडो
महाराज ॥ साहिवारे जोवो, धणरो तमासो आज ॥ ए अंकणी ॥ किंक
ररूपें यहुने राज, कहे तेडी एम वाणी ॥ कंतरूप धरी कारिमुं राज,
जाठ नृपपासैं सुजाण ॥ सा० ॥ १ ॥ जे कहे ते करजो तुम्हें राज,
मत कहेजो नाकार ॥ साहिवरो पाणी रहे राज, वरतवुं तेम निर्धार
॥ सा० ॥ २ ॥ रूप धरी वत्सराजनुं राज, आव्यो नरपति पास ॥ हुक
म करो थें राजवी राज, म्हाने सुगुण आवास ॥ सा० ॥ ३ ॥ जावो थें
महारी वती राज, यमने करि मनोहार ॥ मासमांहे इहां लावजो राज,
कांइ कहां वारं वार ॥ सा० ॥ ४ ॥ लोक सहूको देखतां राज, अग्निमांहे
प्रवेश ॥ कीधो सहू हा हा करे राज, धिक् धिक् राव आदेश ॥ सा० ॥ ५ ॥
गुणरचणें गाहो जस्यो राज, वत्स सरीसो कुमार ॥ नृप निंदय हुबो घणो
राज, माखो ए निर्धार ॥ सा० ॥ ६ ॥ इण वातें रुहुं नहिं राज, आव्यो

हो रायनो अंत ॥ काम कियो चांमालनो हो राज, न करे इश्यो कोइ
 प्रांत ॥ सा० ॥ ७ ॥ शोच करे सहुको जना राज, नृप हर्षित दुउ
 ताम ॥ कहे मंत्रीने आपरो हो राज, चढियो सिराडे काम ॥ सा० ॥
 ८ ॥ आणो हवे ते सुंदरी राज, म करो विलंब लगार ॥ तव मंत्री कर
 जोडीने राज, कहे नरपति अवधार ॥ सा० ॥ १० ॥ सकल प्रजा तुम
 उपरें राज, रागरहित ठे स्वामि ॥ जो तेडावशो ए कामिनी राज, तो वि
 णसरो काम ॥ सा० ॥ ११ ॥ संपद राग प्रजातणे राज, विण संपद श्यो
 राज ॥ राज विना रमणी किसी राज, सुण सुण गरिबनिवाज ॥ सा० ॥
 १२ ॥ यतः ॥ विनयेन जवति गुणवान्, गुणवति लोकोऽनुरज्यते नित्य
 म् ॥ अनुरक्तस्य सहायाः, ससहायो युज्यते लक्ष्म्या ॥ ३ ॥ पूर्वढाल ॥
 ते माटे तुमने कहां राज, पडखो तुमैं एक मास ॥ अति उत्सुक हुवे
 हुते राज, होवेजी काज विनाश ॥ सा० ॥ १३ ॥ यतः ॥ काज विचारी
 जे करेण ॥ मंत्रीयें वाख्यो नृप रह्यो राज, मास लगें जेम तेम ॥ बोले मासे
 कामथी राज, अंध हुकम करे एम ॥ सा० ॥ १४ ॥ तेडी चार प्रधा
 नने राज, हुकम करे नृप जाम ॥ जाये लेवा नारीने राज, चतुर विचारी
 ताम ॥ सा० ॥ १५ ॥ यहू मूकी पातलथी राज, पूरव जवनोजी वाप ॥
 व्यंतरपति तेडावियो राज, ते पण आव्योजी आप ॥ सा० ॥ १६ ॥
 तस आनरणें शोनावीने राज, हय वेसारीने हेज ॥ मोकव्यो कंतने नृप
 कने राज, व्यंतरपति शुं सतेज ॥ सा० ॥ १७ ॥ चहुटामांहे संचख्यो
 राज, लोक मव्यां लख कोडि ॥ अहो पुण्याइ एहनी राज, पूग्याजी
 वांठित कोड ॥ सा० ॥ १८ ॥ दरवारें नृप आगलें राज, कनोजी जोडी
 हाथ ॥ देखी विस्मय पामीयो राज, मन चिंते चूनाथ ॥ सा० ॥ १९ ॥
 वीर एणें कीधुं वृथा राज, एक सुजापित सार ॥ दिन रयणी आवे गठे
 राज, नावे मुठ बीजी वार ॥ सा० ॥ २० ॥ यतः ॥ पुनर्दिवा पुनारात्रिः,
 पुनः सूर्यः पुनः शशी ॥ पुनः संजायते सर्वे, न कोप्येति पुनर्मृतः ॥ ४ ॥
 पूर्वढाल ॥ पूठे नृप वत्सराजने राज, ठे कुशली यमदेव ॥ महिमा जेहनो
 आकरो राज, करे बहु सुर जस सेव ॥ सा० ॥ २१ ॥ पूठयुं मुऊने तुम
 सखा राज, केम बहु दिवसें आज ॥ तुऊ स्वामी संचारीयो राज, मित्र
 हुं ते वत्सराज ॥ सा० ॥ २२ ॥ कह्युं तव मैं सुण साहिवा राज, उत्स

व उपर आज ॥ तेडण मुजने मोकळ्यो राज, पाउ धारो महाराज ॥ सा०
 ॥ १३ ॥ यइ हर्षित मुजने तेणें राज, अंग आनूपण दीध ॥ कहेवाड्युं
 तुमने यमें राज, काज नळुं ए कीध ॥ सा० ॥ १४ ॥ तेडाव्या अमने
 तुमें राज, पण अमथी न अवाय ॥ इइ हुकमथी माहरे राज, फुरसद
 ऋणनी न थाय ॥ सा० ॥ १५ ॥ ते माटे तुमें आववुं राज, एक वार
 मिलणने काज ॥ मुज सार्थे ए मोकळ्यो राज, निज दौवारिक आज ॥
 सा० ॥ १६ ॥ देखी अनिमेप नयणने राज, रायें मान्युं सवि साच ॥
 व्यंतरपति तव बोलीयो राज, रायप्रत्ये एम वाच ॥ सा० ॥ १७ ॥ दंमधरें
 फरमावियुं राज, तुम सेवक मुज पास ॥ खासा होवे ते मूकजो राज, खवर
 देवाने उल्लास ॥ सा० ॥ १८ ॥ करशुं तेहनी चाकरी राज, अमथी यशे ते सार ॥
 एम सुणी सेवक सहु राज, जावा यया दुशीयार ॥ सा० ॥ १९ ॥ कहे प्रति
 हार ते मोकजो राज, खासा जे होय तुम वार ॥ यमगृहपासें आवी
 या राज, राजन सहु परिपार ॥ सा० ॥ २० ॥ पंचमखंमं तेत्रीशमी
 राज, ढाल जणी सुविचार ॥ पाप तणां फल पामशे राज, हवे ते जो जो
 चार ॥ सा० ॥ २१ ॥ सर्व गाथा ॥ १०५ ॥ श्लोक तथा गाथा मली ॥ ५६ ॥

॥ दोहा ॥

॥ वेत्री कहे राजन सुणो, विपमो अमचो स्वामि ॥ रीतें तिहाकण जाश्यें,
 तो सीजे सवि काम ॥ १ ॥ मानीताने मोकजो, पहेजां महारी साथ ॥
 पठें राजा केडें प्रजा, एम सहु आवो साथ ॥ २ ॥ चार सचिव
 तव चिंतवे, पहेजां गमने इष्ट ॥ फल होवे चिंतित सही, नोजन लहियें
 मिष्ट ॥ ३ ॥ यतः ॥ दाने याने शयने, व्याख्याने नोजने सजास्थाने ॥ क्रय
 विक्रयेऽतिथित्वे, राजकुले पूर्णफल आद्यः ॥ १ ॥ शून्येऽरण्ये नवने, ग्रामे
 तांये नये च संग्रामे ॥ आरोहेऽप्यवरोहे, पुरस्तरेन्न पथि रात्रौ च ॥ २ ॥ पूर्व
 दोहा ॥ वेत्री पेठो आगमां, सहुलोकनी साख ॥ पूर्वेपडीया चार ते, कहि
 नरपतिने जांख ॥ ४ ॥ पडतखेव हुवा नस्ममय, निज अनिजाप समे
 त ॥ परजोकें गया पापीया, पापतणे संकेत ॥ ५ ॥

॥ ढाल चोत्रीशमी ॥

॥ हारे लाल ॥ नरोवर पाणी चीखलो रे लाल ॥ ए देशी ॥ हारे
 लाल ॥ राजा पण रंगें कळ्यो रे लाल, पतंगलजित करे जाम ॥ हो० ॥

हो रायनो अंत ॥ काम कियो चांमालनो हो राज, न करे इश्यो कोइ
 प्रांत ॥ सा० ॥ ७ ॥ शोच करे सहुको जना राज, नृप हर्षित हुउं
 ताम ॥ कहे मंत्रीने आपरो हो राज, चढियो सिराडे काम ॥ सा० ॥
 ८ ॥ आणो हवे ते सुंदरी राज, म करो विलंब जगार ॥ तव मंत्री कर
 जोडीने राज, कहे नरपति अवधार ॥ सा० ॥ १० ॥ सकल प्रजा तुम
 उपरें राज, रागरहित ठे स्वामि ॥ जो तेडावशो ए कामिनी राज, तो वि
 णसरो काम ॥ सा० ॥ ११ ॥ संपद राग प्रजातणो राज, विण संपद श्यो
 राज ॥ राज विना रमणी किसी राज, सुण सुण गरिबनिवाज ॥ सा० ॥
 १२ ॥ यतः ॥ विनयेन जवति गुणवान्, गुणवति लोकोऽनुरज्यते नित्य
 म् ॥ अनुरक्तस्य सहायाः, ससहायो युज्यते लक्ष्म्या ॥ ३ ॥ पूर्वढाल ॥
 ते माटे तुमने कहां राज, पडखो तुमें एक मास ॥ अति उत्सुक हुवे
 हुते राज, होवेजी काज विनाश ॥ सा० ॥ १३ ॥ यतः ॥ काज विचारी
 जे करे ॥ मंत्रीयें वाखो नृप रह्यो राज, मास जगें जेम तेम ॥ बोले मासे
 कामथी राज, अंध हुकम करे एम ॥ सा० ॥ १४ ॥ तेडी चार प्रधा
 नने राज, हुकम करे नृप जाम ॥ जाये लेवा नारीने राज, चतुर विचारी
 ताम ॥ सा० ॥ १५ ॥ यहू मूकी पातलथी राज, पूरव जवनोजी वाप ॥
 व्यंतरपति तेडावियो राज, ते पण आव्योजी आप ॥ सा० ॥ १६ ॥
 तस आचरणें शोचावीने राज, हय वेसारीने हेज ॥ मोकव्यो कंतने नृप
 कने राज, व्यंतरपति शुं सतेज ॥ सा० ॥ १७ ॥ चहुटामांहे संचखो
 राज, लोक मव्यां लख कोडि ॥ अहो पुण्याइ एहनी राज, पूग्याजी
 वांछित कोड ॥ सा० ॥ १८ ॥ दरवारें नृप आगलें राज, ऊजोजी जोडी
 हाथ ॥ देखी विस्मय पामीयो राज, मन चिंते चूनाथ ॥ सा० ॥ १९ ॥
 वीर एणें कीधुं वृथा राज, एक सुजापित सार ॥ दिन रयणी आवे गढे
 राज, नावे मुठ बीजी वार ॥ सा० ॥ २० ॥ यतः ॥ पुनर्दिवा पुनारात्रिः,
 पुनः सूर्यः पुनः शशी ॥ पुनः संजायते सर्वे, न कोप्येति पुनर्मृतः ॥ ४ ॥
 पूर्वढाल ॥ पूठे नृप वत्सराजने राज, ठे कुशली यमदेव ॥ महिमा जेहनो
 आकरो राज, करे बहु सुर जस सेव ॥ सा० ॥ २१ ॥ पूठयुं मुजने तुम
 सखा राज, केम बहु दिवसें आज ॥ तुज स्वामी संनारीयो राज, मित्र
 हुं ते वत्सराज ॥ सा० ॥ २२ ॥ कहुं तव में सुण साहिवा राज, उत्स

व उपर आज ॥ तेडण मुंजने मोकव्यो राज, पाउ धारो महाराज ॥ सा०
 ॥ ३३ ॥ थइ हर्षित मुजने तेणें राज, अंग आचूपण दीध ॥ कहेवाड्युं
 तुमने यमें राज, काज जलुं ए कीध ॥ सा० ॥ ३४ ॥ तेडाव्या अमने
 तुमें राज, पण अमथी न अवाय ॥ इइ हुकमथी माहरे राज, फुरसद
 क्कणनी न थाय ॥ सा० ॥ ३५ ॥ ते माटें तुमें आवबुं राज, एक वार
 मिलणने काज ॥ मुज साथें ए मोकव्यो राज, निज दौवारिक आज ॥
 सा० ॥ ३६ ॥ देखी अनिमेष नयणने राज, रायें मान्युं सवि साच ॥
 व्यंतरपति तव बोलीयो राज, रायप्रत्यें एम वाच ॥ सा० ॥ ३७ ॥ दंमधरें
 फरमावियुं राज, तुम सेवक मुज पास ॥ खासा होवे ते मूकजो राज, खवर
 देवाने उल्लास ॥ सा० ॥ ३८ ॥ करशुं तेहनी चाकरी राज, अमथी थरो ते सार ॥
 एम सुणी सेवक सहु राज, जावा थया दुशीयार ॥ सा० ॥ ३९ ॥ कहे प्रति
 हार ते मोकलो राज, खासा जे होय तुम यार ॥ यमगृहपासें आवी
 या राज, राजन सहु परिपार ॥ सा० ॥ ४० ॥ पंचमखंरुं तेत्रीशमी
 राज, ढाल नणी सुविचार ॥ पाप तणां फल पामरो राज, हवे ते जो जो
 चार ॥ सा० ॥ ४१ ॥ सर्व गाथा ॥ १०५० ॥ श्लोक तथा गाथा मली ॥ ५६ ॥
 ॥ दोहा ॥

॥ वेत्री कहे राजन सुणो, विपमो अमचो स्वामि ॥ रीतें तिहाकण जाइयें,
 तो सीजे सवि काम ॥ १ ॥ मानीताने मोकलो, पहेलां महारी साथ ॥
 पठें राजा केडें प्रजा, एम सहु आवो साथ ॥ २ ॥ चार सचिव
 तव चिंतवे, पहेलां गमने इष्ट ॥ फल होवे चिंतित सही, जोजन लहियें
 मिष्ट ॥ ३ ॥ यतः ॥ दाने याने शयने, व्याख्याने जोजने सत्तास्थाने ॥ क्रय
 विक्रयेऽतिथित्वे, राजकुले पूर्णफल आयः ॥ ४ ॥ शुन्येऽरण्ये जवने, ग्रामे
 तोये जये च संग्रामे ॥ आरोहेऽप्यवरोहे, पुरस्सरेन्न पथि रात्रौ च ॥ ५ ॥ पूर्व
 दोहा ॥ वेत्री पेतो आगमां, सहुलोकनी साख ॥ पठें पढीया चार ते, कहि
 नरपतिने नांख ॥ ४ ॥ पडतखेव हुवा नस्ममय, निज अनिलाप समे
 त ॥ परलोकें गया पापीया, पापतणे संकेत ॥ ५ ॥

॥ ढाल चोत्रीशमी ॥

॥ हारे लाल ॥ सरोवर पाणी चीखलो रे लाल ॥ ए देशी ॥ हारे
 लाल ॥ राजा पण रंगें कव्यो रे लाल, पतंगजित करे जाम ॥ हो० ॥

अग्नि जलंतमां आकरो रे लाल, ग्रह्यो वत्सराजें ताम ॥ १ ॥ हारे
लाल ॥ काज विचारी कीजीयें रे लाल ॥ सुण पृथिवीपति पाल ॥
हो० ॥ नीरखी परखीने जे करे रे लाल, न हुवे तस जंजाल ॥ हो० ॥
काज वि० ॥ २ ॥ हो० ॥ मत जाणो ए मनमां रे लाल, मुठ न जीवे
कोय ॥ हो० ॥ ए पट्टु नाटक में सही रे लाल, तुज्जे देखाड्युं जोय ॥ हो०
॥ काज० ॥ ३ ॥ हो० ॥ ए सवि मंत्री कुबुद्धिया रे लाल, कूड तणा कर
नार ॥ हो० ॥ मुज्जे प्राणांत कष्टमें रे लाल, नाख्यो मलि बहु वार ॥
हो० ॥ का० ॥ ४ ॥ हो० ॥ देवतणा परचावथी रे लाल, पूगाड्या में
एह ॥ हो० ॥ अग्निमांहि होमावीया रे लाल, रह्यो हुं अखंमित देह ॥
हो० ॥ का० ॥ ५ ॥ यतः ॥ कृते प्रतिकृतं कुर्यात्, लुंचिते प्रति लुंचितम् ॥
त्वया लुंचापिताः पद्मा, मया मुंभावितं शिरः ॥ ३ ॥ दोहो ॥ धुत्तह कीजें
धूतिया, आलह दिजें आल ॥ मित्तह किजें मित्तडी, एम गमिजें काल
॥ ४ ॥ पूर्वढाल ॥ हो० ॥ म म जीवो जे जला थइ रे लाल, दिये परने डुबुं
दि ॥ हो० ॥ परडोहें परधन नारीने रे लाल, चाहे ते डुबुंदि ॥ हो० ॥
का० ॥ ६ ॥ हो० ॥ नृप आरिज कहो शुं करे रे लाल, जिहां मंत्री होये
कुजात ॥ हो० ॥ नृप चूंमो पण शुं करे रे लाल, जिहां मंत्रीश सुजात
॥ हो० ॥ का० ॥ ७ ॥ हो० ॥ तुं स्वामी ठे माहरो रे लाल, नाख्यो में नवि
जाय ॥ हो० ॥ स्वामिडोहनुं मोटकं रे लाल, जगमां पाप कहाय ॥
हो० ॥ का० ॥ ८ ॥ हो० ॥ चूंमो पण डोह अन्यनो रे लाल, दिये डुः
खनो संदोह ॥ हो० ॥ स्वामी मित्र गुरुतणो रे लाल, अति माठो कख्यो
डोह ॥ हो० ॥ का० ॥ ९ ॥ हो० ॥ वात सुणी नरराजीयो रे लाल,
चित्तमां लाज्यो जोर ॥ हो० ॥ मुज्जे चेष्टित एणें लखुं रे लाल, में कखुं कर्म
कठोर ॥ हो० ॥ का० ॥ १० ॥ हो० ॥ एवंविध अपराधने रे लाल, शक्ति
ठतें सह्या जेण ॥ हो० ॥ राज्य न लीधुं न बालीयो रे लाल, पर उपकारी
गुणेण ॥ हो० ॥ का० ॥ ११ ॥ यतः ॥ स्वयमहमः समग्रं, ह्मते ह्मया
न जाति चान्यर्हिम् ॥ न नवं तत् ह्मताया, मिदं हिलोकोत्तरं चरितम् ॥ ५ ॥
अस्थोत्तमस्य परमा, प्रकृतिः प्राणांतगस्य न हि विपमा ॥ तस्याधमाधमोऽहं,
कथमनृणीनावमाप्तोऽस्मि ॥ ६ ॥ पूर्वढाल ॥ हो० ॥ इत्यादिक निज निं
दतो रे लाल, प्रशंसतो वत्सराज ॥ हो० ॥ जवनिर्विसु तणी परें रे लाल,

मंदिर गयो महाराज ॥ हो० ॥ का० ॥ १२ ॥ हो० ॥ लोक गयां सहु
स्थानकें रे लाल, धरतां विस्मय चूरि ॥ हो० ॥ एह निमित्तथी रायने रे
लाल, बाध्युं वैरागनुं पूर ॥ हो० ॥ का० ॥ १३ ॥ हो० ॥ चिंते पाप घणुं
कखुं रे लाल, परदारानी आश ॥ हो० ॥ आतमलघुता में करी रे
लाल, बांध्यो पापनो राशि ॥ हो० ॥ का० ॥ १४ ॥ हो० ॥ एम चिंती
निजवालिका रे लाल, परणावे नूपाल ॥ हो० ॥ राज्य दीयुं करमोचनें रे
लाल, महेली मन ढक चाल ॥ हो० ॥ का० ॥ १५ ॥ हो० ॥ नृप
रुद्धि मूकी निसख्यो रे लाल, थयो तापस वनमांथ ॥ हो० ॥ करे
तप बहु अज्ञानथी रे लाल, नवि संनाले कांथ ॥ हो० ॥ का० ॥ १६ ॥
॥ हो० ॥ राजा थयो वत्सराजजी रे लाल, वीरसेन नृपनो नंद ॥
॥ हो० ॥ सकल गुणें करी शोचतो रे लाल, दिन दिन अधिक आनंद
॥ हो० ॥ का० ॥ १७ ॥ हो० ॥ देश घणा साध्या तेणें रे लाल, वरती चिहुं
खंम आण ॥ हो० ॥ नूप सवे आवी नम्या रे लाल, हुकम करे परमाण
हो० ॥ का० ॥ १८ ॥ हो० ॥ चिहुं राणीगुं जोगवे रे लाल, इंदियसुख
सुविजास ॥ हो० ॥ ईति निवारी वेगली रे लाल, पूगी मनडानी आश
॥ हो० ॥ का० ॥ १९ ॥ हो० ॥ कीर्त्ति पसरि चिहुं दिगें रे लाल, ढांकी ते
नरहंत ॥ हो० ॥ वात विद्या कस्त्रिका रे लाल, आपेंही प्रगटंत ॥ हो०
॥ का० ॥ २० ॥ यडुक्तं ॥ वार्त्ता च कोतुकवती विशदा च विद्या, लोको
त्तरः परिमलश्च कुरंगनात्तेः ॥ तेलस्य त्रिंशुरिव वारिणि, हुर्निवार एतत्रयं प्रसर
तीति किमत्र चित्रम् ॥ ७ ॥ हो० ॥ पंचमखंमं ए कही रे लाल, ढाल चो
त्रीशमी रंग ॥ हो० ॥ रामविजय कहे हेजगुं रे लाल, कीजें पुण्य प्र
संग ॥ हो० ॥ का० ॥ २१ ॥ सर्वगाथा ॥ १०८४ ॥ श्लोक तथा गाथा ॥ ६३ ॥

॥ दोहा ॥

॥ इण अवसर निज नयरीयें, पसरि वात पफूर ॥ वत्सराज राजा
थयो, उल्लयिनी वड नूर ॥ १ ॥ लख्यो लेख परजा मली, नृप वत्सराज
ने आम ॥ वहेला बलजो साहिवा, अम प्रतिपालन काम ॥ २ ॥ दृत
लेख लेई चय्यो, आव्यो नयगी उल्लेण ॥ नृप वत्सराजने सांपियो,
आवी हर्ष नरेण ॥ ३ ॥

॥ ढाल पांत्रीशमी ॥

॥ राग सिंधूडो ॥ तथा ॥ प्रवलकाल तणो पयोनिधि, गाजतो गंजीर ॥ ए देशी ॥ लेख लीधो हाथ ततद्धण, दीध वांचक हाथ ॥ उखेलीने ते स्वयं वांचे, सांजले नूनाथ ॥ स्वस्ति उज्जयिनी पुरी जिहां, नृप वसे वत्सराज ॥ ह्दितिप्रतिष्ठित नगरहूंती, लखे लेख समाज ॥ १ ॥ वहेला आवजो रे, वारम लावजो रे, राजेश्वर जावजो रे, जग जस पावजो रे ॥ ए आंकणी ॥ ग्रीष्म अर्दित मेघ चाहे, शीतपीडित आग ॥ जेम संजारे सहूनो, तेम तुज्जुं राग ॥ शीघ्र आवो थाठ अमचा, स्वामी तुम वडजाग ॥ अन्यथा अमने इहांकणे, नहिं रह्यानो जाग ॥ वहेला ॥ २ ॥ देवराज ए दुःखदायी, करे सबल अन्याय ॥ सुख नहीं ए नयरमांहे, जिहां एहवो राय ॥ शुं घणुं तुम दाखीयें मत, ढील करजो कांय ॥ वत्स सघली वात निसुणी, मेलियो समुदाय ॥ वहेला ॥ ३ ॥ तिहां सुजट नट कोटि मलिया, वाजते निशाण ॥ सैन्यजार ए धरा न खमे, चढयो नृप वठराण ॥ पर धानने निज राज्य सोंपी, साथें सबल मंमाण ॥ ह्दितिप्रतिष्ठित नयर अ नुक्रमें, आवियो दुइ जाण ॥ व ॥ ४ ॥ मोकळ्यो देवराजने एक, दूत वत्सें ताम ॥ जाणियुं वत्सराज आव्यो, करणने संग्राम ॥ दुउं लडवा काज तत्पर, देवराज अनाम ॥ सैन्य जइ वाहेर आव्यो, वडो तेह हराम ॥ ॥ व ॥ ५ ॥ सामंत सघला नहिं रागी, वत्स ऊपर प्रेम ॥ कोइ तन देवे हीं तिहां, देवराजने तेम ॥ वदन फीके चित्तमांहि, तेह चिंते एम ॥ फखुं सेना सहु लश्कर, रणें जींतीयें केम ॥ व ॥ ६ ॥ रात लेई तेह नाठो, देवराज नरिंद ॥ वत्स सहामो चढी आव्यो, वीरसेन फरजंद ॥ हाथ जोडी पाय लागी, सचिव नृत्य अमंद ॥ चिरं जीवो स्वामि अमचा, सहू कहे आनंद ॥ व ॥ ७ ॥ लोक हर्षित दुवां सघलां, महोत्सव बहु थाय ॥ वाजते नीशाण पुरमां, करे परवेश राय ॥ बोले वंदीजन जयारव, हैडे हर्षे न माय ॥ आव्यो प्रजापाल नृपति, टळ्या दूर अन्याय ॥ व ॥ ८ ॥ तखत ऊपर आवी वेठा, वखत वलीयो सार ॥ सहु हाथ जोडी पाय लाग्या, दुउं जय जयकार ॥ राज्य वेहू नलां पाले, व्यसन सात निवार ॥ पुहवी वत्स नरेश आणा, चधी बहु विस्तार ॥ व ॥ ९ ॥ ना रि चिहुं संघात विलसे, देवनी परें जाग ॥ पुण्यथी सवि आवि मलीया, सर्व

शुभ संयोग ॥ राज्य साते अंग शोभित, अंग तेम नीरोग ॥ वाधीयो
 यगोवाद् जगमां, हुड धर्मेने योग ॥ व० ॥ १० ॥ एहवे एक दिवस
 आवा, वनहमां गणधार ॥ धर्मरुचि मुनिराज रुडा, करे किरिया सार ॥
 कर्म जीपण काज पाले, शुद्ध पंचाचार ॥ चारझानी शुद्ध्यानी, समो
 सखा अणगार ॥ व० ॥ ११ ॥ आवी वनपालक वधामणी, दीधी तेणी
 वार ॥ चिरं जीवो स्वामि मोरा, प्रजाना आधार ॥ आवीया उद्यानमांहे, मुनि
 बहु परिवार ॥ निमुणी तेहने दान आपे, हरखि वार हजार ॥ व० ॥
 १२ ॥ लेइ सवि परिवार आवे, वांद्या उजमाल ॥ वत्तराज नरिंद महोदो,
 रुद्धि जाक जमाल ॥ आवी गुरुनां चरण वंदे, खंभ पंचमे ढाल ॥ पांत्री
 शमी कही रामविजयें, धन्य ए नूपाल ॥ व० ॥ १३ ॥ सर्वगाथा ॥ ११० ॥
 ॥ दोहा ॥

॥ पंचानिगम प्रणाम करि, वेगो शुद्ध नूजाग ॥ कहे मुनिवर हवे देश
 ना, आणी अनुभव राग ॥ १ ॥ सुकृते रत नरपति प्रणत, उदेशी गुरुरा
 ज ॥ चाहे चवि धर्म करो तुमें, जेम लहो शिवपदराज ॥ २ ॥ तेह धर्म
 दोय नेद ठे, सागार ने अणगार ॥ जीवदया तस मूल ठे, एहनो
 अवर विस्तार ॥ ३ ॥ सर्वविरति निर्वाहने, मुनि आराधे तेह ॥ ते विण
 आराधन नोहे, तेहनुं सुण गुणगेह ॥ ४ ॥ यतिधर्म समरथ नहिं, ते
 शुद्धगृहीनो धर्म ॥ पडिवळतो परंपर लहे, सिद्ध स्वरूप अकर्म ॥ ५ ॥
 द्वादश व्रत रूपें जलो, ते जांख्यो जगवंत ॥ आदरीयें आदर करी, जिम
 हुवे सुक अर्नंत ॥ ६ ॥ केइक जोजन लालची, बहु नर नारीरत्त ॥
 माख विलेपन जोगीया, दीसे घणा जगत ॥ ७ ॥ गीत तणा अर्थी
 घणा, द्यूत कथा रसलीण ॥ केइक वाहन गज वृपज, रसिया दीसे दीण
 ॥ ८ ॥ पण जे व्यसनी धर्मना, तेहना नमीयें पाय ॥ धन्य तेह धरणी
 तले, पावन तेहनी काय ॥ ९ ॥

॥ ढाल त्रिशीमी ॥

॥ हर्षनर हमशुं वोलजो जी ॥ ए देशी ॥ देशन सुणी गुरु वंदीने
 रे. कहे वत्तराज नरेश ॥ तारक चवमां तुं मव्यो रे, साचो तुम उप
 देश ॥ १ ॥ सुगुरु मुज, तारक मजिये आज ॥ सुगुरु मुज, सारां वांछित
 काज ॥ सुगुरु तुम, पालव वजाव्यो आज ॥ सुगुरु मुज, साचो जंगी ऊहा

ज ॥ ए आंकणी ॥ चरणधर्म प्रभु दोहिलो रे, मुजहूँती न सधाय ॥ श्रावक
व्रत उच्चरावीयें रे, मुज्जने करि सुपसाय ॥ सु० ॥ १ ॥ गुरु कहे देवाणु
पिया रे, ठंमाये तेम ठांम ॥ आरंज केडें अनादिनो रे, लागी रह्यो जीव
मांमि ॥ सु० ॥ २ ॥ व्रत वारे गुरुजी मुखें रे, उच्चरियां वत्सराज ॥
अइ कृतारथ आवीयो रे, निजमंदिर महाराज ॥ सु० ॥ ४ ॥ मास
कल्प करीने तिहां रे, गुरु विचख्या अन्य देश ॥ श्रावकव्रत आराधतो रे,
नृप पाले निजदेश ॥ सु० ॥ ५ ॥ चैत्य करावे जिन तणां रे, विंव नरावे
सार ॥ दान सुपात्रें दे जलां रे, करे सफलो अवतार ॥ सु० ॥ ६ ॥ व
ली तेहज मुनि आविया रे, विचरंता तेणें ठाम ॥ वत्सराज वंदण चळ्यो
रे, जइ वंध्या गुणधाम ॥ सु० ॥ ७ ॥ देशन सुणी पूढे प्रभु रे, कहो पूरव
अवदात ॥ आपद टली संपद दुई रे, कोण कर्मनी वात ॥ सु० ॥ ८ ॥
गुरु कहे सांजल राजिया रे, जंबू नरतमजार ॥ पुर वसंतपुरमां वसे
रे, शूर नृपति सुखकार ॥ सु० ॥ ९ ॥ सरजातम सोहामणो रे, दाह्णिण्य
गुण संयुक्त ॥ निर्लोनी सहेजें जलो रे, देव गुरुनो जक्त ॥ सु० ॥ १० ॥
दान दुःखीने आपतो रे, निज संपद नृपाल ॥ पाले प्रजा रूडी परें रे,
न्यायरीतें उजमाल ॥ सु० ॥ ११ ॥ इत्यादिक गुणें शोजतो रे, पण
शीजालंकार ॥ शोजित दानगुणें करी रे, पसह्यो यशविस्तार ॥ सु० ॥
१२ ॥ तस अंतेउरमां शिरें रे, शूरवेगा वर नारी ॥ विद्याधरकुल ऊप
नी रे, चाले पति आचार ॥ सु० ॥ १३ ॥ ते ऊपर वीजी वरी रे, रति
चूला नृपजात ॥ तस रूपें रीठ्यो घणुं रे, न लहे दिह ने रात ॥ सु० ॥
१४ ॥ रायें अवरने परहरी रे, वात जे ए उपरांत ॥ देवीयें तुज आगल
कळुं रे, सघळुं तस वृत्तांत ॥ सु० ॥ १५ ॥ गंधवाहनगतिनी सुता रे,
परणावी जेणें द्योय ॥ ते देवीना कहेणथी रे, तुमें जाणो सद्दु कोय
॥ सु० ॥ १६ ॥ शूर नृपति चवि तुं थयो रे नृपनंदन वत्सराज ॥ दाना
दिक छुज कृत्यथी रे, पाम्यो अतुलवल राज ॥ सु० ॥ १७ ॥ कळुं पूवें
ईश्वरपणो रे, कोइक अंतरायतुं कर्म ॥ राज्यनृशादिक तें लळुं रे, पूवें
वयमां अशर्म ॥ सु० ॥ १८ ॥ गुरु वयणां एम सांजली रे, जातिस्म
रण सार ॥ जेम जांखुं तेम सांजळुं रे, लह्यो वेराग्य अपार ॥ सु० ॥ १९ ॥
धन्य ज्ञानी तुम ज्ञाननें रे, कही साची ए वाणी ॥ तुम विण कुण एम

उपदिसे रे, गिरुआ गुणनी खाणि ॥ सु० ॥ १० ॥ स्थापी राज्ये तनयने
 रे, याइश हुं तुम शिष्य ॥ वांदीने घरे आवियो रे, नरपति सबल जगीश
 ॥ सु० ॥ ११ ॥ श्रीशेखर निजपुत्रने रे, सोंपी राज्यनो नार ॥ चिहुं
 नारीशुं राजीयो रे, थयो सूधो अणगार ॥ सु० ॥ १२ ॥ वत्सराज
 रुपिराजियो रे, चाले ऊय विहार ॥ चोखुं चारित्र पालीने रे, पाम्या
 सुरपद सार ॥ सु० ॥ १३ ॥ देवलोकहूँती चवी रे, करज्ञो नरनव एक ॥
 कर्म खपी केवल लही रे, लहेज्ञो मुक्ति सुविवेक ॥ सु० ॥ १४ ॥ घनरथ
 प्रभुजीये कह्यो रे, शूर तणो संबंध ॥ आपद टली संपद थई रे, पुण्य तणो
 अनुबंध ॥ सु० ॥ १५ ॥ इति वत्सराजसंबंधः ॥ पंचम खंरें ठत्रीशमी रे,
 ढाल कही सुणो संत ॥ रामविजय कहे सांजलो रे, जिनगुण एकण
 चित्त ॥ सु० ॥ १६ ॥ सर्वगाथा ॥ ११३५ ॥ श्लोक तथा गाथा मली ॥ ६३ ॥
 ॥ दोहा ॥

॥ देशन सुणी जिनराजनी, श्री मेघरथ नूपाल ॥ चारित्रने वत्सुक
 थयो, तजी मोह जंजाल ॥ १ ॥ घर आवी दृढरथ नणी, कहे बंधव ल्यो
 राज ॥ प्रभुपासें हुं व्रत ग्रही, सारिश आतम काज ॥ २ ॥ कहे दृढरथ
 सुण बंधवा, ए नरकांतज राज ॥ एहने कारण काजं हुं, नवि विणसाहुं
 आज ॥ ३ ॥ तेणें निज अंगज स्थापियो, मेघसेन अनिधान ॥ रथ
 सेन दृढरथसुत नणी, सुवराजा पद ठाण ॥ ४ ॥

॥ ढाल साडत्रीशमी ॥

॥ तुमने जलें आव्या कहियें जी, थूजिनइ जलें आव्या ॥ ए देशी ॥
 मेघरथ घनरथ जिन वांटे जी ॥ प्रभुजी सोजागी ॥ मुज आपो चरण
 आनंदें जी ॥ वारू वड नागी ॥ १ ॥ मुज मनना मनोरथ फलिया जी
 ॥ प्रभु ॥ आज देवाधिदेव मुज मलिया जी ॥ वारू ॥ २ ॥ मुज चारित्र
 आपो चोखुं जी ॥ प्र० ॥ निज आतमगुणने पोखुं जी ॥ वा० ॥ ३ ॥
 मुज नवजलहूँती तारो जी ॥ प्र० ॥ घनरथ जिन मुज उगारो जी ॥
 वा० ॥ ४ ॥ नृप चार सहस संघातें जी ॥ प्र० ॥ सुत सुंदर सातगें तार्यें
 जी ॥ वा० ॥ ५ ॥ बंधव दृढरथनी जोडी जी ॥ प्र० ॥ जिये चारित्र
 मदने मोडी जी ॥ वा० ॥ ६ ॥ ग्रही श्रीजिनहाथे दीक्षा जी ॥ प्र० ॥ आराधे
 जिननी शिक्षा जी ॥ वा० ॥ ७ ॥ पंच समिति गुमि रखवाले जी ॥ प्र० ॥

षट्काय जणी प्रतिपाले जी ॥ वा० ॥ ७ ॥ दोष रहित जीये आहार जी
 ॥ प्र० ॥ मुनि पाले पंचाचार जी ॥ वा० ॥ ८ ॥ कहुं मुनिनी किर्ति केती
 जी ॥ प्र० ॥ व्रत पाले जावनसेंती जी ॥ वा० ॥ ९ ॥ श्री घनरथ जिन
 उपकारी जी ॥ प्र० ॥ प्रतिबोध्यां बहु नर नारी जी ॥ वा० ॥ १० ॥ नव क
 मल ठवे प्रभु पाया जी ॥ प्र० ॥ सुर असुर मली गुण गाया जी ॥ वा० ॥
 ११ ॥ मल धोई अघाती केरो जी ॥ प्र० ॥ जिन लह्यो शिव ताम जलेरो
 जी ॥ वा० ॥ १२ ॥ हवे मेघरथ मुनि निर्मायी जी ॥ प्र० ॥ करे सूधी
 साधुकमाई जी ॥ वा० ॥ १३ ॥ आराधे स्थानक वीश जी ॥ प्र० ॥
 बांधे जिननाम जगीश जी ॥ वा० ॥ १४ ॥ अरिहंत सिद्ध प्रवचन
 नाम जी ॥ प्र० ॥ गुरु शिविर साधु गुणग्राम जी ॥ वा० ॥ १५ ॥ वा
 त्सव्य एहोनां करवां जी ॥ प्र० ॥ बहुश्रुत तपस्वी चित्त धरवा जी ॥ वा०
 ॥ १६ ॥ शुद्ध ज्ञानतणो उपयोग जी ॥ प्र० ॥ दर्शन गुण विनयनो योग
 जी ॥ वा० ॥ १७ ॥ आवश्यक शीलव्रत लेखे जी ॥ प्र० ॥ रहे निरति
 चार विशेषें जी ॥ वा० ॥ १८ ॥ कृण जव तप त्याग विचारो जी ॥
 प्र० ॥ बैयावचें समाधि गुण धारो जी ॥ वा० ॥ १९ ॥ ग्रहे ज्ञान
 अपूरव होशें जी ॥ प्र० ॥ श्रुतजक्ति करे सुविशेषें जी ॥ वा० ॥ २० ॥
 प्रवचन प्रजावना सारी जी ॥ प्र० ॥ विशमे बोले निर्धारी जी ॥ वा० ॥ २१ ॥
 करे सिंहनिक्रीडित साचुं जी ॥ प्र० ॥ तप जेहबुं कंचन जाचुं जी ॥ वा०
 ॥ २२ ॥ करे किरिया मुनिवर साची जी ॥ प्र० ॥ जिनपद बांध्युं नि
 काची जी ॥ वा० ॥ २३ ॥ लाख वरस चरण आराधी जी ॥ प्र० ॥
 चढती गुणश्रेणी बाधी जी ॥ वा० ॥ २४ ॥ निजकाय अथाम ए जाणी
 जी ॥ प्र० ॥ दृढरथ मुनि सुगुण खाणी जी ॥ वा० ॥ २५ ॥ तिलका
 चल उपरें बेही जी ॥ प्र० ॥ शुद्ध नूमितल पडिलेही जी ॥ वा० ॥
 २६ ॥ लख चोराशीने खमावी जी ॥ प्र० ॥ मन वैराग्य जावना जावी
 जी ॥ वा० ॥ २७ ॥ शरणां चार उदार जी ॥ प्र० ॥ करे अणसण गुणनं
 मार जी ॥ वा० ॥ २८ ॥ बोसिरावी तेणें निज काया जी ॥ प्र० ॥ नहिं मन
 ममता ने माया जी ॥ वा० ॥ २९ ॥ मनमांहे समाधिने साधी जी ॥
 प्र० ॥ सर्वरथ सिद्धि रुद्धि लाधी जी ॥ वा० ॥ ३० ॥ तेत्रीश सहस व
 र्ष जाय जी ॥ प्र० ॥ तव नूखनी इहा थाय जी ॥ वा० ॥ ३१ ॥ ते

त्रीश पखवाडे उह्लास जी ॥ प्र० ॥ एक वार ले श्वासोत्वास जी ॥ वा० ॥
 ॥ ३३ ॥ चंदोदय रुचि उद्योत जी ॥ प्र० ॥ तिहां चोसठ मणुं मोती
 जी ॥ वा० ॥ ३४ ॥ चिहुं पासं चार ते सोहे जी ॥ प्र० ॥ वत्रीश म
 णनां मन मोहे जी ॥ वा० ॥ ३५ ॥ आठ शोल मणां कहरां वारु जी ॥
 प्र० ॥ तस पापतीयां मनोहारु जी ॥ वा० ॥ ३६ ॥ शोल आठ म
 णानी उन्नै जी ॥ प्र० ॥ आगममांहि प्रभु एम बोले जी ॥ पाठांतर ॥ ते
 दीपे तेज अमोलें जी ॥ वा० ॥ ३७ ॥ चिहुं मणनां मोती वत्रीश जी ॥ प्र० ॥
 चोसठ दोय मणीयां जगीश जी ॥ वा० ॥ ३८ ॥ एक शो अडवीस वखाणो
 जी ॥ प्र० ॥ एक मणीयां मोती जाणो जी ॥ वा० ॥ ३९ ॥ एम दो
 यशें त्रपन होय जी ॥ प्र० ॥ मुक्ताफलसंख्या जोय जी ॥ वा० ॥
 ४० ॥ समकितदृष्टि मति सारी जी ॥ प्र० ॥ सहुये जिहां एकाव
 तारी जी ॥ वा० ॥ ४१ ॥ लवसत्तमिया एणें नामें जी ॥ प्र० ॥ देव सर्वा
 रथसिद्ध ठामें जी ॥ वा० ॥ ४२ ॥ प्रभु तिहां जइ जीये अवतार जी
 ॥ प्र० ॥ अगियारमे नव अधिकार जी ॥ वा० ॥ ४३ ॥ दृढरथ मुनि
 पण तिहां जाय जी ॥ प्र० ॥ लही सुरपदवी सुखदाय जी ॥ वा० ॥
 ४४ ॥ खंम पांचमे साडत्रीशमी ढाल जी ॥ प्र० ॥ कहे रामविजय उज
 माल जी ॥ वा० ॥ ४५ ॥

॥ ढाल ॥ चोपाई ॥ खंम खंम चतुराई घणी, शांति प्रचुरासैं में सुणी ॥
 तेह तणो ए पंचम खंम, पूरण दूठ राग अखंम ॥ १ ॥ संवत सत्तर पं
 चाशिये सही, राजनगर चोमासूं रही ॥ श्री संनवजिनने सुपसाय, पंचम
 खंम रच्यो सुखदाय ॥ २ ॥ सागरगड उदयाचलजाण. श्रीजङ्घीसागर
 सूरि सुगुणनिधान ॥ तेह तणे राज्यें अतिचंग, गम रच्यो में थरि मन
 रंग ॥ ३ ॥ श्रीगुरु सुमतिविजय कविराज, उपकारीमांहे गिरताज ॥ तास शिष्य
 एम हर्षे नणे. शांतिप्रभुने जावं नामणे ॥ ४ ॥ सर्वगाथा ॥ १ १०० ॥ श्लोक
 तथा गाथा मली ॥ ६३ ॥ खंम पांचेनी गाथा ॥ ४२९४ ॥ खंम पांचेना प्रास्ता
 विक श्लोक तथा गाथा ॥ १०१ ॥ पांचे खंमनी ढाल ॥ १५० ॥ इति श्री
 शांतिजिनप्रबंधे रासबंधे सुरुनानुबंधे ऋदयनवनिबंधे देवराजवत्सराजसंघे
 धोपबृंहितदशमैकादशचवर्षेननामा पंचमः खंमः समाप्तममत् ॥ ५ ॥

॥ अथ षष्ठखंडस्य प्रारंभोऽयम् ॥

॥ दोहा ॥

॥ सुखकर साहिव सेवियें, त्रेवीशम जिन पास ॥ श्रीशंखेश्वर प्रगट
प्रभु, नामें लीलविलास ॥ १ ॥ वासवपूजित चरणकज, वंदूं दीनदयाल ॥
परगट परतो पूरवा, चिंतामणि सुरसाल ॥ २ ॥ ॐ ह्रीं अर्हं पासजी,
मूलमंत्रनो जाप ॥ आपद सवि दूरें टले, मटे मोह संताप ॥ ३ ॥ अश्व
सेनकुलदिनमणि, वामामात महार ॥ ते जिन प्रणमीने कहुं, ठछो
खंड सुखकार ॥ ४ ॥ जिनगुण केरी संकथा, करतां नासे पाप ॥ दुग्ध
सिता चित्त विणु पीये, तोहि नासे सवि ताप ॥ ५ ॥ शांतिनाथ शोलम
विभु, कहेतां तास चरित्र ॥ नवकोटिक पातक टले, थाये जन्म पवित्र
॥ ६ ॥ सर्वारथ सुख नोगवी, तेत्रिश सागर आय ॥ चवि तिहांथी जिहां
अवतरे, ते निसुणो चित्त लाय ॥ ७ ॥

॥ ढाल पहेली ॥

॥ चिंतामणि स्वामी, सच्चा साहिव मेरा ॥ ए देशी ॥ जंबुद्वीपमां दक्षि
ण नरतें, आदि जिणंद सुखकारी ॥ तेहनी संततिमां दुउं रे, कुरुनामें नृ
पति सुविचारी ॥ १ ॥ शांतीश्वर जिनकी, सुणो कीर्त्ति सारी ॥ ए आंक
णी ॥ तिण नामें कुरुदेश अनोपम, दुउं संपद गुणधारी ॥ तास तनय
हस्ती तेणें नामें, हस्तिनापुर अवतारी ॥ शांतीश्वर ० ॥ २ ॥ ते हविणा
उर सुरपुरसुंदर, शोना समुदयनारी ॥ चोराशी वाजार विराजित, दीपे
अति मनोहारी ॥ शां ० ॥ ३ ॥ एक नूमि दोयनूमि त्रिनूमिक, चउ पंच नूमि
प्रकारी ॥ सुर आवास जिस्यां जिहां मंदिर, निवसे सुखी नर नारी ॥
शां ० ॥ ४ ॥ सहु जिनधर्मी जिनेश्वर गुणने, गाये नित्य अगारी ॥ दान
दया धर्म जिहां अति दीपे, सहु कोइ शुन आचारी ॥ शां ० ॥ ५ ॥
इंद्रवाकुवंशी तिहां विश्वसेना, निध नरपति रतिकारी ॥ न्यायें राज्य प्र
जापति पाले, दूरें ईति निवारी ॥ शां ० ॥ ६ ॥ स्वामी अमात्य सुहृद
वल शोजित, कीर्त्ति कामणगारी ॥ चिहुं दिशिमांहे वथ्यो जस महिमा,
रेख नहिं कांइ कारी ॥ शां ० ॥ ७ ॥ तस वर रमणी रूप अलंकृत, रति
रंजा पण हारी ॥ अचिरा नामें सती सत्यवंती, दान अनयदातारी

॥ शां० ॥ ७ ॥ एकदा जाइपदें वडि पदें, सप्तमी तिथि अंधियारी ॥ जर
 एगीगत चडें मेघरथजीनो, जीव ते रयणी मजारी ॥ शां० ॥ ८ ॥ सरवा
 रथ सिद्धहंती चवियो, अचिरा उयरें सुविचारी ॥ गुनवेला आवी ऊपन्यो,
 पुत्रपणे अवतारी ॥ शां० ॥ ९ ॥ कांश्क सूती कांश्क जागती, सुपन लहे दश
 चारे ॥ पहेलां हो गजवर वृपज ए बीजे, चिंतित काज सुधारी ॥ शां० ॥
 १० ॥ त्रीजे सिंहप लक्ष्मी चोथे, सह्य सुखनी करनारी ॥ पंचमे माला हो
 ठके निशाकर, दीगो हो आरति टाली ॥ शां० ॥ ११ ॥ सातमे सूरज आ
 ठमे ध्वजवर, कीर्ति कांति वधारी ॥ नवमे कलश सरोवर दशमे, पेखे हो
 हर्षे अपारी ॥ शां० ॥ १२ ॥ सिंधु अग्यारमे वारमे अमरनुं, मंदिर दीतुं
 उदारी ॥ रत्नो राशि ए तेरमे चउदमे, निर्धूम अग्नि विचारी ॥ शां० ॥
 १३ ॥ हर्षेचरें जागी सा सुंदरी, सुपन देखि डुःखवारी ॥ आवी हो कंत
 समीपें जगाडे, पीयुने हो अचिरा प्यारी ॥ शां० ॥ १४ ॥ विश्वसेन जा
 ग्या तव देखे, आगें मोहनगारी ॥ आसन आयुं हो वेसण काजें,
 वेठां हो अचिरा नारी ॥ शां० ॥ १५ ॥ वालमजी मध्यरात्रिनी वेला,
 उहिरमाणी करारी ॥ दीठां हो चउदे सुपन मनोहर, फल कहां श्रुत
 अनुसारी ॥ शां० ॥ १६ ॥ राय सुणी हरख्यो मनमांहे, सुपन सबल
 सुखकारी ॥ मतिपूर्वक निज बुद्धि विनाणें, अर्थे कहे तिए वारी ॥ शां०
 ॥ १७ ॥ सुत होजे कुलदीपक रूढो, सह्य जगने उपकारी ॥ कहे राणी
 तुम वचन ए मुकने, सफल होजे हितकारी ॥ शां० ॥ १८ ॥ जेइ आ
 णा निजसेजे आवी, अचिरा हो मंथरचारी ॥ कहे मुऊ सुपन रखे ए ह
 णाये, अगुने हो एम निर्धारी ॥ शां० ॥ १९ ॥ देव गुरु संबंध कथायें,
 करे जागरण संजारी ॥ थयो प्रजात दुवो जय जय स्व, बंदीजन जयका
 री ॥ शां० ॥ २० ॥ ठके हो खंभें पहेली टालें, करे जिनगुणगुं वारी ॥
 राममुनि कहे ते धन जगमां, जाउं उनकी वज्रिहारी ॥ शां० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥

॥ दोहा ॥

॥ विश्वमेन राजा सत्ता, वेठा आवि उमंग ॥ सुपनशास्त्रना जाणने,
 नेइवे मन रंग ॥ १ ॥ आठ जणा तव आविया, निमित्त अंग अह जाण ॥
 देइ आशिप वेठा सवे, आसन अति मंमाण ॥ २ ॥ जूपें सन्मान्या यणुं,
 पुत्रें सुपनविचार ॥ कहे सुपनपाठक तदा, शास्त्र तणा अधिकार ॥ ३ ॥

सुपन कथां वायाल सवि, त्रीश मोटकां तेम ॥ राजन् सुणो अम्ह ग्रंथ
मां, अठे वहाँतेर एम ॥ ४ ॥

॥ ढाल बीजी ॥

॥ वीर जिनवर रे, गोयम गणहरने कहे ॥ ए देशी ॥ सुणि राजन रे,
त्रीशमांहे चउदश शिरें ॥ दीठां राणीयें रे, मध्यरयणीने आशरे ॥
होत्रे सुपनथी रे, सुत सोजागी सुंदरू ॥ जगपालक रे, नमत्रे आवि पुरंदरू ॥
॥ त्रूटक ॥ पुरंदरा सवि आवि नमत्रे, चक्री जिनवर होयत्रे ॥ तुज
जाग्य महोदुं सुण नरेश्वर, दुःख सघलुं खोयत्रे ॥ दुवे चउद सुपनें
चक्र जिनवर, सातथी हरिपद धणी ॥ चार बलजड एक मंमलिक, वात
ए शाखें जणी ॥ १ ॥ ते माटें रे, राजन अचिरा राणीयें ॥ शुज सुहणां रे,
दीठां मन सुख आणीयें ॥ सुणि राजन रे, दान दीये घणुं तेहने ॥
सन्मानी रे, पहाँचाज्या निज गहने ॥ त्रूण ॥ निज गेह पहोता सुपन
पाठक, राय राणीने कहे ॥ वात सघली सुपन केरी, निसुणी सा आनंद
लहे ॥ निजगेह आवे अई हर्पित, गर्जनी प्रतिपालना ॥ करे राणी शा
खवाणी, चित्त आणी वासना ॥ २ ॥ अति स्नेहल रे, अति मधुरं नवि
वावरे ॥ अति स्वरुं रे, अति तीखुं तेम परिहरे ॥ अति कडवुं रे, नवि
लेवे सा गुण जरी ॥ सुखहूंती रे, थोडुं बोले सा सुंदरी ॥ त्रूण ॥
सुंदरी अचिरा अति न बोले, अति न गाये तिम वली ॥ नवि सुवे
अगासें जरीय श्वासें, नवी दोडे मन रली ॥ खाट हिंमोला चढीने, घूमणी
न लिये तथा ॥ अति क्रोध न करे गर्जपालन, करे ग्रंथमांहे यथा ॥ ३ ॥
तिहां पूर्वे रे, अशिव घणो पुरमां हतो ॥ मांयदोपें रे, लोक घणो प्रलय
गतो ॥ अवतारें रे, जिण दिनथी प्रभु आवियो ॥ तिण दिनथी रे,
अशिव सहू ते नसावीयो ॥ त्रूण ॥ नसावीयो सवि अशिव एणें,
अहो महिमा सुत तणो ॥ मनमांहे माता पिता चिंते, जाग्य सवलो
आपणो ॥ गर्जमांहिज रह्या सुतनो, जुठ अतिशय एवढो ॥ पण किछुं
अचरिज गर्जदिनथी, प्रणत सुत इंइ वडो ॥ ४ ॥ एह प्रणमी रे, आप
एने पण प्रणमियां ॥ इंइ आवी रे, दुःख दोहग सवि वामीयां ॥ एह
जन्में रे, हर्ष घणो यात्रे सही ॥ एह हर्षनी रे, वात न जाये सुख
कही ॥ त्रूण ॥ सुख कही वात न जाय अंतर, हर्षे हेडुं गहगहे ॥

एम गर्ज वाधे सुकृत साधे, मात शुच दोहाला लहे ॥ वरदान दीजें लाज
 लीजें, धर्म कीजें मन धसी ॥ मन जेह इहा ऊपजे ते, राय पूरे उल्लसी
 ॥ ५ ॥ एम अनुक्रमें रे, मास थया नव निर्मला ॥ साढा दिन रे, सात
 थया उपरें जला ॥ जेठ मासनी रे, कृष्ण त्रयोदशीने दिनें ॥ जरणी उहु
 रे, आव्यो निशाकर शुच मनें ॥ त्रू० ॥ शुच मनें सघलां लोक सुखीयां, नहीं
 जगमां को दुःखी ॥ ग्रह थया गोचर कंच सवला, नीपनी सवली कृपी ॥
 शुच लगवेला जले सुहूरत, वाय अनुकूल वायते ॥ मध्यरात्रिसमयें वर्ष
 सोवन, कांतिपुंज विराजते ॥ ६ ॥ आरोगा रे, अचिरा माडीयें जाईयो ॥
 सुत नीरोग रे, त्रण जग हर्ष उपाइयो ॥ थयो उद्योत रे, नारकीने पण सुख
 थयुं ॥ सचराचर रे, सद्गु जंतुनुं दुःख गयुं ॥ त्रू० ॥ दुःख गयुं सवळुं हर्ष
 प्रगळ्यां, थवधिज्ञानें जाणीयो ॥ जिनजन्म केरो ठपन कुमरी, हर्ष हेडे
 आणियो ॥ आठ अथ गजदंत गिरिनी, कंदराथी आवि ए ॥ वली आठ न
 दन कूटहूंती, आवे धरि मन जाव ए ॥ ७ ॥ प्रत्येकें रे, रुचकगिरि निवा
 सिनी ॥ आवे आठ आठ रे, दिशहूंती ते सुवासिनी ॥ तेम चारे रे, रुचक
 विदिशिनी जाणीयें ॥ द्वीप मध्यम रे, रुचकनी चार वखाणियें ॥ त्रू० ॥
 वखाणीयें ठप्पन्न मलिने, दूइ सवली ते सुरी ॥ नवुं निर्मित एकयो
 जन, मित विमानें संचरी ॥ चार साथें महत्तरिका, चार सहस्र सामा
 निका ॥ पोड सहस्रा अंगरकुक, साथ लेई सेनिका ॥ ८ ॥ तिहां
 आवी रे, जिनजननीने पाये नमी ॥ करे वैक्रिय रे, वात संवर्तक मन
 रमी ॥ वरसावे रे, जलद वली आवे वली ॥ धरे दर्पण रे, आवे जणी क
 लट घणी ॥ त्रू० ॥ घणे कलट धरी कलशा, रहे जिननी सामुह्री ॥ कर
 आवे लेई तालहूंता, जोवे जिनमुखहुं रही ॥ आवे चामर धरे चतुरा,
 चार तेम द्वीवीधरा ॥ रक्षाविधानादिक करे वली. चार देवी जातुग
 ॥ ९ ॥ एम सद्गु मली रे, सूतीकर्म करे जिन तणो ॥ मनमांहे रे,
 महने आनंद अति घणां ॥ धन्य धन्य धन्य रे, आज तणी ए यामिनी ॥
 लदि सेवा रे, शोलम जिनवर स्वामीनी ॥ त्रू० ॥ स्वामीनी सेवा जाग्यें पार्मी,
 आज बहनेनड अति नली ॥ त्रिहुं जगत केरो नाथ जेट्यां, दशा सम
 कित निर्मली ॥ खंफ ठठे ठाज बीजी, कही रामविजय डवी ॥ एम ठप्पन्न
 कुमरी सुखी जिनने, गई निजस्थानक हसी ॥ १० ॥ सर्वगाथा ॥ ४२ ॥

॥ दोहा ॥

॥ इण अवसर सौधर्मपति, निज आसन चल जाणि ॥ ज्ञान अवधि
उपयोगथी, लक्षुं जन्म कव्याण ॥ १ ॥ मन विकस्युं तन उद्धस्युं, पायो प
रम करार ॥ तेडी हरिणगमेपीने, हुकम करे तेणि वार ॥ २ ॥

॥ ढाल त्रीजी ॥

॥ शुन नव अमृतवेलीकंदो ॥ ए देशी ॥ इंडू कहे हरिणगमेपीने,
सुख लहियें प्रभु देखीने रे ॥ जिन जायो नगीनो ॥ जगको दुःख दूरें कीनो
रे ॥ प्रभु जायो नगीनो ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ वाठ सुधोपा घंट ए
ताजी, रहे सोहम सुरलोक गाजी रे ॥ जिन० ॥ २ ॥ पांचशे सुर मली
घंटा वाइ, सघली घंटा रणऊण आई रे ॥ जि० ॥ ३ ॥ खवर दुई सौध
र्मके वासी, मलिया ए तुरत उद्धासी रे ॥ जि० ॥ ४ ॥ कहे हरि जि ॥
जन्मोत्सव काजें, जाशुं क्षेत्र नरतें शुनसाजें रे ॥ जि० ॥ ५ ॥ अचिर
राणीको नंदन नीको, जिन शोलम त्रिभुवनटीको रे ॥ जि० ॥ ६ ॥
करि जन्मोत्सव बहु सुख पाशुं, अमो लान अनंत उपाशुं रे ॥ जि०
॥ ७ ॥ पालक योजन लाख विमान, तेणें वेसे इंडू सुज्ञान रे ॥ जि०
॥ ८ ॥ साथें सहस चोराशी सामान्य, अंगरकक चउ गुण मान रे ॥
जि० ॥ ९ ॥ अग्रमहिपी आठे गुणवंती, पियु साथें चली पुण्यवंती रे
॥ जि० ॥ १० ॥ बत्रीश लाख विमानके स्वामी, सहु आइ मिले शिर
नामी रे ॥ जि० ॥ ११ ॥ कोइ आगें कोइ पूठसैं आवे, मारग विच जिन
गुण गावे रे ॥ जि० ॥ १२ ॥ पडखे नहिं कोइ सेवक स्वामी, जिनजक्ति
मांहे नहिं स्वामी रे ॥ जि० ॥ १३ ॥ हर्षे नयो प्रभुको मुख जोवा,
निज पातक मेलने धोवा रे ॥ जि० ॥ १४ ॥ आइ उजाय नंदीश्वरद्वीपें,
उहां आवि विमान संक्षेपें रे ॥ जि० ॥ १५ ॥ आवे नरत गजपुर उ
जाणा, प्रभु देखण हर्षे नराणा रे ॥ जि० ॥ १६ ॥ आवी नमे जिन
जिनजननीकों, कहे तें सुत जायो नीको रे ॥ जि० ॥ १७ ॥ हर्षे कियो
त्रिहु लोकके माई, हम वांटी स्वर्गें वधाई रे ॥ जि० ॥ १८ ॥ माई
तेरे सुतकुं जेइ जाशुं, सुरगिरि शिखरें नवराशुं रे ॥ जि० ॥ १९ ॥ करशुं
समकित निर्मल साशुं, प्रभु देखि देखि अमें राशुं रे ॥ जि० ॥ २० ॥ जिन
प्रतिरूप मेहले मायपासैं, अवस्थापिनी दे उद्धासैं रे ॥ जि० ॥ २१ ॥

करि पंच रूप सुरेश्वर चाले, प्रभु कुं एकरूपें जाले रे ॥ जि० ॥ २२ ॥
 दोय रूपें हरि चामर ढाले, एक ठत्र धरे उजमालें रे ॥ जि० ॥ २३ ॥
 वज्र लेई प्रभु आगल दोडे, एक रूपें हरि मन कोडें रे ॥ जि० ॥ २४ ॥
 मेरुशिखर लेई आव्या रंगें, मलिया चोसठ मन रंगें रे ॥ जि० ॥ २५ ॥
 वीश भुवनपति स्वामी कहीजें, वत्रीश व्यंतर विभु लीजें रे ॥ जि० ॥ २६ ॥
 दोय रवि शशी ज्योतिपके इंदा, दश वैमानिक आनंदा रे ॥ जि० ॥ २७ ॥
 सौधमेंड लिये उत्संगें, प्रभु स्नात्र करणकुं उमंगें रे ॥ जि० ॥ २८ ॥
 सोवनरूप मणि माटीना, कलशा बलि कीधा नवीना रे ॥ जि० ॥ २९ ॥
 एक सहस्र ऊपर तेम आठ, एक जातिना अड जाति ठाठ रे ॥ जि० ॥
 ३० ॥ दोय एक कोडी अने साठ लाख, कलशा ए शास्त्रनी साख रे ॥
 प्रजि० ॥ ३१ ॥ पणवीश योजन कलशा उंचा, वार योजन पहोला
 शठ्या रे ॥ जि० ॥ ३२ ॥ नाजूवां एक योजननां रे जाव्यां, कलशानीरें
 जरी लाव्या रे ॥ जि० ॥ ३३ ॥ अच्युत आदि नवे सुरस्वामी, प्रभु न्हवण
 करे शिर नामी रे ॥ जि० ॥ ३४ ॥ स्थापी ईशान इंडनी गोदें, करे शक्र
 नमण मन मोदें रे ॥ जि० ॥ ३५ ॥ बखें हो जुंठी प्रभुनुं अंग, सुचि
 चंदनें लेपे सुचंग रे ॥ जि० ॥ ३६ ॥ नव नव चक्ति करे तिहां देवा, प्रभु
 गुण गाइ करे सेवा रे ॥ जि० ॥ ३७ ॥ आरति मंगल दीप उतारे, प्रभु
 तो विण कुण ह्म तारे रे ॥ जि० ॥ ३८ ॥ ठफे हो व्रीजी ढाल ए बोली,
 कहे ठे राम दिल खोली रे ॥ जि० ॥ ३९ ॥ जिनगुण नणतां पावन जीहा,
 सफला दोय रात ने दीहा रे ॥ जि० ॥ ४० ॥ सर्वगाथा ॥७४॥ श्लोक ॥
 ॥ दोहा ॥

॥ इंड करे जिनवर तणी, स्तुति जोडी दोइ हाथ ॥ नवसमुझ्मां
 वृढतां. मय्यो ऊहाज तुं नाथ ॥१॥ जय अचिरा राणी ऊयरें, सरोवर हंस
 समान ॥ नथ्यकुमुदवनचंडमा, अनुलीवल नगवान ॥ २ ॥ जय अ
 नादि अंजन रहित, निराकार निरुपाधि ॥ ज्योतिरूप जगदीश तुं, प्रगटी
 महज समाधि ॥ ३ ॥ करवा पावन पतितने, तें लीधो अयतार ॥ इ
 स्तर नवसायग्यका, तार नार प्रभु तार ॥ ४ ॥ धन्य दुबं कृतपुण्य
 दुं, दीतुं दरिसण आज ॥ ए मरुस्यज नंतरमां, तुं सुरतरु जिनगल
 ॥ ५ ॥ इत्यादिक वचनें करी, नमी स्तवी सुरराय ॥ मेरुशिखरची आ

णीने, प्रभु सोंपे निजमाय ॥ ६ ॥ निडा पाठी संहरी, जाग्या अचिरा
 माय ॥ सुत सुरपूजित देखिने, हेंडे हर्षे न माय ॥ ७ ॥ इंडू कहे उंचे
 खरें, सहु सांजलतां वाणि ॥ जिन जिनजननी ऊपरें, जे चिंतवशे डुवाए
 ॥ ८ ॥ तस मस्तक तेम फूटशे, जेम ऊनाले जाण ॥ एरंमफल फूटे सही,
 इम कहे इंडू सुजाण ॥ ९ ॥ वृष्टि करी तिहां स्थणनी, अंगण कोडि व
 त्रीश ॥ सौधर्माधिप चालियो, प्रभुने नामी शीश ॥ १० ॥ नंदीश्वर
 द्वीपें जई, यात्र करे सहु इंद ॥ निज निज स्थानक सहु गया, धरता
 मन आनंद ॥ ११ ॥

॥ ढाल चौथी ॥

॥ हमचडीनी देशी ॥ सुत सोजागी सुरवरपूजित, निज नयणें नि
 हाळी ॥ अचिरानी दासी उजाणी, वात कहण उजमाली रे ॥ १ ॥
 हमचडी ॥ ए आंकणी ॥ जय जय स्वामी कहुं शिर नामी, सुण सुण
 अंतरजामी ॥ अचिरा राणी अंगज प्रसव्यो, इष्ट सुणो यशकामी रे ॥
 हमण ॥ २ ॥ ठप्पन्न दिशिकुमरी प्रभु आवी, जिनजन्मोत्सव करवा ॥ सूती
 कर्म कखुं जिनजीनुं, सुकृतचंमारने नरवा रे ॥ हण ॥ ३ ॥ इंडें पण
 अजिपेक करीने, मेरु शिखरें फल लीधुं ॥ एहवो सुत अचिरायें जन्म्यो,
 पुण्यें वांछित सीधुं रे ॥ हण ॥ ४ ॥ सुत सहेजें संसारें वहाला, न
 दाना महोटा कुलना ॥ पण चोसठ सुरपतिपूजित सुत, पार नहीं
 पुण्यवलना रे ॥ हण ॥ ५ ॥ वात सुणी विश्वसेन नरेश्वर, हरख्यो अति
 मनमांहे ॥ धाराहत जेम नीपकुसुम तेम, रोमांचित थयो काय रे ॥
 हण ॥ ६ ॥ अंगतणुं आनूपण सघलुं, मुकुट विना तस आप्युं ॥ संतति
 सात लगे नवि खूटे, धन देइ दारिद्र काप्युं रे ॥ हण ॥ ७ ॥ ठत्र तले
 तेहने नवरावी, दासीविरुद उताखुं ॥ त्रिचुवनपति सुत हर्षे वधाई,
 दायक मान वधाखुं रे ॥ हण ॥ ८ ॥ राय कहे पुरमांहे महोत्सव, सुत
 जन्म्यानी केडें ॥ कारागार सकल शोधावी, दीन दुःखी दुःख फेडे रे ॥
 हण ॥ ९ ॥ मान अने उन्मान वधाख्यां, अकर अजट परवेश ॥ गजपुर न
 गर दुजं सवि सुखीयुं, नहिं कोइ वेर किलेश रे ॥ हण ॥ १० ॥ माणिक
 माट वधाई आवे. लाख सहसने लेखे ॥ तेम वजि तेहने आपे नरपति,
 चिंतित दान अलेखे रे ॥ हण ॥ ११ ॥ त्रीजे दिवस कराव्युं दरिस्ण,

रवि अशीनुं स्वामीने ॥ ठही जागरणें सहु जाग्या, गायो शिवगामीने
 रे ॥ ह० ॥ ११ ॥ काढी अशुचि कर्ममंदिरथी, नीपाई पक्कान्न ॥ सक्क
 न कुटुंब सहुने पोपे, रंगेंगुं राजान रे ॥ ह० ॥ १२ ॥ शांति एणें वरता
 वी जगमां, " शांति कुमर " घणुं जीवो ॥ नाम ठवे महु कोइनी साखें,
 कुंवर ए जगदीवो रे ॥ ह० ॥ १४ ॥ अमृत अंगूठे हरि ठवियो, तेहथी
 होय आहार ॥ स्तनपान न करे मातानुं, शुचितानो नहिं पार रे ॥ ह०
 ॥ १५ ॥ यडुकं ॥ दृष्टोऽशनमंबयार्पितं, नहि नीहारविधिश्च जन्मतः ॥ शु
 चिता चुवनेप्यनुत्तरा, यदहो स्तन्यमपीश नापिवः ॥१॥ पूर्वढाल ॥ अनुपम
 रूप मनोहर वाधे, प्रभु मनमोहन नीको ॥ सहस्र अठोत्तर लक्षणा शो
 नित, तीन चुवनको टीको रे ॥ ह० ॥ १६ ॥ स्नेहल मुख मुकुरोपम
 दीपे, पद कूर्मोन्नत धारो ॥ एणीजंय सरीखी जंया, उरु करिकर आका
 रो रे ॥ ह० ॥ १७ ॥ विस्तीरण प्रभुजीनुं कटितट, दीठे मनहुं मोहे ॥
 दक्षिण आवर्त्ते गंजीरा, नाजि अंग अति सोहे रे ॥ ह० ॥ १८ ॥ वज्र
 सरीखुं मध्य विराजे, पुरकपाट परें पहोखुं ॥ वक्कःस्थल पुरअर्गल कप
 म, प्रभुनुं वाहुजुअलं रे ॥ ह० ॥ १९ ॥ श्रीवा कंबुसरीखी सुंदर, अधर
 होव गुलाला ॥ कुंदतणा कुम्भल परें उज्ज्वल, दीसे दंतनी माला रे ॥
 ह० ॥ २० ॥ उचुंग सरला नासावंशो, सक्कनवृत्त ज्युं जालो ॥ पद्मपत्र
 सरिखां दोय जोचन, अष्टमिशशिसम जालो रे ॥ ह० ॥ २१ ॥ दोला
 कार श्रवणयुग प्रभुना, मस्तक तत्राकारं ॥ स्निग्धा अलिकुल श्यामल
 कुंतल, राजे रूप उदारं रे ॥ ह० ॥ २२ ॥ पद्मगंध सरिखो प्रभुखासो,
 कनकवर्णी जस काया ॥ अप्सर इंझाणी हुलरावे, सवली प्रभुं माया रे
 ॥ ह० ॥ २३ ॥ त्रिक ज्ञानें संयुत त्रिहु जगना, नाथने नवणें निरखे ॥
 आनंद धरी इंझाणी पोतें, रत्न ज्युं फरि फरि परखे रे ॥ ह० ॥ २४ ॥
 एक सहियर लेइ प्रभु खंयोले, वीजीने एम बोले ॥ कनकजला तुं जो रे
 प्रभुनुं, वदन पूनमविधु तोले रे ॥ ह० ॥ २५ ॥ कोइ कहे सुणो सदी
 यर भोगी, प्रभु उपर घणुं मोदी ॥ वरखंयो मुजने विस्तीयां, रति प्रभु
 मुखहुं जोई रे ॥ ह० ॥ २६ ॥ सद्रिय समाणी वाली जोली, वात करे
 वाचाली ॥ प्रभु विण निग्खे जे निन्ध जमगो, ते नहिं आपणी आली रे
 ॥ ह० ॥ २७ ॥ एक कम्थी वीजे कर लेवं, नुंइ उपर पग न धरे ॥ चरना

सवि बंधा विसारी, नित्य प्रभुगुणने समरे रे ॥ ह० ॥ १७ ॥ ठठे खंमं
ढाल ए चोथी, प्रभु जायो जगस्वामी ॥ रामविजय कहे ए प्रभुजीने, हुं
प्रणमुं शिर नामी रे ॥ ह० ॥ १८ ॥ सर्वगाथा ॥ ११४ ॥ श्लोक ॥ १ ॥

॥ दोहा ॥

॥ गिरिकंदरचंपक परें, बीज तणो जिम चंद ॥ प्रभु वाधे मन मोह
तो, सद्गुजन नयनानंद ॥ १ ॥ हर्षे हुजरावे रंगशुं, अचिरा प्रेम पमूर ॥
रोम रोम तन उल्लस्युं, निरखी सुत मुखनूर ॥ २ ॥

॥ ढाल पांचमी ॥

॥ माय कहे मेरी ठगनां मगनां ॥ ए देशी ॥ कहे सुतने हो एम अ
चिरा माता, तुज आवे मुज थइ सुखशाता ॥ मुख दीठे गयां पातक धूजी,
तुज पूजे हुं पण सुरें पूजी ॥ १ ॥ तुं मुज प्राणतणो आधार, तुज उपर
वारी वार हजार ॥ सुण मुज लाडकडा सुत मीठा, पूरव पुण्यें तुज मुख दीठां
॥ २ ॥ लाम लमावे हो अपणी रे माडी, नवपल्लव हुइ सुतगुण वाडी ॥
हाथे जडाव सोवननी हो कमली, अंगें वनी ऊरवाफ अंगडली ॥ ३ ॥ पहे
राव्यां कानें शुचि मोती, तृप्ति न पामे हो मुखहुं जोती ॥ मणिमाणक मोती
की हो टोपी, हर्षेहुं लेइ सुतशिर आरोपी ॥ ४ ॥ कंठे हो तावित सोवन केरां,
पहेरावे अचिराजी नलेरां ॥ कामणगारो ने वलि शणगाखो, ठमक ठमक
चाले लागे हो प्यारो ॥ ५ ॥ मुख मधुरी बोले सुत वाणी, चिरंजीवो
कहे अचिराजी राणी ॥ सुर बालकरूपें थइ आवे, रागें हो शांति कुमर
कुं खेलावे ॥ ६ ॥ एणीपरें वाधे हो प्रभु सोजागी, सद्गु कोइने जोया
रढ लागी ॥ आवे सनामांहे वापके आगें, सद्गुकोइ ऊठी के पाउ
लागे ॥ ७ ॥ आवो पधारो हमारे हो स्वामी, हो त्रिहुजगके अंतर्यामी ॥
तुम हो जगदत्सल उपकारी, तुम सूरत लागत हम प्यारी ॥ ८ ॥ आठ
वरस प्रभुकुं जये जाणी, तव बोले मावित्र शुं वाणी ॥ सुत निशाल
ठवीजें हो सारो, शास्त्र जणावण मोहनगारो ॥ ९ ॥ नरपति उत्सव
मांमे हो जारी, भवल मंगल गाथे सोहव नारी ॥ तनु नूपण नूपित ठवी
सारी, प्रभु कीनी गजकी असवारी ॥ १० ॥ बहु आमंवर सायें हो आवे,
पातक मनमांहे आनंद पावे ॥ इण अवसरें चल्यां आसन इंदा, खबर
हुई देख्यो ज्ञानदिपांदा ॥ ११ ॥ प्रभुकुंनी निशाल पठावे, मोह महाबलवा

न कहावे ॥ देखो जगगुरु ज्ञानके दरीया, मुहसें न बोजे गंजीरिम जरि
या ॥ १२ ॥ बहुत आमंवर होंवे दो जिनको, मत जाणो परमारथ उन
को ॥ नहिं सोवन ध्वनि तेहवी वजावे, जेहवी हो कांस्यके पात्रमें यावे
॥ १३ ॥ काल त्रिहूको ज्ञाता हो स्वामी, नहिं जिनकी प्रभुतामांहे स्वामी ॥
अविनय एह हुवे जिनवरको, आव्यो वेश लइ द्विजवरको ॥ १४ ॥ प्रभुकुं
वेठावे सिंहासन सोई, देखी सवे मन अचरिज होइ ॥ पाठक आगल रह्यो
कर जोडी, प्रश्न करे मद मत्सर मोडी ॥ १५ ॥ मन संदेह टख्यो तव
साचो, पाठक जाण्युं ए पंमित आठो ॥ पाठ पडे मन मान निवारी, तुम
हो वडे जगगुरु उपकारी ॥ १६ ॥ इइ नमी निजस्थानक जावे, प्रभुजी
फरि निजमंदिर आवे ॥ देखो जाण गंजीर ए कैसे, दीनदयाल होंवे
जग ऐसे ॥ १७ ॥ अनुक्रमें यौवन पाम्या हो सांइ, रूपकला अधिकी
चतुराई ॥ बरस पंचवीश सहस वय आये, तव प्रभुकुं लेइ गज्य वेठाये
॥ १८ ॥ परणावे प्रभुकुं बहुतेरी, नृपकन्या गुणरूप नजेरी ॥ सकल अं
तेउरमां रतिकारी, नामें यशोमती राणी सारी ॥ १९ ॥ प्रभु विलमे
तिण साथें जोगा, सहु मलिया मनोवांठित योगा ॥ चाजे पधिनी पतिने
हो ठंवे, घर घर वग्ते हो अति आनंदे ॥ २० ॥ ठठे खंमें दो पंचमी ढाल,
गम कवि कहे अति उजमाल ॥ आगल सांजलजो हवे लोका, बाधजो ल
गमांहे पुण्यशलोका ॥ २१ ॥ सर्वगाथा ॥ १४७ ॥ श्लोक तथा गाथा ॥ २॥

॥ दोहा सांगती ॥

॥ हवे दृढस्थनो जीव, सरवाग्ध सिद्धथी चवी ॥ पूरण आयु अ
तीव, आवीने तिदां ऊपजे ॥ १ ॥ यशोमतीनी कृप, मुनवेलायें अ
तयो ॥ पूर्ण समय गनहुःख, चक्र सुपन सूचित जएयो ॥ २ ॥ कस्यो
मदोन्नय सार, नयरमांहे बहु हर्षिणुं ॥ "चक्रायुध" गणधार, नाम ठठ्युं
नरपति मन्त्री ॥ ३ ॥ सुत वाधे श्रीकार, रूप कला गुण शोचतो ॥ जें
गम सुरतरु सार, नरनारी मन मोदतो ॥ ४ ॥ शीखण कला विचार,
नीशान्ते ने पाव्यो ॥ चत्रीज लक्षण धार, मकजशास्य मदेजें जएयो ॥
॥ ५ ॥ यौवनवयें कुमार, नृपकन्या परणानीयो ॥ रूपें गुणें जिनसार,
सुख विलमे संसारनां ॥ ६ ॥

॥ ठाल ठठी ॥

॥ पांच सोपारी लेइ हाथ ॥ ए देशी ॥ हवे एक दिवसने योग, आयुधशालामां ऊपन्युं ॥ चक्र रतन उत्पन्न, आर सहस्रें हो शोचतुं ॥ १ ॥ उपन्यो हर्ष अपार, सेवक दीध वधामणी ॥ आयुधशालामां चक्र, उपन्युं जयजय जगधणी ॥ २ ॥ प्रभु निसुणी दिये दान, आठ दिवस उत्सव करे, चक्र तणो गुणखाणि, जयकमला कारण शिरें ॥ ३ ॥ चक्र असि ठत्र दंभ, आयुधशालामां ऊपजे ॥ मणि कांगिणी ने हो चर्म, निधि सिरि गेहें नीपजे ॥ ४ ॥ पुरोहित वार्द्धिकी जाण, सेनापति गाथापति ॥ निज नगरें ए चार, रयण तणी कही उत्पत्ति ॥ ५ ॥ राजकुलें स्त्रीरत्न, गिरि वैताढ्यें हो गज तुरी ॥ रयण ए जस दश चार, केम टके तेहना अरि ॥ ६ ॥ आयुधघरथी हो चक्र, चाव्युं वही पय अंबरें ॥ केडें हो शांति दयाल, रयण कटक लेइ संचरे ॥ ७ ॥ यरू सहस्र समेत, चाव्युं प्रथम पूरव दिशें ॥ मागधतीर्थ आसन्न, वेलाकुलें सेना वसे ॥ ८ ॥ वार्द्धिकी करे तत्काल, पुर द्वादश योजन तणुं ॥ सैन्यने रहेवा हो काज, अतिसुंदर शोचा घणुं ॥ ९ ॥ शुच आसन चक्रधार, वेसे हो मागध सन्मुखें ॥ त्रिहु जगनो रे आधार, जस नामें सहु जग सुखी ॥ १० ॥ ते प्रभुने अनुचाव, जलमांहे द्वादश योजनें ॥ मागध सुरनुं हो ताम, आसन चलियुं चिंते मनें ॥ ११ ॥ जाण्युं अवधि उपयोग, जिनचक्रां इहां आविया ॥ साधन चरतना खंभ, जे सुरपति मन जाविया ॥ १२ ॥ जाग्य सबल मुऊ आज, जे जिनराज पधारिया ॥ आराधनने हो काज, जावं अशुच निवारीया ॥ १३ ॥ लेइ आचरण अमूय्य, वस्त्र वली सुरनां जलां ॥ आवे हो बहु परिवार, प्रभु चक्ति जखां ह्येडलां ॥ १४ ॥ कर जोडी कहे देव, नाथ सुणो त्रिचुवन तणा ॥ हुं तुम किंकर स्वामी, ठे मुऊमां अचगुण घणा ॥ १५ ॥ करगुं तु मारी हो सेव, दास थइ रहेगुं इहां ॥ तुम आणा परमाण, रहेगुं हो राखेशो जिहां ॥ १६ ॥ प्रभु सन्मानी हो तास, चक्रवत्सल जगवंत जी ॥ मोक लियो निज ताम, पहोतो प्रभु समरंत जी ॥ १७ ॥ नेम दक्षिण दिशि चक्र, चाव्युं हो वाटें आकाशनी ॥ आव्या दक्षिण दधि तीर, तीरथ वर दाम आसनी ॥ १८ ॥ तेम आव्यो सुर तेह, कर जोडी आगल रह्यो ॥ तुं साहिव गुणगेह, तुम दरिण जाग्यें लह्यो ॥ १९ ॥ तेहने स्थापी

तेणें ठाम, वारुणीदिशें प्रभु चालिया ॥ साधण देव प्रनास, दलनारें नग
 हालिया ॥ १० ॥ तेह नम्यो ततकाल, आवी जगतगुरु पाउले ॥ उत्तर
 पंथ निहालि, चाल्युं हो चक्र उमाहले ॥ ११ ॥ आब्या नदीतट सिंधु,
 नवसिंधु तारक विभु जी, सिंधुदेवी ततकाल, आवी कहे जय जय प्र
 भुजी ॥ १२ ॥ स्नानतुं पीठ सुचंग, कलश कनकमयरूपने ॥ स्नानसा
 मयी हो जेह, जेट करे जगनूपने ॥ १३ ॥ कहे स्वामी कर जोडि, उलग
 करी हो ताहरी ॥ करुणानजरें महाराज, नाग्यदशा जागी माहरी ॥
 १४ ॥ मुळ लायक खिजमत, प्रभु फरमावियें हित धरी ॥ जही आणा
 निजधाम, सिंधु गई हर्षे नरी ॥ १५ ॥ तेडी सेनानी ताम, हुकम
 करे चक्री इश्यो ॥ सिंधुनो पश्चिम खंम, साधि आवा सुणि उल्लस्यो ॥
 १६ ॥ चर्मरत्न धरि मेन, सिंधु तरी परतट गयो ॥ खलनव्या तिहांना
 रे नृप, तस सहामो कोइ नवि थयो ॥ १७ ॥ आवि नम्या सह
 पाय, साध लेइने हो आविया ॥ जेट हुई जिनराय, चरण नमे नृप ना
 विया ॥ १८ ॥ सबलुं पुण्यतुं जोर, सहस्रगमे नृप सेवता ॥ आवि नमे
 कर जोडि,कोडि गमे जस देवता ॥ १९ ॥ ठठे खंम हो ढाल,ठठी कही रलि
 यामणी ॥ सुणो नवि थइ उजमाल,शांति प्रभु कीर्ति घणी ॥ ३० ॥ १७३ ॥ १ ॥

॥ दोहा ॥

॥ चक्र चलयुं नक्षत्रमंजुळें, पूर्तें शांति नरिंद ॥ अनुक्रमें जातां पाभि
 यो, शुचि वेताढय गिरिंद ॥ १ ॥ आवी नम्यो प्रभुपुण्यथी, वेताढयाडि
 कुमार ॥ वशवर्ती थइ एम कहे, जय करुणानंदार ॥ २ ॥ गुफा तमि
 खानुं तदा, स्वयमुद्घाटी धार ॥ वेताढयपाल सुर चरण नमी, कहे जय
 जगदाधार ॥ ३ ॥

॥ ढाल सातमी ॥

॥ मन मोहना जाल ॥ ए देवी ॥ अन्नचारी गजराजकी ॥ मनमोहना
 जाल ॥ कीनी शांति दयाल दो ॥ जन रंजनां जाल ॥ तत्र फरे शिर कपरें
 ॥ म० ॥ तीन नुवन रखनाज दो ॥ ज० ॥ १ ॥ मणि रखण गजराज
 के ॥ म० ॥ कुंजमयल धनुं तार दो ॥ ज० ॥ शर जोयण लगे ते स
 री रे ॥ म० ॥ इर करे अंधकार दो ॥ ज० ॥ २ ॥ कांगिणी लेई दाय
 मां रे ॥ म० ॥ करे मंजुळ तमझार दो ॥ ज० ॥ उंगणपचात आलि

खे रे ॥ म० ॥ सेन काजें चक्रधार हो ॥ ज० ॥ ३ ॥ वचें उन्मत्ता नि
 अगा रे ॥ म० ॥ निर्मत्ता तेम जाण हो ॥ ज० ॥ वार्दिकी पाज करे तिहां
 रे ॥ म० ॥ पामी प्रचुनी आण हो ॥ ज० ॥ ४ ॥ सैन्य सहु तिहां उतरे
 रे ॥ म० ॥ जुठ जुठ पुण्य प्राग्गार हो ॥ ज० ॥ तमिस्रगुहाथी नीसस्था
 रे ॥ म० ॥ वाहिर जगदाधार हो ॥ ज० ॥ ५ ॥ तत्रापातचिलातका रे
 ॥ म० ॥ म्लेह तणा मलि नूप हो ॥ ज० ॥ चिंते ए कुण आवियो रे
 ॥ म० ॥ वैरी सैन्य विरूप हो ॥ ज० ॥ ६ ॥ युद्ध तेहो साथें वाजियुं रे ॥
 जीडे सुनटनी कोड ॥ ज० ॥ देखी म्लेहने आकरा रे ॥ म० ॥ सैन्य रहुं
 मचकोड हो ॥ ज० ॥ ७ ॥ सेनानी सुणी आवियो रे ॥ म० ॥ थइ तुरग
 अस्वार हो ॥ ज० ॥ दंमरत्न ग्रही हाथमां रे ॥ म० ॥ धायो यम आ
 कार हो ॥ ज० ॥ ८ ॥ नट कोटी तव ऊठले रे ॥ म० ॥ स्वामिवलें
 वलवान् हो ॥ ज० ॥ जागि पडी म्लेहां तणी रे ॥ म० ॥ नाठा ते गत
 शान हो ॥ ज० ॥ ९ ॥ केइ पड्या केइ आखज्या रे ॥ म० ॥ केइ हुवा संहार
 हो ॥ ज० ॥ सहामुं कोइ जाले नहिं रे ॥ म० ॥ हुइ म्लेहांनी हार हो
 ॥ ज० ॥ १० ॥ नासी सिंधुतटें गया रे ॥ म० ॥ तजि आहार स्वयमेव
 हो ॥ ज० ॥ वारिद नामें कामने रे ॥ म० ॥ तेह आराधे देव हो ॥ ज०
 ॥ ११ ॥ तुष्ट थइ कहे म्लेहने रे ॥ म० ॥ अमें कुणमात्र अनाथ हो
 ॥ ज० ॥ इणशुं अम जाले नहिं रे ॥ म० ॥ ए त्रिहु जगको नाथ हो
 ॥ ज० ॥ १२ ॥ म्लेह कीयो आय्रह घणो रे ॥ म० ॥ वरसावे जलधार
 हो ॥ ज० ॥ किमही तेह न उंसरे रे ॥ म० ॥ वरसे मूशलधार हो ॥
 ज० ॥ १३ ॥ जिनचक्रीसेना वहे रे ॥ म० ॥ वाध्युं पाणीपूर हो ॥
 ज० ॥ कहे प्रधान सुण साहिवा रे ॥ म० ॥ राख राख वडनूर हो ॥ ज०
 ॥ १४ ॥ चर्मरत्न प्रचुजी धरुं रे ॥ म० ॥ वार जोयण विस्तार हो ॥ ज० ॥
 जल वूमती उद्धरी रे ॥ म० ॥ सेना जगदाधार हो ॥ ज० ॥ १५ ॥
 दंमरत्न उपरें ठवुं रे ॥ म० ॥ ठत्ररत्न सुखकार हो ॥ ज० ॥
 कोश अडताजीश उपरें रे ॥ म० ॥ ठत्र तणो विस्तार हो ॥ ज० ॥
 ॥ १६ ॥ करे प्रकाश मणि रयणशुं रे ॥ म० ॥ जाणे ऊग्यो सूर हो
 ज० ॥ कण नीपावे कर्पणी रे ॥ म० ॥ दुःख दारिद्र करे दूर हो ॥ ज० ॥
 १७ ॥ एम निजसेना उद्धरी रे ॥ म० ॥ जल नवि खेंचे धार हो ॥ ज० ॥

सात दिवस श्या वरसतां रे ॥ म० ॥ करे चक्रीश विचार हो ॥ ज० ॥
 ॥ १७ ॥ शोल सहस बहू स्वामीके रे ॥ म० ॥ अंग उलग करनार हो ॥
 ज० ॥ ग्रही ह्यीयारने धाड़्या रे ॥ म० ॥ जिहां ठे जलद कुमार हो ॥
 ज० ॥ १९ ॥ रे पापी तमें शुं करो रे ॥ म० ॥ विण खूटे मरणाश हो
 ॥ ज० ॥ विरमो नहिंतर पामशो रे ॥ म० ॥ तुमें अम्हहंती विनाश
 हो ॥ ज० ॥ २० ॥ जय पामीने उंसखा रे ॥ म० ॥ जइ नमीया
 प्रभुपाय हो ॥ ज० ॥ अमें अपराधी आकरा रे ॥ म० ॥ तुम्ह गिरु
 आ जिनराय हो ॥ ज० ॥ २१ ॥ तृण लेई मुखमां सवे रे ॥ म० ॥
 म्लेष्ठ करे अरदास हो ॥ ज० ॥ गुनह खमो ए अम तणो रे ॥ म० ॥
 तुम साहिव हम दास हो ॥ ज० ॥ २२ ॥ नतवत्सल जगवंत जी ॥
 म० ॥ गुनह करे बकसीस हो ॥ ज० ॥ ह्य गजवर मणि जेटणां रे ॥
 म० ॥ मूकी नामें शीज हो ॥ ज० ॥ २३ ॥ सेनानीने सूकियो रे ॥
 म० ॥ वीजो निष्कूट सिंधु हो ॥ ज० ॥ साधीने आचो वही रे ॥ म० ॥
 हुकम करे जगबंधु हो ॥ ज० ॥ २४ ॥ जइ सेनानी साधिया रे ॥
 म० ॥ तिहांना देश अनेक हो ॥ ज० ॥ ते सयला आवी नम्या रे ॥
 ज० ॥ मनमां धरिय विवेक हो ॥ ज० ॥ २५ ॥ जइ रूपनकूट शांति
 जी रे ॥ म० ॥ लखे पोतानुं नाम हो ॥ ज० ॥ शांतिप्रभुकी साहिबी रे
 ॥ म० ॥ सीध्यां वांठित काम हो ॥ ज० ॥ २६ ॥ गंगोत्तर निष्कूट तिहां
 रे ॥ म० ॥ नाधे सेनानी जाय हो ॥ ज० ॥ खंफप्रपात गुहा आविया
 रे ॥ म० ॥ रुतमाल सुर अधिष्ठाय हो ॥ ज० ॥ २७ ॥ साधीने प्रभु नि
 सखा रे ॥ म० ॥ गंगातट अहिताण हो ॥ ज० ॥ गंगा आवीने कहे रे
 ॥ म० ॥ जय जय श्री जिनजाण हो ॥ ज० ॥ २८ ॥ ठे खंफें सातमी
 रे ॥ म० ॥ टाल नणी सुखकार हो ॥ ज० ॥ रामविजय कहे पुण्यधी रे
 ॥ म० ॥ लहियें जय जयकार हो ॥ ज० ॥ २९ ॥ सर्व गाथा ॥ २१ ॥ ५ ॥ श्लोक

॥ दोद्रो सोरठी ॥

॥ गंगानटें निनाल, स्वामी करे सेनातणो ॥ ह्ये जुठ पुण्यविनाल,
 जे प्रकटे प्रभुजी तणो ॥ १ ॥

॥ टाल आठमी ॥

॥ नरतापिप राय, साधे देस नहु ॥ ए देगी ॥ दादज यांजनने आयाम,

विस्तर नव योजन हितकाम ॥ शांतीश्वर राय, साध्या देश सहु ॥ ए
 आंकणी ॥ आठ योजन उंचा निरधार, नवनिधि मंजूपा आकार ॥
 शां० ॥ १ ॥ वैमूर्य मणिमय जटित कपाट, प्रगट्या निधि तेहनो सुणो
 घाट ॥ शां० ॥ नैसर्पक पहेलो चित्त धार, पांडुक बीजो निधि सुखकार
 ॥ शां० ॥ २ ॥ पिंगल त्रीजुं सर्वरतन, चोथुं महापद्म पंचम मन्त्र ॥
 शां० ॥ काल महाकाल मानव शंख, चार एवं नवनिहि गुख संख ॥
 शां० ॥ ३ ॥ स्कंधावार ने नगरनिवेश, पहेला निधिमां सयल निवेश
 ॥ शां० ॥ धान्य बीजनी सवि संपत्ति, बीजे हुवे एहनी उत्पत्ति
 ॥ शां० ॥ ४ ॥ नर महिला हय हाथीना जाए, आचूषणविधि त्रीजे
 वखाण ॥ शां० ॥ चउद रत्न हुवे चोथे निधान, पांचमुं वस्त्र विविधनी
 खाण ॥ शां० ॥ ५ ॥ ठठे कालत्रयनुं ज्ञान, महाकालें निसुणो मति
 मान् ॥ शां० ॥ सुवन रूप्य मणि लोह प्रवाल, एउनो संनव सातमे
 जाल ॥ शां० ॥ ६ ॥ युद्धनीति सघला हयियार, योधतणा अष्टम अथ
 धार ॥ शां० ॥ चउविध काव्य ने तुर्यनां अंग, नाट्य नाटक विधि नवमे
 रंग ॥ शां० ॥ ७ ॥ पद्योपम जीवित सुरवास, ए नवनिधिसंबंध उ
 द्वास ॥ शां० ॥ नवसहस्र निधि सुर कहे आय, जय जय चक्री त्रिचु
 वनराय ॥ शां० ॥ ८ ॥ मन माने तेम विलसो स्वामि, निधि अखूट
 तुम्हारे नाम ॥ शां० ॥ प्रगट्यां पूरव पुण्य प्रमाण, व जगवतुम्हारी पट
 खंम आण ॥ शां० ॥ ९ ॥ निधि उत्सव कीधो तेणी ववरसप्रचुना पुण्य
 तणो नहिं पार ॥ शां० ॥ गंगा पूरव निष्कूट जाग, आप वरें कंधो वडजाग
 ॥ शां० ॥ १० ॥ साधी पट् खंम चारत वास, प्रचु वलियो विस सुर नर
 दास ॥ शां० ॥ नहिं प्रचुने मन मोहविकार, उदय महावल वान विचार
 ॥ शां० ॥ ११ ॥ विणु उदयें नवि जोगव्यां जाय, विणु जोरदवियां मोह
 न थाय ॥ शां० ॥ आठवें वरसें साधी हो देश, प्रचु आठे निज न
 यर उदेश ॥ शां० ॥ १२ ॥ हुइ हठिणाउर घर घर व... आव्यो सा
 हिव जग विख्यात ॥ शां० ॥ वांध्यां तरियां तोरण वार, मुहीव बोले सहु
 मंगल चार ॥ शां० ॥ १३ ॥ करि... ज... वरी जयश्रेणिए, आवे प्रचु
 गजपुर बहुसेन ॥ शां० ॥ १४ ॥ जके हो घाट, आ गें चले क
 रता गलजाट ॥ शां० ॥ हय... तेती हो जाए, प्रो चुजी वडो

मोजी महिराण ॥ शां० ॥ वाजे लाख चोराशी निशाण, जित दुई त्रिचु
 वन सुलतान ॥ शां० ॥ १५ ॥ कोडि अठार सार्थे अस्वार, ठठूं कोडी
 पायक दल सार ॥शां०॥ चउद रयण नवनिधि संवात, बहु थामंवर अ
 चिरानो जात ॥ शां० ॥ १६ ॥ शुज दिन गजपुर करे प्रवेश, दूर टव्या
 जनना संकेग ॥ शां० ॥ बंदीजन बोले जयवाणि, आगल जाट करे कव्या
 ण ॥ शां० ॥ १७ ॥ सोहव जरि जरि मोती याल, प्रचुको वधावे थइ उज
 माल ॥ शां० ॥ निजमंदिर आये नूपाल, मुखीयो सहु तिहां बाल
 गोपाल ॥ शां० ॥ १८ ॥ ठठे खंफें हो आठमी ढाल, आये जगत्प्रचु
 दीनदयाल ॥ शां० ॥ रामविजय कहे पुण्यसंबोग, आइ मित्रे सवि
 वांठित योग ॥शां०॥१९॥ सर्वगाथा ॥२३५॥ श्लोक तथा गाथा मजी ॥

॥ दोहा ॥

॥ वाली नारत वर्षेना, मलीया देवी देव ॥ वत्रीश सहस्र नरेश्वरा,
 सारे प्रचुनी सेव ॥ १ ॥ करे अजिपेक चक्रीतणो, वार वरस मंमाण ॥
 विद्याधर नूचर मली, सर्व समयना जाण ॥ २ ॥ करे उत्सव अजिपे
 कनो, नित्य एक एक राजान ॥ परणावे दोय पुत्रिका, रूपें रंज समान
 ॥ ३ ॥ चोसठ सहस्र अंतेवरी, एणी पेरें हूइ उदार ॥ दो दो तस वारां
 गना, एक लक्ष वाणुं हजार ॥ ४ ॥

॥ ढाल नवमी ॥

॥ हरणी जय चरे लजनां ॥ ए देगी ॥ प्रवल पुण्याइ वांतिकी लजनां ॥
 लजां हो कहेतां नावे पार ॥ सादिव सेवीयें लजनां ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥
 फिरत दृढाइ देशमां ॥ ल० ॥ लजां हो सहस्र वत्रीगने मेल ॥ सा० ॥
 वत्रीश सहस्र नरिंदणुं ॥ ल० ॥ लजां हां करे अहोनिश प्रचु केलि ॥ सा०
 ॥ २ ॥ सहस्र वहांतर पुरवग ॥ ल० ॥ ल० ॥ नोदं इडि कमाल ॥
 सा० ॥ पाटण संख्या हो सांचजी ॥ ल० ॥ ल० ॥ वात सहस्र अडियाल
 ॥ सा० ॥ ३ ॥ कोडि ठठु वर गामना ॥ ल० ॥ ल० ॥ जांगवे जांग रमाल
 ॥ सा० ॥ सोल सहस्र यक्ष आगलें ॥ ल० ॥ ल० ॥ रहे कर जांडी जाल
 ॥ सा० ॥ ४ ॥ दोय सहस्र अंनरकका ॥ ल० ॥ ल० ॥ सेव करे
 दिज नाच ॥ सा० ॥ चोसठ इंडु हजार रहे ॥ ल० ॥ ल० ॥ कोड न
 लोपे नाच ॥ सा० ॥ ५ ॥ इदा कोडि अलंबध्वजाभग ॥ ल० ॥ ल० ॥

दीवीधरा पांच लाख ॥ सा० ॥ साठ सहस दरवारमां ॥ ल० ॥ ल० ॥
 पंढित पूरे साख ॥ सा० ॥ ६ ॥ साठ सहस विरुदावली ॥ ल० ॥ ल० ॥
 प्रतिदिन बोले जाट ॥ सा० ॥ त्रण लाख मंत्रीश्वर कह्या ॥ ल० ॥
 ल० ॥ अंश नहिं उच्चाट ॥ सा० ॥ ७ ॥ बत्रिश सहस नाटक जलां ॥
 ल० ॥ ल० ॥ नव नव लील विलास ॥ सा० ॥ वीश सहस आगर तणो
 ॥ ल० ॥ ल० ॥ चाव्यो आवे धनराशि ॥ सा० ॥ ८ ॥ अकूय खजीनो
 जेहनो ॥ ल० ॥ ल० ॥ किमही न खूटे सोइ ॥ सा० ॥ प्रमुदित सवि
 परजा नइ ॥ ल० ॥ ल० ॥ शांतिप्रभुमुख जोइ ॥ सा० ॥ ए ॥ चोसठ
 सहस करे नवां ॥ ल० ॥ ल० ॥ नित्यप्रत्ये रूप दयाल ॥ सा० ॥ वर
 तरुणीके विलासमां ॥ ल० ॥ ल० ॥ जातो न जाणे काल ॥ सा० ॥
 ॥ १० ॥ विश्वसेन कुल दिनमणि ॥ ल० ॥ ल० ॥ अचिरामात महार
 ॥ सा० ॥ कंचनवर्ण तनु जेहनुं ॥ ल० ॥ ल० ॥ निरखत हर्ष अपार
 ॥ सा० ॥ ११ ॥ सात ईति विरमी सही ॥ ल० ॥ ल० ॥ सहु सुखीयो
 संसार ॥ सा० ॥ शांति प्रभुके राजमां ॥ ल० ॥ ल० ॥ वरत्यो जय जय
 कार ॥ सा० ॥ १२ ॥ वरस सहस पचवीश थयां ॥ ल० ॥ ल० ॥ च
 क्रीपद पालंत ॥ सा० ॥ अतिशय ज्ञाने हो आपणो ॥ ल० ॥ ल० ॥ नव
 देखे जगवंत ॥ सा० ॥ १३ ॥ निर्मोही थइने रह्या ॥ ल० ॥ ल० ॥ जोग
 उपर अरिहंत ॥ सा० ॥ नव लोकांतिक देवनां ॥ ल० ॥ ल० ॥ चलियां
 आसन तंत ॥ सा० ॥ १४ ॥ आवे तिहां उतावला ॥ ल० ॥ ल० ॥
 जिहां प्रभु शांति जिणंद ॥ सा० ॥ वूज वूज जगवंत जी ॥ ल० ॥ ल० ॥
 परिहर मोहनो फंद ॥ सा० ॥ १५ ॥ स्थापो तीरथ त्रिभुवनपति ॥
 ल० ॥ ल० ॥ लोक सहू हितकार ॥ सा० ॥ चौदराजके चोकमें ॥
 ल० ॥ ल० ॥ उर न तारणहार ॥ सा० ॥ १६ ॥ एम सुर विनवियो
 विभु ॥ ल० ॥ ल० ॥ आपे वरसीदान ॥ सा० ॥ ऊरण कीध वसुंधरा
 ॥ ल० ॥ ल० ॥ करे सुरनर गुण गान ॥ सा० ॥ १७ ॥ चक्रायुध अंगज
 जणी ॥ ल० ॥ ल० ॥ स्थापे राज्य दयाल ॥ सा० ॥ आप थया अलवे
 श्वरु ॥ ल० ॥ ल० ॥ दीक्षाने उजमाल ॥ सा० ॥ १८ ॥ आसन चलियां
 इंडनां ॥ ल० ॥ ल० ॥ जाणुं अवधिज्ञान ॥ सा० ॥ संयमतिरि वरवा
 जणी ॥ ल० ॥ ल० ॥ थया उत्सुक जगवान ॥ सा० ॥ १९ ॥ चोसठ सुर

पति श्राविया ॥ ल० ॥ ल० ॥ देव देवी परिवार ॥ सा० ॥ प्रभु प्रणमी करे
 हर्षगुं ॥ ल० ॥ ल० ॥ दीक्षा महोत्सव सार ॥ सा० ॥ २० ॥ सरवार
 श्र नामें जली ॥ ल० ॥ ल० ॥ शिविका रची तेषि वार ॥ सा० ॥ वेठा
 जगजुरु कपरें ॥ ल० ॥ ल० ॥ जगजनके आधार ॥ सा० ॥ २१ ॥ चामर
 चीजे सुरपति ॥ ल० ॥ ल० ॥ ठत्र धखुं शिरदार ॥ सा० ॥ प्रथम उपाडे मा
 नवी ॥ ल० ॥ ल० ॥ नग्नो प्रथम अधिकार ॥ सा० ॥ २२ ॥ सुर श्र
 सुरेंड वहे पठी ॥ ल० ॥ ल० ॥ गरुज अने नागेंड ॥ सा० ॥ शिविका
 उपाडे जिनतणी ॥ ल० ॥ ल० ॥ धरता मन आनंद ॥ सा० ॥ २३ ॥
 केड गाये वाये रंगगुं ॥ ल० ॥ ल० ॥ केड नाटक करे सार ॥ सा० ॥
 नाट परें विरुदावली ॥ ल० ॥ ल० ॥ सद्गु कहे जय जयकार ॥ सा० ॥ २४ ॥
 नृवनोत्तर गुणवर्णना ॥ ल० ॥ ल० ॥ करे सुरपति ससनेह ॥ सा० ॥
 रासदायक नर आगलें ॥ ल० ॥ ल० ॥ नृत्य करे गुणगेह ॥ सा० ॥
 २५ ॥ चंजा चेरी मृदंगनां ॥ ल० ॥ ल० ॥ वाजे वाजित्र सार ॥
 सा० ॥ नचमंमल गाजी रखुं ॥ ल० ॥ ल० ॥ डंडुनिध्वनि मनोहार ॥
 सा० ॥ २६ ॥ हाहा हूहू वर गायना ॥ ल० ॥ ल० ॥ नाटकबंध संगीत
 ॥ सा० ॥ रंजा निलोत्तमा कर्वशी ॥ ल० ॥ ल० ॥ नाचती अनुचव रीत
 ॥ ल० ॥ २७ ॥ उत्सवगुं प्रभु श्राविया ॥ ल० ॥ ल० ॥ गजपुर नगर
 ग्रथान ॥ सा० ॥ सहस्राव वनमांहे आवीने ॥ ल० ॥ ल० ॥ कतारिया जगवान
 ॥ सा० ॥ २८ ॥ आनूपण कतारियां ॥ ल० ॥ ल० ॥ मूक्यो परिग्रह
 नार ॥ सा० ॥ पंच मुष्टि करे केशनो ॥ ल० ॥ ल० ॥ जोच सदस परि
 वार ॥ सा० ॥ २९ ॥ बन्ध्यांचल ईंई लीया ॥ ल० ॥ ल० ॥ श्रीरजजधि
 मांहे केश ॥ सा० ॥ वहेवाच्या रखे एदनी ॥ ल० ॥ ल० ॥ आशात
 न द्योय लेश ॥ सा० ॥ ३० ॥ तुमुल निवारे दो सुरविचु ॥ ल० ॥
 ल० ॥ वरे प्रभुविरति सुनारि ॥ सा० ॥ ज्येष्ठ शित चन्द्रशी दिने ॥
 ल० ॥ ल० ॥ जगर्णामन विधुचार ॥ सा० ॥ ३१ ॥ मुखें " नमोपि
 क्षणं " जणी ॥ ल० ॥ ल० ॥ प्रभु जिये संयमनार ॥ सा० ॥ पाठ सा
 भागिक वचनं ॥ ल० ॥ ल० ॥ ठठ जन चांविदार ॥ सा० ॥ ३२ ॥ मनःपर्येव नामें
 जर्ज ॥ ल० ॥ ल० ॥ संक्षिप्तमोगन नाव ॥ सा० ॥ जाणे दो जेदयी
 निर्मला ॥ ल० ॥ ल० ॥ प्रगटुं निण प्रस्ताव ॥ सा० ॥ ३३ ॥ चरना

णी प्रभु विचरिया ॥ ल० ॥ ल० ॥ नहिं मन मोहविकार ॥ सा० ॥
 प्रभु निर्मोही वंदीने ॥ ल० ॥ ल० ॥ पाठो वढ्यो परिवार ॥ सा० ॥३४॥
 इंद्रादिक सह्यु देवता ॥ ल० ॥ ल० ॥ नंदीश्वर करे यात्र ॥ सा० ॥ गणतां
 सुरसुख तृण समुं ॥ ल० ॥ ल० ॥ पावन कीर्थां गात्र ॥ सा० ॥ ३५ ॥
 खंम ठठे नवमी जली ॥ ल० ॥ ल० ॥ ढाल दीक्षा अधिकार ॥ सा० ॥
 राम कहेसुणतांसही ॥ ल० ॥ ल० ॥ लहियें नवनिस्तार ॥ सा० ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

॥ दोहा ॥

॥ वीजे दिन जिन शांतिजी, कोइ सन्निवेश मजार ॥ परमानें करे पारणुं,
 सुमित्रतणे घरवार ॥ १ ॥ पंच दिव्य परगट हुवां, साढी वारह कोडि ॥
 वृष्टि थई सोवन तणी, पढोता वांठित कोड ॥ २ ॥ यडुक्तं ॥ अक्षेत्तरस
 कोडी, उक्कोसा तड होइ वसुधारा ॥ अक्षेत्तरस लस्का, जहन्निया होइ
 वसुधारा ॥ ३ ॥ पूर्वदोहा ॥ ग्रामाकर पुर विचरतां, शांतीश्वर जिन
 चंद ॥ अप्रतिबंध पट् कायना, पालक महामुणिंद ॥ ३ ॥

॥ ढाल दशमी ॥

॥ आज सखी शंखेश्वरो ॥ ए देशी ॥ चउनाणी चोखे चित्तें, जूमं
 मजमांहे ॥ सम तृण मणि जावे विभु, विचरे उत्साहें ॥ १ ॥ कल्पाती
 तपणुं जजे, कुविकल्प निवारी ॥ योगस्वरूपी योगना, धारक ब्रह्मचारी ॥
 २ ॥ वरते शुद्ध मुनि जावमां, विरता दमवंता ॥ साधक शिवपदपं
 थना, सूधा गुणवंता ॥ ३ ॥ अमल अमार्थी अंतरें, खंतीगुण पूरा ॥
 पडिमा अनिग्रह धारता, मौनी प्रभु शूरा ॥ ४ ॥ आठ मास ठद्वस्थमां, विचरी
 प्रभु आव्या ॥ गजपुर नयरें तिण वनें, जगतीजन जाव्या ॥ ५ ॥ पत्र
 फूल फलें नंदतो, नंदी तरु सोहे ॥ तिहां प्रभुजी पाउ धारीया, नविजन
 मन मोहे ॥ ६ ॥ शुक्लध्यानमां वर्त्तता, तप ठठ चोविहार ॥ पोप नवमी
 तिथि ऊजली, निर्मल गुणधार ॥ ७ ॥ नरणी उरु शशी आवियो, गुज
 वेला स्वामी ॥ निर्मल ध्यानदशा वर्धी, चढते परिणामी ॥ ८ ॥ घाती कर्म
 क्य घातियां, अविनाशी जावें ॥ उज्ज्वल केवल ऊपनुं, निरुपाधि स्वजावें
 ॥ ९ ॥ नासक लोकालोकनुं, तिण वेला प्रगटयुं ॥ दोप अढारनुं तिण समे,
 वल सवलुं विघटयुं ॥ १० ॥ अंतराय अलगा थया, डुःखदायी माठा ॥
 दास्य अरति रति वेगली, नय सधलां घाठां ॥ ११ ॥ शोक डुगंठा सा

मटी, मिथ्यात्वने काम ॥ वाखा वैरी अनादिना, ह्याधिकगुणधाम ॥
 १२ ॥ आद्यादन अज्ञाननुं, उमाडी नारखुं ॥ तिझा नाठी वापडी,
 अनुभव मुख चारखुं ॥ १३ ॥ अविरति नवि ऊनी रही, अलगांथी
 जांखी ॥ गग द्वेष वेठा ठरी, ह्यियारने नाखी ॥ १४ ॥ दोष अढारथी
 वेगळो, प्रभु शांति जिणंदो ॥ तिण वेला अनुचावथी, चलियांसन ईदो
 ॥ १५ ॥ सुर मजिया चार निकायना, ततरूण तिहां आवे ॥ वायुकु
 मारा नृमिनो, योजन समरावे ॥ १६ ॥ मेघसुरा गंधोदकें, रजचूमि
 समारे ॥ मणिमय पीठ रचे तिहां, अति हर्ष पमाडे ॥ १७ ॥ सुवनपति
 ने ज्योतिपी, वैमानिक देवा ॥ रूप कनक मणि रयणना, विरचे गढ देवा
 ॥ १८ ॥ चिहुं दिशि छार विराजती, तोरणनी माला ॥ सुर नर मन मोही
 रहे, अति जाक ऊमाला ॥ १९ ॥ पावडियां शोने नजां, वीश सहसनी
 संख्या ॥ नख तरप जागे नहीं, ते नयणें देख्यां ॥ २० ॥ द्वादश गुण
 प्रभु अंगथी, तेह मध्य अशोक ॥ जे नजरें दीठे थके, नासे सवि शोक
 ॥ २१ ॥ चिहुं दिशि सिंहासन नजां, ठत्रत्रय वारु ॥ चामर सुर व्यं
 तर सवे, विरचे दीदारु ॥ २२ ॥ अचिरानंदन शांति जी, पूरव दिशि
 छारें ॥ पेसे तीर्थ नमस्करी, सुर नेवा सारे ॥ २३ ॥ पूर्वदिशें सिंहासनें,
 वेसे जिनदेवा ॥ प्रभु प्रतिरूप करी ठवे, त्रिहुं दिशि तिहां देवा ॥ २४ ॥
 चामंमल पूठें भखुं, करे कुसुमनी वृष्टि ॥ जानुप्रमाण निरंतरें, थड मन
 संतुष्टि ॥ २५ ॥ अंबर वाजे डंडुनि, नो नो नवि लोका ॥ जाण करे
 आची नमो, ज्युं थाउं अशोका ॥ २६ ॥ धारे परिपद तिहां मजे, जिन
 वाणी सुषोवा ॥ कर जोडी नावें रही, नवचय अदगणया ॥ २७ ॥ सुर
 वनिता मुनि नाथथी, त्रिहुं अग्नि निकोणे ॥ व्यंतर श्रुवन ने ज्योतिपी, त्रय
 नैरुत जाणे ॥ २८ ॥ ते सुर वायव्य कृणमां, वैमानिक त्रिदशा ॥
 नर नारी ईशानमां, त्रिहुं पर्यद सुयगा ॥ २९ ॥ एदवी धारे पर्यदा,
 मूल गटमां धंने ॥ बीजा गटमांहे सवे, त्रियेच सुचिदेजें ॥ ३० ॥ गेप्य
 नणा गहमां रहे, वाडन सवि जननां ॥ प्रभुदरिसणथी नवि म्हे, म
 ह्यर निज मनना ॥ ३१ ॥ यहुं ॥ नागंती सिंहावावं सृष्टति सुतपिया
 नंदिनी व्याघ्रपांत, माजारी वंनवाजं प्रणयपग्निशात्कंकिरांता नृजं
 मम् ॥ १ ॥ गेराएयाजन्मजातान्यपि गजिनमदा जंनगांन्त्यै व्यजंति, श्रित्वा

साम्यैकरूढप्रशमितकलुषं योगिनं क्लीणमोहम् ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ सा
रंगी हरिवालने, सुतनी परें फरसे ॥ वाघशिछुने नंदिनी, चाटे अति
हर्षें ॥ ३१ ॥ मांजारी हंसवालछुं, रमे हर्षें जेली ॥ मोरवधू अहिछुं करे,
क्रीडा मन मेली ॥ ३२ ॥ वैर टले आजन्मनां, प्रछुने महिमायें ॥ देव
अवर कोइ एहवो, नवि दीठो महिमांये ॥ ३४ ॥ यडुक्तं ॥ तीर्थकराणां
साम्राज्यं ॥ समवसरणस्थिति तेहवी, जवलेशथी दाखी ॥ हवे नि
सुणो नवि देशना, जिनजी जे नांखी ॥ ३५ ॥ दशमी ठछा खंमनी, कही
ढाल सुरंगी ॥ रामविजय कहे सांचलो, प्रछु देशना रंगी ॥ ३६ ॥ ३१४ ॥ ४ ॥
॥ दोहा ॥

॥ नामधेय कव्याण एक, आवी पुरुपरतन्न ॥ चक्रायुध आगल कहे,
वात करी स्थिर मन्न ॥ १ ॥ समवसखा आवी इहां, श्रीशांतिजिणंद
दयाल ॥ प्रछु ए हर्षे वधामणी, हुं जाव्यो नूपाल ॥ २ ॥ वात सुणी
हर्षित थयो, देइ थथोचित दान ॥ प्रछुवंदनने निसखो, चक्रायुध राजान
॥ ३ ॥ पांचे अजिगम साचवी, प्रछु वांदे नूपाल ॥ कर जोडी उचो रही,
स्तवना करे रसाल ॥ ४ ॥ जय स्वामिन् जगदीश्वरु, जय त्रिचुवनजन
बंधु ॥ नव अगाधतारक विछु, जय गुणमणिना सिंधु ॥ ५ ॥ नवजल
पडतां जीवने, तारक तुम्हो जहाऊ ॥ पूरण पुण्यें मुऊने, मलिया श्री
जिनराज ॥ ६ ॥ ध्येय अनंतर सांचरो, ध्यायकने निजनाव ॥ दायक
मुऊ ऊपर करो, प्रछुजी करुणानाव ॥ ७ ॥ ठे अनंत गुण ताहरा, तेह
मां एक गुण मुऊ ॥ देतां सेवक डुख टले, दाम न वेसे तुऊ ॥ ८ ॥ दी
नोक्षरण धुरंधरा, हे अनाथना नाथ ॥ देखी हुं तुम मुखकमल, जगमां
हुवो सनाथ ॥ ९ ॥ नमी स्तवी जिनराजने, नातिदूर नवि पास ॥ वेसी
निसुणो देशना, चक्रायुध उद्व्वास ॥ १० ॥

॥ ढाल अग्यारमी ॥

॥ हस्तीनागपुर वर ननुं ॥ ए देशी ॥ वर पांत्रीश वाणीगुणें, संयुत अ
तिशयचंमार रे ॥ प्रछु वरसे तिहां देशना, जेम जग पुष्कर जलधार रे ॥ त्रूटक ॥
जेम जगपुष्कर जलधार इसी, जिनदेशना सुखकार रे ॥ सुखकार सुणो अ
धिकार, निरामयकारिणी सुविचार रे ॥ नि० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ राजन वाह्य
ए शत्रुनुं, सवलुं तें टाव्युं जोर रे ॥ पण अद्यापि न वश कखा, निज

देहमां इंडिय चोर रे ॥ त्रूण ॥ निजदेहमां इंडिय चोर करे, अनरथ घणो गुण
 काजें रे ॥ गुणकाज अनादिनो जीव फिरे, जग वाजलो गतलाज रे ॥ जण ॥ १ ॥
 शब्द रूप रसगंधना, वाह्या वली फरस ने फंद रे ॥ जाण अजाण थई रह्या,
 एह सेवे ते सहि मंद रे ॥ त्रूण ॥ एह सेवे ते सही मंद कह्या, जिनआगमें
 गुणहीन रे ॥ गुणहीन ए दीन थइने फरे, रोप रागमें लयलीन रे ॥ रोण
 ॥ ३ ॥ व्याधि लहे ते व्याधनां, जेम निसुणी गीत सराग रे ॥ मरण लहे ते
 हरिणलो, तेम रागी सुणो वडजाग रे ॥ त्रूण ॥ तेम रागी सुणो वडजाग
 वैराग्यने, आदरो गुणवंत रे ॥ गुणवंत न कीजें कंत शब्द, सुणी आदरो
 मतिमंत रे ॥ सुण ॥ ४ ॥ लोचन इंडिय चपलता, चलता मननी बहु थाय
 रे ॥ मनचंचलतायें जीवडो, फरि फरि चिहुं गतिमां जाय रे ॥ त्रूण ॥
 फरि फरि चिहुं गतिमां जाय नयण रस, राचियां जग चूठ रे ॥ जग चूठ
 लहे ते मृत्यु पतंग, ज्युं वंचिया नहिं उंच रे ॥ ज्युं ॥ ५ ॥ स्वादेजे शुच
 रस तणी, रसनावशवर्ती जीव रे ॥ कटुक विपाक लहे घणा, परचव नरकें
 करे रीव रे ॥ त्रूण ॥ परचवें नरकें करे रीव सदेव, ते सुखीया जगमांहीरे ॥
 जगमां मरे मीन तणीपरें, ते सही दुःखिया गतढाय रे ॥ तेण ॥ ६ ॥ गंध
 शुचाशुच कारणें, बहु जीव तणो करे नाश रे ॥ पोपे हो इंडिय नासिका, नवि
 जोवे मूढ विमास रे ॥ त्रूण ॥ नवि जोवे मूढ विमासी, वांधे राशि पापनी
 जेम जंग रे ॥ जेम जंग लह्यो दुःख तेम गंधें, गति आपणी मति जंग रे
 ॥ गण ॥ ७ ॥ फरस आठमांहे जिके, जलचाणा जालचपूर रे ॥ बहु आरंन करे
 सदा, तेहने सद्गति रही दूर रे ॥ त्रूण ॥ तेहने सजति रही दूर सही जेम,
 हाथीयें पर हाथ रे ॥ परहाथ लही जेम वेयण तिम, नृप जीवडो ए अनाथ
 रे ॥ नृण ॥ ८ ॥ जे गुणठाण ते मूल ठे. जे मूल ते वलि गुणठाण रे ॥ हेतु
 हेतुमजावधी, बीजांकूरन्याय सुजाण रे ॥ त्रूण ॥ बीजांकूरन्याय सुजाण,
 अजाण ए आदरे निरुपाय रे ॥ निरुपाय करे जिनधर्म ते, सही सुखने
 वरे शिवठाय रे ॥ सण ॥ ९ ॥ आखर ए सही विणसजे, ठेह देई जाशे
 एह रे ॥ त्पारें तुं फूरीश अति घणो, माटें म कर विषय सनेह रे ॥ त्रूण ॥
 माटें म म कर विषय सनेह चक्रायुध, राजीया गुणगेह रे ॥ गुणगेह अ
 देहने नेहें, रमो रस रंजीया शुचिदेह रे ॥ रण ॥ १० ॥ एहवा जाणीने
 जेणें तज्यां, तेहनां जग सरियां काल रे ॥ जेम गुणधर्म कुमार जी, तजी

विषय लखुं शिवराज रे ॥ त्रू० ॥ तजि विषय लखुं शिवराज कहे, एम शं
 तिजी नगवान रे ॥ तव चक्रायुध कर जोडी कहे, कहो तातजी उपमान
 रे ॥ क० ॥ ११ ॥ कुण गुणधर्म किहां थयो केम, विषय तज्या तेणें स्वामी
 रे ॥ तास कथा मुजने कहो, केम आव्यो शुनपरिणाम रे ॥ त्रू० ॥ केम आव्यो
 शुनपरिणाम कहे, तव केवली नगवंत रे ॥ नगवंत अनंत गुणाकर, कहे मननी
 रली सुणो संत रे ॥ क० ॥ १२ ॥ नरतें सोरीपुर नयरमां, दृढधर्म दूठ रा
 जान रे ॥ तस घरणी शीलशालिनी निज, पीयुनुं लहे बहु मान रे ॥ त्रू० ॥
 निज पियुनुं लहे बहु मान अमान, गुणें नरी वर नारी रे ॥ वर नारी ल
 जालु विनीत, गुणाकर सुंदरी सुखकार रे ॥ गु० ॥ १३ ॥ सुख नोगवतां
 कंतहुं, सुत जायो एक रतन्न रे ॥ नामें नलो गुणधर्मजी, मायडी करे
 तास जतन्न रे ॥ त्रू० ॥ मायडी करे तास जतन्न, कला सघली नण्यो गुण
 वंत रे ॥ गुणवंत महंत दुठ सत्यवंत, सोहामणो बलवंत रे ॥ सो० ॥ १४ ॥
 यौवन वयमां आवीयो, तेह सकल कलानो जाण रे ॥ मात पिता मन
 वालहो, गुणधर्म कुंवर कुलजाण रे ॥ त्रू० ॥ गुणधर्म कुंवर कुलजाण,
 सुनग सरलाशयी प्रियवाण रे ॥ प्रियवाण हिताहित जाण, सज्जन जन
 आश्रमी गुणखाण रे ॥ सो० ॥ १५ ॥ नयर वसंतपुरें वसे, इण समे नृप ईशा
 नचंड रे ॥ कनकवती कनी तेहनी, तस स्वयंवर मांथयो नरिंद रे ॥ त्रू० ॥
 तस स्वयंवर काजें दूत समाजें, आवीयो उजमाल रे ॥ उजमाल सुणी गुणधर्म,
 कुमार जी चालीयो ततकाल रे ॥ कु० ॥ १६ ॥ आव्यो वसंतपुरें तदा, रहे ते नृप
 दत्त आवास रे ॥ एकदिन स्वयंवर देखवा, गुणधर्म गयो उध्वास रे ॥ त्रू० ॥
 गुणधर्म गयो तिहां पण तेह आवी, नृपनी कनी तेणी वार रे ॥ तेणी
 वार जोतां तुरंत, लागी दृष्टि रागनी निर्धार रे ॥ ला० ॥ १७ ॥ नयणें थइ
 ने प्रीतडी, पेठी ते हेयडामाय रे ॥ चित्तमांहि लागी चटपटी, तेह निज
 निज मंदिर जाय रे ॥ त्रू० ॥ तेह निज निज मंदिर जाय के नेह, नयणतणे
 जण दाय रे ॥ जण दाय चित्तारे चित्त, एकेकने अतिघणो मन मोह रे ॥ ए० ॥
 ॥ १८ ॥ ठे घे अगीयारमी ढालमां, कहे शांतिजिणंद दयाल रे ॥ काम महाग्रह
 जेहने, तस न मटे कल्पनाजाल रे ॥ त्रू० ॥ तस न मटे कल्पनाजाल, विषय
 विरुठ सहि दुःखदाय रे ॥ दुःखदाय कह्यो जिनराय ए, वात जूठी नही
 नगमांय रे ॥ वा० ॥ १९ ॥ सर्वगाथा ॥ ३४३ ॥ श्लोक तथा गाथा मली ॥ ४ ॥

॥ दोहा ॥

॥ कनकवती चित्तमां वस्यो, श्री गुणधर्म कुमार ॥ रात दिवस तस
रूपमां, मोही मोहविकार ॥ १ ॥ प्रेमसमो पावक नहिं, प्रेम समुं नहिं
पाप ॥ प्रेम वडूं परवशपणुं, ए सम नहिं संताप ॥ २ ॥ प्रेम तणो “प्रे”
लेइने, यमनो लेइ “मे”कार, “प्रेम” शब्द एम निपन्यो, जिणथी दुःख
दातार ॥ ३ ॥ कनकवती मन समरतो, श्रीगुणधर्म कुमार ॥ निज उता
रे आवीयो, पण जक नहिं लगार ॥ ४ ॥ रातें मूकी कुमरीयें, दासी तेह
नी पास ॥ एक पाटी चित्रामनी, कर दीधी तस खास ॥ ५ ॥ कुमरें दीठी
पट्टिका, तिहां कलहंसी रूप ॥ श्लोक एक तेहने तलें, वांचे कुमर स्वरूप
॥ ६ ॥ तद्यथा ॥ आदौ दृष्टप्रिया सानु, रागाऽसौ कलहंसिका ॥ पुनस्तद
शीनं शीघ्रं, वांञ्चत्येव वराक्यहो ॥ १ ॥ पूर्वदोहा ॥ जावाशय लही तेहने,
रीज्यो कुमर अपार ॥ रूप लखी कलहंसनुं, श्लोक लखे तेषि वार ॥ ७ ॥
तद्यथा ॥ कलहंसोऽप्यसौ सुत्रु, कृपं दृष्टानुरागवान् ॥ पुनरेव प्रियां दृष्टु, महो
वांञ्चत्यनारतम् ॥ २ ॥ पूर्वदोहा ॥ कनकवती कुमरी वली, सरस सुगंधां
फूल ॥ दासी सार्थें मोकले, विलेपन तांबूल ॥ ८ ॥ पुष्प लेइ शिर पर
धर्यां, मुख चावे तांबूल ॥ अंगविलेपन चोपड्युं, कुंवर गुणें अमूढ्य
॥ ९ ॥ दान दिये संतोपनुं, उज्ज्वल मोतीहार ॥ ते कहे सुण कन्या
तणो, एक संदेशो सार ॥ १० ॥

॥ ढाल वारमी ॥

॥ काढेलानां गीतनी देशी ॥ कहे कर जोडी राजने ॥ वाहालेश्वर ॥
मुऊ स्वामिनी अरदास ॥ पियु तुम प्रेमपयोधिमां ॥ वा० ॥ मद्य नइ
सुविलास ॥ १ ॥ रात दिवस मुऊ हृदयमां ॥ वा० ॥ मोरने ज्युं जलथा
र ॥ लागी मुऊ तुऊ मोहनी ॥ वा० ॥ न गमे हो अवर विचार ॥ २ ॥ में
तुम कंठें स्थापवी ॥ वा० ॥ परजातें वरमाल ॥ कोइ दिन विपयने पडखवो
॥ वा० ॥ थावुं न अति उजमाल ॥ ३ ॥ कुमरें हो मानी वातडी ॥
वा० ॥ दासी आवी फरी मेह ॥ कनकवतीने मांढीने ॥ वा० ॥ वात
कही ससनेह ॥ ४ ॥ हरिणाक्षी हरखी हेंये ॥ वा० ॥ प्रगट हूड पर
जात ॥ स्वयंवर आवी रंगशुं ॥ वा० ॥ वखो गुणधर्म सुजात ॥ ५ ॥
साजन जन सहु हरखियां ॥ वा० ॥ हरख्यां हो माय ने तात ॥ सरखी

मली ए जोडली ॥ वा० ॥ उलट अंग न मात ॥ ६ ॥ करे उत्सव विवा
 हना ॥ वा० ॥ ईशानचंद्र चूपाल ॥ परणावी निजपुत्रिका ॥ वा० ॥
 वरती हो मंगलमाल ॥ ७ ॥ ससरे बहुधन आपीयुं ॥ वा० ॥ मणिमय
 चूपण सार ॥ हय गय रथ दीधा घणा ॥ वा० ॥ कहे सद्दु जय जयकार
 ॥ ८ ॥ बोलावे निज कुंवरी ॥ वा० ॥ शुभदिन जोइ विशेष ॥ शिखाम
 ण देई घणी ॥ वा० ॥ मात पिता हित लेख ॥ ए ॥ नक्ति करेजो कंत
 नी ॥ वा० ॥ आण वहेजो अखंड ॥ संगति मत करजो कदा ॥ वा० ॥
 जे होवे डुर्जन लंत ॥ १० ॥ सासु ससराजी तणो ॥ वा० ॥ विनय म
 चूकीश सार ॥ नोजन तुं करजे पठें ॥ वा० ॥ जमी रहे सवि परिवार
 ॥ ११ ॥ तुंकारो नवि दीजियें ॥ वा० ॥ कहियें न मर्म निटोल ॥ वैर
 बंधाये आकरां ॥ वा० ॥ बोलतां कडुवा रे बोल ॥ १२ ॥ सज्जन ज
 ननी सेवना ॥ वा० ॥ कीजें हो हर्षे रे धाय ॥ नीच निखर व्यसनी
 तणी ॥ वा० ॥ उजा न रहियें रे ठाय ॥ १३ ॥ शील अखंडित पालजे
 ॥ वा० ॥ कुलवधू नाम धराय ॥ शोना सबल उपराजजे ॥ वा० ॥ वहे
 ली हो मलजे रे आय ॥ १४ ॥ सूजे पियु सूता पठी ॥ वा० ॥ जागजे
 पहेली प्रजात ॥ शोक्य सहूमांहे सही ॥ वा० ॥ नाम धरावे सुजात ॥
 १५ ॥ गुं तुजने कहियें घणुं ॥ वा० ॥ सहजगुणें तुं सुशील ॥ दान
 देवाने अवसरें ॥ वा० ॥ वाइ म थाजे वखील ॥ १६ ॥ गुण सवि धारे
 अंगमां ॥ वा० ॥ अवगुण अलगा निवार ॥ देव गुरुना विनयमां ॥ वा० ॥ खा
 मी न करशो लगार ॥ १७ ॥ नणंद जेठाणीगुं नमी ॥ वा० ॥ चालजे
 ए अम शीख ॥ विनय वडानो जालवे ॥ वा० ॥ कोनी म चांजीश चीख
 ॥ १८ ॥ शिख धरी शिर ऊपरें ॥ वा० ॥ चाली हो कंतनी साथ ॥ सद्दु
 गुं जुहार करी चल्यां ॥ वा० ॥ दंपती दोय सनाथ ॥ १९ ॥ अनुक्रमें
 आव्यां निजपुरें ॥ वा० ॥ जामिनी ने नरतार ॥ नृप परिजन आनंदी
 या ॥ वा० ॥ चाधयो हो प्रेम अपार ॥ २० ॥ उतारी एक मंदिरें ॥
 वा० ॥ कनकवती नृपनंद ॥ प्रेमविलुक्षो हो प्राणीयो ॥ वा० ॥ महोदो
 ए मोहनो फंद ॥ २१ ॥ मनमां वसी ते मानिनी ॥ वा० ॥ पण मुखथी न
 कहाय ॥ एक दिन देखी कंतनें ॥ वा० ॥ कामिनी उनी रे थाय ॥ २२ ॥
 मांमयुं आसन वेसवा ॥ वा० ॥ कनी हो जोडी हाय ॥ चित्त चंचल

कद्वेष ॥ एक द्विं देवी कंतं ॥ वा० ॥ कामिनी जनी रे यय ॥ ११
 ए मदेना कद ॥ ११ ॥ मनमा वनी ते मानिनी ॥ वा० ॥ पण सुखी
 वा० ॥ कमकवती सुपनं ॥ प्रमद्विदो दो प्राणीया ॥ वा० ॥ मदे
 वा ॥ वा० ॥ वाया दो प्रम अपर ॥ १० ॥ जतरी एक मदि
 आया निजपुरे ॥ वा० ॥ मानिनी ने यतर ॥ सुप परिनन आन
 सु खिदर करी वया ॥ वा० ॥ दंपनी दोप सनाथ ॥ १० ॥ अरुका
 ॥ १० ॥ शिख धरी शिर ऊपर ॥ वा० ॥ चाली दो कंतनी साथ ॥ स
 ए अम शीख ॥ विनय वजनी जाले ॥ वा० ॥ कोनी म नांजीश नी
 मी न करशी जगार ॥ ११ ॥ नणं वेठालीखि नमी ॥ वा० ॥ चान
 अंगमा ॥ वा० ॥ अय्युण अलगा निवार ॥ देव युक्तना विनयमा ॥ वा० ॥ क
 देवाने अवर ॥ वा० ॥ वादे म यजे वरील ॥ १६ ॥ युण सवि थ
 १५ ॥ सु वुक्तने कदीयं वणु ॥ वा० ॥ सदेवयुणे वु सुशील ॥ वा
 पदेवी प्रनात ॥ शोभ्य सईमादे सदी ॥ वा० ॥ नाम धरावे सुजात
 ली दो मजले रे आय ॥ १४ ॥ खेले निवु खेत पठी ॥ वा० ॥ जग
 ॥ वा० ॥ ऊनवयु नाम धराय ॥ शोभा सवल उपराजले ॥ वा० ॥ व
 तणी ॥ वा० ॥ जना न रदीयु रे वाय ॥ १३ ॥ शील अखंतिन पाज
 ननी सेवना ॥ वा० ॥ कोजे दो देव रे थाय ॥ नीव निखर आस
 वयायु आकरा ॥ वा० ॥ वीजना कडुवा रे वीज ॥ १२ ॥ सऊन
 ॥ ११ ॥ तुंकारा नवि दीजिये ॥ वा० ॥ कदिये न मयु निरीज ॥
 सुकीश सर ॥ नोजन तुं करजे पठे ॥ वा० ॥ जमी रडे सवि परिव
 ने दोवे ऊनन लंठ ॥ १० ॥ सासु ससरनी तणी ॥ वा० ॥ विनय
 नी ॥ वा० ॥ आय वदेवी अखंन ॥ संगति मन करजा कदा ॥ वा०
 ण देई वणी ॥ वा० ॥ मात पिता द्विन लेख ॥ ९ ॥ नलि करेजा व
 ॥ ८ ॥ वागावे निज कुंवरी ॥ वा० ॥ युनद्विन जोडे विरोप ॥ शिख
 संपण सर ॥ देव गय रथ दीया वणा ॥ वा० ॥ कहे सई जय जयव
 वरती दो मंगलमाल ॥ ७ ॥ ससर वेई धन आपुखि ॥ वा० ॥ मणि
 देना ॥ वा० ॥ इशानवद संपाल ॥ परणीवी निजयुजिका ॥ वा०
 मनी ए जीवली ॥ वा० ॥ जलट अंग न मात ॥ ६ ॥ करे वरसव वि

हैये हर्ष बहु धरी, बोलाव्यो ते आदर करी ॥ १ ॥ कहे विनीत गुण
 धर्मकुमार, जगवन् न घटे ए आचार ॥ गुरु सम आसन वेसे जेह,
 कुर्विनीत नर कहियें तेह ॥ २ ॥ तमें महोटा योगीश्वर जाए, अमने
 मानेवी तुम आण ॥ तुम तूठे आपद सवि टले, मनोवांठित आवीने
 मले ॥ ४ ॥ निज पदाति वस्त्रोपरि तेह, वेगो कुमर धरी मन नेह ॥
 मुऊ नगरी पाउ धारो आज, सबल वधारो महारी लाज ॥ ५ ॥ कहे
 योगी सुण राजकुमार, तुं मुऊ मान्य सही निर्धार ॥ पण निःकिंचन तुं
 महाराज, शी तुम नक्ति करुं हुं आज ॥ ६ ॥ कहे कुमर तुमची आशीप,
 ए अम लक्ष् कोटी बकशीस ॥ कहे योगी ते साचुं कहुं, पण लौकिकमां
 एवुं लहुं ॥ ७ ॥ यतः ॥ नक्तिः प्रेम प्रियालापः, सन्मानं विनयस्तथा ॥
 दानेन हि विना लोके, सर्वमेतन्न शोचते ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ कहे कुमर पुन
 रपि एम वाणी, सुनजरें जुवो तमें गुणखाण ॥ करो आज्ञा अमने जे संत,
 ए तुम कहियें दान महंत ॥ ७ ॥ कहे योगी सुण जइ कुमर, ठे मुऊ
 पासें मंत्र उदार ॥ आठ वरस थयां करतां जाप, अम कीधो में बहुलो
 आप ॥ ९ ॥ तास विघन प्रतिघातक थाय, जो तुं एकरयण इण
 ठाय ॥ तो प्रयास सफलो होवे सही, एह वात जैरव मुख कही ॥ १० ॥
 कहे कुमर कर जोडी ताम, हुं हुं स्वामि तुमारे नाम ॥ कहो तेणें दिन
 आवुं तुम पास, साधो मंत्र तमें उल्लास ॥ ११ ॥ कहे योगी कालीचउ
 दशी, प्रेतवने आवेवुं निशि ॥ हुं पण त्रिहु शिष्यनी संघात, आवीश
 तिहां निसुणी एम वात ॥ १२ ॥ कुंवर प्रणाम करी घेर गयो, योगी
 मनें अति हार्पित थयो ॥ घर जइ चउदश दिवस सुजाण, आव्यो मता
 ए कुंवर अलिपाण ॥ १३ ॥ शिष्य संघातें योगी ताम, आव्यो कुंवर
 करे परणाम ॥ कहे योगी थाजे दशियार, मुऊ राखणें साहस धार
 ॥ १४ ॥ कहे कुमर चिंता मत, तमें करो ॥ कुण
 तुम साहामुं जाली शके, खड्ग उजो न ॥ १५ ॥ मंमल
 करा एक शत्रु स्थापियो, अग्नि मेवि ॥ इण असरें
 प्रकट्यो निर्घा वधिर ॥
 तिण वार, नी अ
 थयो तिहां ॥ १७

देयं देयं वदं धरी, वीणायां ते अक्षरं करी ॥ १ ॥ कहे विनीत गुण
 धर्मकर्मर, नगवत न वदे ए आचार ॥ गुक सम आसन वसे वदे,
 कुर्वनीत नर कहेयुं वेदे ॥ ३ ॥ तसं महेष्टा योगेश्वर जाण, अमने
 मानवी तुम आण ॥ तुम वदे अपठं सति ठडे, मनोवाहित आवीने
 मने ॥ ४ ॥ निज पदाति वखापरि वेदे, वेरो कर्मर धरी मन वेदे ॥
 मुक नगरी पाउ धारो आज, सवल वधारो महेरो लाज ॥ ५ ॥ कहे
 योगी सुण राजकर्मर, वं मुक मान्य सदी निधरि ॥ पण निःकिंचन वं
 महेराज, शी तुम नकि करुं हूं आज ॥ ६ ॥ कहे कर्मर तुमची आशीष,
 ए अम लक्षे कोटी वकशीस ॥ कहे योगी ते साचुं कसुं, पण लौकिकमां
 एवुं लसुं ॥ ७ ॥ यतः ॥ नकिः शुभ प्रियालापः, सन्मानं विनयसया ॥
 दानेन हि विना लोक, सर्वमेतद्य शीनते ॥ १ ॥ पूर्वोक्त ॥ कहे कर्मर पुन
 रपि एम वाणी, सिनजरं जिवो तसं गुणधराण ॥ करो आडो अमने जे संत,
 ए तुम कहेयुं दान महेत ॥ ८ ॥ कहे योगी सुण नदे कर्मर, वे मुक
 पासं मज उतर ॥ आठ वरस यथां करतो जाण, अम कीषां से वदुंतां
 आण ॥ ९ ॥ ताम विवत प्रतिपातक थाय, जो वं एकरपण ९५
 वाय ॥ तो प्रयास सफल होवे सदी, एहे वात सूरव मुख कदी ॥ १० ॥
 कहे कर्मर कर जोडी ताम, हूं वं सानि तुमारे नाम ॥ कदीं तेणुं हिंन
 आवुं तुम पास, साधो मज तसं उल्लास ॥ ११ ॥ कहे योगी जालीवच
 दंशी, धनवने आवुं विधि ॥ हूं पण विदुं शिष्यानी संघात, आवाश
 विदुं निष्ठुणो एम वात ॥ १२ ॥ कर्मर प्रणाम करी येर गथा, योगी
 मने अति देवुंन यथा ॥ पर नदे चउदंश विवस सुजाण, आख्यां ममा
 ये कर्मर अक्षिपाण ॥ १३ ॥ शिष्य संघाते योगी ताम, आख्यां कर्मर
 कहे परणाम ॥ कहे योगी याजे हूँ शिष्यर, मुक राखणुं सादेस धार
 ॥ १४ ॥ कहे कर्मर विना मत धरी, मुखे तसं मंत्रमंत्रन करी ॥ कृण
 तुम सादेसुं नाली शुक, सद्ग जाली जनी नवि चके ॥ १५ ॥ मंज
 करी एक शय स्थानिया, अदि प्रजाली दोमविधि किया ॥ ९५ अमरे
 प्रकृत्या निघात, विष वरि करतो साकोत ॥ १६ ॥ अडे विधा धरी
 निण वार, नीसिया नीपण आकार ॥ काज कराल वरो यमहेत, प्रक
 यथा विदुं एक अडित ॥ १७ ॥ अं ते नवि जाली मंत्राद, देवपाव

हैये हर्ष बहु धरी, बोलाव्यो ते आदर करी ॥ १ ॥ कहे विनीत गुण
 धर्मकुमार, जगवन् न घटे ए आचार ॥ गुरु सम आसन वेसे जेह,
 दुर्विनीत नर कहियें तेह ॥ २ ॥ तमें महोटा योगीश्वर जाए, अमने
 मानेवी तुम आण ॥ तुम तूठे आपद सवि टले, मनोवांठित आवीने
 मले ॥ ४ ॥ निज पदाति वस्त्रोपरि तेह, वेगो कुमर धरी मन नेह ॥
 मुऊ नगरी पाउ धारो आज, सबल वधारो महारी लाज ॥ ५ ॥ कहे
 योगी सुण राजकुमार, तुं मुऊ मान्य सही निर्धार ॥ पण निःकिंचन तुं
 महाराज, शी तुम नक्ति करुं हुं आज ॥ ६ ॥ कहे कुमर तुमची आशीष,
 ए अम लक्ष् कोटी वकशीस ॥ कहे योगी ते साचुं कहुं, पण लौकिकमां
 एवुं लहुं ॥ ७ ॥ यतः ॥ नक्तिः प्रेम प्रियालापः, सन्मानं विनयस्तथा ॥
 दानेन हि विना लोके, सर्वमेतन्न शोचते ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ कहे कुमर पुन
 रपि एम वाणी, सुनजरें जुवो तमें गुणखाण ॥ करो आजा अमने जे संत,
 ए तुम कहियें दान महंत ॥ ८ ॥ कहे योगी सुण जइ कुमर, ठे मुऊ
 पासें मंत्र उदार ॥ आठ वरस थयां करतां जाप, अम कीधो में बहुलो
 आप ॥ ९ ॥ तास विघन प्रतिघातक थाय, जो तुं एकरयण इण
 ठाय ॥ तो प्रयास सफलो होवे सही, एह वात जैरव मुख कही ॥ १० ॥
 कहे कुमर कर जोडी ताम, हुं तुं स्वामि तुमारे नाम ॥ कहो तेणें दिन
 आबुं तुम पास, साधो मंत्र तमें उच्चार ॥ ११ ॥ कहे योगी झालीचउ
 दशी, प्रेतवने आवेवुं निशि ॥ हुं पण त्रिहु शिष्यनी संघात, आवीश
 तिहां निसुणी एम वात ॥ १२ ॥ कुंवर प्रणाम करी घेर गयो, यांगी
 मनें अति हार्पित थयो ॥ घर जइ चउदश दिवस सुजाण, आव्यो मसा
 ए कुंवर असिपाण ॥ १३ ॥ शिष्य संघातें योगी ताम, आव्यो कुंवर
 करे परणाम ॥ कहे योगी थाजे दुशियार, मुऊ राखणनें साहस धार
 ॥ १४ ॥ कहे कुमर चिंता मत धरो, सुखें तमें मंत्रसाधन करो ॥ कुण
 तुम साहामुं जाली शके, खड्ग जाली उजो नवि चके ॥ १५ ॥ मंमल
 कर। एक शत्रु स्थापियो, अग्नि प्रजाली होमविधि कियो ॥ इण असरें
 प्रकट्यो निर्घात, विश्व बधिर करतो साक्षात ॥ १६ ॥ थइ द्विधा धरती
 तिण वार, नीसरियो नीपण आकार ॥ काल कराल बडो यमदूत, प्रकट
 थयो तिहां एक अद्भुत ॥ १७ ॥ शुं तें नवि जाण्यो मेघनाद, क्षेत्रपाल

कहे महोटे साद ॥ मुज पूजा विण कीधे एम, मंत्रसिद्धि तुं चाहे केम
 ॥ १७ ॥ ए पण राजतनय अज्ञान, तें ज्ञानविद्यो मति विज्ञान ॥ एम
 कही तेणें कियो सिंहनाद, क्षेत्रपालें मांमयो उन्माद ॥ १८ ॥ ते त्रण
 शिष्य योगीना जेह, पडिया उठलीने नृयें तेह ॥ बोव्यो कुंवर मन सा
 हस धरी, फोकट छुं गाजे मति फरी ॥ १९ ॥ जो क्षेत्रपाल तुं अति
 वलवंत, तो युद्ध कर मुज साथें महंत ॥ तेहने निरायुध देखी कुमार,
 मूके खड्ग दूरें तेणी वार ॥ २० ॥ वेहु सन्मुख आवीने अज्या, जुज
 दंभें मांहोमांहे नज्या ॥ वेहु वलीया कोइ नवि लडथडे, पगपडठंडें धर
 धडहडे ॥ २१ ॥ वज्रसार निजजुज जीडियो, कुमरें क्षेत्रपाल पीडियो ॥
 तस साहस देखी अयो तुष्ट, बोव्यो माग माग वत्स इष्ट ॥ २२ ॥ कहे
 कुमर मूकी जो देव, अया सुप्रसन्न मुज उपरें हेव ॥ तो मुज ऊपर
 करुणा धरो, योगीनुं मनोवांछित करो ॥ २३ ॥ कहे क्षेत्रपाल एहनो
 सिद्ध मंत्र, अयो तुज महातम गुणवंत ॥ सकल समीहितने पूरजो,
 चिंता सवि मननी चूरजो ॥ २४ ॥ पण तुं मनोवांछित मुज पास, माग
 माग वत्स सुगुणनिवास ॥ महाजाग्यें दरिसण देवनुं, निष्फल नवि थाये
 नीपन्युं ॥ २५ ॥ कहे कुमर तो तेम करो स्वामि, कनकवती होवे
 माहरे नाम ॥ परणी पण वांछे नवि जोग, कर्म तणो ए महोटी रोग
 ॥ २६ ॥ कहे ज्ञानें जोई क्षेत्रपाल, वश आजे तहारे नूपाल ॥ मुज
 प्रभाव कामितरूप हजे, तेहथी काज सकल सीजजे ॥ २७ ॥ वर
 देइ पहोत्यो निज ताम, योगी प्रशंसे कुमरने ताम ॥ साहसिक तुजथी
 मुज काम, सीधुं राखी तें मुज माम ॥ २८ ॥ अवरसर मुजने संचारजो,
 काम काज वलि फरमावजो ॥ एम कहीने योगी चालियो, कुंवर निजमंदिर
 हालियो ॥ २९ ॥ निज आवास कुंवर आवियो, साजन जन मनमां जा
 वीयो ॥ ढाल ठठे खंभें तेरमी, सांजलतां श्रोता मन गमी ॥ ३० ॥ ४१ ॥ ४१ ॥ ४१ ॥

॥ दोहा ॥

॥ अंग पखाली आपणुं, धरतो हर्ष अत्यंत ॥ वीर वेष मूकी शयन,
 कीधुं अइ निश्चित ॥ १ ॥ हवे बीजे दिन यामिनी, पहोर एक गइ जाम ॥
 अदृश्य रूप लेइ रमणी, मंदिर पहोतो ताम ॥ २ ॥ कनकवती दीवी
 तिहां, दोय दासी वेहु पास ॥ वात करे ते रंगनी, निसुणे कुमर उजास ॥ ३ ॥

हैये हर्ष बहु धरी, बोलाव्यो ते आदर करी ॥ १ ॥ कहे विनीत गुण
 धर्मकुमार, जगवन् न घटे ए आचार ॥ गुरु सम आसन वेसे जेह,
 दुर्विनीत नर कहियें तेह ॥ ३ ॥ तमें महोटा योगीश्वर जाण, अमने
 मानेवी तुम आण ॥ तुम तूठे आपद सवि टले, मनोवांछित आवीने
 मले ॥ ४ ॥ निज पदाति वस्त्रोपरि तेह, वेठो कुमर धरी मन नेह ॥
 मुऊ नगरी पाउ धारो आज, सबल वधारो महारी लाज ॥ ५ ॥ कहे
 योगी सुण राजकुमार, तुं मुऊ मान्य सही निर्धार ॥ पण निःकिंचन तुं
 महाराज, शी तुम नक्ति करुं हुं आज ॥ ६ ॥ कहे कुमर तुमची आशीप,
 ए अम लक्ष् कोटी वकशीस ॥ कहे योगी ते साचुं कछुं, पण लौकिकमां
 एबुं लक्षुं ॥ ७ ॥ यतः ॥ नक्तिः प्रेम प्रियालापः, सन्मानं विनयस्तथा ॥
 दानेन हि विना लोके, सर्वमेतन्न शोचते ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ कहे कुमर पुन
 रपि एम वाणी, सुनजरें जुवो तमें गुणखाण ॥ करो आज्ञा अमने जे संत,
 ए तुम कहियें दान महंत ॥ ७ ॥ कहे योगी सुण जइ कुमर, ठे मुऊ
 पासें मंत्र उदार ॥ आठ वरस थयां करतां जाप, श्रम कीधो में बहुलो
 आप ॥ ९ ॥ तास विघन प्रतिघातक थाय, जो तुं एकरयण इण
 ठाय ॥ तो प्रयास सफलो होवे सही, एह वात नैरव मुख कही ॥ १० ॥
 कहे कुमर कर जोडी ताम, हुं तुं स्वामि तुमारे नाम ॥ कहो तेणें दिन
 आबुं तुम पास, साधो मंत्र तमें उद्घास ॥ ११ ॥ कहे योगी क्वालीचउ
 दशी, प्रेतवने आवेबुं निशि ॥ हुं पण त्रिहु शिष्यनी संघात, आवीग
 तिहां निसुणी एम वात ॥ १२ ॥ कुंवर प्रणाम करी घेर गयो, योगी
 मनें अति हार्पित थयो ॥ घर जइ चउदश दिवस सुजाण, आव्यो मसा
 णे कुंवर असिपाण ॥ १३ ॥ शिष्य संघातें योगी ताम, आव्यो कुंवर
 करे परणाम ॥ कहे योगी थाजे हुशियार, मुऊ राखणनें साहस धार
 ॥ १४ ॥ कहे कुमर चिंता मत थरो, सुखें तमें मंत्रसाधन करो ॥ कुण
 तुम साहामुं जाली शके, खड्ग जाली उन्नो नवि चके ॥ १५ ॥ मंमज
 करा एक शव स्थापियो, अग्नि प्रजाली होमविधि कियो ॥ इण असरें
 प्रकट्यो निर्घात, विश्व बधिर करतो साहात ॥ १६ ॥ यइ द्विधा धरती
 तिण वार, नीसरियो चीपण आकार ॥ काल कराल वडो यमदूत, प्रकट
 थयो तिहां एक अद्भुत ॥ १७ ॥ शुं तें नवि जाण्यो मेवनाद, क्षेत्रपाल

देव देव वहु धरी, बोलिया ते अतर करी ॥ १ ॥ कहे विनीत गुण
 धनुकुमार, नागव न धरे ए आधार ॥ उर सम आसन वसे केहे,
 उरिनीत नर कहिये तेहे ॥ २ ॥ तसे महोटा योगीश्वर जाण, अमने
 मानवी तुम आण ॥ तुम देवे अपुढ सवि टले, मनोवाहित आवीने
 मने ॥ ४ ॥ निज पदाति वखापरि तेहे, वेवा कुमर धरी मन नेहे ॥
 मुजु नागरी पाव धारी आज, सवल वधारी महोरी लज ॥ ५ ॥ कहे
 योगी सुण राजकुमार, तुं मुजु मान्य सदी निधुर ॥ पण निःकंचन वुं
 महोरज, श्री तुम नलि करुं ई आज ॥ ६ ॥ कहे कुमर तुमवी आशीष,
 ए आम लके कोटी वकशीस ॥ कहे योगी ते सखि कस्युं, पण लोकमा
 एवुं लसुं ॥ ७ ॥ यतः ॥ नलिः प्रम प्रियाणापः, सन्मानं विनयसया ॥
 दानेन हि विना लोके, सर्वुमेतन्न योजते ॥ १ ॥ पूर्वुठाल ॥ कहे कुमर पुन
 रपि एम वाणी, सुनजरे जिवो तसे गुणराण ॥ कसे आडो अमने जे संत,
 ए तुम कहिये दान मदेन ॥ ८ ॥ कहे योगी सुण नदे कुमर, ते मुजु
 पासुं मज उदर ॥ आठ वरस यथा करतां जाण, अम कीयां से वहुला
 आप ॥ ९ ॥ तस विषन प्रतिपातक थाय, जो वुं एकस्यण देण
 ठण ॥ ती प्रयास सफला देवे सदी, एहे वान सौरव मुख कसे ॥ १० ॥
 कहे कुमर कर जोही नाम, हुं वुं स्लामि तुमार नाम ॥ कसे तेणे विन
 आवुं तुम पास, सायो मज तसे उखाम ॥ ११ ॥ कहे योगी जालीवच
 धरी, धनवने आवुं निधि ॥ हुं पण हिई शिष्यानी संघान, आवाश
 निदे निमुला एम वत ॥ १२ ॥ कुंवर प्रणाम करी वेर गयी, योगी
 मने अति देवुत यथा ॥ पर नदे वचदंश विवस सुजाण, आख्या ममा
 ए कुंवर असिपाण ॥ १३ ॥ शिष्य संघाने योगी नाम, आख्या कुंवर
 करे परणाम ॥ कहे योगी थावे दुशिवार, मुजु रावणाने सादेस धर
 ॥ १४ ॥ कहे कुमर विना मन धरी, सुखे तसे मजसाधन करी ॥ कुं
 तुम सादेसुं जाली शके, लडू जाली जनी नवि चके ॥ १५ ॥ मजने
 करी एक शय स्थापित, अलि प्रजाली दोमविधि क्रिया ॥ देण अमने
 प्रकथां निघान, विष वधुर करतां साजोत ॥ १६ ॥ यदे क्रिया धरती
 निज वार, नीमरिया नीपण आकर ॥ काज कराल वडी वमदेन, प्रकट
 यथा निदे एक अडित ॥ १७ ॥ अं ते नवि जाली मजनाथ, केउपाज

हैये हर्ष बहु धरी, बोलाव्यो ते आदर करी ॥ २ ॥ कहे विनीत गुण
 धर्मकुमार, जगवन् न घटे ए आचार ॥ गुरु सम आसन वेसे जेह,
 दुर्विनीत नर कहियें तेह ॥ ३ ॥ तमें महोटा योगीश्वर जाए, अमने
 मानेवी तुम आण ॥ तुम तूठे आपद सवि टले, मनोवांठित आवीने
 मले ॥ ४ ॥ निज पदाति वस्त्रोपरि तेह, वेठो कुमर धरी मन नेह ॥
 मुज नगरी पाउ धारो आज, सबल वधारो महारी लाज ॥ ५ ॥ कहे
 योगी सुण राजकुमार, तुं मुज मान्य सही निर्धार ॥ पण निःकिंचन तुं
 महाराज, शी तुम जक्ति करुं हुं आज ॥ ६ ॥ कहे कुमर तुमची आशीप,
 ए अम लहू कोटी बकशीस ॥ कहे योगी ते साचुं कहुं, पण लौकिकमां
 एवुं लहुं ॥ ७ ॥ यतः ॥ जक्तिः प्रेम प्रियालापः, सन्मानं विनयस्तथा ॥
 दानेन हि विना लोके, सर्वमेतन्न शोचते ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ कहे कुमर पुन
 रपि एम वाणी, सुनजरें जुवो तमें गुणखाण ॥ करो आज्ञा अमने जे संत,
 ए तुम कहियें दान महंत ॥ ७ ॥ कहे योगी सुण जइ कुमर, ठे मुज
 पासें मंत्र उदार ॥ आठ वरस थयां करतां जाप, अम कीधो में बहुलो
 आप ॥ ८ ॥ तास विघन प्रतिघातक थाय, जो तुं एकरयण ण
 वाय ॥ तो प्रयास सफलो होवे सही, एह वात जैरव मुख कही ॥ १० ॥
 कहे कुमर कर जोडी ताम, हुं हुं स्वामि तुमारे नाम ॥ कहो तेषें दिन
 आबुं तुम पास, साधो मंत्र तमें उच्चास ॥ ११ ॥ कहे योगी कालीचउ
 दशी, प्रेतवने आवेवुं निशि ॥ हुं पण त्रिहु शिष्यनी संघात, आवीश
 तिहां निसुणी एम वात ॥ १२ ॥ कुंवर प्रणाम करी घेर गयो, योगी
 मनें अति हर्षित थयो ॥ घर जइ चउदश दिवस सुजाण, आव्यो मसा
 ए कुंवर अस्तिपाण ॥ १३ ॥ शिष्य संघातें योगी ताम, आव्यो कुंवर
 करे परणाम ॥ कहे योगी याजे हुशियार, मुज राखणनें साहस धार
 ॥ १४ ॥ कहे कुमर चिंता मत धरो, सुखें तमें मंत्रसाधन करो ॥ कुण
 तुम साहामुं जाली शके, खड्ग जाली उजो नवि चके ॥ १५ ॥ मंमल
 करी एक शत्रु स्थापियो, अग्नि प्रजाली होमविधि कियो ॥ इण अतरें
 प्रकट्यो निर्घात, विश्व बधिर करतो साक्षात ॥ १६ ॥ यइ द्विधा धरती
 तिण वार, नीसरियो जीपण आकार ॥ काल कराल बडो यमदूत, प्रकट
 थयो तिहां एक अद्भुत ॥ १७ ॥ शुं तें नवि जाण्यो मेघनाद, क्षेत्रपाल

कहे महोटे साद ॥ मुज पूजा विए कीधे एम, मंत्रसिद्धि तुं चाहे केम
 ॥ १७ ॥ ए पण राजतनय अज्ञान, तें जोलवियो मति विज्ञान ॥ एम
 कही तेणें कियो सिंहनाद, क्षेत्रपालें मांमयो उन्माद ॥ १८ ॥ ते त्रण
 शिष्य योगीना जेह, पडिया उठलीने चूयें तेह ॥ वोव्यो कुंवर मन सा
 हस धरी, फोकट गुं गाजे मति फरी ॥ १९ ॥ जो क्षेत्रपाल तुं अति
 बलवंत, तो युद्ध कर मुज साथें महंत ॥ तेहने निरायुध देखी कुमार,
 मूके खड्ग दूरें तेणी वार ॥ २० ॥ वेहु सन्मुख आवीने अज्या, लुज
 दंभ मांहोमांहे नज्या ॥ वेहु वलीया कोइ नवि लडयडे, पगपडठेंधें धर
 धडहडे ॥ २१ ॥ वज्रसार निजचुज जीडियो, कुमरें क्षेत्रपाल पीडियो ॥
 तस साहस देखी अयो तुष्ट, वोव्यो माग माग वत्स इष्ट ॥ २२ ॥ कहे
 कुमर मूकी जो देव, अया सुप्रसन्न मुज उपरें हेव ॥ तो मुज ऊपर
 करुणा धरो, योगीनुं मनोवांठित करो ॥ २३ ॥ कहे क्षेत्रपाल एहनो
 सिद्ध मंत्र, अयो तुज महातम गुणवंत ॥ सकल समीहितने पूरजे,
 चिंता सवि मननी चूरजे ॥ २४ ॥ पण तुं मनोवांठित मुज पास, माग
 माग वत्स सुगुणनिवास ॥ महाभाग्यें दरिसण देवतुं, निष्फल नवि थाये
 नीपन्युं ॥ २५ ॥ कहे कुमर तो तेम करो स्वामि, कनकवती होवे
 माहरे नाम ॥ परणी पण वांठे नवि जोग, कर्म तणो ए महोटी रोग
 ॥ २६ ॥ कहे ज्ञानें जोई क्षेत्रपाल, वश थाजे तहारे चूपाल ॥ मुज
 प्रभाव कामितरूप हजे, तेहथी काज सकल सीजजे ॥ २७ ॥ वर
 देइ पहत्यो निज ठाम, योगी प्रगंसे कुमरने ताम ॥ साहसिक तुजथी
 मुज काम, सीधुं राखी तें मुज माम ॥ २८ ॥ अचसर मुजने संचारजो,
 काम काज वलि फरमावजो ॥ एम कहीने योगी चालियो, कुंवर निजमंदिर
 हालियो ॥ २९ ॥ निज आवास कुंवर आवियो, साजन जन मनमां जा
 वीयो ॥ ढाल ठठे खंठें तेरमी, सांजजतां श्रोता मन गमी ॥ ३० ॥ ४२१ ॥ ३ ॥

॥ दोहा ॥

॥ अंग पखाली आपणुं, धरतो हर्ष अत्यंत ॥ वीर वेप मूकी शयन,
 कीधुं अइ निश्चित ॥ १ ॥ हवे बीजे दिन यामिनी, पहार एक गइ जाम ॥
 अदृश्य रूप लेइ रमणी, मंदिर पहतो ताम ॥ २ ॥ कनकवती दीवी
 तिहां, दोय दासी वेहु पास ॥ वात करे ते रंगनी, निचुणे कुमर उछास ॥ ३ ॥

॥ ढाल चौदमी ॥

॥ वीर जिणोसर चरणकमल ॥ ए देशी ॥ कनकवती राणी तदा,
चित्त चंचल जाणी ॥ कारण कांङ्क ए सही, कुमरें पहिचाणी ॥ १ ॥
चरित्र जोउं नारीतणां, किहां जाये एह ॥ विषय न वांढे मुज्जुं, केम
चंचल तेह ॥ २ ॥ पासें आवी उजो रह्यो, पण सा नवि देखे ॥ कनक
वती दासी जणी, पूढे सुविशेषें ॥ ३ ॥ रात गइ ढे केटली, कहे स्वामिनि
वेला ॥ तिहांकणें जावानी थइ, हवे उठो सलीला ॥ ४ ॥ तुरत उठी
उतावली, नाही मन रंगें ॥ अंग विक्षेपन अति जलां, दीपे शुचि अंगें ॥
॥५॥ वस्त्र जलां पहेखां वली, आचरण अमूल ॥ द्वार हैथे सोहे नवलखो,
नाके नथफूल ॥ ६ ॥ घम घम घमके घूघरी, नूपुर पाय सोहे ॥ शोण
शृंगार कखा जला, रूपें मन मोहे ॥ ७ ॥ देवकुंवरी सम उंपती, रूप
वंती रासा ॥ जर यौवनमांहे जामिनी, शोणे घणुं ज्यामा ॥ ८ ॥ देवा
वास समान एक, रचीयुं ए विमान ॥ कुंवर जोइने थयो, मनमां हे
रान ॥९॥ आवी वेसे कामिनी, दासी संघातें ॥ कुंवर चिंते चित्तमां, उजो
एकांतें ॥ १० ॥ एता दिन हुं जाणतो, ए दीसे सुंहाली ॥ पण जोरावर
ए घणुं, नजरें में जाली ॥ ११ ॥ कामिनी न होय केहनी, वानां सो
कीजें ॥ पण एहना अंतरंगनी, नवि वात लहीजें ॥ १२ ॥ यतः ॥ रवि
चरिधं ॥ जलमज्जे ॥ मुख बोले मीठी घणुं, मनमांहे धीठी ॥ लारी
सरीखी कामिनी, सृष्टियें अवली न दीठी ॥ १३ ॥ यतः ॥ आवर्त्तः संशया
नां ॥ नर जोलाने जोलवे, मानिनी मतवाली ॥ विफरी वाघणनी परें, वि
रुई विकराली ॥ १४ ॥ पण जोउं एक वार हुं, जाये जिहां चाधी ॥ केड
न मूकुं एहनी, आशे जे जावी ॥ १५ ॥ एम विमासी विमानमां, वेतो
एक देशें ॥ वात करे त्रणे मली, चाली आकाशें ॥ १६ ॥ दूरें रह्यो
सवि सांजले, गुणधर्म सोजागी ॥ नारीचरित्र जोवा तणी, मनमां
रह लागी ॥ १७ ॥ उत्तरदिशें उतावळुं, ते चाल्युं विमान ॥ कुंवर मन
मांहे धरे, जगवंतुं थ्यान ॥ १८ ॥ दूरें जइने उतळुं, आकाशधी हेतुं ॥
वन अशोकने आंतरे, एक सरोवर दीतुं ॥ १९ ॥ स्थानक ते रजिया
मणुं, शोना अति सारी ॥ देखीने ते उतरी. दासीयुं नारी ॥ २० ॥ एक
विद्याधर तिहां अठें, आवी तस पासें ॥ कनकवती कर जोडीने, प्रणमं

उल्लासैं ॥ ११ ॥ पासैं बेठी कामिनी, कुंवर पण बेठो ॥ चिंते कौतुक
 एहवो, किहांये नवि दीठो ॥ ॥ १२ ॥ अन्य वली आवी तिहां, रामा
 त्रण रूडी ॥ ते विद्याधरने नमी, बेठी नहीं कूडी ॥ १३ ॥ अन्य वली
 आव्या तिहां, खेचर बहु बलिया ॥ ते विद्याधरशुं सवे, आवीने
 मलीया ॥ १४ ॥ ते वनमां एक देहरं, आदीश्वर केरं ॥ दंम कलश
 ध्वजें शोचतुं, दीपे ते जलेरं ॥ १५ ॥ ते सह्ये तिहां आवीयां, जिन
 जक्तिने काजें ॥ नाटक वारक केहनो, पूठयुं खेचरराजें ॥ १६ ॥ कनक
 वती उठी तिहां, परिधान समारी ॥ मांमे ते मनमोदशुं, नाटकविधि सारी
 ॥ १७ ॥ हाव जाव दाखे जला, नाचे तन वाली ॥ थेइ थेइ पाठ मुखें
 जणे, अंगें सुकुमाली ॥ १८ ॥ त्रणे सही जोडें रही, एके वीणा वाइ ॥ बीजी
 वेणु वजाडती, जिनना गुण गाइ ॥ १९ ॥ त्रीजी ताल देई करी,
 गाये तस जोडें ॥ गुणवंती चारे मली, नाचे मन कोडें ॥ २० ॥ पास
 रह्यो देखे सह्य, गुणधर्म कुमार ॥ विस्मय पास्यो चित्तमां, जोइ नाटक
 सार ॥ २१ ॥ नाच करंतां नारीनी, पडी किंकणी माला ॥ लघुकलशुं कुं
 वरें ग्रही, करशुं तेणी बेला ॥ २२ ॥ नाटक अंतें जोइयुं, नवि दीठी तेणें ॥
 मनमांहे चिंता उपनी, एह लीधी केणें ॥ २३ ॥ निज निज स्थानक
 सह्य गया, नारी संघातें ॥ कुंवर निजपुर आवीयो, तेह पाठली रातें
 ॥ २४ ॥ निज घर आवी विमानथी, उत्तरी ते बेला ॥ हर्षेणुं सूतो जइ,
 कुंवर निजशाला ॥ २५ ॥ ठठे खंठें चौदमी, ढालें सुणो साचुं ॥ राम
 कहे विपया समुं, काम कोइ न काचुं ॥ २६ ॥ सर्वगाथा ॥ ४६० ॥ ४ ॥

॥ दोहा ॥

॥ परचातें तेडी कुमर, मंत्रीसुत निज मित्र ॥ आपी किंकणीमा
 लिका, समजावी सवि सूत्र ॥ १ ॥ तुम पासैं ए राखजो, बंधव सुणो
 विचार ॥ अवसर जोई आपजो, कनकवतीने सार ॥ २ ॥ एम शिक्का
 देइ करी, मित्रसाथें गुणधर्म ॥ नारीमंदिर आवीयो, करवा चिंतित कर्म
 ॥ ३ ॥ उठीने उन्नी थई. प्रमदा गुणनी खाण ॥ आप्युं आसन बेसवा,
 आगल रही सुजाण ॥ ४ ॥ कुमर कहे मांमो तमें, रामत पासा सार ॥
 रमवा बेठा विदु जणा, थाणी हर्ष अपार ॥ ५ ॥

॥ ढाल पन्नरमी ॥

॥ रूडी रूडी रामतडीने रसें परवश थयो रे लाल ॥ ए देशी ॥ रंग
 नरी रूडी रे वेहु रामत रमे रे लाल, खेले खेले कनकवती ने कंत ॥ रंग
 रंगीला रे पासा सोगतां रे लाल, हसी हसी नाखे दाव उलसंत ॥ १ ॥
 रंगनरी ॥ ठेल ठवीलां रे वेहु जोडें रद्यां रे लाल, जोली जोली न लहे
 मनडानी वात ॥ करि करि चतुराइ दावने चालवे रे लाल, जोइ जोइ दावें
 कीयो पियु मात ॥ रंग ॥ २ ॥ हेजे हरीणाही रे कहे निज कंतने रे
 लाल, पियु एक ग्रहणक मुजने सार ॥ मित्रनी सहामुं रे तेणें अवलो
 कीयुं रे लाल, आपी आपी मित्रें हो माला तेवार ॥ रंग ॥ ३ ॥ देखीने
 बोली रे किंकणीमालिका रे लाल, आवी आवी किहांथी तुमारे हाथ ॥
 कहे प्रीतम तुमें ए पाडी किहां रे लाल, न लहुं न लहुं किहां पाडी प्राणनाथ
 ॥ रंग ॥ ४ ॥ वालम मुजने दाखो ए किहांथकी रे लाल, लाधी लाधी
 आज तुम्हें अवनशी ॥ कुमर कहे मुज मित्र लहे सहु रे लाल, कहेजे
 कहेजे तुजने धरीय जगीश ॥ रंग ॥ ५ ॥ ठे नैमित्तिक माहरो मित्रजी
 रे लाल, जाणे जाणे एह सयल अवदात ॥ ते कहे कनकवतीने हुं
 सही रे लाल, धारी धारी कालें कहीश अवदात ॥ रंग ॥ ६ ॥ ते वेहु
 आव्या रे आपण मंदिरें रे लाल, कनकवती कहे रे एम ॥ सहीयर ठानी
 रे वात ए आपणी रे लाल, वहेली वहेली कंतजीयें लही केम ॥ रंग ॥
 ॥ ७ ॥ जाणी होजे शुं माहरी वातडी रे लाल, बोले बोले कनकवती
 एम बोल ॥ दीसे अजव गति एहनी अचिनवी रे लाल, नहिं नहिं कोइ
 जग एहनी तोल ॥ रंग ॥ ८ ॥ रात पडी तेणें चेत्यें तेम गयो रे लाल,
 रंगें रंगें कनकवतीनी साथ ॥ वीणा वातां रे तास चरणतणुं रे लाल,
 आव्युं आव्युं एक नूपुर तस हाथ ॥ रंग ॥ ९ ॥ वणुं वली खोळ्युं रे तेम
 लाध्युं नहीं रे लाल, थइ थइ मनमांहे दिलगीर ॥ मंदिर आवी रे कुंवर घरे गयो
 रे लाल, सूतो सूतो धरी दीलढामां हे धीर ॥ रंग ॥ १० ॥ थयें प्रजातें
 रे मित्रशुं आवीयो रे लाल, वेगो वेगो श्रीगुणधर्म कुमार ॥ गोष्टि करीने रे
 पियुशुं प्रेमनी रे लाल, पूठे पूठे मित्र नणी तेणी वार ॥ रंग ॥ ११ ॥ ते
 पण बोले रे निमित्त तणे वलें रे लाल, जाण्युं जाण्युं गयुं नृपण वली आज ॥
 मन शंकाणी रे वात सुणी करी रे लाल, कहे कहे फांगट ए श्यां अ

वाज ॥ रं० ॥ १२ ॥ वातडली जो जाणी रे होय तो कहो छुं गयुं रे
 रे लाल, मातुं मातुं वात तुमारी साच ॥ आपण वीती रे वात न केम
 लहे रे लाल, नांखे नांखे कुमर एणी परें वाच ॥ रं० ॥ १३ ॥ माया गाली रे
 बोले मानिनी रे लाल, सुण सुण साहिव चतुर सुजाण ॥ में नवि जाण्युं
 रे पियुडा माहरुं रे लाल, खोयुं खोयुं ए नूपुर किए ठाण ॥ रं० ॥ १४ ॥
 मर्म ने मोसा रे पीयुजी न बोलीयें रे लाल ॥ नहिं नहिं हुं कांइ तेहवी
 नार ॥ राज हुकमथी रे इण मंदिर रहुं रे लाल, महेव्युं महेव्युं में नवि
 घरनुं वार ॥ रं० ॥ १५ ॥ आण न लोपी रे पीयुडा ताहरी रे लाल, साचुं
 साचुं कुमर कहे कहो एह ॥ कोइके आवी रे मुजने एम कहुं रे लाल,
 टालो टालो मुज मनडानो संदेह ॥ रं० ॥ १६ ॥ सुण सुण गुणधर्म
 कुमारजी ताहरी रे लाल, वारू वारू कनकवती वर नारि ॥ दूरें जातीनुं
 रे नूपुर पगतणुं रे लाल, पडयुं पडयुं नीकलीने तेणी वार ॥ रं० ॥ १७ ॥
 जेणें जेणें ए लीधुं रे तेहने जाणुं सही रे लाल, लीधुं लीधुं कुंटावी तस
 पास ॥ वात कहीने रे अणवोव्यो रह्यो रे लाल, चिंते चिंते कनकवती
 ते उदास ॥ रं० ॥ १८ ॥ सही मुज सार्थे रे आव्यो नाहलो रे लाल,
 करी करी कोइ प्रयोगविज्ञेप ॥ मुज जरतारें रे सघलो माहरो रे लाल,
 दीगो रात तणो सवि दोप ॥ रं० ॥ १९ ॥ यतः ॥ कूरजइ कला चांड़ी,
 चोरिकाक्रीडितानि च ॥ प्रकटानि तृतीयेऽन्दि, सुचिन्हं सुकृतानि च ॥
 ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ चिंतीने कनकवती कहे माहरुं रे लाल, आपो आपो
 ते नूपुर मुज नाथ ॥ कुमर कह्याथी रे मतिसागर तदा रे लाल, सोंप्युं
 सोंप्युं कनकवतीने रे हाथ ॥ रं० ॥ २० ॥ पुनरपि बोली रे कनकवती
 तदा रे लाल, साचुं साचुं कहो मुजने तुमें कंथ ॥ किहांथी जडयुं रे ए
 नूपुर माहरुं रे लाल, नांखो नांखो तेह तणुं विरतंत ॥ रं० ॥ २१ ॥ ठठे
 खंनं रे ढाल ए पन्नरमी रे लाल, दाखी दाखी रामविजय मुरसाल ॥
 जगमांहि महोटी रे माया नारीनी रे लाल, धन्य धन्य जेणें वरजी ए
 जाल ॥ रं० ॥ २२ ॥ सर्वगाथा ॥ ४८७ ॥ श्लोक तथा गाथा मली ॥८॥

॥ दोहा ॥

॥ कनकवती कहे जिहां कणो, पडियुं नूपुर स्वामि ॥ ते स्थानक दीतुं
 तुमें, के निसुणुं तस नाम ॥ १ ॥ कनकवती कहे कंतजी, ए दीतुं तमें

रीज ॥ पण अन्यें जो कह्युं होवे, तो करुं अग्निनी धीज ॥ ३ ॥ एम
कही चिंतातुर थइ, देइ गलहडो गल ॥ गतउत्साहा कामिनी, नीचुं रही
निहाज ॥ ३ ॥ चिंताजलनिधिमां पडी, नयण जरे बहु नीर ॥ देखीने
कायर थयो, कुंवर घणो दिलगीर ॥ ४ ॥ मोहनगारी मानिनी, मोह्यो
सघलो लोक ॥ साहमा उशियाला करे, जव लेइ वेसे शोक ॥ ५ ॥ वा
त करे कुंवर हसी, नयण सल्लूणे ताम ॥ रोप न कीजें वालही, प्रेम त
णे ए ठाम ॥ ६ ॥ दोप नहिं तुजमां किस्यो, हुं जाणुं निर्धार ॥ वात
सुणी हर्षित थइ, कनकवती तेणि वार ॥ ७ ॥

॥ ढाल शोलमी ॥

॥ नयर रतनपुर जाणीयें ॥ ए देशी ॥ कुंवर निजमंदिर गयो, मित्र
सहित हर्षित थयो, नवि जयो, रोप किस्यो लवलेशथी ए ॥ १ ॥ रातें
वली गुणधर्म ए, आव्यो नारीघरमें ए, शर्में ए, एकांतें उजो रह्यो ए ॥१॥
वात करे ते दासी ए, सुण स्वामिनि उल्लासी ए, जासी ए, तिहां क्यारें
वेला दुई ए ॥ ३ ॥ वेलातिक्रम थारो ए, तो विद्याधर रीसाशे ए, गाशे ए,
तुज विण तिहां कुण गीतने ए ॥४॥ निसासो तव नाखे ए, कनकवती एम
नांखे ए, राखे ए, लाज इहां प्रभु माहरी ए ॥५॥ मंदजाग्य धणीयाणी ए,
कठिन ए कर्म कमाणी ए, जाणी ए, कीधी आवे आपणी ए ॥६॥ जनक
घरे विद्याधरें, एणें मुजने अति आदरें, खेचरें, पूर्वे शपथ करावियो ए ॥
॥७॥ मुज आदेश थया विना, कांत म सेवे एकमना, रीजना, वोल म
वोलिश कंतशुं ए ॥८॥ रातें वेसी विमानमां, आवेवुं मुज शानमां, तानमां,
मग्न रहेवुं मानिनी ए ॥ ९ ॥ एह कह्या उपरें वली, ए दीठे थइ व्याकुली,
मन रुली, परण्यो ए राजकुमारने ए ॥ १० ॥ ए पियु मुज वल्लन घणुं,
एहनी उपमा शी जणुं, मन तणुं, चिंतित माहरुं मन लहे ए ॥११॥ पण
तिहां जाती एणें सही. जाणी वात सकल लही, वली कही, वात उठे
एणें वातडी ए ॥ १२ ॥ विद्याधर दीठो तिहां, नित प्रति जावें वुं जिहां,
कहो किहां, वात लही ए माहरी ए ॥ १३ ॥ कुण जाणे मुज पीयु जणी,
विद्याधर हणे निर्गुणी, अत्रगुणी, के अथवा मुजने हणो ए ॥ १४ ॥ आ
शंका मुज मोटी ए, वहेनी चित्तमां खोटी ए, चोटी ए, दीधी खेचर
हाथमां ए ॥१५॥ यावन काल नवीन ए, बहुल उपाय अधीन ए, अदीन

ए, उत्तम कुल ए माहरं ए ॥ १६ ॥ लोक विपम ए वांको ए, जेम तेम
लवय निःशंको ए, आंको ए, कोइ नहिं मुज कर्मनो ए ॥ १७ ॥ तथा च
श्लोकद्वयं ॥ नवीनोयौवनारंजो, बह्वपायः प्रवर्त्तते ॥ उत्तमे च समा
ख्याते, पितृश्वसुरयोः कुले ॥ १ ॥ अत्यंतविपमोलोको, यद्वा तद्वा प्रज
व्यति ॥ कार्याणां गहनत्वेना, कुलीञ्चूतास्मि सर्वथा ॥ २ ॥ पूर्वढाल ॥
वात सुणी दासी कहे, स्वामिनी आज तुं इहां रहे, मत बीहे, आज तुं हुं
जाइश एकली ए ॥ १८ ॥ कहिंश हुं माहरी ते सखी, कांइक मीजें ठे
इःखी, मन रखे, रोप हैयामां लावता ए ॥ १९ ॥ कनकवती कहे तुज
विना, कुण पूरे मुज कामना, नामना, ताहरी माहरे मन वसी ए
॥ २० ॥ रचिय विमान ते सोंपीयुं, जे जोइयें ते आपीयुं, स्थापियुं,
प्रेम घणे ते उपरें ए ॥ २१ ॥ कुमर विचारे एहनो, राग ए सबल सनेह
नो, मेहनो, दरिण जेम चातक मनें ए ॥ २२ ॥ दासीसाथें आज ए,
जाइ करुं निज काज ए, लाज ए, हवे एहनी राखुं नहिं ए ॥ २३ ॥ स्त्री
नाटक जोवा तणी, होंप हैये एहने घणी, नवि गणी, लाज एणे निज
कुल तणी ए ॥ २४ ॥ परनारीने पाप ए, लहियें बहु संताप ए, आप ए,
जगगुरु एम जांखे सुणो ए ॥ २५ ॥ यतः ॥ पंडत्वमिंद्रियवेदं, दोर्जाग्यं
च जवे जवे ॥ जवेन्नराणां स्त्रीणां चा, न्यकांतासक्तचेतसाम् ॥ ३ ॥ पूर्व
ढाल ॥ काहुं कूटी वांक ए, ए मुज आगल वाक ए, जांक ए, जोउं एह
नी केडनो ए ॥ २६ ॥ वेठो तेह विमानमां, उनी चाव्युं असमानमां, ता
नमां, तुरत जइ पहोच्युं तिहां ए ॥ २७ ॥ चेटी विमानथी उतरी, खेचर
नें प्रणिपत करी, आदरें, उनी जिनालय आवीने ए ॥ २८ ॥ खेचर पूठे
एवडी, कां रे तुज वेला चढी. परवडी, तुज स्वामिनी दीसे नहिं ए ॥ २९ ॥
कहे कांइक तन काहेलो, मर्म कह्यो में माहिलो, वाहलो, सुणी वेरी थइ
बोलीयो ए ॥ ३० ॥ स्त्रात्र करां तुमें खेचरा, ए पापिणी दासी वरा, सा
दरा. करुं चिकित्सा एहनी ए ॥ ३१ ॥ एम कहिने केगें यही, दासी वि
चारी जोइ रही, कोइ नहीं. जे ठोडावे तेहने ए ॥ ३२ ॥ खड्ड उगामीने
रह्यो, नवि माने कोइनो कह्यो. नवि लह्यो, परमारय पर मन तणो ए ॥
३३ ॥ स्त्रीहत्या महोटी कही, क्रोध चढ्यो जाणे नहिं, जग सही, क्रोध
अग्नि ए आकरो ए ॥ ३४ ॥ समर समर जे ताहरे, दासी कहे एक मा

हरे, वाहारे, श्री गुणधर्म कुमारजी ए ॥ ३५ ॥ त्रिचुवनपूज्य ए जिनवरु,
 महारे एह परमेश्वरु, सुखकरु, आ नव परनव ए सही ए ॥ ३६ ॥ ते
 समस्यो जिन चित्तथी, हवे न चूकुं ध्यानथी, कोहि नथी, मुज चिंता मर-
 वा तणी ए ॥ ३७ ॥ नहिं कोइ मात ने चात ए, महारो सगो सुजात
 ए, वात ए, एक गुणधर्मनी माहरे ए ॥ ३८ ॥ खड्ग उपाडे जाम ए, कुम
 रें हांक्यो ताम ए, काम ए, नीच तणुं मांम्युं किस्थुं ए ॥ ३९ ॥ प्रकट
 थइने एम कहे, नारीवध नव नव दहे, सद्धहे, सज्जन गुरुनी शीखडी
 ए ॥ ४० ॥ यडुक्तं ॥ विश्वस्ते व्याकुले लोके, बालवृक्षावलाजने ॥ प्रह
 रंति च ये पापा, ध्रुवं ते यांति दुर्गतिम् ॥ ४ ॥ पूर्वढाल ॥ स्त्रीहत्या पात
 क तणा, कारक सांजल निर्गुणा, तुज तणा, अवगुण हुं केता कहुं ए ॥
 ४१ ॥ प्रायश्चित्तनो दाता ए, मलियो हुं विख्याता ए, ज्ञाता ए, जेम जग
 मांहे गुरु कह्यो ए ॥ ४२ ॥ विद्याधर तव बोलीयो, अंतरपट सवि
 खोलीयो, मलीयो, मनोवांठित सवि माहरो ए ॥ ४३ ॥ जेहनो घात
 में थ्याइयो, ते मुज सहामो आवीयो, पाइयो, तुं कीधुं हवे ताहरुं ए ॥
 ४४ ॥ सहामा वेहु आवी अज्या, वलीया बहु रोपें चज्या, ते लज्या,
 एक कामिनीने कारणें ए ॥ ४५ ॥ अवसर लही कुमार ए, कीधो तेहने
 प्रहार ए, सार ए, शिर ठेद्युं खेचर तणुं ए ॥ ४६ ॥ सेवक सहु तस ना
 वा ए, कर दीठा घणुं काठा ए, माठां ए, कर्म कस्यां आवे उदे ए ॥
 ४७ ॥ सहुने दीध दिलासो ए, शा माटें तुमें नासो ए, सांसो ए, मत क
 रशो कोइ रागनो ए ॥ ४८ ॥ त्रण वाला आवी नमी, अमें परवशता बहु
 खमी, सवि शमी, आपद आज अमारडी ए ॥ ४९ ॥ ठेके खंमें शोलमी, ढाल
 सज्जन मन संक्रमी, नवि गमी, राग दशा परनारीनी ए ॥ ५० ॥ ५४४ ॥ ११ ॥

॥ दोहा ॥

॥ अमने सूकावी तम्हें, विद्याधरथी आज ॥ ठोडावे जीव पापथी, जे
 म गुरु गरीब निवाल ॥ १ ॥ कहे गुणधर्म कुमार जी, कुण तुमचो अव
 दात ॥ एक चतुरा बोली तिहां, सुण स्वामी मुज वात ॥ २ ॥ शंखपुरा
 निध नयरनो, राजा डुर्जचराज ॥ पुत्री कमलवती अहुं, तेहनी हुं महा
 राज ॥ ३ ॥ नय एहने में वल्लही, वांठयो नहिं लगार ॥ कुमर कहे नय
 नेहथी, किंवा कोप विकार ॥ ४ ॥ कुमरी कहे ए उपरें, नहिं नेह तिल

मात ॥ रमती मुजने अपहरी, कुट्टिमथकी कुजात ॥५॥ निजरसना ठेदन
 जणी, हुं तव थइ उजमाल ॥ तव खेचर मुजने कहे, म मर म मर सुण
 वाल ॥ ६ ॥ रमण कह्या विण माहरे, पडिवजवो नहिं प्रेम ॥ मुज समी
 प नित्य आववुं, रजनीमांहे हेम ॥ ७ ॥ तुज सुशीलने होयशे, मुज
 अनुजाव विमान ॥ शीखवगुं नाटककला, करे मुज आगल गान ॥ ८ ॥
 एम जो आणा माहरी, माने तुं निर्धार ॥ तो मूकुं तुज जीवती, में मा
 न्युं तेण वार ॥ ९ ॥ एम बीजी त्रीजी तथा, वश कीधी एणें स्वामि ॥
 तुमें एहने हणतां थकां, साखुं अमारुं काम ॥ १० ॥

॥ ढाल सत्तरमी ॥

॥ पंथीडा रे संदेशडो ॥ ए देशी ॥ कुमर सुणी एम वातडी, कहे तेह
 नेजी आम ॥ जाउं तुमें निजमंदिरें, करो उत्तम काम ॥ १ ॥ जाग्य
 वलें वालम वडो, मय्यो पुण्यनें योग ॥ चेटी मन हरखी घणुं, मुज स्वा
 मिनी योग ॥ जाग्य० ॥ २ ॥ दासी संघातें हो आवीयो, कुंवर निज
 धाम ॥ कनकवती दासी जणी, पूठे एम ताम ॥ जाग्य० ॥ ३ ॥ गुं मु
 ज कंतें मारियो, ते खेचर डुष्ट ॥ वात कही सवि मांमिने, थइ सांजली
 तुष्ट ॥ जा० ॥ ४ ॥ निज पियु पौरुप सांजली, जुजवल परशंस ॥ करती
 हो कंतने पय नमे, हरख्यो निज हंस ॥ जा० ॥ ५ ॥ वात करे रसरंगनी,
 जामिनी चरतार ॥ मूकी हो मननो आंतरो, गणे धन्य अवतार ॥ जा० ॥
 ६ ॥ गोष्टि करे मन मेजिने, हैडे धरी हेज ॥ रात समे तेणे मंदिरें, पो
 ढ्यां सुख सेज ॥ जा० ॥ ७ ॥ सूतां हो आवी निड्डी, रमतां तेणें
 रात ॥ इण असरें जे नीपनी, निसुणो ते वात ॥ जा० ॥ ८ ॥ हतवि
 याधर बंधवो, अनुजात ते वार ॥ निजबंधव माखो सुणी, चढयो क्रोध
 अपार ॥ जा० ॥ ९ ॥ आव्यो हो रीपें दोढीने, जिहां सूतां हो द्योय ॥
 जूदां हो वेहुने समुड्मां, नाखे खेचर सोय ॥ जा० ॥ १० ॥ जुवो हो
 विषयनी वारता, अनरथ एम थाय ॥ विषय विलुड्हां मानवी, फरे चिट्ठुं
 गतिमांय ॥ जा० ॥ ११ ॥ जाग्यसंयोगें हो पामीयो, गुणधर्म कुमार ॥
 फलक कोइ वाहण तणुं, जलमां तेणी वार ॥ जा० ॥ १२ ॥ वेलें तणा
 तो हो चाजियो, अति डुःखीयो हो दीन ॥ नूख्यो तरप्यो हां अति घणो,
 सहु कर्म आधीन ॥ जा० ॥ १३ ॥ सातमे दिवसें हो कुमरजी, जलनि

धितट दीठ ॥ पार लही नमतां थकां, तापस एक दीठ ॥ जा० ॥ १४ ॥
 प्रणिपत्य करी बेठो तिहां, आवी डुःखिणी हो ताम ॥ कनकवती निज
 वल्लजा, मन चिंते हो आम ॥ जा० ॥ १५ ॥ गुं ए कनकवती होवे, आ
 वी हरो केम ॥ कुमरनो संशय वारवा, कुलपति कहे एम ॥ जा० ॥
 १६ ॥ आजथकी त्रीजे दिने, पहेजां सुण आंहि ॥ वनमांहे आवी ए
 कामिनी, धरती डुःख अथाह ॥ जा० ॥ १७ ॥ तरुशाखायें निज आतमा,
 बांधीने हो तेह ॥ मरवाने उद्यत थई, तुऊ विरहें हो एह ॥ जा० ॥ १८ ॥
 पाश ठेदी में जीवती, राखी ए बाल ॥ आश्रम आणी हो माहरे, साले
 प्रेमनुं साल ॥ जा० ॥ १९ ॥ जाणी आगमन निमित्तथी, ताहरुं इण ठार ॥
 राखी दिलासो में देइने, ताहरी ए नारि ॥ जा० ॥ २० ॥ वात सुणी हर्षि
 त थयो, मिव्यां दंपती दोय ॥ विरह टव्यो शाता थइ, करे कर्म सो होय ॥
 जा० ॥ २१ ॥ कदली आदिक तरुफले, करी प्राणनी वृत्ति ॥ रातें हो
 सूतां जतागृहें, वेहु थइ निश्चित ॥ जा० ॥ २२ ॥ सात दिवस जलमां
 गया, सात वरस समान ॥ वहाली हो ताहरा विरहनुं, थयुं डुःख
 असमान ॥ जा० ॥ २३ ॥ आज वियोगनुं डुःख टव्युं, थयुं शीतल अंग ॥
 पुण्यसंयोगें हो ताहरो, मव्यो मुजने हो संग ॥ जा० ॥ २४ ॥ सुख
 निझामांहे पोढियां, जूवो कर्म विलास ॥ खेचर आव्यो हो तिहांकणे,
 विरुई विषयनी आश ॥ जा० ॥ २५ ॥ पुनरपि वेहुने उपाडीने, नारव्यां
 समुझमजार ॥ वैर वधे जेहथी घणां, ठंमो विषय विकार ॥ जा० ॥ २६ ॥
 आयु जोरावर वेहुनुं, तरी फलकें हो नीर ॥ वेहु मव्यां वली एकठां, पामी ज
 लनिधि तीर ॥ जा० ॥ २७ ॥ कुमर कहे सुण कामिनी, विधिविलसित
 एह ॥ विषयासक्त ए जीवने, शो विपत्ति संदेह ॥ जा० ॥ २८ ॥ यतः ॥ अनेनैव
 विरागेण, त्यक्ताशेषपरिग्रहाः ॥ निर्ममत्वान्महासत्त्वा, स्तपः कुर्वति साधवः
 ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ कनकवती कहे कंतने, श्यो खेद ए नाथ ॥ पौरुपदूंतें विपा
 द कां, करो जेम अनाथ ॥ जा० ॥ २९ ॥ यतः ॥ दीनोऽरौन विदधे, नैक
 ङ्गत्रा कृता मही ॥ विषया नोपञ्जुक्ताश्च, प्रकारं खिद्यसंग किम् ॥ २ ॥ पूर्व
 ढाल ॥ वात रमणीनी हो सांजली, गुणधर्म कुमार ॥ नारिसंघातें हो रातमां,
 रहे ते हुशीयार ॥ जा० ॥ ३० ॥ केडें विद्याधर आवियो, वैर लेवा काज ॥ जा
 इश किहां वलि पापीया, नहिं महेखुं आज ॥ जा० ॥ ३१ ॥ साहस धरी

सहामो थयो, जोरावरकाय ॥ विद्याधरने हो जिंतीयो, तेणें लीजामांय
॥ जा० ॥ ३१ ॥ जीवतो महेव्यो हो तेहने, नम्यो कुमरने पाय ॥ आप
अखंठ रह्यो तिहां, निरुपक्रम आय ॥ जा० ॥ ३२ ॥ ठठे हो खंठें स
त्तरमी, जांखी ए ढाल ॥ राम कहे धन्य ते जेणें, तजी विपयनी जाल
॥ जा० ॥ ३४ ॥ सर्वगाथा ॥ ५७७ ॥ श्लोक तथा गाथा मली ॥ १४ ॥

॥ दोहा ॥

॥ लइ आणा कुजपति तणी, श्रीगुणधर्म कुमार ॥ प्रिया सहित कोइ
पुर जणी, चाव्यो हर्ष अपार ॥ १ ॥ जातां पुर वनमां मव्या, गुणरत्नो
दधि साध ॥ शांतमूर्ति सोहे जला, वरते सहज समाधि ॥ २ ॥ प्रिया
सहित प्रणमे जई, ते मुनिवरना पाय ॥ धन्य गणो निज आतमा, थयो
रोमांचित काय ॥ ३ ॥ योग्य जीव जाणी करी, मुनिवर आणी जाव ॥
धर्म कहे जिनवर तणो, विपय रहित समजाव ॥ ४ ॥

॥ ढाल अढारमी ॥

॥ रंगीले आतमा ॥ ए देशी ॥ कहे मुनिवरजी देशना, देशना सांचलो
नवि चित्त लाय ॥ वैरागी आतमा ॥ चौद राजके चोकमें, चोकमें नव नव वेश
वनाय ॥ १ ॥ वैरागी आतमा ॥ लाख चोराशी योनिमां, योनिमां रहीयो काल
अनंत ॥ वै० ॥ पृथिवी पाणी तेउमां, तेउमां वायु कह्यो जगवंत ॥
वै० ॥ २ ॥ सात सात लक्ष एहोनी, एहोनी योनि कही जिनराज ॥
वै० ॥ वण प्रत्येकमां जीवनी, जीवनी दश लक्ष योनि समाज ॥
वै० ॥ ३ ॥ साधारणमां जाणियें, जाणियें चौदश लाख विचार ॥
वै० ॥ वि ति चउ इंडिय जीवनी, जीवनी दो दो कहि निरधार ॥
वै० ॥ ४ ॥ देव अने वली नारकी, नारकी योनि कही चउ चार ॥
वै० ॥ पंचेंडिय तिर्यंचमां, तिर्यंचमां चउ लक्ष योनि संजार ॥ वै० ॥ ५ ॥
चउदश लक्ष ठे मनुजनी, मनुजनी तेम जाणो गुणवंत ॥ वै० ॥ फिरतां
लक्ष चोराशीमें, चोराशीमें वीत्यो काल अनंत ॥ वै० ॥ ६ ॥ जाति ने
योनि रही नहिं, रही नहिं जिहां नवि आयो ए जीव ॥ वै० ॥ जन्म
मरण कीधां घणां, कीधां घणां दुःखीयो एह अतीव ॥ वै० ॥ ७ ॥ अष्टकं ॥
न ना जाइ न सा जाणी, न तं वाणं न तं कुजं ॥ न जाया न मुआ जठ,
सब जीवा अणंततो ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ क्युं सोवे तुं कगरमें, कगरमें

त्रिहु जण लाग्या केड ॥ वै० ॥ चेतन चेतो हो चित्तमां, चित्तमां ए
 डुशमनकुं फेड ॥ वै० ॥ ७ ॥ खावंद माल अनंतके, अनंतके क्युं रहे
 होय दिलगीर ॥ वै० ॥ आप दशा परगट करो, परगट करो ज्युं नांजे
 नवनीर ॥ वै० ॥ ए ॥ साहिब दास ज्युं दुइ रह्यो, दुइ रह्यो इंडियके
 आधीन ॥ वै० ॥ पान करी मदमोह को, मदमोहको क्युं वेतो मिश
 कीन ॥ वै० ॥ १० ॥ यतः ॥ आत्मनूपतिरयं चिरंतनः, पीतमोहमदि
 राविमोहितः ॥ किंकरस्य मनसोपि किंकरै, रिंडियैरहह किंकरीकृतः ॥ ३ ॥
 पूर्वढाल ॥ चेतन तेरे राजमें, राजमें विषय करे क्युं जोर ॥ वै० ॥ मित्र
 दुइ आइ मिले, आइ मिले ए पांचोंही चोर ॥ वै० ॥ ११ ॥ कृण सुख
 तोकूं चखायकें, चखायकें नाखेंगे लेइ दूर ॥ वै० ॥ ए संसार अनादिको,
 अनादिको वहे विषयाके पूर ॥ वै० ॥ १२ ॥ यडुक्तमागमे ॥ कृणमित्त
 सुका बहुकाल डुका ॥ निंद निवारो हो मोहकी, मोहकी आलस
 अलगुं नाखि ॥ वै० ॥ घटमें ज्ञानदीपक करो, दीपक करो सुमति
 उघाडो आंख ॥ वै० ॥ १३ ॥ देशन सुणी गुरुराजकी, गुरुराजकी श्री
 गुणधर्म कुमार ॥ वै० ॥ मोह मढ्यो ममता घटी, ममता घटी नातो
 विषय विकार ॥ वै० ॥ १४ ॥ कनकवती निज नारीने, नारीने कहे
 लीजें अब दीख ॥ वै० ॥ संयम मारग आदरी, आदरी चलियें सजुरु
 शीख ॥ वै० ॥ १५ ॥ सा कहे विषयनिखारणी, निखारणी नवयौवन
 वय एह ॥ वै० ॥ सुख विलसो संसारनां, संसारनां दोहिलो ए नवल सने
 ह ॥ वै० ॥ १६ ॥ वृद्धपणामां वालहा, वालहा कीजें योग अन्यास ॥
 वै० ॥ योगदशा आवे नहीं, आवे नहीं जिहां लगे विषयपिपास ॥ वै०
 ॥ १७ ॥ यडुक्तं ॥ शैशवेऽन्यस्तविद्यानां, यौवने विषयैषिणाम् ॥ वार्धके
 मुनिवृत्तीनां, योगेनांते तनुत्यजाम् ॥ ३ ॥ पूर्वढाल ॥ कहे गुणधर्म ए
 धर्मनो, धर्मनो वृद्धपणे नहिं लाग ॥ वै० ॥ जर्जर वय तनु बल घटे,
 बल घटे वाधे तृष्णा अताग ॥ वै० ॥ १८ ॥ यडुक्तं ॥ आयुर्गलत्याशु न
 पापवृद्धि, गतं वयो नो विषयानिलापः ॥ यत्नश्च नैपज्यविधौ न धर्मे,
 स्वामिन्नहो मोहविडंबना मे ॥ ४ ॥ अंगं गलितं पलितं मुंमं, दशनविहीनं
 जातं तुंमम् ॥ वृक्षोयाति गृहीत्वा दंमं, तदपि न मुंचत्याशापिंमम् ॥ ५ ॥
 पूर्वढाल ॥ यौवनमां पण कोइने, कोइने आवे वैराग्यनो जाव ॥ वै० ॥

तंत नही ए वय तणो, वय तणो धर्म विपे मन जाव ॥ वै० ॥ १ए ॥
 कनकवती कहे पूठीने, पूठीने आयु तणुं अवसान ॥ वै० ॥ आदरजो
 तमें दिस्कने, दिस्कने द्यो एतुं मुज मान ॥ वै० ॥ १० ॥ मन विणु
 मानी वातने, वातने वांदी गुरुना पाय ॥ वै० ॥ नगर जणी चाब्यो तदा,
 चाब्यो तदा नोजन पान उपाय ॥ वै० ॥ ११ ॥ काननमां मूकी करी,
 मूकी करी कनकवती तरु हेठ ॥ वै० ॥ राजकुमर तिहां आवीयो, आवियो
 गुणचंडें सा दीठ ॥ वै० ॥ १२ ॥ राग लह्यो देखी करी, देखी करी मा
 निनी मोहनगार ॥ वै० ॥ पूठे हो आवी तेहने, तेहने तुं केनी घरनारि
 ॥ वै० ॥ १३ ॥ किण कारण इहां एकली, एकली यौवनरूप रसाल ॥
 वै० ॥ तुज नरतार किहां अठे, किहां अठे कहो मुजने इण काल ॥
 वै० ॥ १४ ॥ राग लही ते कुमरनो, कुमरनो निज नरतार वैराग्य ॥
 वै० ॥ निज वृत्तांत कछुं सवि, कछुं सवि मोही रही तस राग ॥ वै०
 ॥ १५ ॥ लागी नयणनी आशकी, आशकी जोइ रह्यां अनिमेष ॥ वै० ॥
 नयण कमलदल पांखडी, पांखडी मोह्यो कुंवर ते देखि ॥ वै० ॥ १६ ॥
 यतः ॥ दोहो ॥ नयण पदारथ नयणरस, नयणें नयण मिलंत ॥ अणजा
 एयागुं प्रीतडी, पहेलां नयण करंत ॥ ६ ॥ पूर्वढाल ॥ नोग तणी करे प्रा
 र्थना, प्रार्थना करे गुणचंड कुमार ॥ वै० ॥ आवो हो मानिनी मुज घरे,
 मुजघरे सफल करो अवतार ॥ वै० ॥ १७ ॥ प्राणप्रिया करि राखगुं,
 राखगुं देगुं नहिं कृण ठेह ॥ वै० ॥ अवर जणी नवि आदरुं, आदरुं
 तुज ऊपर मुज नेह ॥ वै० ॥ १८ ॥ कनकवती मन चिंतवे, चिंतवे श्यो
 पीयुगुं हवे नेह ॥ वै० ॥ उघडजे नहिं माहरुं, माहरुं आखर ए निः
 स्नेह ॥ वै० ॥ १९ ॥ जाउं ए राजकुंवर घरे, कुंवर घरे नोगहुं लीलवि
 लास ॥ वै० ॥ कहे बंची नरतारने, नरतारने आविश हुं तुम पास ॥
 वै० ॥ २० ॥ राजकुंवर गयो मंदिरें, मंदिरें मोह्यो तेहने रूप ॥ वै० ॥
 जगमांहे विषय समो नहिं, समो नहिं महोदो कोइ विरूप ॥ वै० ॥ २१ ॥
 ठेठे हो खंठें अठारमी, अठारमी ढाल विचारो एह ॥ वै० ॥ राम कहे जग
 कारिमो, कारिमो धिक् धिक् नारीनेह ॥ वै० ॥ २२ ॥ सर्वगाथा ॥ ६२४ ॥ २० ॥
 ॥ दोहा सोरठी ॥

॥ हवे गुणधर्म कुमार, पुरमां जइ उचां रह्यो ॥ को न दिये आवकार,

आथ विना आदर किस्यो ॥ १ ॥ मनमांहे चिंते नारि, नूखी होशे मा
हरी ॥ करुं इहां कवण प्रकार, धन विण जोजन किहांथकी ॥ २ ॥
यतः ॥ पुत्ताय सीसायण ॥ मंगाये नहीं जीख, नूख्यां रहेवाये नहीं ॥
न रही मनमां शीख, रमवा वेठो जूवटे ॥३॥ कांश्क धन उपारजि, तुरत
करावी रसवती ॥ लेई मंमक साज, उद्यानें आवे वही ॥ ४ ॥

॥ ढाल उंगणीशमी ॥

॥ किण वाटें गया वनमाली रे ॥ बाइ महारी बहेनडीयां ॥ ए देशी ॥ वन
मांहे आव्यो उजाई रे ॥ नारी मोरे मन वसीयां ॥ कहे जोजन लाव्यो
हुं धाई रे ॥ नारी नवि उछसियां ॥ कहे कुमर सुणो सुकुमाली रे ॥
नारी मोण ॥ तुने नूखें घणुं परजाली रे ॥ नाण ॥ १ ॥ आवी कुंवर
वेठो जोडें रे ॥ नारीण ॥ आपण कीजें जोजन कोडें रे ॥ नाण ॥ मन
विण जोजन वेठी रे ॥ नाण ॥ पण मनमांहे चिंता पेठी रे ॥ नाण ॥१॥
नवि बोले रसीली वातो रे ॥नाण॥ प्रिय चिंते एहनी फरि धातो रे ॥नाण॥
बोले नेहविहूणी वाणी रे ॥ नाण ॥ कुंवरें तस वात पिह्हाणी रे ॥ नाण
॥३॥ एणे मुज्जुं मोह उताखो ॥नाण॥ बीजो कोश्क दिलमांहे धाखो रे
॥ नाण ॥ धिक् धिक् धिक् नारीनेहा रे ॥ नाण ॥ कृणमांहि देखाडे ठेहा
रे ॥ नाण ॥ ४ ॥ हुं जाणतो हतो प्यारी रे ॥ नाण ॥ पण एह सबल
धूतारी रे ॥ नाण ॥ में पाप कखुं इण माटें रे ॥ नाण ॥ दुर्गति परणी ए
साटें रे ॥नाण॥ ५ ॥ करी एहने में साव सोनानी रे ॥नाण॥ पण न रही
जाति ए ठानी रे ॥ नाण ॥ मुज्जु सम नहिं कोइ अज्ञानी रे ॥ नाण ॥
समजाव्यो हतो मुज्जु ज्ञानी रे ॥नाण॥६॥ वनमां कोइ मिय करी चाव्यो
रे ॥ नाण ॥ आगल एक पुरुष निहाव्यो रे ॥ नाण ॥ तेणें पूठुं कुमरने
आई रे ॥ नाण ॥ ॥ गयो राजकुंवर शुं जाई रे ॥ नाण ॥ ७ ॥ कहे राज
कुंवर कोण आयो रे ॥ नाण ॥ इहां जे तुमें मुज्जुने वतायो रे ॥ नाण ॥
कहे ते नर सुण विदेशी रे ॥ नाण ॥ इहां आव्यो कुमर अम देशी रे
॥ नाण ॥ ८ ॥ नृपनंदन गुणचंड नामें रे ॥ नाण ॥ आव्यो वन जो
वा कामें रे ॥ नाण ॥ ते साथें नारी एक बोली रे ॥ नाण ॥ करी वात ते
मनहुं खोली रे ॥ नाण ॥ ए ॥ तस आणायें अलगो जाई रे ॥ नाण ॥
आव्यो इहां कणे जाई रे ॥ नाण ॥ ते माटें पूठुं वात मीठी रे ॥ नाण ॥

नारी तस घर जाती दीठी रे ॥ ना० ॥ १० ॥ ते गइ एम उत्तर दीधो
 रे ॥ ना० ॥ ते चाब्यो नगर जणी सीधो रे ॥ ना० ॥ मनमांहे करे ए वि
 चार रे ॥ ना० ॥ ऊनो गुणधर्म कुमार रे ॥ ना० ॥ ११ ॥ तद्यथा ॥
 दध्यो च नोपकारेण, नांजसा हंत योपितः ॥ गृह्यंते न कुलं शीलं, मर्यादां
 गणयन्ति च ॥ १ ॥ रहोन जायते यावत्, कृणस्यार्थयिता न च ॥ सतित्वं
 तावदेतासां, नारीणां नारदोऽवदत् ॥ २ ॥ पूर्वढाल ॥ एम चिंती कुमर
 तिहां आवी रे ॥ ना० ॥ तेहने एम तेणें समजावी रे ॥ ना० ॥
 कहे तो तुज मोशाल मूकूं रे ॥ ना० ॥ हुं नवजावठथी चूकूं रे ॥ ना०
 ॥ १२ ॥ तिहां पासें नगरमां आवी रे ॥ ना० ॥ तेहने मातुलघरे वो
 लावी रे ॥ ना० ॥ जइ तेह मुनिनी पासें रे ॥ ना० ॥ ग्रहे चारित्र दिज
 उद्दासें रे ॥ ना० ॥ १३ ॥ करे किरिया तप तपे काठां रे ॥ ना० ॥ घणां
 कर्म खपाज्यां माठां रे ॥ ना० ॥ थयो तेह माहाव्रत धोरी रे ॥ ना० ॥
 चढती परिणामनी दोरी रे ॥ ना० ॥ १४ ॥ करि अणसण सुरपद लीधुं
 रे ॥ ना० ॥ तेहनुं वांठित कारज सीधुं रे ॥ ना० ॥ तिहांथी चवि नर
 नव पामी रे ॥ ना० ॥ ते थाजे शिवगतिगामी रे ॥ ना० ॥ १५ ॥
 हवे कनकवतीनी कहाणी रे ॥ ना० ॥ निसुणो तुमें सद्दुये प्राणी रे ॥
 ना० ॥ आवी मातुलघरथी रीसाणी रे ॥ ना० ॥ थइ गुणचंडनी थणि
 चाणी रे ॥ ना० ॥ १६ ॥ राजकुमरने ते घणुं प्यारी रे ॥ ना० ॥
 तेणे मूकी अवर विसारी रे ॥ ना० ॥ तव चिंते हो पहेली राणी रे ॥
 ना० ॥ एणें नारी कुजात ए आणी रे ॥ ना० ॥ १७ ॥ एणें कामण
 मोहन कीधो रे ॥ ना० ॥ महारो पियुडो वश करि लीधो रे ॥ ना० ॥
 जगमांहि खार ए महोटी रे ॥ ना० ॥ परनवडुःखदायी खोटी रे
 ॥ ना० ॥ १८ ॥ तेणें नोजनमां विप दीधुं रे ॥ ना० ॥ मारी कनक
 वतीने वेर लीधुं रे ॥ ना० ॥ ध्यान रौडमांहे ते मूर्ई रे ॥ ना० ॥
 चौथी नरकें नारकपणे हूई रे ॥ ना० ॥ १९ ॥ जुवो उत्तम कुजनी
 जाई रे ॥ ना० ॥ शी कीधी कर्मकमाई रे ॥ ना० ॥ डुःखमांहे काल
 निर्गमजे रे ॥ ना० ॥ तिहांथी नव बहुला नमजे रे ॥ ना० ॥ २० ॥
 कहे प्रलुजी शान्ति जिपांदा रे ॥ ना० ॥ विरुथ्या ए विषयना फंदा रे ॥
 ना० ॥ डुःखदायी ए विषयप्रमादो रे ॥ ना० ॥ महोटी जग ए उन्मा

दो रे ॥ ना० ॥ ११ ॥ ए वर्जे ते सुख पावे रे ॥ ना० ॥ सुर नर मली
तस गुण गावे रे ॥ ना० ॥ ए विषय उपर वीतरागें रे ॥ ना० ॥ कही
वात सबल वैरागें रे ॥ ना० ॥ १२ ॥ ठठे खंमैं उगणीशमी दाखी रे
॥ ना० ॥ ए वात ह्यैयामां राखी रे ॥ ना० ॥ कहे राम जे करजे करणी
रें ॥ ना० ॥ वरजे शिवलीला गृहिणी रे ॥ ना० ॥ १३ ॥ इति विषये
गुणधर्मकनकवतीसंबंधः ॥ १ ॥ सर्वगाथा ॥ ६५१ ॥ श्लोक तथागाथा ॥ ११ ॥

॥ दोहा ॥

॥ कहे प्रभु चक्रायुध निसुण, एह विषय अधिकार ॥ हवे कपाय ऊ
पर कहुं, नागदत्त विस्तार ॥ १ ॥ वर्द्धमान जिनवर तणे, वारे होशे
तेह ॥ आगामिक हमणां कहुं, वात सुणो ससनेह ॥ २ ॥ नहिं कषाय
विणु विषय को, तस नाशें जवनाश ॥ जवनाशें शिव संपजे, सहजानंद
विलास ॥ ३ ॥ करे चक्रायुध स्वामीने, कर जोडी अरदास ॥ नागदत्त
संबंध मुऊ, जगजुरु परकाश ॥ ४ ॥ ॥

॥ ढाल वीशमी ॥

॥ म म करो माया काया कारमी ॥ ए देशी ॥ वसंतपुर नरत जंबू तणे,
समृद्ध वसुदत्त दोय नंद रे ॥ सरलमन शांतगुण शोचता, मधुर सुख
वाणी सुखकंद रे ॥ १ ॥ शांति जिनराज एम उपदिशे ॥ ए आंकणी ॥ सवि
सुणो पर्षदा वार रे ॥ कटुक फल एह कषायनां, जाणी वर्जो सुविचार
रे ॥ शांति ॥ २ ॥ व्यवहरे तेह मैत्रीपणे, मन कह्यो निश्चय एम रे ॥
एक जे कारिज आदरे, अवर पण आचरे तेम रे ॥ शां ॥ ३ ॥ दोय
उद्यानमां आवीया, एक दिन मुनिवर दीठ रे ॥ वज्रगुप्ताजिथ गुण
निलो, दरिसण अति घणुं मीठ रे ॥ शां ॥ ४ ॥ करिय प्रणिपत्य मुनि
वरप्रत्यें, दोय कहे कहो हित शीख रे ॥ देशना दीध जवतारिणी, नि
सुणी लीधी दोय दिस्क रे ॥ शां ॥ ५ ॥ बंधन ठोडी संसारनां, दोय
हुवा श्रमण गुणधार रे ॥ अंतें अनशन करी उपन्या, दोय सुरलोक म
जार रे ॥ शां ॥ ६ ॥ पण कखुं दोय देवें तिहां, जे चवे पहेल ङण ठाम
रे ॥ तेषें वीजो प्रतिबोधवो, धर्मसंकेतने काम रे ॥ शां ॥ ७ ॥ समृद्ध
दत्त जीव तिहांथी चव्यो, नरतमां अवतखो आय रे ॥ सागरदत्तने मंदि
रें, धरणिनिवास पुर ठाय रे ॥ शां ॥ ८ ॥ धनदत्ता नारी वरकूखमां,

नागसुरदत्त वर योग रे ॥ सुत थयो नागदत्तानिधो, पूर्व सुकृतनो जोग रे
 ॥ शां० ॥ ए ॥ सकल शीख्यो कला नर तणी, जाण गांधर्वनो जोर रे ॥
 चतुर पण सकल पुरजन तणा, चित्तनो ते थयो चोर रे ॥ शां० ॥
 १० ॥ नाम गांधर्व पूर्वक थयुं, नागदत्त तेहनुं ताम रे ॥ कुशल वीणा
 कलामां घणो, गारुडीमां शिरें नाम रे ॥ शां० ॥ ११ ॥ एक दिन तेह उ
 ध्यानमां, मित्र संघातें नागदत्त रे ॥ क्रीड करवा नणी चालीयो, मन धरी
 हर्ष अत्यंत रे ॥ शां० ॥ १२ ॥ वसुदत्त सुरें प्रतिबोधियो, बंधवा वुज
 तुं वूज रे ॥ मेल कपायने वेगला, विषयरसमां मत मूज रे ॥ शां० ॥
 १३ ॥ पण मनमांहि आवे नहिं, इंद्रियें जनित सुख दास रे ॥ धर्म अ
 तींद्रिय नवि नजे, अहो अहो विषय सुखपाश रे ॥ शां० ॥ १४ ॥ जिहां
 लगे कष्ट दीतुं नहिं, तिहां लगे नवि करे धर्म रे ॥ चिंति एम रूप मुनिनुं
 करे, जुठ जुठ मित्रनो मर्म रे ॥ शां० ॥ १५ ॥ सर्पकरंमक कर ग्रह्यो, नहिं
 रजोहरण मुखवस्त्र रे ॥ नागदत्त पासें ते आवियो, मुनिवररूप नहिं शस्त्र
 रे ॥ शां० ॥ १६ ॥ पूढीयुं एह करंममां, गुं अठे तव कहे तेह रे ॥ नाग
 क्रीडा तणा एहमां, सांजल ठे गुणगेह रे ॥ शां० ॥ १७ ॥ बोजियो नाग
 वत्त माहरा, नाग क्रीडाव तुं आज रे ॥ ताहरा नाग खेलावगुं, होंशथी हुं
 मुनिराज रे ॥ शां० ॥ १८ ॥ कहे ऋषि वात म करिश इसी, माहरा ना
 ग इर्दंत रे ॥ क्रीडव्या जाय कोणें नहिं, एह विषधर बलवंत रे ॥ शां०
 ॥ १९ ॥ देव पण ए ग्रही नवि शके, तो इहां तुं कोणमात्र रे ॥ मंत्र थ्यौ
 पथ विना ताहरे, वश न हूवे अहिजात रे ॥ शां० ॥ २० ॥ नाग बोव्यो
 अजिमानगुं, मूक जो अहि ग्रहुं केम रे ॥ के वली तुं ग्रहे माहरा, सुर कहे
 मुक तुं केम रे ॥ शां० ॥ २१ ॥ नागदत्त मूकिया पन्नगा, बलगीया सुरतणे
 अंग रे ॥ वेदना अंश नवि करि शके, दिव्य प्रजाव ए चंग रे ॥ शां० ॥ २२ ॥
 नागदत्त कोपीयो एम नणे, मूक हवे ताहरा नाग रे ॥ जोवें केहवा अठे
 जालमी, नहिं इहां विलंबनो लाग रे ॥ शां० ॥ २३ ॥ मेल इहां स्वजन
 नवि ताहरां, कर इहां पंचनी साख रे ॥ गारुडिक सुरवच सांजनी, मेलि
 यां स्वजन हित दाखि रे ॥ शां० ॥ २४ ॥ कहे सुर कंचस्वरथी तदा,
 नागदत्त मुक अहि साध रे ॥ क्रीडवा चित्त चाहे घणुं, पण नहिं अहि
 मुक दाख रे ॥ शां० ॥ २५ ॥ दोष देवो नहिं मुज्जे, जो मसे एहने आ

ज. रे ॥ स्वजन जन सहु मव्यां वारवा, म म कर एह अकाज रे ॥ शां०
 ॥ ३६ ॥ वारियो पण नवि विरमीयो, मूकीया नाग विरूप रे ॥ सोय अहि
 वाहक एम कहे, सुणो मुज जुजग स्वरूप रे ॥ शां० ॥ ३७ ॥ रक्तलो
 चन विप पूरितो, क्रूर दोय जीन विकराल रे ॥ क्रोध अजिधान पूरव दि
 शें, प्रथम एह जुजग संजाल रे ॥ शां० ॥ ३८ ॥ आठ फणाटोप नीष
 ण घणो, स्तब्धतनु याम्यदिशि जाए रे ॥ यम समानो महोरग कह्यो,
 जेहनुं मान अजिधान रे ॥ शां० ॥ ३९ ॥ वंचनाकुशल जे अति घणो,
 पश्चिमें वक्रगति धार रे ॥ एह माया जुजंगी वडी, धरिय नवि जाय नि
 धार रे ॥ शां० ॥ ४० ॥ उत्तरदिशें वडो जालमी, लोचनामें अहि
 राज रे ॥ एह मशिया नरा जगतमां, पूर्ण थाये निधन राज रे ॥ शां० ॥
 ४१ ॥ जेहने चार ए अहि मसे, तस पड्यानुं किस्थुं चित्त रे ॥ रहित आ
 लंबनें जे नरा, ते लहे दुःख विचित्र रे ॥ शां० ॥ ४२ ॥ नागदत्त तेहने
 तव कहे, श्यो करे वातविस्तार रे ॥ मूक मुज उपरें शीघ्र तुं, म कर मुज
 फिकर लगार रे ॥ शां० ॥ ४३ ॥ मूकीया तेणें उतावला, मंत्र औषधें
 नहिं साध्य रे ॥ तनु मस्थुं शेठना सूततणुं, नूमि पड्यो अइने असाध्य
 रे ॥ शां० ॥ ४४ ॥ मित्रें उपचार बहुला किया, नवि वली चेतना तास रे ॥
 एह जीवाडो एम सहु मली, वीनवे करि अरदास रे ॥ शां० ॥ ४५ ॥ तेह
 अहिवाहक बोलीयो, तो रहे जीवतो एह रे ॥ जे कहुं ते किरिया करे,
 डुष्कर घणो ससनेह रे ॥ शां० ॥ ४६ ॥ हुं पण पूरवें इण मस्थो, तास
 विप वारवा हेत रे ॥ कष्ट किरिया करुं एहवी, सांजलो तास संकेत रे
 ॥ शां० ॥ ४७ ॥ केश लुंचावुं निज शिरतणा, जीरण श्वेत मित मान रे ॥
 वस्त्र शोजा विना वावरुं, तप करुं शुद्ध अनिदान रे ॥ शां० ॥ ४८ ॥ ठठ
 अष्ठम उपवासने, पारणे लूह आहार रे ॥ नवि लीउं जक्त आकंठता, पट
 रस विगय निवार रे ॥ शां० ॥ ४९ ॥ जो एम नवि करुं हुं कदा, तेह विप
 उदय फरी थाय रे ॥ कोइ समे वन गृह शून्यमां, जमुं नहिं मुज एक
 ठाय रे ॥ शां० ॥ ४० ॥ एम किरिया करतां थकां, मुज नो हे एह विप
 नार रे ॥ स्तोत्र निडा करुं वली अमो, लीजियें स्तोत्र आहार रे ॥ शां०
 ॥ ४१ ॥ बोलीयें स्वल्प मितधर्मनुं, वाक्य मनमांहे विचार रे ॥ एम
 करे डुष्ट ए अहितणुं, नवि चले जोर तिजनार रे ॥ शां० ॥ ४२ ॥

एहवी जो क्रिया ए करे, तो सही जीवे एम जाणो रे ॥ नहिंतर ए मरज्ञो
 इष्ट्युं, साजन सहु मन आणो रे ॥ शां० ॥ ४३ ॥ कहे जन एम करज्ञो
 क्रिया, तुमें करो एहने सऊ रे ॥ प्रौढमंजल तिहां आलखी, उच्चरे
 पाठ शुन कऊ रे ॥ शां० ॥ ४४ ॥ सिद्ध सहुने प्रणमी करी, करे मुखें
 एम उच्चार रे ॥ सर्वथी प्राणातिपातने, सर्वथी अलिय तिम धार रे ॥
 शां० ॥ ४५ ॥ सर्वथी अदत्त मैथुन वली, सर्व परिग्रह तेम जाण रे ॥
 जावजीव नागदत्त कुमर ए, एहनां करे पञ्चकाण रे ॥ शां० ॥
 ४६ ॥ वार त्रण दंमक एम नणी, अंतें स्वाहा पद पाठ रे ॥ श्रोतसुत
 तेह साजो कखो, सुर तेणें करिय एम ठाठ रे ॥ शां० ॥ ४७ ॥ जा
 गियो स्वजन हरख्यां सवे, दाखवी तस सवे वात रे ॥ सइही नवि तेणें
 तत्कणें, सबल अचली तस धात रे ॥ शां० ॥ ४८ ॥ घर नणी नीसखो
 तब वली, नूमि पडियो ततकाल रे ॥ पुनरपि सयणना कहेणथी, तेह
 जीवाडियो बाल रे ॥ शां० ॥ ४९ ॥ वार त्रीजी वली एम सही, निश्चय
 कीधलो जाम रे ॥ नागदत्तें वात मानी तदा, देवचिंतित ययुं काम रे
 ॥ शां० ॥ ५० ॥ देव वनमांहि तस आणिने, निज कही पूर्वजव वात
 रे ॥ सुणि तेणें जातिसमरण लखुं, प्रत्येक बुध मुनि जात रे ॥ शां० ॥
 ५१ ॥ देव तस चरण वंदी करी, गयो निज ठाम धरि हर्षे रे ॥ नाग
 दत्त मुनि मही विचरतो, पाले आचार उत्कर्षे रे ॥ शां० ॥ ५२ ॥
 देहकरंमथी बाहिरें, नीसरवा न दे जेह रे ॥ चार कपाय अहिने सदा,
 एहवो मुनि गुणगेह रे ॥ शां० ॥ ५३ ॥ नागदत्त मुनि अनुक्रमें हुवा,
 संयमश्रेणि गुण धार रे ॥ घातिकर्मकृत्यें उपन्युं, केवलज्ञान उदार रे
 ॥ शां० ॥ ५४ ॥ अनुक्रमें मुक्तिनारी वखा, एम कहे शांति जिनचंद
 रे ॥ ए कपायात्तमा वश करे, प्रगट होय सहज आनंद रे ॥ शां० ॥
 ५५ ॥ ढाल ठठे सुणो वीशमी, रामविजयें कही एह रे ॥ शांति प्रभु
 देशना सांनजी, समजजो नवि गुणगेह रे ॥ शां० ॥ ५६ ॥ इति क
 पायप्रमादोपरि नागदत्तसंबंधः ॥ २ ॥ सर्वगाथा ॥ ७१ ॥ श्लोक ॥ २२ ॥

॥ अथ प्रथम प्राणातिपातविरमणव्रतसंबंधः ॥

॥ दोहा ॥

॥ सुण राजन् ए आदि दे, पंच प्रकार प्रमाद ॥ परिहरवो सुखि

कीयें, मूकी मन विषवाद ॥ १ ॥ धर्म करैवो धसमसी, जेद चार जस
 सार ॥ दान शील तप जावना, मोहू तणां ए द्वार ॥ २ ॥ जेद दोय
 ते धर्मना, सागार ने अणगार ॥ दशविध कह्यो अणगारनो, धर्म मुक्ति
 दातार ॥ ३ ॥ वीश वसा जिहां पालवी, जीवदया जली जाति ॥ ते मुनि
 धर्म आराधतां, करे कर्मनो घात ॥ ४ ॥ तेहथी ऊतरतो कह्यो, कायरने
 सागार ॥ वार जेद ठे तेहना, समकित मूल उदार ॥ ५ ॥ दर्शन मोह
 कर्मोपशम, आदिथकी उत्पन्न ॥ जीवादिक श्रदान शुद्ध, समकित वडूं
 रतन्न ॥ ६ ॥ यडुक्तं ॥ जिअ अजिअ पुण्य पावा, सब संवर बंध मुक्त
 निष्कारणा ॥ जेणं सहहइ तयं, सम्मं खड्गाइ बहु जेअ ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥
 तत्त्वत्रयनो जे सदा, अथवसाय विवेक ॥ ते समकित कहीयें वली,
 तेहना जेद अनेक ॥ ७ ॥ उक्तं च ॥ अरिहं देवो गुरुणो ० ॥ सम
 कित अरिहंत धर्मनुं, मूलनूत निर्धार ॥ ग्रंथमांहे एहनो घणो, जांख्यो
 ठे विस्तार ॥ ८ ॥ डुविध डुविध इत्यादिकें, द्वादश व्रत आचार ॥ सम
 कित उत्तर गुण सहित, जंग एहना धार ॥ ९ ॥ कोडि तेरशें उपरें, तेम
 चोराशी कोडि ॥ वार लाख तस ऊपरें, सहस सत्त्यावीश जोडि ॥ १० ॥
 दोय शत दोय कह्या वली, जंग एटला जाण ॥ ए सर्वेमांही शिरें,
 समकित प्रथम वखाण ॥ ११ ॥ ए विण एके जंगनो, संचव नो हे
 तेम ॥ ते माटे प्रभुजी कहुं, आगममांहे एम ॥ १२ ॥ अतएवोक्तं ॥
 मूलं दार पइछाणं, आहारो जायणं निहि ॥ डुबकस्सावि धम्मस्स, स
 म्मत्तं परिकित्तियं ॥ ३ ॥ पूर्वढाल ॥ कारक रोचक दीपकें, समकित
 त्रिहुं प्रकार ॥ चारित्री अविरति तथा, मिथ्यादृष्टि विचार ॥ १३ ॥ पंच
 दोष एहना कह्या, शंका कंख विगिह ॥ तेम पसंस संथव कह्यो, वर्जे
 समकित संच ॥ १४ ॥ मूल एह साजूं करे, आगल दोय विस्तार ॥
 समकित मूल व्रत वार जे, एह धर्म सागार ॥ १५ ॥ हवे प्रथम व्रत उपरें,
 जांखे प्रभु अवदात ॥ ते जवियण तुमें सांचलो, मूकी विकथा वात ॥ १६ ॥
 ॥ ढाल एकवीशमी ॥

॥ घरे आवी जननी नमे ॥ ए देशी ॥ शांति जिनेश्वर एम कहे, नि
 सुणो तुमें सार ॥ नरजव हाखो नवि मले, एह वीजी वार ॥ शांण ॥ १ ॥
 व्रत पहेहुं सागारनुं, स्थूलप्राणातिपात ॥ विरमण करीयें तेहनुं, कहे त्रिहु

वन तात ॥ शां० ॥ २ ॥ प्राणीवध बहु चेद ठे, दोयशें त्रेंताल ॥ नव त्रि
कष्टं गुणतां थकां, सत्यावीशज जाल ॥ शां० ॥ ३ ॥ करण करावण अनु
मते, एक्याशी विचार ॥ लेखवतां त्रिहुकालथी, संख्या अवधार ॥ शां० ॥ ४ ॥
यतः ॥ नू जल जलणानिल वण, वि ति चउ पंचिंदिएहिं नव जीवा ॥
मण वय काय गुणिया, हवति ते सत्तवीसति ॥ ३ ॥ इकासी इसा करण, कारणा
णुमइ ताडिया होइ ॥ सच्चिय तिकाल गुणिया, इन्निसया हुंति तेयाला
॥ ४ ॥ पूर्वढाल ॥ ए सवि हिंसाचेदथी, विरम्या अणगार ॥ वीश वसा
तेउने कही, दया संयम सार ॥ शां० ॥ ५ ॥ शूल उगारे दश रह्या, आ
रंजे हो पंच ॥ सापराध सापेहृथी, अर्द्ध अर्द्धनो संच ॥ शां० ॥ ६ ॥
यतः ॥ शूल सुहुमा जीवा, संकप्पारंजउ अ ते इविहा ॥ सावराह निर
वराहा, सावस्का चेव निरवस्का ॥ ५ ॥ पूर्वढाल ॥ एम सागारी सवा वसो,
करुणा पालंत ॥ अच्युत सुर लगि आयुखुं, वांधे गुणवंत ॥ शां० ॥ ७ ॥
पंच अतिचार एहना, वह बंधना विभेद ॥ अतिचारारोपण वली, जात
पाणी विभेद ॥ शां० ॥ ८ ॥ ए मुख्य व्रतनें पालवा, बीजा वाड समान ॥
जीवदया व्रत मूलगुं, चांखे जगवान ॥ शां० ॥ ९ ॥ यडुक्तं ॥ देवपूजा गुरु
पास्ति, दानमध्ययनं तपः ॥ सर्वमप्येतदऽफलं, हिंसा चेन्न परित्यजेत् ॥
॥ ६ ॥ जं आरुगण ॥ योदद्यात् ॥ निरतिचार ए पालतां, लहे लीज
विलास ॥ इह नव परनव सुख घणां, जेम ते यमपाश ॥ शां० ॥
॥ १० ॥ चक्रायुध पूठे जिन कहे, वरते सुखवास ॥ नयरी वाणारसी अ
तिजली, नहिं दरिड निवास ॥ शां० ॥ ११ ॥ इर्मपेण राजा तिहां, न्या
यी गुणवंत ॥ राणी कमलश्री जली, शीलें शोचंत ॥ शां० ॥ १२ ॥ नामें
मुमंजरी आकरो, तिण नयरी तजार ॥ यमपाश जाति चांमाल ठे, नहिं
कर्म जगार ॥ शां० ॥ १३ ॥ एक नलदामा वाणीयो, निवसे तिहां संत ॥
नाम सुमित्रा गेहिनी, दंपती एक चित्त ॥ शां० ॥ १४ ॥ तस घर मम्म
ण सुत अठे, लह्यो यौवनपूर ॥ सुख विलसे संसारनां, चढुं जस नूर
॥ शां० ॥ १५ ॥ एक दिन एक ह्य ऊपरें, ययो नृप अस्तवार ॥ वरी
सुरें ते आश्रयो, ह्यने तेणी वार ॥ शां० ॥ १६ ॥ उत्पतियो वेगें तदा,
गगने ह्य तेह ॥ दूरें जइ नृमि पडयो, नृप कोइ वनत्रेह ॥ शां० ॥ १७ ॥
ह्य पद्मोतां परलोकमां, नृप आयुने योग ॥ वंच्यो ते वनमां जमे, जावी

कर्मने जोग ॥ शां० ॥ १७ ॥ जूख तृषा लागी घणी, नृप चिंते हो एम ॥
 पाणीविना प्राण माहरां, इहां रहेशो हो केम ॥ शां० ॥ १८ ॥ एहवे
 एक मृग आवीयो, नृपतिनी पास ॥ पूरव जव तस सांजखो, नृप देखी
 उल्लास ॥ शां० ॥ १९ ॥ अकर लखी शिला उपरें, जणावे हो तेह ॥
 देवलनामें हो ताहरो, सेवक गुणगेह ॥ शां० ॥ २० ॥ आर्त्तध्यानमांहे
 मरी, थयो मृग वनमांहिं ॥ तुज दीठे मुज सांजखो, पूरव जव आंहि ॥ शां०
 ॥ २१ ॥ नीर देखाड्युं नृप जणी, जल पीधुं तेवार ॥ स्वस्थ थयो मन
 चिंतवे, मृगनो उपकार ॥ शां० ॥ २२ ॥ सेना पूठें संचरी, करी नरपति
 केड ॥ वन वन जोतां नृप जणी, आवी तेण वेड ॥ शां० ॥ २३ ॥ सैन्य
 संघातें हो आवीयो, मृग लेई साथ ॥ दान अनय दइ मूकीयो, पुरमां नू
 नाथ ॥ शां० ॥ २४ ॥ फिरतां हो एक दिन आवीयो, मृग मम्मण हाटा ॥
 पूरव मत्सरजावथी, उठयो लेइ लाठि ॥ शां० ॥ २५ ॥ तातने कहे अप
 राधीयो, मृग मारीश आज ॥ जनक कहे नवि कीजियें, एह सबल थ
 काज ॥ शां० ॥ २६ ॥ जीव कोइ हणीयें नहीं, वली एह विशेष ॥ नृप
 तिने मन मानियो, उपकारी रेख ॥ शां० ॥ २७ ॥ जनकनो वाखो नवि रह्यो,
 रोपें हणो सोय ॥ मम्मण थयो विलखो घणुं, चाड्युं कहण न कोय ॥ शां०
 ॥ २८ ॥ यमदंमें तेण अवसरें, वीनवीयो राय ॥ कर्म कखुं इण मम्मणें, नि
 र्दय मन थाय ॥ शां० ॥ २९ ॥ राय कहे कुण साखीयो, कहे ते तस बाप ॥
 नृप पूठे साचुं कहे, आवी ते आप ॥ शां० ॥ ३० ॥ रीज्यो राय मनें
 घणुं, सत्यवादी जाण ॥ मान सहित बोलावीयो, घर ते गुणखाणि
 ॥ शां० ॥ ३१ ॥ कहे तेडी यमपाशने, मम्मणने हो मार ॥ कहेतो
 हिंसा नवि करुं, नरपति अवधार ॥ शां० ॥ ३२ ॥ तुं हिंसा न करे कियुं,
 जातें चांमाल ॥ ते कहे राजन् माहरे, नहिं हिंसा ढाल ॥ शां० ॥
 ॥ ३३ ॥ कारण सुण तेहनुं कहुं, साहिव उजमाल ॥ हस्तिशीर्ष पुर ठे
 जलुं, सोहे सुविशाल ॥ शां० ॥ ३४ ॥ दमदंत नामें वाणीयो, सुणि
 वाणी अनंत ॥ जिनवर पासें आदखो, संयम गुणवंत ॥ शां० ॥ ३५ ॥
 तप प्रजावथी उपनी, तस लब्धि अनेक ॥ ते विचरंतो आवीयो, वनमां
 सुविवेक ॥ शां० ॥ ३६ ॥ रह्यो काउस्सग स्मशानमां, तपीयो अण
 गार ॥ जिण दीठे पावन होये, मानव अवतार ॥ शां० ॥ ३७ ॥ इण

अवसरें सुत माहरो, नामें अतिमुक्त ॥ बहु रोगें ते पीडियो, न लहे ते
 उक्त ॥ शां० ॥ ३९ ॥ तेह गयो समशानमां, दीग मुनिराज ॥ कर जोडी
 पाये नम्यो, कहे सीध्यां काज ॥ शां० ॥ ४० ॥ अवर नहीं कोइ तुज
 विना, मुज राखणहार ॥ तुं प्रभु नयणें निरखियो, करुणा चंमार ॥ शां०
 ॥ ४१ ॥ मुनि परजावें ते थयो, अंगें नीरोग ॥ वात आवी घरे मुज
 कही, गयो माहरो रोग ॥ शां० ॥ ४२ ॥ कुटुंब सहित रोगें दम्यो, नम्यो
 हुं मुनिपाय ॥ ते मुनिचरणप्रजावथी, थया नीरोगी काय ॥ शां० ॥
 ४३ ॥ ते मुनिवर मुज देशना, कहे करुणाखाणि ॥ जीवदया तुम्हें
 पालजो, आत्म हित जाणि ॥ शां० ॥ ४४ ॥ रोग सोग नावे कदा,
 दोहिल दुःखराशि ॥ धर्म अहिंसा सेवतां, होवे शिवपुरवास ॥ शां० ॥
 ॥ ४५ ॥ आवक धर्म में आदखो, करि हिंसा त्याग ॥ मन वच कायें
 नादरुं, निसुणो वडजाग ॥ शां० ॥ ४६ ॥ कृत्रिम कोप करी कहे,
 राजा तव एह ॥ कारिज कर नहिं तो तुने, मूकीश यमगेह ॥ शां० ॥
 ४७ ॥ ते कहे मरवुं एकदा, नहिं बीजी वार ॥ पण निज व्रत जांग्या
 तणा, दुःखनो नहिं पार ॥ शां० ॥ ४८ ॥ यडुक्तं ॥ वरमग्निमि प
 वेसो, वरं विसुद्धेण कम्मणा मरणं ॥ मा गहिय वयचंगो, मा जीयं ख
 लिय सीलस्स ॥ ७ ॥ पूर्वढाल ॥ राय सुणी हरख्यो घणुं, मूक्यो यम
 पाश ॥ सन्मानी बोलावियो, परशंस्यो तास ॥ शां० ॥ ४९ ॥ मातें
 गनो स्वामी कख्यो, करे उत्तम काम ॥ आयु पूरे यमपाश ते, पहीतो सुर
 राम ॥ शां० ॥ ५० ॥ अपर अंत्यज नृप दुकमथी, कखो मम्मण नाश
 ॥ फल कडुआं हिंसा तणां, लह्यां नरक निवास ॥ शां० ॥ ५१ ॥ एम
 जे ए व्रत साचवे, तस लील विजास ॥ सुख पामे सुर शिव तणां, जेम
 ते यमपाश ॥ शां० ॥ ५२ ॥ ठठे खंठें एकवीशमी, प्रभु जांखे दयाल ॥
 पहेलुं व्रत एम पालतां, लहे सुख रत्नाल ॥ शां० ॥ ५३ ॥ सर्वगाथा ॥ ४८४ ॥
 इति प्राणातिपात प्रथमव्रतसंबंधे यमपाशकथानकम् ॥ १ ॥

॥ अथ द्वितीय मृपावाद विरमणव्रतसंबंधः ॥

॥ दोहा ॥

॥ हेवे बीजा अणुव्रत तणां, कहे जगगुरु अधिकार ॥ चक्रायुध नृप
 आगजे, ते निसुणो अधिकार ॥ १ ॥ क्रोध मान माया वली, लोन

त्रिविध तेम राग ॥ द्वेष हास्य जय व्रीडथी, क्रीडा विकथा लाग ॥ १ ॥
 रति अरति दाह्निष्य तेम, मुखरपणुं इत्यादि ॥ एह कारणथी संजवे,
 जगमां मिरपावाद ॥ ३ ॥ पीडाकारक जगतमां, सत्यवाद पण तेम ॥
 मृषावाद तेहने कह्यो, नहिं परिणामें हेम ॥ ४ ॥ यतः ॥ अलियं न जा
 सियवं, अद्धिदुं सवं वि जं न वत्तवं ॥ सच्चंपि जं न सच्चं, जं परपीडा
 करं वयणं ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ ते डुविध जिनवर कह्यो, स्थूल सूक्ष्म अव
 धार ॥ परिहासादिकथी सुद्धुम, तस यतना सागार ॥ ५ ॥ स्थूल तीव्र
 संक्लेशथी, ते परिहरवो नित्य ॥ अवगुण जेहमां अति घणा, एहज वडुं
 अकृत्य ॥ ६ ॥ यदावश्यकचूर्णीकृत ॥ जेण जासियेण अण्णो परस्स
 वा अतीव वाधातो वा अतिसंकिलेसो अ जायते अण्णए अण्णएवाण
 वपज्जति ॥ २ ॥ पूर्वदोहा ॥ कन्या गो जूमीतणुं, जय्य अलिक निवार ॥
 थापण उंजवियें नहीं, कूडी साख मधार ॥ ७ ॥ तथा च लौकिकं वचः ॥
 कूटसाह्नी सुहृद्दोही, कृतघ्नोदीर्घरोषिवानः ॥ चत्वारः कर्मचांमालाः, पंचमो
 जातिसंजवः ॥ ३ ॥ तथा ॥ हस्ते नरकपालं ॥ चांमाली प्राह ॥ मित्र
 दोही ॥ कूटसाह्नी मृषावादी, पक्षपाती जगत्रये ॥ कदाचिच्चलितो
 मार्गं, तेष ॥ ४ ॥ पूर्वदोहा ॥ सत्यमूल ठे जस तणुं, तेम विश्वास निदा
 न ॥ सत्य स्वर्गनुं वारणुं, सत्य सिद्धिसोपान ॥ ७ ॥ मंत्रयोग सत्यें फले,
 धर्म अर्थ ने काम ॥ सत्यवंत दुःख नवि लहे, पडियां विपमे ठाम ॥ ए ॥
 ॥ ढाल वावीशमी ॥

॥ नोकरवाली वंदीयें ॥ ए देशी ॥ शांतिजिणोसर एम कहे, सवि सदहे
 रे जत्रियण जिनवाणी ॥ व्रत बीजुं तुमें आदरो, मृषावादनुं रे कीजें पच्च
 र्काण ॥ १ ॥ धन्य जिनवाणी जे सुणे ॥ ए आंकणी ॥ नवि बोले रे कूडुं
 लवलेश ॥ ते सुखीया सोचागीया, नवि पामे रे परजव संक्लेश ॥ ४ ॥
 ॥ २ ॥ पंच अतिचार एहना, वर्जीजें रे सहसान्याख्यान ॥ अण्णआलो
 ची कोइने, नवि दीजें रे अठतां अपमान ॥ ४ ॥ ३ ॥ वात एकांत
 नी कोइने, नवि कहीयें रे रहअन्याख्यान ॥ जेद स्वदारामंत्रनो, नवि क
 रियें रे जेहथी होय हाण ॥ ४ ॥ ४ ॥ मोसुवएस दीजें नहीं, विदु
 वढतां रे कांहिं कूडिबुद्धि ॥ कूड लेख लखवो नहिं, मन आणियें रे
 धरि समतागुद्धि ॥ ४ ॥ ५ ॥ ए व्रत आदरिया विना, नवि आवे रे

लेखे व्रत कोइ ॥ धूरत श्रावकसुतनो, मृपा उपरें रे इहां उपनय होय
 ॥ ४० ॥ ६ ॥ ठे पारदारिक दस्युनी, प्रतिकिरिया रे जे बोले अलीक ॥ तस
 प्रतिकार न को मिले, ए धारजो रे मनमां तहकीक ॥ ४० ॥ ७ ॥ चार
 आश्रवनुं एकए दिजें, दिशि एकए रे मृपावादनुं पाप ॥ चारे अस
 त्यनुं त्राजनुं, एम बोले रे श्रीजगगुरु आप ॥ ४० ॥ ८ ॥ वायसपद
 जेम एकलुं, सामुद्रिक रे लक्षणनां लक्ष ॥ अप्रमाण करे तेम इहां,
 जूठ नांखनुं रे गुणगण प्रत्यक्ष ॥ ४० ॥ ९ ॥ यतः ॥ डुगंधो पूइमुहो,
 अणिष्वयणो अफरुस वयणो अ ॥ जल एल सूत्र मम्मण, अलिअ
 वयण जंपणे दोसा ॥ १ ॥ इह लोए त्रिय जीवा, जीहाठेहं वहं च
 बंधं वा ॥ अयसं धणनासं वा, पावंति अ अलिय वयणाउं ॥ २ ॥ पूर्वे
 ढाल ॥ कूडनांखी उपरें कह्यो, नइशेठनो रे प्रभुजी दृष्टांत ॥ निसुणे
 वारे परेदा, गुण अर्थी रे मन धरि एकांत ॥ ४० ॥ १० ॥ धरणीप्रति
 ष्ठित नयरमां, धनवर्जित रे द्योय वणिक वसंत ॥ डुष्टबुद्धि सुबुद्धि
 जलो, धन कारण रे परदेश जमंत ॥ ४० ॥ ११ ॥ कोइक पुरमांहे गया,
 लाजहेते रे रह्या केता दीह ॥ देहचिंता टालण जणी, एक दिन गयो
 तेह सुबुद्धि अवीह ॥ ४० ॥ १२ ॥ खंफित घरमांहे खोदतां, नाग्य
 योगें रे जडनुं तास निधान ॥ वेहु मली जोवे यदा, एक सहस्रज रे
 दीनारनुं मान ॥ ४० ॥ १३ ॥ कृतकृत्य थइ निजपुर वल्या, आवी उप
 वनें रे करे एम विचार ॥ नयरमेळें जातां यकां, ए वातनो रे वधजे
 विस्तार ॥ ४० ॥ १४ ॥ डुष्टबुद्धि कहे ए सवि, धन दाटियें रे जूमिमां
 इण ठाम ॥ गत एकेकने आशरे, लेइ जइयें रे आपण निजधाम ॥ ४०
 ॥ १५ ॥ सरलपणे बीजे सवे, वात मानी रे कीधुं ते काम ॥ बट
 पानें धन दाटीने, परजातें रे आव्या ते निज ठाम ॥ ४० ॥ १६ ॥
 गत दीनार ते डुष्टनी, दिन केने रे नाठी तत्काल ॥ पुण्य विना स्थिर
 नवि रहे, एह संपद रे सुणो जवि उजमाज ॥ ४० ॥ १७ ॥ यतः ॥
 न निमित्तद्विपां हेम, नायुर्वेद्यकविद्वियाम् ॥ न श्रीर्नातिद्वियामेक, मपि
 धर्मद्विपां न हि ॥ ३ ॥ पूर्वेढाल ॥ पुनरपि वेहु मली एकठा, जइ
 शाव्या रे जन गत दीनार ॥ अन्य दिवस डुष्टुद्धि ते, मनमांहे रे करे
 एम विचार ॥ ४० ॥ १८ ॥ बंधी सुबुद्धिने एकलो, जइ लावुं रे सयजो

ते माल ॥ शुं न करे धन लालची, धन सम नहिं रे जगमां कोइ साल
 ॥ ध० ॥ १९ ॥ रातें जइ सवि सामटुं, धन लाव्यो रे कपटी ते कु
 जात ॥ ठल करी सरलने ठेतरी, धनलोनी रे वंचे निजतात ॥ ध०
 ॥ २० ॥ साथें तेडी जइ तेहने, पठे जोयुं रे तेषें धनगाण ॥ मांहे
 कांहिं दीसे नहीं, कपटीनां रे जुउ एह विन्नाण ॥ ध० ॥ २१ ॥ हा हा
 डुबुदि कहे, मुऊ वंची रे कोइ धूरत एह ॥ माल जेइ गयो माहरो,
 हैयुं कूटे रे हाथेयुं तेह ॥ ध० ॥ २२ ॥ चिंते सुबुदि चित्तमां, एह धूरत
 रे एहनां सवि काम ॥ धुत्ता होय सुजहणा, जगमांहे रे कहेवाये आम
 ॥ ध० ॥ २३ ॥ अम विहु विण को नवि लहे, एह स्थानक रे त्रीजो जन
 मात्र ॥ सही लीधुं आवी एणें, एह जेहवो रे जग नहिं कमजात ॥ ध०
 ॥ २४ ॥ खंम ठठे वावीशमी, ढाल जांखी रे निसुणो गुणवंत ॥ इव्य समो
 नहिं को रिपु, जेणें मेहव्युं रे धन तेह सत्यवंत ॥ ध० ॥ २५ ॥ ७१७ ॥ ३६
 ॥ दोहा ॥

॥ कहे सुबुदिने पापीयो, तें सही लीधुं एह ॥ वीजुं कोइ जाणे
 नहीं, तुं थयो सहि निःस्नेह ॥ १ ॥ कहे सुबुदि डुबुदि सुण, मुऊ मन
 एहवुं हूंत ॥ तो एकांतें ए लखुं, शाने तुऊ सोपंत ॥ २ ॥ पण वंचक
 तुंहिज सही, तगमांहे शिरदार ॥ तुऊ विण दूजो को नहीं, ए निधान
 जेनार ॥ ३ ॥ प्रीति रही नहिं तेउने, कलहो लाग्यो जोर ॥ मांहोमांहि
 धन कारणें, बोले वयण कठोर ॥ ४ ॥ ऊगडंता वेहु आविया, नरपतिने
 दरवार ॥ अरज करे ऊंचे स्वरें, डुष्टबुदि तेण वार ॥ ५ ॥

॥ ढाल त्रेवीशमी ॥

॥ देराणी जेठाणीना गोंखला ॥ ए देशी ॥ राजन् अम वेहु पामीया,
 निधि कोइक ठाम उदार रे ॥ साहिव सुणो विनति ॥ ए आंकणी ॥
 तुऊ नययी अमें वडतलें, जेइ संताडयुं निर्धार रे ॥ सा० ॥ १ ॥ मुऊ
 वंची एणें जियुं, नहिं चूमिमांहे ते निधान रे ॥ सा० ॥ तुऊ विण कुण
 मुऊ सांनजे, फरियाद ए सुगुणनिधान रे ॥ सा० ॥ २ ॥ तुम वेठां
 ए नयरमां, वरते जो एहवो अन्याय रे ॥ सा० ॥ तो अम जेहवा अना
 थनी, कहोने हवे शी गति थाय रे ॥ सा० ॥ ३ ॥ कहे राजन साखी
 श्हां, ठे कोइ के कल्पितवात रे ॥ सा० ॥ धन कारण बहु केउवे, एम

कूड घणां कमजात रे ॥ सा० ॥ ४ ॥ कहे ड्युधि इहां साखीयो, ठे वट
 विटप माहाराज रे ॥ सा० ॥ ते जो साख जरे इहां, तो देजो सावाश
 रे ॥ सा० ॥ ५ ॥ लीधुं सुबुधियें वित्त ए, एम जो कहे ए वड वाणी रे
 ॥ सा० ॥ तो मुऊ साचो जाणजो, घणुं शुं कहुं तुमने ताणी रे ॥ सा०
 ॥ ६ ॥ कहे नृपति जो एम हरो, तो पामिश बहु सन्मान रे ॥ सा० ॥
 जो जूठो थाइश इहां, तो डःख लहिश असमान रे ॥ सा० ॥ ७ ॥ ड
 र्युधि कहे रायने, करणुं प्रजातें ए काज रे ॥ सा० ॥ नरवर कहे ते
 वेहुने, जाउं देइ जमान घर आज रे ॥ सा० ॥ ८ ॥ ते विहु निजमं
 दिर गया, मनमांहे विमासे सुबुधि रे ॥ सा० ॥ ड्युधट काम एणें पडि
 वळ्ळुं, कलशी केलवरो ड्युधि रे ॥ सा० ॥ ९ ॥ अथवा जय होवे धर्मधी,
 नही खोटुं इहां तिलमात रे ॥ सा० ॥ श्यो नय मनमांहे आणवो,
 जिहां कूड त्यां धूड कहात रे ॥ सा० ॥ १० ॥ ड्युधि जइ निजघरे,
 कहे तातप्रत्यें समजाय रे ॥ सा० ॥ लाव्यो निधान हुं रातमां, जगडो
 मंदाणो आय रे ॥ सा० ॥ ११ ॥ नइगोठ वजतुं कहे, हवे करवो कोण
 उपाय रे ॥ सा० ॥ धन वाहाळुं एकण दिगं, एकदिशि इकत कहे
 वाय रे ॥ सा० ॥ १२ ॥ पुत्र कहे निर्धन तणी, इकत श्ये आवे काम
 रे ॥ सा० ॥ धनहूंती इकत घणी, बली बाधे जगमांहे माम रे ॥
 सा० ॥ १३ ॥ माटें वटकांटर बच्चें, पेशी रहो रातें तात रे ॥ सा० ॥
 प्रजातें कहेजो तुम्हें, धन लीधुं सुबुधें एम वात रे ॥ सा० ॥ १४ ॥ सुत
 उपरोधें मानीयुं, तेणें डुप्कर पण काम रे ॥ सा० ॥ अनिजोनी नर जे
 दुये, तेहनी न रहे जगमां माम रे ॥ सा० ॥ १५ ॥ रातें रह्यो वट
 कांटरें, प्रजातें मव्यां जनवृंद रे ॥ सा० ॥ महीपति पण तिहां था
 वियो, जुवो कपटीनो हवे फंद रे ॥ सा० ॥ १६ ॥ पुरजन नृप सहु दे
 खतां, वटतरु पूजे उजमाल रे ॥ सा० ॥ ड्युधुधि एम उजरे, कही
 इयनी अमने जाल रे ॥ सा० ॥ १७ ॥ वैश्रमणाजय सांजलो, तुम
 उपर एद्र विवाद रे ॥ सा० ॥ सयजे मनीने ठंगवियो, कह्यो जेम दोव
 अम थाहाद रे ॥ सा० ॥ १८ ॥ वटकांटरमांहे रह्यो, सहु सांजततां
 नइगोठ रे ॥ सा० ॥ कहे निहणो सहु को तुम्हें, ए काम सुबुधितुं
 ठेव रे ॥ सा० ॥ १९ ॥ राय कहे ते सुबुधिते, निधि लीयो मुऊ देखा

ड रे ॥ सा० ॥ चिंते सुबुद्धि तरु नवि कहे, दुर्बुद्धिं रच्युं सवि आल
 रे ॥ सा० ॥ १० ॥ वटकोटरथी नीसरी, वाणी नरनी ए आज रे ॥
 सा० ॥ सांकेतिक सही इहांकणे, कोइ नरथी थयुं ए काज रे ॥ सा० ॥
 ११ ॥ कर जोडी कहे जूपने, में देवुं धन उल्लास रे ॥ सा० ॥ पण जो
 हुकम होय राउलो, तो हुं करुं एक अरदास रे ॥ सा० ॥ १२ ॥ कहे
 राजा सुखें विनवो, कहे में लीधुं धन तेह रे ॥ सा० ॥ पण ए तरुको
 टर विचें, मूकीने गयो निजगेह रे ॥ सा० ॥ १३ ॥ एक दिन लेवा आ
 आवियो, तव दीतो इहां अहि एक रे ॥ सा० ॥ फण मांमी ऊपर रह्यो,
 नयंकर दीसे अति ठेक रे ॥ सा० ॥ १४ ॥ मुऊ धन अधिष्ठायक थई,
 रह्यो जो कहो तो हणुं देव रे ॥ सा० ॥ राय अनुज्ञा तव दुई, करो कारिज
 वहेला हेव रे ॥ सा० ॥ १५ ॥ शर्पण ठगण जेई घणां, तरुकोटर पूरे
 सुबुद्धि रे ॥ सा० ॥ अग्निथी धूम थयो घणो, गइ जइ तणी शुद्ध बुद्धि रे
 ॥ सा० ॥ १६ ॥ लोचन अकुलाणां घणुं, पड्यो उठलीने जूपीठ रे ॥
 सा० ॥ पुरपति पुरजन सहु मळ्यां, जइशेवने प्रत्यह दीठ रे ॥ सा० ॥
 १७ ॥ पूठे सकौतुक सहु तिहां, कहे सुत डुष्टें मुऊ लाज रे ॥ सा० ॥
 खोवरावी सहु शहेरमां, एणें कीधुं नीच अकाज रे ॥ सा० ॥ १८ ॥
 कूडी साख नरावीने, जव इज्जतनो कखो नाश रे ॥ सा० ॥ मुऊ जेवो
 जड को नहिं, पड्यो मोहतणे हुं पाश रे ॥ सा० ॥ १९ ॥ वाक्य अ
 जिक मुऊने फड्युं, एहिज जवमां नरदेव रे ॥ सा० ॥ एम जाणीने सहु
 तुम्हें, मत राखो अजिकनी टेव रे ॥ सा० ॥ २० ॥ जइजणी राय मू
 कियो, तस सुत तेडी जूपाल रे ॥ सा० ॥ धन सघळुं लेइ करी, पुर वा
 हिर कखो तत्काल रे ॥ सा० ॥ २१ ॥ सुबुद्धि जणी सन्मानियो, देइ
 वस्त्राचरण अमूळ्य रे ॥ सा० ॥ नृप जन सहु घर आवीयां, जग एहडुं
 असत्यनुं अल रे ॥ सा० ॥ २२ ॥ इह परजव दुःखदायक, जाणीने
 असत्य तजो दूर रे ॥ सा० ॥ सुण चक्रायुध राजीया, सत्यथी होय सुख
 नरपूर रे ॥ सा० ॥ २३ ॥ व्रत बीजा उपरें कह्यो, प्रचुजीयें संवध रसाल
 रे ॥ सा० ॥ ठठे खंमें त्रेवीशमी, कही रामविजयें ए ढाल रे ॥ सा० ॥ २४ ॥
 इति मृपावादविरमणद्वितीयव्रते जइश्रेष्ठिकथानकं ॥ १ ॥ सर्वगाथा ॥ ८५ ॥ २६

॥ अथ तृतीयस्थूल अदत्तादानविरमण व्रतसंबंधः ॥

॥ दोहा ॥

॥ स्थूल अदत्त परित्यागनुं, व्रत त्रीजुं कहे स्वामि ॥ चक्रायुध नृप आ गलें, सवि नविजन हितकाम ॥१॥ स्वामी जीव गुरु तीर्थकर, अदत्त कखुं चउ जेद ॥ चउजेदें ए साधुने, तजवुं तजि मन खेद ॥ २ ॥ कनकादिक स्वामी अदत्त, नवि लीजें कोइ वार ॥ सचित्त फलादिक जेदतां, जीवादत्त वि चार ॥ ३ ॥ तेह फलादिक जीवडे, नवि दीथां निज प्राण ॥ तेह नणी जेवुं नहिं, सचित्त फलादिक जाण ॥ ४ ॥ गृही दीधुं पण साधुने, आधा कर्मां जेह ॥ तीर्थकर आणा नहिं, अदत्त तीर्थकर तेह ॥ ५ ॥ आवकने प्राणुक वली, अचह् ने काय अनंत ॥ वावरतां तीर्थकरें, अदत्त कखुं नगवंत ॥ ६ ॥ सर्वदोष निर्मुक्त पण, अनिमंत्री गुरु सार ॥ जे जुंजीजें तें कह्यो, गुरु अदत्त सुविचार ॥ ७ ॥ स्वामि अदत्तनो इहां कणे, स्थूलव्रतें अधिकार ॥ यत्न करीने जालवो, ए व्रत निरतिचार ॥ ८ ॥ चौरानीत न लीजियें, चौरप्रयोग निवार ॥ सरस नीरस वेहु जेलीने, नवि कीजें व्यापार ॥ ९ ॥ राज्यविरुद्ध न कीजियें, कूटतुला ने मान ॥ पंच दोष ए टालतां, शुद्ध व्रत कखुं निदान ॥ १० ॥ यहुक्तं ॥ चौरश्वोरार्पको मंत्री, जेद इः काणककथी ॥ अन्नदः स्थानदश्चेति, चौरः सप्तविधः स्मृतः ॥ १ ॥

॥ हाल चौबीशमी ॥

॥ आदि ए आदि जिणोसर, नानिनरिंद मब्हार ॥ ए देशी ॥ शांति जिनेश्वर एम कहे, सांचलो सवि नर नारी ॥ एह अतिचार टालवा. चौरप्रसूति निवार ॥ नजवुं ए कुशलनुं पूठवुं, संज्ञाकरण सुविचार ॥ राजनोग्य धननिद्रव, अवलोकन तेम धार ॥ १ ॥ ठहुं अमार्गनुं दर्शन, शक्यासमर्पण जाणो ॥ पदचंग जाणीयें आठमो, विश्राम नवम नखाणो ॥ पादपतन आसन तिम, गोपन मन नवि आणो, खंम स्वा इन माहाराजिक, वजें ए सुगुण सुजाणो ॥ २ ॥ पद द्वितकारक पय, वमण जल तेल न दीजें ॥ पाकने कारण अग्रिनुं. दान कदापि न कीजें ॥ पानने अर्थ शीतल जल, दीवे ए जाच न लीजें ॥ पद्युबंधनने ए रब्हुनुं, दान देतां गुण लीजें ॥ ३ ॥ चौरप्रसूति अटार ए, जाणी करे जेह त्याग ॥ सुजस्त महोदय ते लते, दिन दिन अधिक सांचाग ॥

ड रे ॥ सा० ॥ चिंते सुबुद्धि तरु नवि कहे, दुर्बुद्धिं रच्युं सवि आल
 रे ॥ सा० ॥ ३० ॥ वटकोटरथी नीसरी, वाणी नरनी ए आज रे ॥
 सा० ॥ सांकेतिक सही इहांकणे, कोइ नरथी अयुं ए काज रे ॥ सा० ॥
 ३१ ॥ कर जोडी कहे नूपने, में देवुं धन उल्लास रे ॥ सा० ॥ पण जो
 हुकम होय राजलो, तो हुं करुं एक अरदास रे ॥ सा० ॥ ३२ ॥ कहे
 राजा सुखें विनवो, कहे में लीधुं धन तेह रे ॥ सा० ॥ पण ए तरुको
 टर विचें, मूकीने गयो निजगेह रे ॥ सा० ॥ ३३ ॥ एक दिन लेवा आ
 आवियो, तव दीतो इहां अहि एक रे ॥ सा० ॥ फण मांती ऊपर रह्यो,
 नयंकर दीसे अति ठेक रे ॥ सा० ॥ ३४ ॥ मुऊ धन अधिष्ठायक थई,
 रह्यो जो कहो तो हणुं देव रे ॥ सा० ॥ राय अनुज्ञा तव दुई, करो कारिज
 वहेला हेव रे ॥ सा० ॥ ३५ ॥ शर्पण ठगण लेई घणां, तरुकोटर पूरे
 सुबुद्धि रे ॥ सा० ॥ अग्निथी धूम अयो घणो, गइ नइ तणी शुद्ध बुद्धि रे
 ॥ सा० ॥ ३६ ॥ लोचन अकुलायां घणुं, पड्यो उठलीने नूपीठ रे ॥
 सा० ॥ पुरपति पुरजन सहु मय्यां, नइजोवने प्रत्यह दीठ रे ॥ सा० ॥
 ३७ ॥ पूठे सकौतुक सहु तिहां, कहे सुत डोषें मुऊ जाज रे ॥ सा० ॥
 खोवरावी सहु शहेरमां, एणें कीधुं नीच अकाज रे ॥ सा० ॥ ३८ ॥
 कूडी साख नरावीने, नव इज्जतनो कखो नाश रे ॥ सा० ॥ मुऊ जेवो
 जड को नहिं, पड्यो मोहतणे हुं पाश रे ॥ सा० ॥ ३९ ॥ वाक्य अ
 लिक मुऊने फल्युं, एहिज नवमां नरदेव रे ॥ सा० ॥ एम जाणीने सहु
 तुम्हें, मत राखो अलिकनी टेव रे ॥ सा० ॥ ४० ॥ नइजणी राय मू
 कियो, तस सुत तेडी नूपाल रे ॥ सा० ॥ धन सघळुं लेइ करी, पुर वा
 हिर कखो तत्काल रे ॥ सा० ॥ ४१ ॥ सुबुद्धि नणी सन्मानियो, देइ
 वस्त्राजरण अमूव्य रे ॥ सा० ॥ नृप जन सहु घर आवीयां, जग एहवुं
 असत्यनुं शूल रे ॥ सा० ॥ ४२ ॥ इह परनव दुःखदायकु, जाणीने
 असत्य तजो दूर रे ॥ सा० ॥ सुण चक्रायुध राजीया, सत्यथी होय सुख
 नरपूर रे ॥ सा० ॥ ४३ ॥ व्रत वीजा उपरें कह्यो, प्रभुजीयें संवध रसाल
 रे ॥ सा० ॥ ठठे खंमें त्रेवीशमी, कही रामविजयें ए ढाल रे ॥ सा० ॥ ४४ ॥
 इति मृपावादविरमणद्वितीयव्रते नइश्रेष्ठिकथानकं ॥ ३॥ सर्वगाथा ॥ ८५७ ॥ ३६

॥ अथ तृतीयस्थूल अदत्तादानविरमण व्रतसंबंधः ॥

॥ दोहा ॥

॥ स्थूल अदत्त परित्यागनुं, व्रत त्रीजुं कहे स्वामि ॥ चक्रायुध नृप आ
गर्जे, सवि नविजन हितकाम ॥१॥ स्वामी जीव गुरु तीर्थकर, अदत्त कखुं
चउ चेद ॥ चउचेदे ए साधुने, तजवुं तजि मन खेद ॥ २ ॥ कनकादिक
स्वामी अदत्त, नवि लीजे कोइ चार ॥ सचित्त फलादिक चेदतां, जीवादत्त वि
चार ॥ ३ ॥ तेह फलादिक जीवडे, नवि दीधां निज प्राण ॥ तेह नणी
जेवुं नहिं, सचित्त फलादिक जाण ॥ ४ ॥ गृही दीधुं पण साधुने, आधा
कर्मी जेह ॥ तीर्थकर आणा नहिं, अदत्त तीर्थकर तेह ॥ ५ ॥ श्रावकने
प्राणुक वली, अचरु ने काय अनंत ॥ वावरतां तीर्थकरें, अदत्त कखुं
नगवंत ॥ ६ ॥ सर्वदोष निर्मुक्त पण, अनिमंत्री गुरु सार ॥ जे छंजीजे
ते कह्यो, गुरु अदत्त सुविचार ॥७॥ स्वामि अदत्तनो इहां कणे, स्थूलव्रतें
अधिकार ॥ यत्न करीने जालवो, ए व्रत निरतिचार ॥ ८ ॥ चौरानीत
न लीजियें, चौरप्रयोग निवार ॥ सरस नीरस वेहु चेलीने, नवि कीजे
व्यापार ॥ ९ ॥ राज्यविरुद्ध न कीजियें, कूटतुला ने मान ॥ पंच दोष ए
टालतां, गुह्य व्रत कखुं निदान ॥ १० ॥ वडुक्तं ॥ चौरश्वोरार्पको मंत्री, चेद
द्वः काणकक्रयी ॥ अन्नदः स्थानदश्चेति, चौरः सप्तविधः स्मृतः ॥ १ ॥

॥ ढाल चोवीगमी ॥

॥ आदि ए आदि जिणोसर, नाजिनरिंद मद्धार ॥ ए देशी ॥ शांति
जिनेश्वर एम कहे, सांजलो सवि नर नारी ॥ एह अतिचार टालवा,
चौरप्रसूति निवार ॥ नलवुं ए कुशलनुं पूठवुं, संज्ञाकरण सुविचार ॥
राजचोग्य धननिदव, अचलोकन तेम धार ॥ १ ॥ ठहुं अमार्गेनुं दर्शन,
शुद्ध्यासमर्पण जाणो ॥ पदचंग जाणीये आठमो, विश्राम नचम
बखाणो ॥ पादपतन आसन तिम, गोपन मन नवि आणो, खंरु खा
दन माहाराजिक, वजे ए सुगुण सुजाणो ॥ २ ॥ पद हितकारक
पय, उमण जल तेल न दीजे ॥ पाकने कारण अग्रिनुं, दान कदापि न
कीजे ॥ पानने अर्थे नीतज जल, दीये ए जान न लीजे ॥ पशुबंधनने ए
रहुनुं, दान देतां गुण तीजे ॥ ३ ॥ चौरप्रसूति अटार ए, जाणी करे
जेह त्याग ॥ सुजस महोदय ते लहे, दिन दिन अधिक लोनाग ॥

॥ अथ चौरप्रसूतिकास्वरूपं गाथाजिर्लिख्यते ॥ जलनं कुशलं तर्जा, राज
 नागोवलोकनम् ॥ अमार्गदर्शनं शय्या, पदचंगस्तथैव च ॥ १ ॥ विश्राम
 पादपतनं, चासनं गोपनं तथा ॥ खंसस्य खादनं चैव, तथान्यन्माहा
 राजिकम् ॥ २ ॥ पद्याशुदकरङ्गुनां, प्रदानं ज्ञानपूर्वकम् ॥ एताः
 प्रसूतयोज्ञेया, अष्टादश मनीषिभिः ॥ ३ ॥ पूर्वढाल ॥ एह अदत्त निवा
 रीने, साधे जे मुक्तियो माग ॥ ते गृही उत्तमगति लहे, आगल शिव
 गति लाग ॥ ४ ॥ यदुक्तं ॥ खिते खले अरत्ने, दिव्यायराठ व सढ
 घाए वा ॥ अढो से न विणस्सइ, अचोरिआए फलं एयं ॥ ४ ॥ गामागर
 नगराणं, दोण सुह मंमवं पट्टणाणं च ॥ सुइरं हवंति सामी, अचोरिया
 ए फलं एयं ॥ ५ ॥ पूर्वढाल ॥ ए व्रत पालवुं यत्तथी, जिनदत्त परें
 सुखकार ॥ चक्रायुध नृप आगलें, कहे प्रभु तस अधिकार ॥ नयर
 वसंतपुरें वसे, जिनदास श्रावक सार ॥ जीवाजीवादिक तत्त्वना, जाणे
 ए अर्थ विचार ॥ ६ ॥ जिनदत्त नामें ए नंदन, जन आनंदन जाचो ॥
 जिनवर धर्म समाचरे, जाणे ए मारग साचो ॥ कुल कन्या विवाहनी,
 वातमांहे हवे राचो ॥ मात पिताने जिनदत्त, कहे संसार ए काचो
 ॥ ७ ॥ मित्रमंमलशुं परवस्यो, एकदिन उपवन जाय ॥ देखि उत्तंग
 मनोहर, जिनगृह हर्षित थाय ॥ मित्र संघातें ए आवे रे, नाव धरी
 मनमांहि ॥ पूजा करी जिनराजनी, चैत्यवंदन करे त्यांहि ॥ ८ ॥
 अथ चैत्यवंदनं ॥ जय जय तुं जिनराज आज, मजियो मुक्त स्वामी ॥
 अविनाशी अकलंक, रूप जग अंतर्यामी ॥ रूपारूपी धर्म, देव आतम
 आरामी ॥ चिदानंद चेतन अचिंत्य, शिवलीला पामी ॥ सिद्धि बुद्धि तुम
 वंदतां ए, सकल सिद्धि वर बुद्धि ॥ राम प्रभु ध्यानं करी, प्रगटे आतम
 रुद्धि ॥ १ ॥ काल बहु स्थावर घरे, जमीयो नवमांहि ॥ विकलेंडिय मांहि
 रस्यो, स्थिरता नहीं क्यांही ॥ तिरि पंचेंडिय मांहि देव, कर्में हुं आयो ॥
 अरि कुकर्म नरकें गयो, दरिसन नवि पायो ॥ एम अनंत कालें करी ए,
 असो नर अवतार ॥ हवे जगतारण तुं मिव्यो, नवजल पार उतार
 नरपूर ॥ इति चैत्यवंदनं ॥ अथ स्तवनं ॥ श्री राग ॥ मुनि ध्येय नमोसुर
 रे ॥ सणे, पतितपावन शुचि नाम नमो ॥ चिंतित सकल मनोरथ पूरण,
 इति मृपा परिणाम नमो ॥ मुण ॥ १ ॥ जिनमुनिनाथ जिनेश्वर शं

कर, परमात्म अरिहंत नमो ॥ पारंगत परमेष्टि अधीश्वर, नयनजन
जगवंत नमो ॥ मु० ॥ ३ ॥ शंभु स्वयंभु जगत्प्रभु अनयद, वीतराग गुण
सिंधु नमो ॥ बोधिदायक त्रिहु कालके ज्ञायक, अशरण शरण सुबंधु
नमो ॥ मु० ॥ ३ ॥ केवलकमलाकंत महोदय, सिद्ध बुद्ध सर्वज्ञ नमो ॥
तीर्थकर तीर्थेश्वर ईश्वर, पुरुषोत्तम परमज्ञ नमो ॥ मु० ॥ ४ ॥ आन
अनंत अचिंत्य गुणाकर, निर्मोही अविचार नमो ॥ पूर्णानंद स्वयंबुद्ध
साहिव, योगीश्वर जितमार नमो ॥ मु० ॥ ५ ॥ लोकालोक प्रकाशक
जासक, आनंदघन अविनाश नमो ॥ देवाधिदेव शरण एक तेरो, ह्याधिक
जावविलास नमो ॥ मु० ॥ ६ ॥ इत्यादिक शुच नामके धारक, करु
प्रणिपत्य त्रिहुं कालनमो ॥ राम कहे करो सेवक ऊपर, करुणादीन दयाल
नमो ॥ मु० ॥ ७ ॥ इति श्रीजिनस्तुतिः ॥ पूर्वदाल ॥ एह्वे तिहां
एक आवी ए, जावी कनी मन रंगें ॥ यौवन रूप रसाली, मनोहर बाणी
सुचंगे ॥ निज उत्तरीय करी मुख, कोश धरी मन जाव ॥ जिनमुख मंमन
करती, मनोहर रंग वनाव ॥ ९ ॥ अंगें ए आंगी अनोपम, उपती कांति
अपार ॥ केसर घन घनसारशुं, विरचे ए विविध प्रकार ॥ पत्रवल्ली
रचना वली, नवली कपोलें ए सारी ॥ करती श्रीजिनविंशने, कुमरे निहाली
ए नारी ॥ १० ॥ जिनदत्त कहे निजमित्रने, कोण कनी ए सारी ॥
जकि करे जगवंतनी, मित्र कहे सुविचारी ॥ प्रियमित्र सारथवाहनी, नंदनी
जिनमती नामें ॥ शुचजक्षण संपूरण. सृष्टें घडी एह कामें ॥ ११ ॥
रुपें ए सरिखी रे ताहरे, जोडी मिले गृहवास ॥ तो सफलो होय विधि
तणो, ए निर्माणप्रयास ॥ जिनदत्त कहे जिनचुवनमां, हास्य न कीजें ए
चाई ॥ आशातन होय जिनतणी, विषयकथा दुःखदाची ॥ १२ ॥ जवन्य
तोपि जिनगृहे दश आशातना वर्जनीयाः॥ तद्यथा ॥ तंत्रोल पाण जावण,
वाणद भेदूण सवण निहुवणं ॥ मुनुवारं जूयं, वळेजिणनाह जगईए
॥ ५ ॥ उत्कृष्टतश्चतुरङ्गीतिसंख्यया आशातना वर्जनीयाः॥ तद्यथा ॥ खेले १
केजि २ कजि ३ कजा ४ कुजजयं ५ तंत्रोल ६ मुग्गालयं ७, नाली ८ कंगुली
गा ९ मरीरघणं १० केमे ११ नदे १२ जोहियं १३ ॥ जतो १४ सत्तप
१५ पित्त १६ वंनि १७ वरणा १८ विन्तामणं १९ दामणं २०, दंत २१
हो २२ नद २३ गल २४ नासिद्य २५ त्रियो २६ चुन २७ सुदीणं २८

मलं ॥ ७ ॥ मंतं ३ए मीलण ३० लिस्त्रियं ३१ विन्नजणं ३२ चंमार
 ३३ डुछासणं, ३४ ठाणी ३५ कप्पड ३६ दालि ३७ पप्पड ३८ वडी
 ३९ विस्सारणं नासणं ४० ॥ अक्कंदं ४१ विकहं ४२ सरह्वडणं ४३
 तेरिह्वसंगवणं, ४४ अग्गीसेवण ४५ रंधणं ४६ परिखणं ४७ निस्सी
 हियाचंजणं ४८ ॥ ८ ॥ ठत्तं ४९ वाहाण ५० सड्ड ५१ चामर ५२ मणो
 णोगत्त ५३ मध्निंगणं, ५४ सच्चित्ताण ५५ मचायचायमजिए ५६ दिहीइ
 नोअंजली ५७ ॥ साडेगत्तरसंगजंग ५८ मउडं, ५९ मोलिं ६० सिरे
 सेहरं ६१ डुम्हा ६२ जिंहुह ६३ गिम्हीआइरमणं ६४ जोहार ६५ चंड
 क्किअं ६६ ॥ ९ ॥ रिक्कारं ६७ धरणं ६८ रणं ६९ विवरणंवालाण ७०
 पद्धन्निअं ७१, पाऊ ७२ पायपसारणं ७३ पुडपुडी ७४ पंकं ७५ रत्तं ७६
 मेहुणं ७७ ॥ जूअं ७८ जेमण ७९ जुळ ८० विळ ८१ वणिजं ८२ सिळं ८३
 जलेमळणं, ८४ एमाई अमवळ कळ मुजुत्त वळे जिणंदालए ॥ १० ॥ इति
 चतुरशीति आशातनाविचारः ॥ १० ॥ पूर्वदाल ॥ जाणो ए आशय माहरो,
 दह्द तमे गुणवंता ॥ चारित्र लेइ ए नर नव, हुं करशुं फलवंता ॥ जिनमुख
 मंमन चातुरी, जाव लही पूठयुं एह ॥ नहिं लवलेशथी माहरे, एह उपर
 कांइ नेह ॥ १३ ॥ कीजें ए केम जिनमंदिर, नारिकथा सुणो जाइ ॥ एम
 कहीने रह्यो जिनदत्त, जिनमुख दृष्टि लगाइ ॥ जिनदत्त कुमर निहालतां,
 थयो मनमां अनुराग ॥ शुन्न आकार ए जो वरुं, तो महारुं वड जाग्य
 ॥ १४ ॥ जाणुं सखीजन स्वामिनी, जिनदत्त उपरें मोही ॥ मेल मले किम
 वातनो, कुंवर ए निर्मोही ॥ जिनमती पण घरे आवीरे, पितरने कहे सखी
 वात ॥ ते निसुणी मन रीजिया, थइ सुखिणी सवि धात ॥ १५ ॥ जिनदत्त
 पण घरे आवीयो, करे वारु व्यवहार ॥ न्याय मारग नवि लोपे ए, पाले
 अखंम आचार ॥ खंम ठठे ए चोवीशमी, ढाल कही मनरागें ॥ राम कहे
 हवे एहनी, वात सुणो नवि आगें ॥ १६ ॥ सर्वगाथा ॥ ८९२ ॥ ४७ ॥

॥ दोहा सोरठी ॥

॥ प्रियमित्र सारथ वाह, गयो जिनदासने मंदिरें ॥ मेलणने विवाह, हपे
 थरी हेजालुत्त ॥ १ ॥ तेहने दीथो ताम, जिनदामें आदर घणो ॥ पूठयुं
 कहो कुण काम, पाउथाखा अम आंगणे ॥ २ ॥ ते कहे कन्यादान,
 देवाने हुं आवीयो ॥ तुम सुत सुगुणनिधान, अम मनमां वणुं जावि

चो ॥ ३ ॥ कीधी वात प्रमाण, जिनदत्तने जनकें तिहां ॥ आब्यो घरे
मुजाण, मुह माग्या पासा ढल्या ॥ ४ ॥ जिनदत्त मंदिरमांहि, आब्यो
वात कही सवे ॥ पण संयमनी चाह, नवि इहे विवाहने ॥ ५ ॥
जिनमंदिरनी वात, मांफीने सयली कही ॥ पण ते निसुणी जात, मौन
धरी मनमां रह्यो ॥ ६ ॥

॥ ढाल पञ्जीशमी ॥

॥ चांदलीयोने उग्यो रे हरणी आथमी रे ॥ ए देशी ॥ जिनमती
वोले रे सहीयर माहरी रे, मन हरी जिनदत्तें लीथ ॥ खणी न जाये रे
वैरिणी थइ रही रे, कांइ मुऊ कामण कीथ ॥ जि० ॥ १ ॥ चंदनशीतल
चंइनी चंइकारे, मुऊ तन दहे रे अपार ॥ रात दिवस मुने वध्वन सांचरे
रे, श्वासमांहे सो वार ॥ जि० ॥ २ ॥ वैर वसाव्युं रे एहने निरखतां रे,
नवि लही प्रीतिनी रीत ॥ बाहेर दीसे रे शीतल ए सही रे, पण ठे ए अ
घिनी मित्त ॥ जि० ॥ ३ ॥ माया लगाडी रे जिनघने आवीने रे, पण न
हिं मुऊगुं रे राग ॥ हुं तस कारण अहोनिश टलवलुं रे, पण मिलवुं होवे
जाग्य ॥ जि० ॥ ४ ॥ निसुण्यो वैरागी रे में तेहने सही रे, एक परवी रे
एह प्रीत ॥ केम जोडागे रे सहीयर माहरी रे, सबल विमासण चित्त ॥
जि० ॥ ५ ॥ सहीयर वोले रे धर धीरज मनें रे, मित्रगे हो वाजिम
तेह ॥ तुऊथी विवाहनी वातने सांचली रे, मौन धरी रह्यो तेह ॥ जि०
॥ ६ ॥ एम अनुरागे रे दिवस घणा गया रे, एक दिन घरथी रे तेह ॥
निसरती नीरखी रे पुररकुकें रे, वसुदत्तें सतनेह ॥ जि० ॥ ७ ॥ मोहन
गारी रे निरखी मानिनी रे, मनमांहे मांह्यो अत्यंत ॥ जनकने चांखे रे
परणायो मुने रे, जिनमती एह एकांत ॥ जि० ॥ ८ ॥ प्रियमित्र वोले
रे ए जिनदत्तने रे, दीधी अम्हे सुणो तंत ॥ माटें कसुं हवे ए शा काम
तुं रे, सुणि तेह फेय धरंत ॥ जि० ॥ ९ ॥ छुट रीताणो रे जिनदत्त ऊपरें
रे, विषय ए अनरथ मूल ॥ विषय विद्वुहां रे जगमांहे मानवी रे, गति
मनि मित्रे सवि भूल ॥ जि० ॥ १० ॥ एक कनक रे वृजी कामिनी रे,
दोव घाटी बिकराज ॥ बहु खेवाणा रे एहमांहे वापटा रे, तस नहिं
सार मंजाल ॥ जि० ॥ ११ ॥ आरकुक तज ताके अहोनिशें रे, जिनदत्त
हणवाने काज ॥ मनमांहि चिंते रे ए मारे थके रे, सही मुऊ सरगे

रे काज ॥ जि० ॥ १२ ॥ एम निष्कारण जगमांहे पापीया रे, बांधे हो
 कर्मनो राशि ॥ सरल स्वजावी रे जिनदत्तने मनै रे, वरते हो जाव उदास
 ॥ जि० ॥ १३ ॥ एक दिवस नृप रहवाडी चढ्यो रे, गयो उद्यान मजार ॥
 वलतां विचाले रे कुंमल काननुं रे, पडीयुं रे कोइक ठार ॥ जि० ॥ १४ ॥
 घरे आवीने रे रायें जाणीयुं रे, कीधो हुकम कोटवाल ॥ कुंमल जोवा रे
 तुरत ते चालीयो रे, वसुदत्त अइ उजमाल ॥ जि० ॥ १५ ॥ कर्म संयो
 गें रे कोइक कारणें रे, तिण वाटें जिनदत्त ॥ आगल चाव्यो रे बाहिर
 तिण समे रे, जो जो जावीनिमित्त ॥ जि० ॥ १६ ॥ कुंमल दीतुं रे तेषें
 मारग पड्युं रे, तजि मारग तेणी वार ॥ दूर अइने रे अलगो नीसखो रे,
 सामुं न जोयुं लगार ॥ जि० ॥ १७ ॥ यतः ॥ आत्मवत्सर्वनूतानि, पर
 इव्याणि लोघवत् ॥ मातृवत्परदारंश्च, यः पश्यति स पश्यति ॥ १ ॥ यः प
 रवादेण ॥ पूर्वढाल ॥ वसुदत्त आव्यो रे फिरतो तिहां कने रे, पडीयुं कुं
 मल देखि ॥ तुरत लेइने नृपने सोंपीयुं रे, नृप लह्यो हर्ष विशेष ॥ जि०
 ॥ १८ ॥ नरपति पूढे रे किहां ए पामीयुं रे, ते कहे जिनदत्त हाथ ॥
 जिनदत्त शाऊ रे परधन नवि हरे रे, एम बोले पुरनाथ ॥ जि० ॥ १९ ॥
 कहे वसुदत्त ए सरिखो को नहिं रे, चोर अवर रे संसार ॥ धर्मी नाम
 धरावी धीरवे रे, पश्यतोहर ए धूतार ॥ जि० ॥ २० ॥ नाम न लीजें
 रे साहेव एहनुं रे, एहवो नीच न कोय ॥ दुर्जन आव्या रे दावने चाल
 वे रे, रूठयो नृप सुणी सोय ॥ जि० ॥ २१ ॥ वध आदेश कखो कोटवा
 लने रे, कानें काचा हो राय ॥ जो जो विषयथकी विष निपन्युं रे, कीधां
 कर्म न जाय ॥ जि० ॥ २२ ॥ क्रोधवशें वसुदत्तें बांधीयो रे, जिनदत्तने
 ततकाल ॥ पुरमां सद्दु कोय हा हा रव करे रे, ए शुं थयुं रे अकाल ॥
 जि० ॥ २३ ॥ जिनदत्त जेहवो धर्मी को नहिं रे, न करे एम अन्याय ॥
 पण दुर्जन वसुदत्त जंचेरीयो रे, शान विदूणो ए राय ॥ जि० ॥ २४ ॥
 कहेण न माने रे राजा कोइनुं रे, वसुदत्त रोप अपार ॥ रक्तचंदनें लेपी तनु
 तेहनुं रे, कखो कणवीर सिंगार ॥ जि० ॥ २५ ॥ रासज उपरें ते चढा
 वीयो रे, लेइ चाव्यो वसुदत्त ॥ जुठ जिनदत्त अवस्था शी लही रे, कर्म उ
 दय बलवंत ॥ जि० ॥ २६ ॥ विरस वजाडे रे मिंमिम आगलें रे, पडे बहु
 वांसे हो मार ॥ ॥ नागर जन परिजन रोवे घणुं रे, ए शुं कखुं किरतार

॥ जि० ॥ २४ ॥ एहवा पुरुपरयणने मारतां रे, केम वहे नीचना हाथ ॥
 केम एहवी गुणवंतने आपदा रे, जे दीधी जगनाथ ॥ जि० ॥ २७ ॥
 चोक महेल गोंखे रही मानिनी रे, जोवे जिनदत्तरूप ॥ गति एहनी नारी
 नी शी हरो रे, थयुं ए अकाज विरूप ॥ जि० ॥ २९ ॥ आण्यो प्रिय
 मित्र सारथवाहने रे, मंदिर हेठे रे तास ॥ सुणी कोलाहल आवी गों
 खमां रे, जिनमती सुदती वलास ॥ जि० ॥ ३० ॥ दीगो रे जेहवे ते
 जिनदत्तने रे, रुदन करे तेणि वार ॥ हा मुऊ वालेसर जिनदत्तने रे, कां
 रूठो किरतार ॥ जि० ॥ ३१ ॥ हैयडुं जराइ रे आव्युं हेजथी रे, नवण
 वहे जलधार ॥ शोकपयोनिधि वेल वधी घणुं रे, अहो अहो मोह प्रकार
 ॥ जि० ॥ ३२ ॥ कां मुऊ उपरें देवज कोपीयो रे, जे मुऊ जीवन प्राण ॥
 ए जिनदत्तने जो तें एम कथुं रे, हवे जीव्युं अप्रमाण ॥ जि० ॥ ३३ ॥
 एम बिलपंती दीगी ते सती रे, मन चिंते जिनदत्त ॥ पार नहीं कांइ ए
 हनी प्रीतिनो रे, मुऊ कपर एक चित्त ॥ जि० ॥ ३४ ॥ मुऊ डुःख देखी
 रे डुःखणी ए घणुं रे, अहो ए नेह अठेह ॥ जो मुऊ आवे रे डुःखनो ठे
 हजो रे, तो करुं एहवी सनेह ॥ जि० ॥ ३५ ॥ नहिंतर मुऊने सागारी
 हजो रे, अणसण परजव सार ॥ एम चिंतवतां रे आण्यो तेहने रे, वध
 स्थानक तेणी वार ॥ जि० ॥ ३६ ॥ प्रियमित्र सारथवाहनी पुत्रिका रे,
 जइ ग्रहे चैत्यमकार ॥ जइ जिनवर आगल प्रणमी करी रे, करे एम म
 नणुं विचार ॥ जि० ॥ ३७ ॥ में मुऊ वालेसर जिनदत्तनुं रे, कष्ट टले
 निधार ॥ एह काउस्तग तो पारेवो सही रे, रही वनी तिण वार ॥ जि०
 ॥ ३८ ॥ चिंतणुं चिंती शासनदेवता रे, करजो मुऊने सदाथ ॥ जो तुं
 साची हुं जिनशासनं रे, तो मुऊ राखजो लाज ॥ जि० ॥ ३९ ॥ तुष्ट
 थइ तस शीलप्रजावथी रे, शासनदेवी ते वार ॥ आवे निहां श्रुली नांजी
 पडी रे, तृणपरें तेणें त्रण वार ॥ जि० ॥ ४० ॥ तरुवांध्यां वृटी तव वीरि
 कत रे, करे तव सद्गप्रहार ॥ कुमुतणी माळा जेम ते थयो रे, सवजो
 शीज आभार ॥ जि० ॥ ४१ ॥ जइ आरुकरु नरें नृप विनव्यां रे, नयवि
 स्मय मन धाणि ॥ आण्यो निहां दोडी उतायजो रे, जय जय तुं गुणधार
 ॥ जि० ॥ ४२ ॥ गज चैतारी आण्यो शहेरमां रे, तहु कहे जयजयकार ॥
 नरपति पृठणे भुगृहीनी कार्या रे, वस्तुदत्तनो अधिकार ॥ जि० ॥ ४३ ॥ न

रपति कोप्यो वसुदत्त उपरें रे, मूकाव्यो जिनदत्त ॥ सज्जन जिनशासन
 आराधतां रे, सहु उपरें सम चित्त ॥ जि० ॥ ४४ ॥ जिनदत्तनी परशंसा
 बहु वधी रे, धन्य धन्य ए जिनधर्म ॥ राजहुकमथी मंदिर आवियो रे, सहु
 साजन लह्यां शर्म ॥ जि० ॥ ४५ ॥ वात सुणीने काउस्सग्ग पारियो रे,
 जिनमती हर्ष न माय ॥ धन्य जिनशासननी रखवालिका रे, शासनदेवी
 तुं माय ॥ जि० ॥ ४६ ॥ वात सुणी प्रियमित्रना मुखथकी रे, हरख्यो
 मनमांहि तेह ॥ परणी शुज मुहूरत सा सुंदरी रे, वाध्यो सबल सनेह ॥
 ॥ जि० ॥ ४७ ॥ जोग्य विषयसुख जोगवीयां घणां रे, जिनमतीशुं मन
 रंग ॥ एक दिवस मुनि सुस्थितनी कनें रे, द्ये संयम मन उठरंग ॥ जि०
 ॥ ४८ ॥ चारित्र चोखुं पाली चित्त चोखे बन्दे रे, थयां सुरवर सुरलोक ॥
 शांतिप्रभु त्रीजा व्रत उपरें रे, कह्यो उपनय गतशोक ॥ जि० ॥ ४९ ॥
 ठठे खंमे रे ढाल पचवीशमी रे, रामविजय कही सार ॥ परधन परनारी
 थी वेगला रे, तेहना धन्य अवतार ॥ जि० ॥ ५० ॥ इति परइव्यापहार
 विरमणे तृतीयंजिनदत्तकथानकं ॥ ३ ॥ सर्वगाथा ॥ १४८ ॥ श्लो० ॥ ४८ ॥

॥ अथ चतुर्थ मैथुनविरमणव्रत संबंधः ॥

॥ दोहा ॥

॥ शांतिनाथ जिनवर कहे, सुण चक्रायुध नूप ॥ आलस अलगुं पर
 हरी, हवे अब्रह्म सरूप ॥ १ ॥ स्थूल सूक्ष्म जेदें कह्युं, मैथुन दोष प्र
 कार ॥ सूक्ष्म ईपत् कामथी, इंडियजनित विकार ॥ २ ॥ औदारिक वैक्रि
 य तथा, स्त्रीसारथे संजोग ॥ स्थूल कह्यो ते जिनवरें, मन वच काया योग
 ॥ ३ ॥ मैथुन विरमणरूप ते, ब्रह्मचर्य दोष जेद ॥ सर्वदेशथी आगमें,
 नाख्युं प्रभु गतवेद ॥ ४ ॥ सर्वनारी परिहार जे, सर्वथकी ते ब्रह्म ॥ इत
 रदेशथी जाणीयें, ए सागारी धर्म ॥ ५ ॥

॥ ढाल ठवीशमी ॥

॥ आदर जीव कृमागुण आदर ॥ ए देशी ॥ शांतिप्रभु जिनराज पयं
 पे, ए व्रत निरतिचार जी ॥ पालंतां शिवपद पामीजें, सुणी हवे तास वि
 चार जी ॥ १ ॥ म कर विषयविष आश ए विरुड, कहे अचिरानो नंद
 जी ॥ कर जोडी वर्षद सवि नावें, निसुणे थरि आनंद जी ॥ म० ॥ २ ॥
 अपरगृहीता विधवा कन्या, दिक पर नहीं एम जाण जी ॥ तास गमन क

स्तां होय पहेलो, नांखे त्रिचुवनजाण जी ॥ म० ॥ ३ ॥ इत्तर जाटी देइ
 वश कीधी, क्णिक गणिका नारी जी ॥ स्वल्पकाल साधारण बुद्धे, गमने
 बीजो अतिचार जी ॥ म० ॥ ४ ॥ अनंग तणी क्रीडा नवि करवी, पर
 नारी संवात जी ॥ अधरदशन कुचमर्दन चुवन, तजी आलिंगन वात
 जी ॥ म० ॥ ५ ॥ परनारीनां अंग मनोहर, नवि निरखे सविकार जी ॥
 शीजवंत श्रावकने चांखुं, एम कहे जगदाधार जी ॥ म० ॥ ६ ॥ यतः ॥
 पञ्च ठवंग दंसणेअ, गोमुत्त ग्गहण कुसुमिणे चैव ॥ जयणा सव्वठ करे,
 इंदिय अवलोयणे अ तहा ॥१॥ पूर्वदाल ॥ ढांक्यां अंग नारीनां जोतां,
 उजटे राग अताग जी ॥ फरसे तेम वली बाधे वमणो, वरजे तेह महा
 नाग जी ॥ म० ॥ ७ ॥ नजरें आवे रूप कदाचित्, न धरे राग ने छेप
 जी ॥ गोमूत्रादिक ग्रहतां न करे, मर्दन योनिविज्ञेप जी ॥ म० ॥ ८ ॥
 शयन करंतां पहेलुं चिंते, शल्य विषोपम काम जी ॥ खिणमित्त सुख बहु
 काल जगें दुःख, मन चिंतवीयें आम जी ॥ म० ॥ ९ ॥ एम जावन वें
 गयें सूतां, कुसुमिण नावे रात जी ॥ मोह उदयथी कदाचित् आवे, तो
 निमुणो तत वात जी ॥ म० ॥ १० ॥ ऊठी इरियावही पडिक्कीयें, निव
 तजी ततकाल जी ॥ काउस्तग कीजें चउ लोगस्तनो, चावें यइ उजमा
 ल जी ॥ म० ॥ ११ ॥ इंदिय अवलोकननी जयणा, दृष्टिनिवर्तन रूप
 जी ॥ यजुक्तं ॥ गुद्यांरुवयणकस्को,रु अंतरे तह अणंतरे दिहुं ॥ ता हरइ तउ
 दिहिं, नय बंधइ दिष्टिण दिहिं ॥ २ ॥ पूर्वदाल ॥ अनंगक्रीड उपर ए वि
 स्तर, चांखे श्रीजिनरूप जी ॥ म० ॥ १२ ॥ अथवा निजनारीगुं आतुर,
 जावविषय अतमान जी ॥ चांगरी आसन आमंवन, न करे अक्षावान
 जी ॥ म० ॥ १३ ॥ पुरुष नपुंसक मेवन तिम वली, दल्लकर्म परिहार
 जी ॥ काष्ट चर्म फल माटी घटित जे, कामोपकरण धार जी ॥ म० ॥
 ॥ १४ ॥ एहथकी जे क्रीडा करवी, ते पण बीजो जाण जी ॥ इवे विवा
 दनणो कहुं चोयो, ने निमुणो गुणखाण जी ॥ म० ॥ १५ ॥ कन्या
 फल जिप्पार्ये परना, बालकनो विवाह जी ॥ निजदाग संतोपी न करे,
 सुणां तत मर्म उक्ताइ जी ॥ म० ॥ १६ ॥ निज दारा संतोपी निज
 तिण, न धरे अवर विचार जी ॥ परदाग वजीं निज वेइया, जिणु नदीं
 विषयविकार जी ॥ म० ॥ १७ ॥ अचरथी मनयवकार्ये न करे, न क

रावुं ए प्रसंग जी ॥ जो जोडे विवाह ते परना, मैथुन कारण जंग
 जी ॥ म० ॥ १८ ॥ हुं विवाह कारक नहीं मैथुन, कारक एणें जाव
 जी ॥ व्रत सापेह् अजंग विचारी, जंगजंग विजाव जी ॥ म० ॥ १९ ॥
 निज अपत्य उद्दाहनी चिंता, पण न करे सुश्राव जी ॥ जो चिंता कारक
 होवे कोइ, ते जग विरला लाध जी ॥ म० ॥ २० ॥ अथवा सज्ज निज
 नारी हुंते, परणे वीजी जेह जी ॥ परविवाह करे ते चोथो, अतिचार
 सुणो नेह जी ॥ म० ॥ २१ ॥ तीव्रकाम उपर नवि कीजें, अध्यवसाय
 अत्यंत जी ॥ मुखकहोपस्थादि नसेवे, चिरंकाल एक चित्त जी ॥ म० ॥
 ॥ २२ ॥ केशकर्षण दंत नखद्वत, करि न जगाडे काम जी ॥ कामवृद्धि
 कारी गुटिकादिक, केरुं न लीये नाम जी ॥ म० ॥ २३ ॥ वेदोदय असहि
 ण्णुपणाथी, निजनारी आगार जी ॥ मैथुनमात्रें वेदोपशमन, नहिं अवर
 विस्तार जी ॥ म० ॥ २४ ॥ अधिक कुचेष्टाथी गुण न हुवे, साहसुं वल
 ह्य थाय जी ॥ परदारा वर्जी पंच वरजे, अवरने त्रण्य कहाय जी ॥ म० ॥ २५
 ॥ उक्तं च ॥ परदारवज्जिणो पं, च हुंति तिन्निउ सदार संतुठे ॥ इहोइ तिन्नि
 पंचव, जंगविगप्पेहिं नायवा ॥ ३ ॥ स्वदारसंतोषिण स्तुत्रय एवां त्याः ॥
 आथौ तु जंगावेवेति ॥ पूर्वढाल ॥ एम नारीने पण वर्जेवा, अतिचार उन्मा
 द जी ॥ परपुरुष निजपति ब्रह्मचारी, अजिसरतां होय आद जी ॥ म०
 ॥ २६ ॥ परिगृहीत वारक दिन शोक्यें, निज पियुगुं तेण दीस जी ॥ शो
 क्य तणो वारक लोपंते, बीजो होय जगीश जी ॥ म० ॥ २७ ॥ एम
 पंचे जाणेवा जुगतें, नारीने अतिचार जी ॥ निजदारा संतोषीने पण,
 पंच ठे अवर प्रकार जी ॥ म० ॥ २८ ॥ पोतें जाटक देइ ग्रहीने, गणि
 का लही निजनारी जी ॥ गमन करंतां बीजो होवे, तेहने पण अतिचार
 जी ॥ म० ॥ २९ ॥ अनाजोग अतिक्रम आदिकथी, पहेलो पण कोइ
 वार जी ॥ त्रण पूर्वें दाख्या ठे तेहिज, एम कथा पंच अतिचार जी
 ॥ म० ॥ ३० ॥ तथा च सूत्रं ॥ सदार संतोसिस्त इमे पंच अइयारा जा
 णियवा न समाधरियवेति ॥ एतद्व्रतफलमाह ॥ पूर्वढाल ॥ कनक चैत्य निप
 जावे कोइ, आपे कनकनी कोडी जी ॥ तेहुं पण फल शीलव्रतनी,
 न करे जगमां होड जी ॥ म० ॥ ३१ ॥ यतः ॥ जो देइ कणय कोडी,
 अहवा कारेइ कणयजिण सुवणं ॥ तस्त न तन्तिअ पुसुं, जन्तिअ वंजवए

धरिए ॥ ४ ॥ परसमयेपि ॥ एकरात्रुपितस्यापि, या गतिर्वैश्वचारिणः ॥
 न सा क्रतुसहस्रेण, वक्तुं शक्या युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ एकतश्चतुरोवेदा, ब्रह्मच
 र्यं तु एकतः ॥ एकतः सर्वपापानि, मयं मांसं तु एकतः ॥ ६ ॥ पूर्वढाल
 त्रिनेत्रिय दो नाग जगंदर, कुरुव नपुंसक रंज जी ॥ वंध्या निंदू विपकन्या
 तिम, दोये कुशील जगन्म जी ॥ म० ॥ ३२ ॥ देवडव्यने नक्षत्र कर
 वे, परनारीने पापं जी ॥ सात वार सत्तमीयं पहांचे, एम कहे जिनवर
 आप जी ॥ म० ॥ ३३ ॥ परेप्पाहुः ॥ तस्माद्दर्माथिनिस्त्याज्यं, परदारो
 पसेवनम् ॥ नयंति परदारस्तु नरकानेकविंशतिं ॥ ७ ॥ पूर्वढाल ॥ निजदारा
 संतोषीने पण, पर्वदिवस सुविशेष जी ॥ विषय तणो परिहार करेवो, पर
 मतमां पण देख जी ॥ म० ॥ ३४ ॥ यदुक्तं ॥ विष्णुपुराणे ॥ चतुर्दश
 एमी चैवा, मावास्या चैव पूर्णिमा ॥ पर्वाण्येतानि राजेंद्र, रविसंक्रातिरेव
 च ॥ ८ ॥ तैलस्त्रीमांससंज्ञोगी, पर्वस्वतेषु वै पुमान् ॥ विएमूत्रनोजनं
 नाम, प्रयाति नरकं मृतः ॥ ९ ॥ पूर्वढाल ॥ वत्रीस उपम कद्दी ए व्रत
 नी, सांचन तस अधिकार जी ॥ नवियण दशमा अंग मणारें, चोथे संवर
 हार जी ॥ म० ॥ ३५ ॥ ठठे खंमं ढाल ठवीशमी, चोथा व्रत अधिकार
 जी ॥ राम कहे ए व्रत पाजंतां, दोवे जयजयकार जी ॥ म० ॥ ३६ ॥

॥ ढाल ॥ सारो सौरठ देण देखाउं रसीया ॥ ए देगी ॥ शीलवंत सुगुण
 भोरे मन वसीया ॥ वत्रीश उपम गुणयुत धारी, नाम जपे रे जाये पाप
 नसीयां रे ॥ शी० ॥ १ ॥ मुकुट ने कामवसन फूल अश्वत्थ, चंद्रनमां
 गोलीन रसियां रे ॥ शी० ॥ २ ॥ चंद्रलवण रचनावर रुढां, मणि वैभूर्य
 चंद्रसीयां रे ॥ शी० ॥ ३ ॥ ओषधियें कर्षी हेमगिरि महोटी, सिंधुमां नी
 लोदा सिरियां रे ॥ शी० ॥ ४ ॥ दशमे संयेंन रमण जलनिरिमां, वर्जुल
 नगमां रुचक गिरियां रे ॥ शी० ॥ ५ ॥ गजमांदि पंगवत दरि मृगमां,
 अक्षरमां वेणुदेव नरिया रे ॥ शी० ॥ ६ ॥ पनरमी उपम चुयनपतिमां,
 धरणीपर जेम गुण नरिया रे ॥ शी० ॥ ७ ॥ तद्गु लदमांदे जेम लोधर्मा,
 ब्रह्म सुर लोशमां सुख करियां रे ॥ शी० ॥ ८ ॥ स्थिति महोटी जयम
 चम नुरनी, दानमां दान अन्नय नरीयां रे ॥ शी० ॥ ९ ॥ वीशमी उपम
 रंगमांदि किर्षी, कवडी न जाये उत्तरीयां रे ॥ शी० ॥ १० ॥ नल रु
 पनाराच संवपणो, नक्षत्रमांदि समचनगरीयां रे ॥ शी० ॥ ११ ॥

ध्यानमां ध्यान शुक्ल मन मान्युं, ज्ञानमां केवल आरसीयां रे ॥ शी० ॥
 ॥ १२ ॥ पचवीशमी उपम लेश्यामां, शुक्लथी कर्म कठिन खसियां रे
 ॥ शी० ॥ १३ ॥ मुनिमां जेम तीर्थकर स्वामी, सुर नर आवी नमे धसी
 या रे ॥ शी० ॥ १४ ॥ क्षेत्र विदेह ज्युं क्षेत्रमें महोदुं, मेरु महिधरमां
 लसीया रे ॥ शी० ॥ १५ ॥ वनमांहि नंदनवन जेम महोदुं, तरुमां जंबू
 उकसिया रे ॥ शी० ॥ १६ ॥ जेम ह्यगज नर सैन्यमां महोदो, जग च
 क्रीश्वर शुभ वसिया रे ॥ शी० ॥ १७ ॥ जेम रथमां हरिनो रथ महोदो,
 तेम व्रतमांहि शील कसिया रे ॥ शी० ॥ १८ ॥ बत्रीश उपम चोथा व्र
 तनी, जाणी पालो व्रत धसमसीयां रे ॥ शी० ॥ १९ ॥ १००० ॥ ५७ ॥

॥ दोहा ॥

॥ ए व्रत डुष्कर पालतां, पहाँचे सयल जगीश ॥ परदारा लंपट तिके,
 दुःख पामे निशदीस ॥ १ ॥ यतः ॥ मेरू गरिष्ठो जह पव्याणं, एरावणो
 सार बलो गयाणं ॥ सिंहो बलिष्ठो जह सावयाणं, तद्देव शीलं पवरं वयाणं
 ॥ २ ॥ अन्यञ्चोक्तं ॥ नपुंसकत्वं तिर्यक्तत्वं, दौर्भाग्यं च जवे जवे ॥ जवेन्न
 राणां स्त्रीणां च, न्यकांतासक्तचेतसाम् ॥ ३ ॥ पूर्वदोहा ॥ परनारीलोलुप
 थके, करालपिंग दुःख दीष्ट ॥ कहे चक्रायुध स्वामीने, कवण हुउं कहो
 इष्ट ॥ ३ ॥ प्रभु संबंध कहे तेहनो, करालपिंग जस नाम ॥ पर्यद स्थिर
 चित्त सांजले, करीय प्रभुने प्रणाम ॥ ४ ॥

॥ ढाल सत्यावीशमी ॥

॥ देशी रसियानी ॥ कुंथु जिणोसर केसर जीनी देहडी रे लो ॥ ए देशी ॥
 जवियण, विप्रय न सेवो विरुउं दुःखदायी घणुं रे लो ॥ कहे जिनशांतिजी
 रे लो ॥ ज० ॥ क्षेत्र नरतमां नलपुर पुर सोहामणुं रे लो ॥ सुणो मन खांते
 जी रे लो ॥ ज० ॥ तिहां नलपुत्र नरेश्वर राज्य करे गुणी रे लो ॥ क० ॥
 ॥ ज० ॥ उज्ज्वल जेहनी कीर्त्ति चिहुं दिशिमां सुणी रे लो ॥ सुणो मन०
 ॥ १ ॥ ज० ॥ तेहने पापाजीष्ट पुरोहित ठे जलो रे लो ॥ क० ॥ ज० ॥
 नाम करालथी पिंग अठे तस निर्मलो रे लो ॥ सु० ॥ ज० ॥ शांति कर
 म मांहे माह्यो अति रलियामणो रे लो ॥ क० ॥ ज० ॥ रायतणे मन
 मान्यो लोक नमे घणो रे लो ॥ सु० ॥ २ ॥ ज० ॥ तिण पुरमां एक
 इन्धतनय वासो वसे रे लो ॥ क० ॥ ज० ॥ नामें ते पुष्पदेव भनें करी

उद्यसे रे लो ॥ सु० ॥ न० ॥ तेहने पुरोहित साथें, प्रीति अठे घणी रे लो ॥ क० ॥ न० ॥ रात दिवस रहे जेला, हौंश ह्येया तणी रे लो ॥ सु० ॥ ३ ॥ न० ॥ ते व्यवहारी घरें, नारी सारी अठे रे लो ॥ क० ॥ न० ॥ रूपवंती गुणवंती, पति मनमां रुचे रे लो ॥ सु० ॥ न० ॥ नामें ते प्रद्यु म्न, सिरी गति सारसी रे लो ॥ क० ॥ न० ॥ देखी ते पुरोहितना, मनमांहे वसी रे लो ॥ सु० ॥ ४ ॥ न० ॥ थयो विषया अनिलापी, नाखी लाज ने रे लो ॥ क० ॥ न० ॥ रात दिवस ते दोडे, नरवर काजने रे लो ॥ सु० ॥ न० ॥ एक दिवस ते उपर, नृपरीज्यो अति रे लो ॥ क० ॥ न० ॥ मागो मनोवांठित कहे, हूपें नृपति रे लो ॥ सु० ॥ ५ ॥ न० ॥ विषयानां उमाह्यो, वाह्यो ते धस्ती रे लो ॥ क० ॥ गजन् मनोवांठित वर आपो, इछा ठे इस्ती रे लो ॥ सु० ॥ राजन् पुरमां मन मानीती, नारीशुं र्मुं रे लो ॥ क० ॥ राजन् मन मान्या सुखमांहि, काल हुं निर्गमुं रे लो ॥ सु० ॥ ६ ॥ रा० ॥ मन शरमाणो बोलें, बंधाणो कहे रे लो ॥ क० ॥ सांजज वात पुरोहित तुफ, साथें दिल जे बहे रे लो ॥ सु० ॥ कहे नृप ते साथें तुफ रमवुं, अवर न इन्वरी रे लो ॥ क० ॥ धरजे वात पुरोहित एह, कही जें प्रीह्वरी रे लो ॥ सु० ॥ ७ ॥ कहे नृप एहथी जो विपरीत तुं, चालीश एकदा रे लो ॥ क० ॥ कहे नृप करशुं तुफ गिर इंम, अन्यायी परें तदा रे लो ॥ सु० ॥ मानी नृपनी चाणी निर्गलते पुरमां थयो रे लो ॥ क० ॥ आगल कंचो उंट वली ते, उकरडे गयो रे लो ॥ सु० ॥ ८ ॥ जमतो पुरमां ते दिन रात के, माता सांठ ज्युं रे लो ॥ क० ॥ करतो परनारीशुं केलि, कुलागत नवि तज्युं रे लो ॥ सु० ॥ एकदिन सोह्यो ते पुष्पदेवनी, नारी ऊपरें लो ॥ क० ॥ गर्गे अंध थयो ते चिंते, निजने अंतरें रे लो ॥ सु० ॥ ९ ॥ केम ए नारी नारी ज्यागी, मसारे वध थजे रे लो ॥ क० ॥ देखी एहना सुखनुं फल के, मुफ दिल उद्यसे रे लो ॥ सु० ॥ न० ॥ एम चिंती तन ग्यागी, वासीशुं मजी रे लो ॥ क० ॥ दाखी वेवनी आगल लवली, रात ए मन मजी रे लो ॥ सु० ॥ १० ॥ जडे तंम कर जेम नृफ स्वामिनी, मुजने आदरे रे लो ॥ क० ॥ मुजने कृण कृण तस दीवार, शिष्यामां सांजरे रे लो ॥ सु० ॥ आतिश सासुरो पाड निरंतर, जीविष जिदां जगे रे लो ॥ क० ॥ कजे

मुऊ उपर अनुकूल, मनावी उलंगें रे लो ॥ सु० ॥ ११ ॥ पामी अब
 सर तेणी दासीयें, वात सवे कही रे लो ॥ क० ॥ निसुणी शीलवती
 ए वात, निखर मानी नहीं रे लो ॥ सु० ॥ रे रे धिक् चूंमी शुं बोली, बोल
 तुं एहवा रे लो ॥ क० ॥ जुंमा पुरमांहे बहु विटल, वसे ए जेहवा रे
 ॥ सु० ॥ १२ ॥ हूवे मुख एहवानुं जोइ, पापी आतमा रे लो ॥ क० ॥
 वहेनी चिरंजीवो मुऊ वालम, अवरनी नही तमा रे लो ॥ सु० ॥ फरीने
 दासी कहे तुऊ वात, न माने ए किमे रे लो ॥ क० ॥ कहेण न चाहे इहां
 मुऊ, कांइ करो तुमें जे गमे रे लो ॥ सु० ॥ १३ ॥ पामी अबसर एक
 दिवस ते, आवीने कहे रे लो ॥ क० ॥ वहेली करो करुणा मुऊ उपर,
 विरहें तन दहे रे लो ॥ सु० ॥ कहेवा लागी ते एम न घटे, तुमने
 बोलवुं रे लो ॥ क० ॥ जो जाणे तुम मित्र तो थाये, इहां कांइ अजिनवुं
 रे लो ॥ सु० ॥ १४ ॥ ज० ॥ निसुणी वाणी पुरोहित, थयो मनमां खुशी
 रे लो ॥ क० ॥ ज० ॥ जाणी ते अनुकूल, कहे फरीने हसी रे लो ॥
 सु० ॥ ज० ॥ कहे तेहने एम करवुं, जेम तुम नाहलो रे लो ॥ क० ॥
 सुंदरि तो पूराये आपण, चित्त उमाहलो रे लो ॥ सु० ॥ १५ ॥ ज० ॥ कही
 एकांतें तेणें निज, कंतने वातडी रे लो ॥ क० ॥ ज० ॥ निसुणी मनमां
 सूधी, तस ईर्ष्या चढी रे लो ॥ सु० ॥ ज० ॥ मन जांग्युं दिलमांहे, रीऊ रही
 नहिं रे लो ॥ क० ॥ ज० ॥ जगमां एह शिरें, चूंमी करणी सही रे लो ॥ सु०
 ॥ १६ ॥ ज० ॥ हवे तेणें कीधी नृप शिर, वेदन आकरी रे लो ॥ क० ॥ ज० ॥
 मंत्रवलें करे पासें, पुरोहित चाकरी रे लो ॥ सु० ॥ ज० ॥ कहे राजन पुरोहित,
 टालो वेदनी रे ॥ क० ॥ ज० ॥ करो उपकार ए मुऊ तो, विलसुं मेदिनी रे
 लो ॥ सु० ॥ १७ ॥ ज० ॥ मंत्रथकी तेणी वारें, वेदन ततहणें रे लो ॥ क० ॥ ज० ॥
 तुष्ट थयो राजेश्वर, वर मागो जणे रे लो ॥ सु० ॥ ज० ॥ विप्र कहे
 सुण राजन, माहरी विनति रे लो ॥ क० ॥ साहेव मुऊने एह मगावी,
 आपो करुं विनति रे लो ॥ सु० ॥ १८ ॥ राजन ठे किंजल्पघीपें, सुस्वर
 पंखीयां रे लो ॥ क० ॥ रा० ॥ नामथकी किंजल्प, बहु में परखियां
 रे लो ॥ सु० ॥ रा० ॥ ए पुष्पदेवने सूको, जइने लावजो रे लो ॥ क०
 ॥ रा० ॥ चांप करी करि कारज, वहेजो आवजो रे लो ॥ सु० ॥ १९ ॥
 रा० ॥ कहे तेडी पुष्पदेवने, काज करो तुम्हें रे लो ॥ क० ॥ रा० ॥

तुम आदेश प्रमाण, जइ जावुं अमें रे लो ॥ सु० ॥ ज० ॥ वेर आवी
 एक जूमि, गृह सत्वर कखो रे लो ॥ क० ॥ ज० ॥ ते उपर एक यंत्र
 पढ्यंक लेईधखो रे लो ॥ सु० ॥ १० ॥ ज० ॥ शीखवियुं सेवकने, जव आवे
 रही रे लो ॥ क० ॥ ज० ॥ यंत्रशय्या वेसारी, नाखेजो महिं रे लो ॥ सु०
 ॥ ज० ॥ ते ठानो मुज पासं, पुरोहित जावजो रे लो ॥ क० ॥ ज० ॥
 काम करीने जिहां तुं, तिहां तुमें आवजो रे लो ॥ सु० ॥ ११ ॥ ज० ॥ चालणने
 मिय जइ ते, वनमां कतखो रे लो ॥ क० ॥ ज० ॥ ततक्षण तेह पुरोहित,
 हर्ष हेये नखो रे लो ॥ सु० ॥ ज० ॥ पुष्पदेवने मंदिर, ते आव्यो वही
 रे लो ॥ क० ॥ ज० ॥ कूडतणी रचना तेणें, मूर्खे नवि लही रे लो ॥
 सु० ॥ १२ ॥ ज० ॥ पद्मसिरीयें यंत्र, पढ्यकें वेसारीयो रे लो ॥ क० ॥
 ज० ॥ ततक्षण ते उठजीने, जांय सिधावियो रे लो ॥ सु० ॥ ज० ॥ जां
 ग्युं तेहनुं अंग, अयुं सवि जाजरुं रे लो ॥ क० ॥ ज० ॥ ठवकाणी सवि
 लंधि ज्युं, जूनुं खांजरुं रे लो ॥ सु० ॥ १३ ॥ ज० ॥ बांधी मचूरने वंधें, जेठ
 ने आपीयो रे लो ॥ क० ॥ ज० ॥ उपाडी कठ पंजरमां, तस स्थापियो रे लो
 ॥ सु० ॥ ज० ॥ चाव्या कोइ देशांतर, खटमासी रह्या रे लो ॥ क० ॥
 ज० ॥ काज करीने वलीया, नवि कोणें लह्या रे लो ॥ सु० ॥ १४ ॥
 ज० ॥ निजपुर आवी मीणें, लेप कखो तनें रे लो ॥ क० ॥ ज० ॥ चहो
 ळ्यां पंचवरणनां, पिंठां अति वने रे लो ॥ सु० ॥ ज० ॥ जइ दरवारें
 जेट, कखो ते जूपने रे लो ॥ क० ॥ ज० ॥ रीठ्यो राजा जोर, देखी तस
 रूपने रे लो ॥ सु० ॥ १५ ॥ राजन बहु ग्रहियां पण मारग, मांहे मरी
 ग्यां रे लो ॥ क० ॥ रा० ॥ आव्यो ए इहां कणे एक ए, द्विज
 बहुदिन थया रे लो ॥ सु० ॥ राजन कहे ए पंखी माणस, सरिखो
 केम अठे रे लो ॥ क० ॥ रा० ॥ कहे बांजावो एहने, मुज मनमां रुचे रे
 लो ॥ सु० ॥ १६ ॥ ज० ॥ लइ करमां ते प्राजन, अर दीये घणुं रे
 लो ॥ क० ॥ ज० ॥ बोल तुं पंखी नृप आ, गल बहु शुं नणुं रे लो
 ॥ सु० ॥ ज० ॥ ते कहे किंजवामी, तस वाणी सुणी रे लो ॥ क० ॥
 राजन द्विज उजखीयो नांखे, वजतुं तेजणी रे लो ॥ सु० ॥ १७
 ॥ रा० ॥ कहे पुष्पदेव ए मुज, पुरोहित सारिसो रे लो ॥ क० ॥
 राजन हाथ तणे आरीने, करकंकरण कित्यो रे लो ॥ सु० ॥ राजन

जूवो निरखी जेम, संदेह टले परो रे लो ॥ क० ॥ रा० ॥ परखीने
 निरखंतां, ते जाण्यो खरो रे लो ॥ सु० ॥ ३० ॥ रा० ॥ पूढे ए शुं कारण,
 मुऊ दाखो तुमें रे लो ॥ क० ॥ रा० ॥ कहे पुष्पदेव कहांतां, लाजुं तुं
 अमें रे लो ॥ सु० ॥ रा० ॥ वात सुणीने मनमां, नृप कोप्यो घणो रे
 लो ॥ क० ॥ रा० ॥ कहे आरकक नरने, जइ एहने हणो रे लो ॥ सु०
 ॥ ३१ ॥ ज० ॥ करीय कदर्यना पुर, शेरीमां फेरीयो रे लो ॥ क०
 ॥ ज० ॥ जइ वधनूमें नृप, सुजटें ते मारीयो लो ॥ सु० ॥ ज० ॥ गयो
 नरकावनि ताजी, जिहां अयपूतली रे लो ॥ क० ॥ ज० ॥ आलिंगावे
 असुर, पचारे वली वली रे लो ॥ सु० ॥ ३० ॥ ज० ॥ नमशें ते बहुकाल,
 लगें संसारमां रे लो ॥ क० ॥ ज० ॥ रहे एम विषय नळ्या नव, कारा
 गारमां रे लो ॥ सु० ॥ ज० ॥ ठे खंमं ढाल, कही सत्तवीशमी रे लो
 ॥ क० ॥ ज० ॥ शांतिप्रभुनी देशन, सुणो साकर समी रे लो ॥ सु० ॥
 ३१ ॥ इति चतुर्थव्रतोपरि करालपिंगलपुरोहित कथानकम् ॥ ४ ॥ सर्व
 गाथा ॥ १०४३ ॥ श्लोक तथा गाथा मली ॥ ५९ ॥

॥ अथ पंचम परिग्रहपरिमाणव्रत संबंधः ॥

॥ दोहा ॥

॥ हवे पंचम व्रत जिन कहे, परिग्रहनुं परिमाण ॥ तेम इहापरिमाण
 वली, जांखे श्री जिनजाण ॥ १ ॥ सचित्त अचित्त मिश्र जाणीयें, परि
 ग्रहना त्रण जेद ॥ नव जेदें होय तिम वली, एम जांखें गतवेद ॥ २ ॥
 क्षेत्र वासु धन धान्य तेम, रुप्य कूप्य ने हेम ॥ द्विपद चतुष्पदनो सदा,
 मन राखीजें प्रेम ॥ ३ ॥ परिग्रह वाथ्यो ए घणुं, होय बहु दुःखदातार ॥
 सिद्धांतें एहना अठे, वली अनेक प्रकार ॥ ४ ॥ धान्य रत्न स्थावर द्विपद,
 चउपद कुप्पविचार ॥ सामान्यें पट् जेद एम, उत्तर चोसठ चार ॥ ५ ॥
 धान्यजेद चोवीश ठे, १ जव १ गहूं ने वली ३ शालि ॥ ४ विहि ५ सछी अ ६ कुड
 वा, ७ अणुआ ८ कंगू एराल ॥ ६ ॥ १ णतिल १ १ मुग १ १ मासा १ ३ अज
 सि तिम, १ ४ हरिमथ १ ५ त्रिपुट १ ६ निपाव ॥ १ ७ मठ १ ८ चोला १ ९ वरटी
 जली, १ ० मसुर १ १ तुंवरि तिम जाव ॥ ७ ॥ १ १ कुलही १ २ धन्नय १ ३ वृत्त
 चनक, धान्य जेद चोवीश ॥ रत्न जाति वली तेटली, एम जांखे जगदीश
 ॥ ८ ॥ १ सोवन १ २ पु ३ ३ वं ४ रजत, ५ लोह ६ सीस ७ सुहिरण्य ॥

उपाषाण एवञ्च १०मणि ११मौक्तिका, १२प्रवाल १३शंख तिम गस्त्रि
 ॥ ९ ॥ १५तिणि सागरु १६चंदण वली, १७वस्त्र १८ऊन तेम १९काष्ठ ॥
 २०चर्म २१दंत २२वाल २३गंध तिम, २४इव्यौपध ए काष्ठ ॥ १० ॥
 स्थावर त्रिहुं जेदें कहुं, जूमी घर तरु जाणि ॥ द्विपद दोय चक्रारबंध, मा
 णुस तेम वखाण ॥ ११ ॥ चक्रारबंधो गंड्यादि ॥ मानुष्यं दासादीति ॥
 चोपद दश जेदें कहुं, गो महिपी तिम उट्ट ॥ अज एलग आस आसतरग,
 ह्य रासज ने करट्ट ॥ १२ ॥ नानाविध उपगणना, जेद अनेक विचार ॥
 कुण्ण कहुं चोसछिमो, परिग्रह जेद उदार ॥ १३ ॥ लोच अल्प जेम जेम हो
 ये, जेम जेम अल्पारंज ॥ तेम तेम सुख वाधे घणुं, धर्मसिद्धि प्रारंज ॥
 १४ ॥ नरजव सार आरोग्यता, धर्म एह सत्य सार ॥ सुख ए संतोप
 सार ठे, विद्यानिश्चय सार ॥ १५ ॥ यतः ॥ ब्रह्मज्ञानविवेकनिर्मलधिः
 कुर्वत्यहो दुष्करं, यन्मुंचंत्युपजोगजांज्यपि धनान्येकांततोनिःस्पृहाः ॥
 न प्रप्तानि पुरा न संप्रति न च प्राप्तौ दृढप्रत्ययौ, वांगामात्रपरिग्रहाण्यपि
 वयं त्यक्तुं न तानि ह्यमाः ॥ १ ॥ पूर्वदोहा ॥ परिग्रहथी विरम्या नहिं, ते
 लहे दुःख समुदाय ॥ श्रावक सुजस तणी परें, कहे एणी परें जिनराय
 ॥ १६ ॥ कहे चक्रायुध स्वामिने, सुजस कहो कुण तेह ॥ पंचम व्रत
 उपर प्रचु, परकाशो तुमैं जेह ॥ १७ ॥

॥ ढाल अठ्यावीशमी ॥

॥ जरत नृप जावशुं ए ॥ ए देशी ॥ शान्ति जिणोसर एम कहे ए, सुण
 चक्रायुध राय ॥ परिग्रह दुःख दीये ए ॥ नयर अमरपुर जरतमां ए, सवि शो
 चा समुदाय ॥ परिण ॥ १ ॥ अमरसेन तिहां राजीयो ए, जेठ रूपजद
 त्त सार ॥ ५० ॥ श्रावक समकित धारकू ए, जिनगुरु पूजणहार ॥ ५०
 ॥ २ ॥ जिनदेवी तस जारजा ए, रूपें रंजसमान ॥ ५० ॥ सुजस नामें
 सुत अति जलो ए, सोहे सुगुण निधान ॥ ५० ॥ ३ ॥ यौवनवयपरणावी
 यो ए, जिनदास तनया सार ॥ ५० ॥ पतिहुंदे चाले जली ए, नामें
 सुजसा नारि ॥ ५० ॥ ४ ॥ जनक कहेणथी एकदा ए, गुरुपासें ते सुजा
 ए ॥ ५० ॥ आदरे श्रावक व्रत विना ए, एक परिग्रह परिमाण ॥ ५०
 ॥ ५ ॥ रसिक कलानो अति घणो ए, विषय न वेसे चित्त ॥ ५० ॥ मात
 विचारे मन्नमां ए, सुत ए शूनो जीत ॥ ५० ॥ ६ ॥ नवि बोले निज

नारिणुं ए, न जुए दृष्टि सराग ॥ ५० ॥ न करे उद्यम वणिजनो ए, रहे
 शे ए निर्जाग्य ॥ ५० ॥ ७ ॥ जिनदेवी कहे कंतने ए, निःस्पृह सरीखो
 पूत ॥ ५० ॥ विषय न वांढे चित्तशुं ए, केम चलशे घर सूत ॥ ५० ॥
 ८ ॥ तेम करो जेम ए विषयने ए, वांढे वालम नंद ॥ ५० ॥ शेठ कहे
 नारी जणी ए, बोल मां एम मतिमंद ॥ ५० ॥ ए ॥ केडें काल अना
 दिना ए, लाग्या रिपु थइ जेह ॥ ५० ॥ ते रिपुनें सुत सोंपतां ए, श्यो
 मावित्र सनेह ॥ ५० ॥ १० ॥ यतः ॥ जोगा न जुक्तावयमेवजुक्ता, स्तपो
 न तप्तं वयमेव तप्ताः ॥ कालोन यातोवयमेव याता, स्तृष्णा न जीर्णा
 वयमेव जीर्णाः ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ विण शीखवीयां आवडे ए, आहार विषय
 विकार ॥ ५० ॥ पण अनादिनो दोहिलो ए, धर्मतणो व्यापार ॥ ५० ॥
 ११ ॥ हठ नवि मूके कामिनी ए, लीधी शेठनी केड ॥ ५० ॥ पाड्या पण
 सुंगर पडे ए, जावी न जाये फेडि ॥ ५० ॥ १२ ॥ शेठें नट विट तेडी
 या ए, जूअारी कमजात ॥ ५० ॥ चतुराइ शीखण जणी ए, सोंप्यो तेहने
 जात ॥ ५० ॥ १३ ॥ लही कुसंगति तेहनी ए, वीसारी सवि वात ॥ ५० ॥
 जणतर तेणें विसारीशुं ए, इंडिय सुखनी धात ॥ ५० ॥ १४ ॥ कौतुक हास्य
 विनोदनी ए, सुणतां वात रसाल ॥ ५० ॥ मन विंधाणुं तेहनुं ए, पडीयो
 विषयनी जाल ॥ ५० ॥ १५ ॥ निर्वल संगतिथी निपन्यो ए, वेण्याशुं
 संयोग ॥ ५० ॥ हाव जाव करी जोलव्यो ए, विलसे विपयिक जोग ॥ ५० ॥
 ॥ १६ ॥ मात पिता धन मोकले ए, मोकले मन धरी नेह ॥ ५० ॥ सु
 त वेगो विलसे तिहां ए, मोह तणी गति एह ॥ ५० ॥ १७ ॥ घरदूती
 नवि नीसरे ए, लाग्यो गणिका रंग ॥ ५० ॥ विषय अग्निमां जीवडा ए,
 पडीया जेम पंतंग ॥ ५० ॥ १८ ॥ यतः ॥ लोलेक्षणावक्रनिरीक्षणेन ॥
 मात पिता बहु मोकले ए, जन तेडांने काज ॥ ५० ॥ पण गणिका
 जावा न दे ए, नवि लोपे तस लाल ॥ ५० ॥ १९ ॥ लालच चुंफी
 विषयनी ए, उंफी अतिहि अगाध ॥ ५० ॥ संसारी एहमां पड्या ए, न
 लहे सुख निरावाध ॥ ५० ॥ २० ॥ मात पिता जूरे घणुं ए, सुतने संजा
 री जोर ॥ ५० ॥ आ नव कीथां आ नवें ए, आव्यां कर्म कठोर ॥
 ५० ॥ २१ ॥ वांक नहिं इहां कोइतो ए, सहामो चढावी पाड ॥ ५० ॥
 विटल पुरुषने सोंपीयो ए, कीथां ए सुतने लाड ॥ ५० ॥ २२ ॥ खाम ख

णी आपण सही ए, पडीयां आपण मांहि ॥ ५० ॥ नीसासा नाखे घणा
 ए, पण चिंत्युं नवि थाय ॥ ५० ॥ ३३ ॥ सोल वरस लगें तिहां रह्यो ए,
 मात पिता थयां ढीण ॥ ५० ॥ आरतध्यानमां वेहु जणां ए, गयां पर
 लोकें दीण ॥ ५० ॥ ३४ ॥ गुणवंती तस नारजा ए, तेम धन महेले
 तास ॥ ५० ॥ ठेह न आपे कंतने ए, अहो अहो मोह विलास ॥ ५०
 ॥ ३५ ॥ धन नीतुं तव तेणियें ए, निज आचूण सार ॥ ५० ॥ दासी सं
 घातें मोकव्या ए, अक्कायें चिंत्युं तिवार ॥ ५० ॥ ३६ ॥ धन नीतुं एहना
 वर तणुं ए, मोकव्यो निज शणमार ॥ ५० ॥ ए मुऊ राखवुं नवि घटे ए,
 फरी मोकव्युं सुविचार ॥ ५० ॥ ३७ ॥ हवे अक्का मन चिंतवे ए, श्यो
 निर्धनशुं नेह ॥ ५० ॥ कहे पुत्रीने एहशुं ए, हवे श्यो करवो सनेह ॥
 ५० ॥ ३८ ॥ ढाल कही अडवीशमी ए, ठठा खंम मजार ॥ ५० ॥ राम
 विजय कहे धन वडुं ए, स्वारथी ए संसार ॥ ५० ॥ ३९ ॥ १०८९ ॥ ६१ ॥

॥ दोहा ॥

कहे पुत्री माताप्रतें, बहु धननो दातार ॥ सोल वरस लगें जेह
 शुं, विलस्या जोग उदार ॥ १ ॥ केम ठंमाये वालहो, प्राणथी अ
 धिको एह ॥ सोंप्यां में हाथे करी, जेहने धन मन देह ॥ २ ॥ कहे अक्का
 पुत्री सुणो, तुम कुल ए आचार ॥ निर्धनिया नर परिहरे, धनवंतशुं व्यव
 हार ॥ ३ ॥ तस मन जाणी पंच दिन, अक्का पडखी जेह ॥ इहु मगावे
 एक दिन, दिये कूचा धरि नेह ॥ ४ ॥ मा ए शुं हुं ढोर बुं, निःपीडित इहु
 दंम ॥ जे जेइ मुऊ आगें धखा, अक्का कहे कुरंम ॥ ५ ॥ जो ए चाव्ये
 रस होवे, तो सेवे सुलस कुमार ॥ सांगो चूसी रस लीयो, ठोता ठोड
 गमार ॥ ६ ॥ पुत्री कहे कूचा घणो, कामें आवे माय ॥ घेर घालाथी
 ढोरनी, नूख एहथी जाय ॥ ७ ॥ रस जेई पोथी तणो, नीरस आपे
 हाथ ॥ रीसाणी पाठी दीये, शुं मुऊ दीठ अनाथ ॥ ८ ॥ मा कहे नी
 रस पोथी ए, जिमन रंगाये पाय ॥ तेम ए निर्धन सुलसथी, कोडी काम न
 थाय ॥ ९ ॥ कहे पुत्री पोथी नीरस, पण दसा दीपकें होय ॥ तेम ए
 निर्धन सुलसमां, गुण केता एक जोय ॥ १० ॥ राग लही पुत्री तणो,
 ठानी रही तेवार ॥ विण पूठये ए काढवो, मनमां कखो विचार ॥ ११ ॥

॥ ढालडंगणत्रीशमी ॥

पूरवें सुकृत न में कीयो ॥ ए देशी ॥ अक्का कहे उतावली, आवि ते सुलसनी पास ॥ तुमें चूमि हेवा ऊतरो, ठे कारिज रे उपर आवास ॥ १ ॥ धिक् धिक् डुर्जन प्रीतडी रे ॥ जे आपे रे बटकीने ठेह ॥ रंग कुसुंज तणो जिस्थो, जेम न टके रे जग वारनो त्रेह ॥ धि० ॥ २ ॥ मनमांहि कुंवर चिंतवे, शुं हजो एहने काज ॥ सोल वरसमांहि एहवुं, नवि सुणीयुं रे संजलाव्युं ते आज ॥ धि० ॥ ३ ॥ दासी कहे तव आवीने, शुं रह्यो मूढ विमासि ॥ निर्लेज थश्ने केम रह्यो, नहीं ताहरे रे कोडी एक पास ॥ धि० ॥ ४ ॥ आय विना आदर नहिं, मनमां विचारी जोय ॥ ए वेश्या मंदिर नवि शूनां, प्रीति लूखी रे इहां कण नवि होय ॥ धि० ॥ ५ ॥ सुलस निज मंदिर नणी, निसखो न लहे माग ॥ मन खेद पामे अति घणो, एह देखी रे उपजे वैराग्य ॥ धि० ॥ ६ ॥ अणुसार मारग समरतो, आव्यो निजगृह पास ॥ चिहुं पासें पडी युं जीर्ण ते, गृह देखी रे थयो मन उदास ॥ धि० ॥ ७ ॥ ठोह सवि उखडी गइ, नलियां तणी नही बुद्धि ॥ नांगे कपाटे उधंस जिस्थो, तेह देखी रे चूली गयो बुद्धि ॥ धि० ॥ ८ ॥ पूठीयुं पाडोशी नणी, घर स्वामीहुं शुं नाम ॥ ते कहे ताहरे शुं अठे, ए नामनुं रे पूठयानुं काम ॥ धि० ॥ ९ ॥ ते कहे सहेजे पूठीयुं, ए ऋषनदत्तनुं गेह ॥ आम अ वस्था कां थइ, जीवे ठे के वली मूउतेह ॥ धि० ॥ १० ॥ ते कहे शेत ने तस प्रिया, वेहु पढुतलां परलोक ॥ घर पडयुं संजाव्या विना, एम निसु एी रे मनमां धरे शोक ॥ धि० ॥ ११ ॥ धिक् व्यसन मुऊ वेश्यातणुं, हुं थयो मूढ गमार ॥ मृत पितर में नवि जाणियां, नवि गणीयो रे अपयश अपकार ॥ धि० ॥ १२ ॥ धन धूलमांहे मेलीयुं, सेवियां सात व्यसन ॥ शुं काम में रूडुं कखुं, देखाडुं रे हवे केम वदन्न ॥ धि० ॥ १३ ॥ घर जोइने पाठो वल्यो, आवीयो जीर्णोद्यान ॥ खर ताड पत्रें तुरीकया, तेणें लखीया रे अरु धरि शान ॥ धि० ॥ १४ ॥ सुलस श्रीजिनवर नमी, लखे नामिनीने लेख ॥ आब्हाद सहित उतावलो, तुं वांचे मृगन यणी विज्ञेय ॥ धि० ॥ १५ ॥ हुं आज गणिकावरथकी, नीसरी आव्यो गेह ॥ मृत पितर निसुणी लाजियो, तुऊ न मल्यो रे आव्यो

वन एह ॥ धि० ॥ १६ ॥ हवे आजथी हुं समजियो, परदेश जइ करी
 काज ॥ आविश वहेजो हुं सहि, तुं राखजे रे रूडी मुऊ घरलाज ॥
 धि० ॥ १७ ॥ लखी लेख करमां धखो, देवानुयोगें तत्र ॥ निजनारी
 दासी तिहां कणो, आवी तेहने रे सोंप्यो तेणें पत्र ॥ धि० ॥ १८ ॥ इष्ट
 समरी चालीयो, ते सुलस कोइएक देश ॥ परिधान जूनां चीवरां, नहिं
 पासें रे धन कांइ लव लेश ॥ धि० ॥ १९ ॥ आयने अरथें नमे, परदेशमां
 उजमाल ॥ एक नगर जीर्णोद्यानमां, जइ पहाँच्यो रे थाक्यो असराल ॥
 धि० ॥ २० ॥ तिहां ब्रह्मतुरु अंकुर नीरखी, चिंतवे चित्तमांहि ॥ ए विजव
 विणु होवे नहिं, जइ जोउं रे मन धरिय उम्माह ॥ धि० ॥ २१ ॥ जइ खो
 दीयुं ते ठाण ततहण, सहस एक दिनार ॥ नीसखो निधि तिहां हर्ष
 पाम्यो, मन चिंते रे तूठयो किरतार ॥ धि० ॥ २२ ॥ संगोप्य करी पुरमांहि
 आव्यो, सुलस धरी आनंद ॥ ढाल उंगणत्रीशमी, खंढ ठठे रे सुणोसाज
 नवृंद ॥ धि० ॥ २३ ॥ सर्वगाथा ॥ १ १ २३ ॥ श्लोक तथा गाथा मली ॥ ६ ॥

॥ दोहा ॥

॥ पुरमांहे एक वणिकने, वेगो आवी हाट ॥ वीसामो लेवा नणी,
 मूकी मन उच्चाट ॥ १ ॥ ग्राहक बहुजां आवीयां, देखी व्याकुल तास ॥
 सुलस करे साहाय्य तस, माह्यो मन उध्वास ॥ २ ॥ तस महापणने देखीने,
 रीज्यो जेठ अपार ॥ पूठे किहांथी आवीया, नइक अहो कुमार ॥ ३ ॥
 तुम आव्ये आज माहरे, जान थयो अणचिंत ॥ कहो मुऊ आगले
 मांमीने, सघलो तुम वृत्तांत ॥ ४ ॥ वासी अमरपुरी तणो, प्राधूर्णक
 गुणधाम ॥ ते कहे मंदिर तुम तणो, आव्यो हुं हुं स्वामि ॥ ५ ॥ जेठें मं
 दिर तेडीने, न्हवराव्यो नलि जात ॥ जीमाव्यो जोजन सरस, वे
 सारी मन खांत ॥ ६ ॥

॥ ढाल त्रीशमी ॥

॥ देशी नमारुलीनी ॥ जेठ कहे कुण कारण आव्या ॥ नमारुली
 ॥ सुलस कहे निज काज ॥ तातजी हुं इहां आवीयो तो ॥ न० ॥ धन
 उपराजण आज ॥ १ ॥ नहीं इहां कोइ माहरो सगो तो ॥ न० ॥ तुम्हें
 ठो पित्ताने रे ठाम ॥ करो करुणा मुऊ उपरें तो ॥ न० ॥ कोइ अपावो
 सुधाम ॥ २ ॥ हाट अपाव्युं जाटकें तो ॥ न० ॥ करे तिहां वणिल

व्यापार ॥ लालच मनमां अति घणी तो ॥ ज० ॥ जेम तेम धन मेळुं
 सार ॥ ३ ॥ पट महिना त्यां अतिक्रम्या तो ॥ ज० ॥ वमणा थया रे
 दिनार ॥ लाजें लोन वंध्यो घणो तो ॥ ज० ॥ मनमांहि करे रे विचार
 ॥ ४ ॥ लेइ करियाणुं सामटुं तो ॥ ज० ॥ सुलस चव्यो लेइ साथ ॥
 ॥ तिलकपुरें ते आवियो तो ॥ ज० ॥ रलवाने बहुली रे आय ॥ ५ ॥
 मन चिंतित नवि पामीयो तो ॥ ज० ॥ लाज तिहां पण तेह ॥ वाहण
 माल जरी चढयो तो ॥ ज० ॥ रत्नहीपें गुण गेह ॥ ६ ॥ जेट जइ
 नृपने मव्यो तो ॥ ज० ॥ दाण अर्ध मेळ्युं राय ॥ आदर मान दीधुं
 घणुं तो ॥ ज० ॥ कीध महा सुपसाय ॥ ७ ॥ लाज घणो तिहांकणे
 थयो तो ॥ ज० ॥ फली मनोरथमाल ॥ निजपुरने जावा जणी तो
 ॥ ज० ॥ सुलस थयो उजमाल ॥ ८ ॥ लेइ लक्ष्मीने चालीयो तो
 ॥ ज० ॥ वाहण वेसी कुमार ॥ जर दरीये जांगुं तदा तो ॥ ज० ॥ अहो
 अहो कर्म विकार ॥ ९ ॥ मन चिंते बहु जीवडो तो ॥ ज० ॥ उदय
 वडो वलवान ॥ कोडी उपाय करे कोइ तो ॥ ज० ॥ फले कृतकर्म निदान
 ॥ १० ॥ आयु जोरावर सुलसनुं तो ॥ ज० ॥ चढीयुं रे फलक हाथ ॥
 पंचम दिवसें पामीयो तो ॥ ज० ॥ किहांएक तीर अनाथ ॥ ११ ॥
 वन देखी कदली तणां तो ॥ ज० ॥ कस्यो तस फलयी आहार ॥ वि
 शाम्यो जइ तरुतलें तो ॥ ज० ॥ मनमांहि धरे रे विचार ॥ १२ ॥ कष्ट स
 ह्यां में अति घणां तो ॥ ज० ॥ मेली रुद्धि अपार ॥ पण मुज हाथ रही
 नही तो ॥ ज० ॥ कर्म कतिन निर्धार ॥ १३ ॥ अथवा देव उद्धंधीने तो
 ॥ ज० ॥ कीजें क्रिया जग जेह ॥ न फले सरजल चातकें तो ॥ ज० ॥
 ग्रहुं गले नीसरे तेह ॥ १४ ॥ यमुक्तं ॥ देवमुद्धंध्य यत्कार्यं, क्रियते फल
 वन्न तत् ॥ सरोजश्चातकेनात्तं, गजरंध्रेण निर्गतम् ॥ १ ॥ पूर्वढाला ॥ तो पण में
 नवि ठाम्बुं तो ॥ ज० ॥ साहस सुखनुं रे हेत ॥ वाहला वंधवनी परें
 तो ॥ ज० ॥ कदिय ए ठेह न देत ॥ १५ ॥ सुलस विचारी चित्तमां तो
 ॥ ज० ॥ आगल चाव्यो ए जाम ॥ पंखी समूहें चूंथीयुं तो ॥ ज० ॥ शत्र
 एक दीतुं रे ताम ॥ १६ ॥ ते नर शत्रवसनांचलें तो ॥ ज० ॥ वांधी
 रे दीगी गांठ ॥ ते सुलसें ठोडी जइ तो ॥ ज० ॥ लीधां पण रचण उ
 किठ ॥ १७ ॥ अणदीधुं जेवुं नहिं तो ॥ ज० ॥ एह प्रतिज्ञा रे मुज ॥

पण ए निःस्वामिक अठे तो ॥ ज० ॥ ग्रहुं नवि लहे कोइ शुध ॥ १० ॥
 चैत्य करावीश अन्ननवां तो ॥ ज० ॥ करशुं ए जीर्ण उद्धार ॥ पुण्य ए
 एहना स्वामीने तो ॥ ज० ॥ होशे नहिं जस पार ॥ ११ ॥ एम चिंती
 लीधां तेणें तो ॥ ज० ॥ कोडीना मूढ्यनां पंच ॥ ताणी गांठे बांधीयां तो
 ॥ ज० ॥ सुलसें करि रूढो संच ॥ १० ॥ वेलाकुल पुर आवीयो तो
 ॥ ज० ॥ जलनिधि तट सुखकार ॥ श्रीसार शेतने मंदिरें तो ॥ ज० ॥
 आव्यो ते सुलस कुमार ॥ ११ ॥ आगत स्वागत बहु करी तो ॥ ज० ॥ शेत
 दीये सन्मान ॥ बहु कोडें द्योय वेचियां तो ॥ ज० ॥ रयण दो तेज अ
 मान ॥ १२ ॥ जांम ग्रही बहु तेहनां तो ॥ ज० ॥ निजपुर चालण
 प्रेम ॥ साथ संघातें चालीयो तो ॥ ज० ॥ मनमांहे चिंते रे एम ॥ १३ ॥
 मलशुं जइ घर नारीशुं तो ॥ ज० ॥ करशुं ए लील विलास ॥ स्वजन
 सहु साथें मले तो ॥ ज० ॥ पूरशुं मंदिरवास ॥ १४ ॥ एक महोटी अ
 टवी तिहां तो ॥ ज० ॥ जातां ए आवि विचाल ॥ एक प्रदेशें तेहने तो
 ॥ ज० ॥ उतखो साथ विशाल ॥ १५ ॥ धान्यपाक सहुको करे तो
 ॥ ज० ॥ आवि कजाती ए धाड ॥ थइ सन्नइ सहामो थयो ॥ ज० ॥
 पूरवा वैरीनां लाड ॥ १६ ॥ रणमांहे नासी गया तो ॥ ज० ॥ सुलसना सुजट
 अनेक ॥ रह्यो तिहां कणे एकलो तो ॥ ज० ॥ सुलस धरीमन टेक ॥ १७ ॥
 बांध्यो पाठा वाहुयें तो ॥ ज० ॥ जुंटी लीयो सवि माल ॥ कर्म दशा जब
 पालटी तो ॥ ज० ॥ नर होय जेम कंगाल ॥ १८ ॥ ते लेइ चाव्या सुल
 सने तो ॥ ज० ॥ वेच्यो ए वणिकने हाथ ॥ तेणें जइ पारसकूलमां तो
 ॥ ज० ॥ आप्यो ए सुलस अनाथ ॥ १९ ॥ रुधिर तणे काजें लीयो तो
 ॥ ज० ॥ जुउं जुउं पूरवपाप ॥ बंधातां माजिम नहिं तो ॥ ज० ॥ उदयें
 लहे रे संताप ॥ २० ॥ आकर्पी नर तनुयकी तो ॥ ज० ॥ रुधिर नरे
 कुंम केइ ॥ तेमांहे तिहां उपजे तो ॥ ज० ॥ जीव घणा लघुदेहि ॥ २१ ॥
 रुमीराग तेहनो नीपजे तो ॥ ज० ॥ वसन रंगाये रे तेण ॥ रंग न
 तेहनो वतरे तो ॥ ज० ॥ दाधे ए पण जलणेण ॥ २२ ॥ सुलस सहे
 दुःख तेहवां तो ॥ ज० ॥ रुधिरशुं खरड्यां रे अंग ॥ पड्यो अचेत जूमि
 तले तो ॥ ज० ॥ विरुठ ए कर्मप्रसंग ॥ २३ ॥ नारंम एक तिहां आ
 वियो तो ॥ ज० ॥ चंचुमां ग्रही तस सार ॥ लेइ उड्यो अंबरतलें तो

॥ ज० ॥ नहीं कोइ राखणहार ॥ ३४ ॥ रोहणगिरि जइ ऊतखो तो
 ॥ ज० ॥ मूकी शीला तल जाम ॥ नहुणने उद्यत थयो तो ॥ ज० ॥
 नारंम वीजो रे ताम ॥ ३५ ॥ आव्युं नद्वय देखी करी तो ॥ ज० ॥
 तेणें पण दीधी रे दोट ॥ मांहोमांहे वलग्या वन्दे तो ॥ ज० ॥ करे
 एक एकने चोट ॥ ३६ ॥ अहो संसारविडंबना तो ॥ ज० ॥ मत्स्यगला
 गल एह ॥ कोइ केहनुं वहालुं नहिं तो ॥ ज० ॥ स्वारथ साथ सनेह
 ॥ ३७ ॥ कलह करंतां देखिने तो ॥ ज० ॥ लघुकलखुं ततकाल ॥ तेह
 सुलस नासी करी तो ॥ ज० ॥ पेठो गिरिविवर विचाल ॥ ३८ ॥ ते वेहु
 पंखी जब गया तो ॥ ज० ॥ निसखो सुलस कुमार ॥ गिरिनिर्जर
 निर्मल करे तो ॥ ज० ॥ निजतनु लेइने वारि ॥ ३९ ॥ व्रणसंरोहि
 णीने रसें तो ॥ ज० ॥ व्रण कखां साजां तेण ॥ गिरि उपरथी उतखो तो
 ॥ ज० ॥ सुलस ते जाग्यवशेण ॥ ४० ॥ नूमितले जब आवीयो तो
 ॥ ज० ॥ गर्ता रेखुत्कर दीठ ॥ नर बहु खणता देखीया तो ॥ ज० ॥
 मन चिंते कौतुक मीठ ॥ ४१ ॥ ठठे खंमैं त्रीशमी तो ॥ नवि सुणो ॥ परिग्रह
 एम दुःखदाय ॥ राम कहे परिग्रहथकी तो ॥ नवि सुणो ॥ विरमे
 महासुख थाय ॥ ४२ ॥ सर्व गाथा ॥ १ १ ७ १ ॥ श्लोक तथा गाथा ॥ ६ १ ॥
 ॥ दोहा ॥

॥ सुलस देखि तिहां पंचकुल, हरख्यो चित्त अपार ॥ पूठे हवे जइ ते
 हने, कवण देश आचार ॥ १ ॥ लेइ खनित्र करमां खणे, किण कारण ए
 संधि ॥ कुण पर्वत ए दाखवो, मुजने सवि संबंध ॥ २ ॥ ते नर कहे सुण
 पंधिया, जे देशांतर जाय ॥ ते माह्या सघलुं लहे, तुं एम घेलो कांय
 ॥ ३ ॥ गुं आकाशथकी पढ्यो, जे न लहे कांइ वात ॥ सुलस कहे
 ते पण खरुं, निसुणो मुज अवदात ॥ ४ ॥ एक विद्याधर माहरे, सूधो
 जीवन प्राण ॥ मेरु गिरि देखाडवा, मुज लेइ चट्यो सुजाण ॥ ५ ॥ देव
 योग वचमां मट्यो, रिपु विद्याधर एक ॥ युद्ध थयुं ते वेहुने, हुं पडीयो तव
 ठेक ॥ ६ ॥ जाग्य योगें रह्यो जीवतो, जे तुम्हें कहुं ते साच ॥ माटें तुम
 पूठुं थयुं, कहो मुज साची वाच ॥ ७ ॥ ते कहे रोहणनामथी, पर्वतने
 ए देश ॥ वज्रसार नरराजीयो, तेह तणे आदेश ॥ ८ ॥ ए नर नूमि खणी
 घणी, काढेरयण अंवार ॥ कर देई राजा प्रतें, लेइ जाये घर वार ॥ ९ ॥ तास

वचन सांजली सुलस, मनमां थयो खुशाल ॥ धन उपराजण ए नलो, लह्यो
उपाय सुविशाल ॥ १० ॥ रत्नपुंज पुरमां रहि, वृद्ध वणिकने गेह ॥ नर
साथें गर्ता जइ, मेले रयण सनेह ॥ ११ ॥ एक बहुमूलुं पामीयो, रयण
गोपवी अंग ॥ बीजारयणनो जाग देइ, चाव्यो धरि मन रंग ॥ १२ ॥

॥ ढाल एकत्रीशमी ॥

॥ कानें मुझ शिर जटा ॥ ए देशी ॥ सुलस तिहांथी चालीयो ॥ सुणो
नवि जावें लाल ॥ लोच महाडुःखदायकु ॥ नज नगवंतकुं वे ॥ मायानो
वांध्यो प्राणीयो ॥ सु० ॥ पग पग पामे अपायकुं ॥ न० ॥ १ ॥
श्रीमंतपुरमांहे आय के ॥ सु० ॥ वेची रयण कखा दाम के ॥ न० ॥
करीयाणुं बहु लेइ चव्यो ॥ सु० ॥ चिंते थयुं मुऊ काम के ॥ न०
॥१॥ मारगमांहि आवतां ॥ सु० ॥ अटवी आवी विकराल के ॥ न० ॥ दव
लाग्यो तिहां जोरशुं ॥ सु० ॥ पवनें हो पसरी जाल के ॥ न० ॥ ३ ॥
करियाणुं दाधुं सवे ॥ सु० ॥ कर्म सबल प्रतिकूल के ॥ न० ॥ जीव
लेइ नागो तिहां ॥ सु० ॥ लोच ए डुःखनुं मूल के ॥ न० ॥ ४ ॥ कोइक
गामने परिसरें ॥ सु० ॥ नमतां हो तापस दीठ के ॥ न० ॥ कर जो
डी तेहने नम्यो ॥ सु० ॥ पासें जइ उपविठ के ॥ न० ॥ ५ ॥ तापस कहे तव
सुलसकुं ॥ सु० ॥ कोन मूलकसैं आया इहां ॥ न० ॥ फिकर करे क्युं
चिन्तमां ॥ सु० ॥ वत्स तें जावेगा किहां ॥ न० ॥ ६ ॥ सुलस कहे सां
इ सुणो ॥ अवे उपकारी लाल ॥ धन कारण जगती नम्यो ॥ न० ॥
पार न आयो दलिइको ॥ अवे० ॥ काल बहु युं निर्गम्यो ॥ न० ॥ ७ ॥
अव सांई मुऊकों मीले ॥ अ० ॥ नाग्य फव्या मेरा सही ॥ न० ॥ तुम जैसे
भोऊं मिले ॥ अ० ॥ उरकुं अव जाचुं नहिं ॥ न० ॥ ८ ॥ काहे पूकारत डव्यकुं ॥
अवे सुण वावू लाल ॥ धन हम धूल समा गिने ॥ न० ॥ ए मायाके खेल
हे ॥ अवे० ॥ सो योगी वर्जे जिणे ॥ न० ॥ ए ॥ दोलत डुनियां कारि
मी ॥ अ० ॥ विणसंतं नहिं वार के ॥ न० ॥ मस्त रहो प्रभुध्यानमां ॥
अ० ॥ धरो एक योगसैं प्यार के ॥ न० ॥ १० ॥ सुलस कहे तुम सच
कहा ॥ अवे सुण सांई लाल ॥ मार्ग योगान्यासका ॥ न० ॥ पण लग
डुनिषादारकुं ॥ अ० ॥ वंथन आशापाशका ॥ न० ॥ ११ ॥ धन
विणुं जगत चले नहिं ॥ अवे० ॥ धन मूल ए संसार के ॥ न० ॥ करो

करुणा मो उपरें ॥ अ० ॥ तुम हो वडे सिरदार के ॥ ज० ॥ १२ ॥ कहे
 परिव्राजक काहेकुं ॥ अ० ॥ शोच करत दिल नीतरें ॥ ज० ॥ धन बहु
 तेरा हे इहां ॥ अ० ॥ तिनमें दारिद्र्य दूरें करे ॥ ज० ॥ १३ ॥ सुलस
 कहे मोकुं कहो ॥ अ० ॥ धन मिले कोन उपायसें ॥ ज० ॥ रसकूपी
 रस जो मिले ॥ अ० ॥ कंचन होवे आयसें ॥ ज० ॥ १४ ॥ सुलस कहे
 फुरमावीयें ॥ अ० ॥ मुऊ लायक होवे काज के ॥ ज० ॥ महिषीपुत्र
 कों आणिके ॥ अ० ॥ तैलमें द्वेषो आज के ॥ ज० ॥ १५ ॥ मृत महिषीपुत्र ले
 ५ धर्युं ॥ अ० ॥ तैलमांहे षट्मास के ॥ ज० ॥ सुलसको कियहीके घरे ॥
 अ० ॥ जिमाडे सो उल्लास के ॥ ज० ॥ १६ ॥ षट्मासें दोय नीसरे ॥
 अ० ॥ पुस्तक पुत्र लेइ हाथ के ॥ ज० ॥ दोय तुंबी दोरी ग्रही ॥ अ० ॥
 मंचिका लीधी साथ के ॥ ज० ॥ १७ ॥ गिरिविवरें दोय आवीया ॥ सु० ॥
 यद्द पडिमा पूजी करी ॥ ज० ॥ वलि देवे नूतदेवको ॥ सु० ॥ आगें च
 ले दोनुं फिरी ॥ ज० ॥ १८ ॥ दीप कीयो उन पुत्रको ॥ सु० ॥ दोऊ जन
 आगें गये ॥ ज० ॥ चोरस रसकूप देखि कें ॥ अ० ॥ दो दीलमें हर्षित
 जये ॥ ज० ॥ १९ ॥ वलि देई कहे सुलसकों ॥ सु० ॥ इस मांची पर
 वेठ के ॥ ज० ॥ तुंब लेई दोउ हाथमें ॥ अ० ॥ जाउ रस लेणको ठेठ
 के ॥ ज० ॥ २० ॥ सुलस गयो रसकूपमें ॥ सु० ॥ मुख समरे नवकार
 के ॥ ज० ॥ रस लेवा उद्यत थयो ॥ सु० ॥ शब्द सुण्यो तेणी वार के ॥
 ज० ॥ २१ ॥ ए रस कोठी हे वूरो ॥ सु० ॥ मत करसें फरसो तुमें ॥
 ज० ॥ तुं साधर्मिक माहरो ॥ सु० ॥ उनसें वारत हे अम्हें ॥ ज०
 ॥ २२ ॥ तनु रस लागेसें होवे ॥ सु० ॥ तिनमें प्रानको नाश के ॥ ज० ॥
 आराधक जिनधर्मको ॥ सु० ॥ तुं आयो धनआश के ॥ ज० ॥ २३ ॥
 लावो तुंबक रस जरी देउं ॥ सु० ॥ करुं तुमकुं साहाज के ॥ ज० ॥ सुलस
 कहे तुम वंदन ॥ अ० ॥ धर्म वांधव लाल ॥ वात कहो तुम आज के ॥ ज० ॥ २४ ॥
 ठेठेखमें एकत्रीशमी ॥ अ० ॥ ढालकही धन उपरें ॥ ज० ॥ धन निज संकट अ०
 गुणी ॥ अ० ॥ जे एकज उपकृति करे ॥ ज० ॥ २५ ॥ सर्व ० ॥ १२०० ॥

॥ दोहा ॥

॥ कहे धर्म वांधव सुणो, लोच वडो जगमांहि ॥ लोचवगें ए जीवडो,
 पामे दुःख अथाह ॥ १ ॥ नचरी विशालामां वसुं, जिनगेखर अजिधान ॥

समुद् चढयो धनकारणें, जांज्युं अधविच यान ॥ ३ ॥ उदधि तस्यो फल
हक लही, नमतां अटवीमांहि ॥ परिव्राजक मुजने मव्यो, नाख्यो कूपक
मांहि ॥ ३ ॥ तुंवक नरी कंठें गयो, लेइ तुंवक तेणें नीच ॥ दोर ठेदी
नाख्यो मुनें, पडीयो रस अध बीच ॥ ४ ॥ जाणुं तुजने पण तेणें, ठेत
रीयो सहि आज ॥ जो सुश्रावक मत करो, तस विश्वास शुन काज
॥ ५ ॥ सुलसें पण संबंध निज, दाख्यो तेणें रस तुंव ॥ दोय नरी दीधां
तिहां, न कस्यो कांइ विलंब ॥ ६ ॥ मांची तल बांधी निविड, सुलसें हला
वी दोर ॥ कूपकंठ लगें ताणीयो, योगीयें करी जोर ॥ ७ ॥ दे तुंवक
मुजने प्रथम, ते कहे बांध्यां ताणी ॥ मांचि तले हूटे नहिं, आपीश प
ठें सुजाण ॥ ८ ॥ तेणें जाणुं नेदू मव्यो, न ठगाये हवे एह ॥ तुंव स
हित तेणें सुलसने, नाख्यो कूप निःस्नेह ॥ ९ ॥ कूप मूकी योगी गयो, नि
ठुर नीच कुपात्र ॥ सुलस कूप मेखल पड्यो, अद्दत रहियुं गात्र ॥ १० ॥
सुलस गाढ स्वर उच्चरे, पंचपरमेष्ठिजाप ॥ कहे चेतन ए ताहरां, उदयें
आख्यां पाप ॥ ११ ॥ जो परिग्रह आगलयकी, मूलथी मेव्यो होत ॥ तो
एवहुं श्याने इहां, दुःख हुं नजरें जोत ॥ १२ ॥ अधुना पण प्राणी इहां,
लेइ चारित्र उदार ॥ करि अणसण आराधना, जिम हुवे तुज उदार
॥ १३ ॥ जिनशेखर तव सांजली, कहे म म चिंतव एम ॥ कहुं निस्तरण उ
पाय हुं, सांजल धरि मन प्रेम ॥ १४ ॥ एक गोधा आवे अठे, रस पी
वाने अत्र ॥ तस पुढ वलगी तुं जजे, ते जिहां जाये तत्र ॥ १५ ॥ कहे
जिनशेखर माहुरुं, अल्प आयु अवशेष ॥ कर उपकार तुं मुजने, देई
धर्म उपदेश ॥ १६ ॥

॥ ढाल वत्रीशमी ॥

॥ महाविरजीनी देशना ॥ ए देशी ॥ सुलस कहे हवे तेहने ए, जिन
शेखर अवधार तो ॥ चिहुं गतिमां लाइ जीवडो ए, नमतां न आव्यो
पार तो ॥ १ ॥ श्रीजिनवरनी देशना ए ॥ ए आंकणी ॥ पांचे ए आश्रव रो
लवे ए, पहेले ए प्राणातिपात तो ॥ बीजो मृपावाद परिहरो ए, अद्दत
करे शुणवात तो ॥ श्रीजि० ॥ २ ॥ मैथुन परिग्रहमां वणुं ए, लपटाई रह्यो जी
व तो ॥ जोगवे नरक निगोदमां ए, करतो वेदनें ए रीव तो ॥ श्रीजि० ॥ ३ ॥
एक समरे अरिहंतने ए, सिद्ध जजे शुणवंत तो ॥ आचारिज उवशायने

ए, समरे महामुनि संत तो ॥ श्रीजि० ॥ ४ ॥ ए पंच मंगल मूलगां ए,
 ध्यातां हो नवनिस्तार तो ॥ शरण नहिं कोइ ए विना ए, नवमांहे रा
 खणहार तो ॥ श्रीजि० ॥ ५ ॥ शरण हजो वली तुज नणी ए, अरिहंत सिद्ध
 सुसाध तो ॥ केवलिनापित धर्मनुं ए, राखजो दिलमां समाध तो ॥
 श्रीजि० ॥ ६ ॥ तुं कोइनो नहिं ताहरुं ए, कोइ नहिं जगमांहे तो ॥
 एक जिनधर्म ठे ताहरो ए, वलगजे एहिनी वांहे तो ॥ श्रीजि० ॥ ७ ॥
 लख चोराशी खामजे ए, म धरिश कोइशुं वैर तो ॥ स्वारथीयुं सहुको म
 व्युं ए, वाहलां हो वहेती सेर तो ॥ श्री० ॥ ८ ॥ सगपण ए संसारनां
 ए, हूवां अनंती वार तो ॥ वहांजो वैरी थइ अवतरे ए, वैरी वहाजो सं
 सार तो ॥ श्री० ॥ ९ ॥ मिथ्याडुःकृत दीजीयें ए, सेव्यां ए पाप अठार तो ॥
 आ नव परनव सेवीयां ए, दोष अनेक प्रकार तो ॥ श्री० ॥ १० ॥
 जे तें कस्यां वली कारव्यां ए, पनर ए कर्मादान तो ॥ त्रिविध त्रिविध
 वोसिरावजे ए, दुर्गतिलां ए निदान तो ॥ श्री० ॥ ११ ॥ सांचल आ
 हारीपणुं ए, लाग्युं अनादिनुं केड तो ॥ क्यांहि रह्यो नहिं ए विना ए,
 हवे तस मूर्त्ता फेड तो ॥ श्री० ॥ १२ ॥ चार प्रकार आहारना ए, तुं वोसि
 रावजे आज तो ॥ अरथ सरे जेम ताहरो ए, वलीयो थइ कर काज
 तो ॥ श्री० ॥ १३ ॥ शूर थजे तुं इण समे ए, म करीश कायर जाव
 तो ॥ असुरसुरादिक स्थिर नहिं ए, ए संसार स्वजाव तो ॥ श्री० ॥ १४ ॥
 जिनशेखर मनशुद्धिं ए, सद्वहिया सवि बोल तो ॥ ध्यान धरे नवका
 रनुं ए, रह्यो मनं थइ अमोल तो ॥ श्री० ॥ १५ ॥ पट्कायना जीव
 ऊपरें ए, राग ने द्वेष निवार तो ॥ आयु पूरुं करी अवतखो ए, अष्टम
 कल्पमजार तो ॥ श्री० ॥ १६ ॥ न दीये हुंकारो यदा ए, जाण्युं गयो
 परलोक तो ॥ सुलस रुवे कंठ मूकीने ए, धर्म वांधवने शोक तो ॥ श्री०
 ॥ १७ ॥ हा जिनशेखर वांधवा ए, साधर्मिक गुणधार तो ॥ मुज मूकीने
 किहां गयो ए, द्यो उत्तर एणी वार तो ॥ श्री० ॥ १८ ॥ धर्माराधनरक्षु
 थ्री ए, मूकीने दुःखकूप तो ॥ सुरपदवी सहि पामीया ए, जाणुं एमति
 थि स्वरूप तो ॥ श्री० ॥ १९ ॥ एणे अवसरें आवी गोधिका रे, रस
 पीवा तिण वाय तो ॥ पान करी पाठी वली ए, पुर्वें हो बलग्यो जाय
 तो ॥ श्री० ॥ २० ॥ किहांइ सूवे वेसे किहां ए, किहांइ उजो एण मेल तो ॥

ऋष्यी बाहेर नीसखो ए, जूठ जूठ कर्मना खेल तो ॥ श्री० ॥ ३१ ॥
 रवि पर्वत देखी करी ए, मूकी हो तेहनुं पुढ तो ॥ एकदिशि लेइने चालियो
 ए, सुलस धरी मति उंच तो ॥ श्री० ॥ ३२ ॥ आगें जातां एक हाथीयो
 ए, साहामो धायो विकराल तो ॥ सुलस विचारे हो चित्तमां ए, मूके
 नहिं ए व्याल तो ॥ श्री० ॥ ३३ ॥ अंत नायो एक दुःखनो ए, बाजुं
 आयुं सन्मुख तो ॥ में बहु पाप समाचखुं ए, पूरव नव कोइ तिरक तो
 ॥ श्री० ॥ ३४ ॥ नातो ते गज नयथकी ए, करी आव्यो तत्काल तो ॥
 करें जाली उहालीयो ए, चिंतित थयुं विसराल तो ॥ श्री० ॥ ३५ ॥
 पडतां हो नाग्यवशें तिहां ए, तरु उपर पड्यो आय तो ॥ माखा मरे नहीं
 ते सही ए, जस निरुपक्रम आयु तो ॥ श्री० ॥ ३६ ॥ शाखा हो अवलंबी
 रह्यो ए, दृढचित्त सुलस कुमार तो ॥ गज तरु धंधोले रह्यो ए, थर थर
 धूजे अपार तो ॥ श्री० ॥ ३७ ॥ सिंह तिहां कणो आवीयो ए, गज
 हणीयो कृणमांय तो ॥ आमिष तस नकृण करे ए, मत्स्य ज्युं ए नव
 न्याय तो ॥ श्री० ॥ ३८ ॥ वाघ जोरावर तिहां वली ए, आव्यो हो मांस
 उदेश तो ॥ एक इव्य कारण विहु जणा ए, वढीया ते सुविशेष तो ॥ श्री०
 ॥ ३९ ॥ युद्ध करंतां वेहुने ए, रात पडी तिण ठार तो ॥ सुलस विचारे
 चित्तमां ए, नाव्यो ए कर्मनो पार तो ॥ श्री० ॥ ४० ॥ तरु शाखायें ए
 कण दिशें ए, दीतो उद्योत अत्यंत तो ॥ सुलस विचारे ए गुं हजे ए,
 जोउं जइ टले प्रांति तो ॥ श्री० ॥ ४१ ॥ जोतां हो एक माला विचें ए,
 दीतो मणि तिहां एक तो ॥ पासें जुजगस्थानक वली ए, देखी चिंते
 सुविवेक तो ॥ श्री० ॥ ४२ ॥ विषअपहर ए जुजगनुं ए, शिरमणि र
 यण ए होय तो ॥ लेइ करतल ते उतखो ए, हर्षे ते मणि जोय तो
 ॥ श्री० ॥ ४३ ॥ वाघ हरि दोय नासीया ए, ते मणिने उद्योत तो ॥
 रात गइ रवि उगीयो ए, प्रगटी पूर्वदिशें ज्योति तो ॥ श्री० ॥ ४४ ॥ ठठे
 खंमें वत्रीशमी ए, ढाल नणी मनरंग तो ॥ दुःख जग जीव सहे घणा ए,
 परियहने परसंग तो ॥ श्री० ॥ ४५ ॥ सर्वगाथा ॥ १२५ ॥ श्लोक ॥ ६२ ॥
 ॥ दोहा ॥

॥ थये प्रजाते मणिरयण ते, गांठे बांधी सार ॥ चाव्यो अति चता
 वलो, सुलस अरण्य मजार ॥ १ ॥ चूख्यो तरप्यो अति घणो, सहेतो

दुःख अपार ॥ साते दिवसें पामीयो, ते अटवीनो पार ॥ १ ॥ सप्तम
दिन एक पर्वते, दीगो अग्नि प्रकाश ॥ तस अनुसारें तिहां गयो, मनमां
सुलस विमासि ॥ ३ ॥ धातुवादी बहु मित्वा, करे धातुरस योग ॥ सुलस
तिहां ऊजो जइ, पूर्व कर्मने जोग ॥ ४ ॥ आदर देई स्थापीयो, तेणें
तेहने निज पास ॥ जोजन आपे जावतां, सुलस लह्यो विश्वास ॥ ५ ॥
सूतां एक दिन तेहनी, गांठें देखी गरुड ॥ ठानो ठोडीने लियो, अर्थ करे
अनरुड ॥ ६ ॥ तस ठामें वांध्यो अवर, तत्प्रमाण पाषाण ॥ ठल कारक
एम ठल करी, परधन हरे अजाण ॥ ७ ॥

॥ ठाल तेत्रीशमी ॥

॥ सामि सोहंकर, श्रीशेरीश ए ॥ ए देशी ॥ पाठली रयणी रे, सुलस
ते जागीयो ॥ धातुधमंतां हुं रह्यो निर्जागीयो ॥ त्रूटक ॥ निर्जागीयो इहां
अर्थ केरी, आश महारी नवि फली ॥ बहु दिवस थया मुऊ धातु धमतां,
इव्य कोडी नवि मिली ॥ ए इव्य अर्थी करे व्यर्थी, अग्निकिरिया अति
घणी ॥ बहु पाप कर्मी नहिं धर्मी, आश एहोनी सवि हणी ॥ १ ॥ यतः
॥ धातु धमे विणु जा धणआशा, सिर मुंने विणु जा रुवासा ॥ वेश
धरे विणु जा धरआशा, एतिन्निवि आशा हूइ निराशा ॥ १ ॥ पूर्व
ठाल ॥ प्रह उठीने रे, सुलस ते चालीयो ॥ मारगमांहे रे, बहु दुःख
सालीयो ॥ त्रूण ॥ सालीयो बहु दुःख तास मनमां, अर्थ विणु बहु
वन जमे ॥ पूरवें खोया अरथ केरी, चिंत सघली चिंत दमे ॥ मनमांहे
आशा अर्थ केरी, करुं उपराजण नवी ॥ आवीयो अटवी शीर्षपुरमां,
सवल शोना अजिनवी ॥ २ ॥ मणि वेचणने रे, ठोडे गंठी ए ॥
पाषाण देखी रे, पड्यो नूपीठ ए ॥ त्रूण ॥ नूपीठ पडियो करे हाहा,
मुस्यो मुऊने अति घणो ॥ ते धातुवादीयें ठगी अनुपम, रयण लीधो
मुऊ तणो ॥ अथवा नहीं तस कांइ दूपण, दोष सवि मुऊ कर्मनो ॥
मन चिंतव्युं तस होय क्यांथी, लेश नहिं जस धर्मनो ॥ ३ ॥ पूरव जब
में रे, कर्म कीथां घणां ॥ केइ रण जांज्यां रे, होजे जन तणां ॥ त्रूण ॥
जनतणां जांज्यां तेम रण वली, देवइव्य साधारणा ॥ में जरुवां होजे ते
विगोजे, काल बहु जब पूरणा ॥ अथवा दरिडी नारी विधवा, इव्य होजे
वावस्यां ॥ ते कर्म मुऊने उदयें आ जब, आवियां महारां कर्यां ॥ ४ ॥

मन एम चिंते रे, शुं इण जीवितें ॥ दुःखीयो कीधो रे, मुज्जने देव तें ॥
 त्रूण॥ देव तें जोकीध दुःखीयो, प्राण तजवां में हवे ॥ कृष्ण चउदिशि रयण
 पितृवन, जई गाढस्वरें चवे ॥ वैताल नूत पिशाच निसुणो, मांस वहेचुं मुज्ज
 तणुं ॥ तुमें जेम जाणो तेम आवी, करो नरुण तनु तणुं ॥ ५ ॥ कर जेइ
 काती रे, बहु आव्या तीहां ॥ वैतालादि रे, सुजस अठे जीहां ॥ त्रूण ॥
 जिहां सुजस ठे ते तिहांकणे, आवी एणिपरें उच्चरे ॥ वैराग्यथी जो
 मांस विक्रय, करे ठे तुं आदरें ॥ तो नियत इहांकणे नूमि उपरें, पड्यो
 ते निर्जय थइ ॥ सहु पासैं विंटाइ वव्यां हवे, वात सुणो तिहां जे दुइ
 ॥ ६ ॥ एहवे अवसर रे, जिनशेखर जयो ॥ अवधि ज्ञानें रे, जोइ अज
 जीयो ॥ त्रूण॥ अजजीयो जोइ तुरत सोइ, सुजस पासैं आवीयो ॥ ते नूत
 नागं हतां मातां, तास जइ बोलावीयो ॥ जो सुजस श्रावक अहं तुज प्रति,
 नमुं तुं कर जोडीनें, ते मुज्ज आराधन सुणावी, बूजीयो मद ठोडीने
 ॥ ७ ॥ थयो सुरलोकें रे, अष्टमे हुं सही ॥ इइ सामानिकनी, रुदि में
 लही ॥ त्रूण ॥ में लही रुदि ए तुज प्रसादें, धर्मगुरु मुज्ज तुं थयो ॥ उप
 कार ताहरो अठे सबलो, ते न जाये में कह्यो ॥ एम निसुणी ते पण सु
 लस जठयो, जाणी जिनशेखर सुरो ॥ कहे धर्मवांधव तुज्जने पण, हुं
 नमुं तुं सादरो ॥ ८ ॥ देव तव बोले रे, शुं तुज प्रिय करुं ॥ सुजस कहे
 तुम रे, दीठे दिल ठुं ॥ त्रूण॥ दिल ठुं तो पण कहो मुज्जने, कर्म हवे केतुं
 रहुं ॥ निविड ए अंतराय केरुं, ज्ञानथी जे तुम्हें लहुं ॥ कहे देव ए तुम
 क्षीण सरिखुं, कर्म रहुं लवलेशथी ॥ पण जोगकर्म अठे घणुं तेणें, चरण ह
 मणां तुज नथी ॥ ९ ॥ माणिक्य सोवन रे, धनराशि घणी ॥ सुर बहु ठोइ रे,
 तेहना गुण जणी ॥ त्रूण ॥ गुण जणी ठोइ साथ साथें, नयर तस पहाँ
 चाडियो ॥ सुर शीख मागी गयो स्थानक, गुजें अगुज नसाडियो ॥ पुर
 मांहे सघले वात पसरि, नयरपति ताहमो जइ ॥ बहु करी उत्सव न
 यरमांहे, जाविया हर्षित थइ ॥ १० ॥ निजघरे आव्या रे, साथ स्व
 जन घणां ॥ सहु जन बोले रे, हर्ष वधामणां ॥ त्रूण ॥ वधामणां
 लीये जामणां तेम, प्रथम नारी पीयु तणां ॥ बहु दिवस वहालेसर पयाख्या,
 आज उजट अति घणा ॥ कंत कामिनी दोय मजियां, दिवस वलीया सु
 खना ॥ अंतराय माता सवे घावा, दिवस नाग दुःखना ॥ ११ ॥ कामप

ताका रे, पण अनुरागिणी ॥ वेणीबंधें, मितांशुकजागिणी ॥ त्रू० ॥ जा
गिणी देखी तेहने पण, करी राखी गेहिनी ॥ दोय नारीसार्थें जोग वि
लसे, विमल कीर्ति जेहनी ॥ एक दिवस चिंते चित्तमांहे, जीव परिग्रह
मिति विना ॥ ते दुःख बहुलां सहायां परिग्रह, व्रत लीधां एकमना ॥ १२ ॥
इव्य अनेरुं रे, धर्मव्यय करे ॥ साते क्षेत्रें रे, परिगल वावरे ॥ त्रू० ॥
वावरे साते क्षेत्रें बहुलुं, चित्त तेम विलसे वली ॥ एक दिवस अशुजना
उदयथी तस, इव्य खूट्युं अति मली ॥ दिलमांहे विलखो थयो सुलस
ते, इव्य चाहे जेटले ॥ आठमा सुरलोकथी सुर, आवी पूरे तेटले
॥ १३ ॥ कहे मुज वेगं रे, तुम चिंता किसी ॥ जे तुम जोश्यें, ते
लेजो उल्लसी ॥ त्रू० ॥ उल्लसी लेजो वृष्टि करीने, कहे सोवन राशिनी ॥
तेणें निजपरिग्रह विरति माफक, लीयुं नहिं मति आशनी ॥ सुर कहे
सुलसने एह रूडुं, कखुं आतमहित जणी ॥ ए इव्य विण परिमाण
कीधे, दीये वेदन अति घणी ॥ १४ ॥ यतः ॥ यथा यथा व्योलोनः
स्या, दृष्टपारंनपरिग्रहैः ॥ तथा तथा सुखं नृणां, धर्मात्सिद्धिः प्रजा
यते ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ वांठित धन देइ, सुलसने ते गयो ॥ हर्ष हि
यामां रे, तस वमणो थयो ॥ त्रू० ॥ थयो वमणो सुलस एक दिन, गयो
वाडी मन रुली ॥ तिहां कर्मयोगें निधान देखी, चित्तमां चिंते वली ॥ ए
इव्य न घटे मुज लेवुं, व्रतचंग ते आदखो ॥ मन एम चिंती निरखी
नजरें, सुलस पाठो उंसखो ॥ १५ ॥ दीतुं रायने रे, सुजटें तिहां कणे ॥
पुरमां जश्ने रे, नृप आगें जणे ॥ त्रू० ॥ आगें जणे तुमें रही ठाना, सुल
सनी परीक्षा करो ॥ तेणें सात दिवसा लगी परख्यो, जाणीयो गुण
मणि जखो ॥ नृप तेडि पूठे कही शुं ठे, केम निधि लीधो नही ॥ कहे सुलस
माहरे नियम उपर, लीये व्रत जांजे सही ॥ १६ ॥ गुणवंत जाणी रे,
निज जंमारनी ॥ कूंची सोंपी रे, नृप दरवारनी ॥ त्रू० ॥ दरवारनी सवि
वात नृपति, सुलसने पूठी करे ॥ पुरमांहे सघले सुलस पसखो, कीर्ति
सहु मुख उच्चरे ॥ ढाल ठठे खंम तेत्री, शमी संपूरण थई ॥ एम नियम
पाले धन्य ते नर, नमो तेहने पढ़ें जइ ॥ १७ ॥ सर्वगाथा ॥ १२७३ ॥ ६४ ॥
॥ दोहा ॥

॥ इण अवसर तिहां आविया, अमरचंड मुनिराय ॥ आवी नर

कहुं सुलसने, कीधो तास पसाय ॥ १ ॥ सुलसें जइ रायने कहुं, राय
घणे परिवार ॥ गुरुवंदणने आवीयो, तिण उद्यान मजार ॥ २ ॥ पांचे
अनिगम साचवी, करि पंचांग प्रणाम ॥ गुरु वांदी वेठा सवे, तिहां
यथोचित स्थान ॥ ३ ॥

॥ ढाल चोत्रीशमी ॥

॥ मोरी मातजी रे, अनुमति द्यो व्रत आदरुं रे ॥ ए देशी ॥ गुरु नांखे
तिहां देशना रे, मीठी अमीय समाणी रे ॥ ए नरनव दोहिलो लह्यो रे, कां
इ हारो गुणखाणी रे ॥ १ ॥ मोरा प्राणीया रे, एह धर्म नित्य आदरो
रे ॥ गुणगुण ठाणीया रे, मत प्रमाद समाचरो रे ॥ ए आंकणी ॥ घूणा
कर न्याये करी रे, ए सामग्री जाधी रे ॥ ते हवे तुमें सफली करो रे,
जैनक्रियाने साथी रे ॥ मोरा ० ॥ २ ॥ आयु उजाणुं जाय ठे रे, न
लीये लगार विसामो रे ॥ काल कुलालना चक्र ज्युं रे, एह फिरे अ
विरामो रे ॥ मो ० ॥ ३ ॥ पंच प्रमादमांहे पड्या रे, आप सवारथ मा
ह्या रे ॥ काल उजातो नवि लहे रे, मोहपिशाचें वाह्या रे ॥ मो ० ॥
॥ ४ ॥ सूर्यगतागत आउखुं रे, प्रतिदिन ए ह्य पामे रे ॥ जन्म जरा
दिक देखीने रे, कृण निर्वेद न कामे रे ॥ मो ० ॥ ५ ॥ मोहमद्यपानें
करी रे, जग मतवाळुं दीसे रे ॥ आत्मतत्त्व न उंलखे रे, साचुं ए विश
वावीगें रे ॥ मो ० ॥ ६ ॥ गुरुवाणी निसुणी सवे रे, जीव नविक मन ह
रख्या रे ॥ देव धर्म गुरुतत्त्वने रे, सूधे लकृण परख्या रे ॥ मो ० ॥ ७ ॥
इण अवसरें पूठे तिहां रे, मुनिने सुलस शिर नामी रे ॥ केम न रही
प्रभु माहरे रे, संपद कष्टे पामी रे ॥ मो ० ॥ ८ ॥ देइ ज्ञान उपयोगने रे,
नांखे एम चउनाणी रे ॥ संपद आवीने गई रे, सुण हेतु तस गुणखा
णी रे ॥ मो ० ॥ ९ ॥ ताम्राकर गामें हतो रे, तारचंड अन्निधानो रे ॥
कौटुंबिक कुलमां बडो रे, अद्वावान ते दानो रे ॥ मो ० ॥ १० ॥ याचक
श्रमणादिक जणी रे, दान अवारित आपे रे ॥ आवक हुतो अहोनिगें रे,
मन गुनकरणीमां स्थापे रे ॥ मो ० ॥ ११ ॥ एक दिन अगुनना योगथी
रे, तस मनमां एम आव्युं रे ॥ हा दीधुं में अति घणुं रे, पण तस फल
नवि पाव्युं रे ॥ मो ० ॥ १२ ॥ गुं दीधे गुण नीपन्यो रे, आज पठी नवि देवुं
रे ॥ गुणकीर्ति बोले नहीं रे, पावुं कांइ न लेवुं रे ॥ मो ० ॥ १३ ॥ दानादिक

तस दीजीयें रे, जे मुख कीर्ति बोले रे ॥ शुं दीधे होये साधुने रे, जे वातें
 ख्याति न खोले रे ॥ मो० ॥ १४ ॥ एम विच विच बांध्यां तेणें रे, कर्म
 कठिन अंतरायो रे ॥ वजी देखी मुनि अन्यदा रे, दान देवा मति थायो रे
 ॥ मो० ॥ १५ ॥ एम अनेक वारे तेणें रे, दीधुं खंमधुं दानो रे ॥ अंते समाधि
 मरी थयो रे, सुर सौधर्म विमानो रे ॥ मो० ॥ १६ ॥ तिहांथी चविने तुं दुवो
 रे, इत्य नंदन गुणवंतो रे ॥ जेम दीधुं तेम पामीयो रे, वात करी मुनि तंतो
 रे ॥ मो० ॥ १७ ॥ ते माटें मनशुद्धिथी रे, देवुं दान विवेकें रे ॥ पांचे दूपण
 मांहिले रे, लांठित न करीयें एके रे ॥ मो० ॥ १८ ॥ दान शील तप ए
 जलां रे, मन शुद्ध होय लेखें रे ॥ जो आदरीयें जावथी रे, तो फल
 आपे विशेषें रे ॥ मो० ॥ १९ ॥ सुलस सुणी प्रतिबूजीयो रे, राय कहे
 यो शीखो रे ॥ जवजलनिधिनी तारिणी रे, लेइश हुं हवे दीखो रे ॥ मो०
 ॥ २० ॥ राय कहे हुं पण सही रे, लेइश व्रत तुज साथें रे ॥ जोड मि
 ली जुगतें जली रे, जजुं कखुं जगनाथें रे ॥ मो० ॥ २१ ॥ गुरु वांदी
 घरे आवीयो रे, पुत्रने सोंपी राजो रे ॥ वेहु जणें संयम आदखुं रे, साखां
 आतमकाजो रे ॥ मो० ॥ २२ ॥ संवेग रसमां जीजता रे, तप तपता अ
 ति गाढां रे ॥ शुज जावनमां वर्चता रे, सफल करे रात दहाडा रे ॥ मो०
 ॥ २३ ॥ व्रतजावन जावे जली रे, समतावंत संतोपी रे ॥ मुनिमारग अ
 गाहतो रे, आतमगुणनो पोपी रे ॥ मो० ॥ २४ ॥ सुलस मुनि केवल
 लखुं रे, घातिकर्म क्य घाती रे ॥ दुःखदायी ए अनादिनो रे, जाण्यो
 परियह सायी रे ॥ मो० ॥ २५ ॥ कहे जविकजन आगलें रे, एह परि
 ग्रह मूको रे ॥ धनमूर्खा उतारीने रे, जैनधर्ममां टूको रे ॥ मो० ॥
 ॥ २६ ॥ सुलस मुनि मुक्तें गया रे, अनंत चतुष्टयधारी रे ॥ सादि अनंत
 जागें रह्या रे, तेह नमो सुविचारी रे ॥ मो० ॥ २७ ॥ ए पंचम व्रत
 उपरें रे, सुण चक्रायुध राजा रे ॥ शांति प्रभुजी एम कहे रे, व्रत पाले
 जिवराजा रे ॥ मो० ॥ २८ ॥ ठठे खंम चोत्रीशमी रे, ढालें सुलस अ
 दात रे ॥ राम कहे व्रत पालतां रे, वाधे जग आख्याति रे ॥ मो० ॥ २९ ॥
 इति पंचमपरियहपरिमाणव्रतोपरि सुलसकथानकं समाप्तम् ॥ इति पंच
 अणुव्रतकथानकानि ॥ ५ ॥ सर्वगाथा ॥ १३१ ५ ॥ श्लोक तथा गाथा ॥ ६४ ॥

॥ अथ पष्ठदिशिपरिमाण व्रतसंबंधः ॥

॥ दोहा ॥

॥ पंच अणुव्रत इम कह्यां, हवे त्रण गुणव्रत तंत ॥ चक्रायुध नरवर
सुणे, कहे शांति जगवंत ॥ १ ॥ दिशिपरिमाण कहुं प्रथम, जोगोपजोगनुं
मान ॥ अनर्थदंढविरमण वली, ए त्रण गुणव्रत जाण ॥ २ ॥ ऊर्ध्व अधो
तीर्त्ती दिर्गो, अधिकगमन अनाजोग ॥ अतिचार त्रण ए कह्या, सुणुं
वीजा दोष योग ॥ ३ ॥ क्षेत्र वृद्धि चोथो कह्यो, स्मृतिनुं अतर्ध्यान ॥
अतिचार ए टालीने, पालो दिशिपरिमाण ॥ ४ ॥ लोचोदधि संके
लीयो, जेणें ग्रह्युं ए व्रत सार ॥ त्रस थावर बहु जीवने, ते अजय तणो
दातार ॥ ५ ॥ तप्तलोह गोलक समुं, अविरतिपाप ए जीव ॥ सकल
जीवप्रत्यें दहे, तेणें थारंन अतीव ॥ ६ ॥ यद्यपि सघले गमननी,
शक्ति नथी इणे देह ॥ तो पण अवर निबंध तस, होवे नहीं संदेह
॥ ७ ॥ दिशिपरिमाण कखा विना, पामे बहु दुःखराशि ॥ जेम स्वयंचू
देवनी, नवि पद्दोती मन आश ॥ ८ ॥ चक्रायुध कहे स्वामीने, कोण स्व
यंचू देव ॥ किहां थयो किणि परें दुःख लहुं, ते जांखो जिनदेव ॥ ९ ॥

॥ ढाल पांत्रीशमी ॥

॥ उठ कलालण जर घडो हे ॥ ए देशी ॥ शांतिप्रभु कहे जलो हे,
गंगातट इणें नाम ॥ गाम सुदंत सोहामणुं हे, राजा तिहां अजिराम ॥ १ ॥
जवियण जावें सांचलो हे ॥ दिशिपरिमाण विचार ॥ पालंतां सुख पा
मीयें हे, लहियें जव निस्तार ॥ ज० ॥ २ ॥ नाम स्वयंचूदेव ठे हे, तिहां
कौटुंबिक एक ॥ करे कृपि कर्मरंजनुं हे, नही संतोष विवेक ॥ ज० ॥
॥ ३ ॥ निडाविरामे एकदा हे, ते चिंते एम रात ॥ मनोवांठित न दुठ
कदा हे, जाच ए कर्मनी वात ॥ ज० ॥ ४ ॥ गमन करुं देशांतरें हे,
लाहुं बहु धन कोडि ॥ जेम पूराये माहरा हे, सघला वांठित कोड
॥ ज० ॥ ५ ॥ करी सामग्री चालीयो हे, उत्तर पंथ अपार ॥ लक्ष्मीशी
पंकपुर गयो हे, करवा वणिज व्यापार ॥ ज० ॥ ६ ॥ तेह नयरमांहे
वस्ती हे, करे व्यवसाय उपाय ॥ जाच दुठ निल कर्मने हे, अनुस्तारें
तिण ठाय ॥ ज० ॥ ७ ॥ पण तृप्तो नहिं जीवडो हे, देखी बहु धन
वंत ॥ परदेशी पूत्रे घणा हे, कुण कुण देश महंत ॥ ज० ॥ ८ ॥ वात

सुणी तेहोने मुखें हे, नव नवी होंश धरंत ॥ प्रायें नव नव देशनो हे,
 लोचनीने लोच हवंत ॥ ज० ॥ ए ॥ यडुक्तं ॥ श्रूयमाणाः शुजादेशा, रा
 जानः सेवितास्तथा ॥ सर्वे दूरस्थितं वस्तु, स्यात्प्रायोविस्मयावहम् ॥१॥
 पूर्वढाल ॥ कोस्क नगरें आवीनें हे, पूठे वणिकनी पास ॥ किहांथी तुमें धन
 लावीया हे, ते परकाशो उल्लास ॥ ज० ॥ १० ॥ ते कहे देश चिलात
 मांहे, बहु मेलीने आज ॥ अमो आव्या हूँ इहां हे, सीधां वांठित
 काज ॥ ज० ॥ ११ ॥ कांस्क संबल लेइने हे, चाव्यो चिलातनी वाट ॥
 साथ सहित थइ सावदो हे, जुठ जवि लोचनो गत ॥ ज० ॥ १२ ॥
 तप्तवाजुका नामनी हे, विचि उल्लंघी रे पंथ ॥ हिम शीतल मारग
 चढ्यो हे, जिहां बहु ठे उत्पंथ ॥ ज० ॥ १३ ॥ तिहांथी गिरिमागें
 गयो हे, अटवी विषम अपार ॥ लोचवर्षें गुं नवि करे हे, प्राणी अं
 गीकार ॥ ज० ॥ १४ ॥ एणी परें जमतो एकदा हे, पदोतो देश चिला
 त ॥ राजविरोध तिहां घणो हे, म्लेहने अन्य संघात ॥ ज० ॥ १५ ॥
 साथ चिलातनो जाणीने हे, लूंटी लीयो सवि सार ॥ साथने पाठो वा
 लीयो हे, निज मंदिर तिणवार ॥ ज० ॥ १६ ॥ नजर वंचीने तेहोनी
 हे, नागो स्वयंचु देव ॥ मन चिंते महोकम थयो हे, करगुं वांठित हेव
 ॥ ज० ॥ १७ ॥ करम संयोगें जइ पडयो हे, शवरशिगुने रे पास ॥ कर
 चरणें तेणे वांधियो हे, रुधिर विलंब्यो रे तास ॥ ज० ॥ १८ ॥ नाख्यो
 जइ अटवी वच्चें हे, जकडी करी अंग जोर ॥ मृत जाणी गृध्र पंखीयां हे,
 आया करे बहु सोर ॥ ज० ॥ १९ ॥ चंचुप्रहारें चूंटिने हे, तस जहण
 करे तेह ॥ मन चिंत्युं मनमां रहुं हे, अति लोचें गति एह ॥ ज० ॥
 ॥ २० ॥ गृध्रने आव्या जाणीने हे, अलगाथी निल्लवाल ॥ वाणे ते
 पंखी हणे हे, जुठ जुठ कर्म चंमाल ॥ ज० ॥ २१ ॥ सांऊ पडये ते
 स्वयंचुने हे, तेडी लावे रे गेह ॥ वंध ठोडी वेसारिने हे, जीमाडे ससनेह
 ॥ ज० ॥ २२ ॥ रात राखी स्वयंचुने हे, मंदिरमांहे प्रजात ॥ वनमां
 नाखे वांधीने हे, जुठ जुठ कर्मनी वात ॥ ज० ॥ २३ ॥ एम डुःख
 सहेतां एक दिनें हे, वनमां वाघण एक ॥ आवी चूखी अति घणुं हे,
 नाग शवरशिगु ठेक ॥ ज० ॥ २४ ॥ वाघण लेइ स्वयंचुने हे, चाली
 वन विकराल ॥ निजस्थानक ते आणीयो हे, चूरव्यां जाणीने वाल ॥ ज०

॥ १५ ॥ बंधन ठोडी तेहनां हे, मूकी ते मृतप्राय ॥ निज बालकने
खोलवा हे, बाघण चाली वनमांय ॥ ज० ॥ १६ ॥ पूर्ते अवसर पामीने
हे, नातो स्वयंभु रे ऊठ ॥ नाही नदीमां जइ मिव्यो हे, केइक साथनी
पूठ ॥ ज० ॥ १७ ॥ अनुक्रमे मंदिर आवियो हे, इम चिंतवतो रे चित्त
॥ धनलोने बहु धरा नम्यो हे, न गइ दारिइ इति ॥ ज० ॥ १८ ॥
अतिलोनी अति दुःख लहे हे, तेहमां नहिं संदेह ॥ जेहवो गयो तेवो
आवियो हे, जीव फरी तुं गेह ॥ ज० ॥ १९ ॥ धिक् तुजने संसारमां
हे, रहेतां कवण सवाद ॥ नित्य उठी निजबंधुमां हे, तुज अवगुण अप
वाद ॥ ज० ॥ २० ॥ नाग्यसंयोगे मुनि मव्या हे, लीधो संयमचार
॥ मुनिवर मारग पालतो हे, लोचन राखे लगार ॥ ज० ॥ २१ ॥ स
मता सूधी मन धरे हे, पाले शुद्धाचार ॥ साधु स्वयंभु पामिया हे,
सुरपदवी अवतार ॥ ज० ॥ २२ ॥ दिशिविरमणे जीवडो हे, लहे एणी
परें बहु दुःख ॥ एम जाणो ए व्रत धरो हे, जेम लहो अविचल सुख
॥ ज० ॥ २३ ॥ ठठे खंमे पांत्रीशमी हे, ढाल ठठेव्रत जाण ॥ राम कहे
गुणवंतनां हे, करो नित्य उठी वखाण ॥ ज० ॥ २४ ॥ इति पष्ठ दिशिविरमणव्रते
स्वयंभुदेवकथानकम् ॥ ६ ॥ सर्वगाथा ॥ १ ३ ५ ७ ॥ श्लोक तथा गाथा मली ॥ ६ ५ ॥

॥ अथ सप्तम जोगोपजोगविरमणव्रत संबंधः ॥

॥ दोहा ॥

॥ वारमांहे व्रत सातमुं, गुणव्रत वीजुं सार ॥ कहे प्रभु चक्रायुध
प्रत्ये, जविक जीव उपकार ॥ १ ॥ जोजन ने वली कर्मथी, विहु जेदें कहुं
तेह ॥ जोग अने उपजोगनुं, मान करो गुणगेह ॥ २ ॥ अनंतकाय
वली अनहयनुं, जोजन वजे जाणि ॥ तेह तणो लवलेशथी, सुण विस्तार
सुजाण ॥ ३ ॥ अनहय तजे सवहुं तज्युं, तेहनां वावीश नाम ॥ ५पंचुं
वरि एचउ विगइ तेम, १ ण्हिम वरजो गुणधाम ॥ ४ ॥ ११ विष १३ करगा
सवि १३ मृत्तिका, १४ रयणीजोजन जाण ॥ १५ बहुवीजां मत वावरो, तेम
१६ अनंत १७ संधाण ॥ ५ ॥ १७ घोलवडां १७ वायंगणां, २० अणजाण्यां
फल फल ॥ २१ तुष्टफल वलि २२ चलितरस, वजे होय सवि शून
॥ ६ ॥ उत्तम गृही न वावरे, ए वावीश अनहय ॥ एकावश गुण पुरो
सही, कहियें तेह सुदह ॥ ७ ॥ काय अनंत न वावरे, जिहां अनंतजीव

घात ॥ सिद्धयकी पण अनंत गुण, जेहमां जीवसंघात ॥ ७ ॥ यतः ॥
 नृत्योनैरयिकाः सुराश्च निखिलाः पंचाकृतिर्यग्गणोघ्नहाद्याज्वलनोयथोत्तर
 ममी संख्यातिगा नापिताः ॥ तेन्योचूजलवायवः समधिकाः, प्रोक्ता यथानु
 क्रमं, सर्वेभ्यः शिवगा अनंतगुणितास्तेन्योप्यनंतांशगाः ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥
 नाम कथां वत्रोश तस, आरिजदेश प्रसिद्ध ॥ गुणव्रतबीजे धारीने, परिह
 रियें मति शुद्ध ॥ ए ॥ १सूरणकंद निवारीयें, श्वज्जकंद तेम धार ॥
 ३आर्द्धहरिडा परिहरो, श्रृंगवेर विनिवार ॥ १० ॥ ५आर्द्धकचूर दशता
 वली, ७विरालिका दोय वेलि ॥ तिम णकुंवार एथोहर १ णगलो, १ १लघुन
 कंदने मेल ॥ ११ ॥ १ शवंशकरेल १ ३गङ्गार वली, जे वली १ ४साजी
 थाय ॥ ते लवणकने वरजियें, एम बोले जिनराय ॥ १२ ॥ लोढक १ ५पद्मि
 निकंद तेम, १ ६गिरिकर्णिका विचार ॥ १ ७किसलय पत्र १ ७खरिंशुका,
 १ ७धेगकंद अवधार ॥ १३ ॥ २० आर्द्धमोथ ए वीशमी, २ १न्नमर
 वृहनी ढाल ॥ लोकप्रसिद्धां २ २खिद्वहड, २ २अमृतवेलीने ढाल ॥ १४ ॥
 २ ४मूलकंद निवारीयें, चोवीशमो ए बोल ॥ जाणी जेनकृण करे, ते नर
 सही नितोल ॥ १५ ॥ २ ५नूमिरूहां ठत्रक कथां, वर्षाकालें होय ॥
 नूमिफोट सद्दु को कहे, धोले वणें जोय ॥ १६ ॥ धान्य विदल जे अंकु
 रित, ते विसहा कहेवाय ॥ शाक जाति २ ६टंक वायुलो, खातां अवगुण
 थाय ॥ १७ ॥ २ ७शुक्रवह्नि २ ७पल्यंक तेम, शाक जेद अवधार ॥ कोमल
 तिम वली ३ ०आंबली, अवद्ध अस्थि निर्धार ॥ १८ ॥ ३ १आलुक ३ २पिंमा
 लुक कथा, कंदनेद तेम जाण ॥ ए वत्रीशे परिहरे, श्रावक तेह सुजाण
 ॥ १९ ॥ १ सचित्त २ अचित्तमिश्रजाणीयें, तेम ३ ३पक्क ४ अयपक्क ॥ ५ तुष्टौपधि
 नकृण तथा, न करे मतिपरिपक्क ॥ २० ॥ अतिचार ए वारतां, ए होय निरति
 चार ॥ कर्मथकी हवे सांजलो, ए व्रतनो विस्तार ॥ २१ ॥

॥ ढाल ठत्रीशमी ॥

कूडा कानजी रे, महारी लोवडी तुं लाव ॥ ए देशी ॥ कर्मथकी खर
 कर्म सघलां, दूर ठंमे जाण ॥ तास अतिचार पन्नर, नांखे श्रीजिन
 जाण ॥ १ ॥ कहे जिनशांतिजी रे ॥ नविजन नावथी तुं धार ॥ धरो
 मन खांते जी रे, कठिन कर्म दूरें मार ॥ ए आंकणी ॥ पन्नर कर्मादान
 वारो, कर्मतुं द्यादान ॥ द्यातमाने एम तारो, नजो श्री नगवान ॥ कहे ०

॥१॥ इंगाल कर्म वारायें ने, वन्न ठांमो दूर ॥ शकट चाटी स्फोट महेलो,
सुख होवे पूर ॥ क० ॥ ३ ॥ करम पंच ठांमियें, पांच वणिज वार ॥
दांतनो व्यापार चूंमो, नाख दूरें मार ॥ क० ॥ ४ ॥ रस केश विष केरो,
वणिज निखरी ठांम ॥ पापनो परिहार कीजें, धर्म साथें मांम ॥ क० ॥
५ ॥ यंत्रपीलण ने निर्लेठन, पापकारण जाण ॥ दाव अग्नि दान
देतां, होय गुणनी हाणि ॥ क० ॥ ६ ॥ शोपवे जल छाणशुंथी, नीचमां
शिरदार ॥ असतीपोपण वारीयें तो, पामीयें गति सार ॥ क० ॥ ७ ॥
एह पन्नर पंच जोगें, वीश अतिचार ॥ एहनो व्यासंग महेलो, कहियें
वारं वार ॥ क० ॥ ८ ॥ जोग उपरें जावीयें, जितशत्रुनो दृष्टांत ॥ दा
खीयें नित्यमंमिता, उपजोग ऊपर वात ॥ क० ॥ ९ ॥ कहे प्र
भु ए जरतमां, वसंतपत्तन नाम ॥ राजवी जितशत्रु रूडो, नामने परि
णाम ॥ क० ॥ १० ॥ नाम सुबुद्धि मंत्री साथें, अश्व जोवा काम ॥ चा
लीयो जितशत्रु राजा, अश्व खेड्यो ताम ॥ क० ॥ ११ ॥ वाग खेंचे
पवननी परें, दोडीया ह्य द्योय ॥ राजा ने मंत्रीश दोनुं, नाखे जंगल सोय
॥ क० ॥ १२ ॥ तीन दिवस वनमांहे, न मळ्युं तेहने नीर ॥ केडेथी
सवि सैन्य आव्युं, पुरमां आएका वीर ॥ क० ॥ १३ ॥ जोजन कीधां जा
वतां, आकंठ चूरव्ये जोर ॥ माय नहीं उंडकार मांहे, एहवो जिम्यो घोर
॥ क० ॥ १४ ॥ रातमां आहार बाहिर, वमनमागें जाय ॥ पेटमांहे
चूंक उठी, आलस विलस थाय ॥ क० ॥ १५ ॥ राय ते परलोकमांहे, गयो
तेणी वार ॥ आर्तध्यानें ते मरीने, थयो व्यंतर सार ॥ क० ॥ १६ ॥ जोगना
परिमाण पाखे, एहवी गति होय ॥ गति मति खोइ वेसे, हसे सद्गु कोय
॥ क० ॥ १७ ॥ सांजलो परिजोग उपरें, कहे श्रीजिनशांति ॥ नित्य
मंमिता नारि केरी, वात सुणो खांति ॥ क० ॥ १८ ॥ एहिज नगरमांहे
हूउं, अग्निदेव विप्र ॥ वेदनो ते जाण सूधो, करम करे द्विप्र ॥ क० ॥
१९ ॥ तेहने घरे ठे सुनंदा, नामथी वर नारि ॥ कंतने अतिवालही,
प्राणनो आधार ॥ क० ॥ २० ॥ तेह वांजण लोकपूजित, वित्त पाम्यो
चूरि ॥ अंगचूपण नारीने एणें, कीधां आनंदपूर ॥ क० ॥ २१ ॥ अंगथी
दूण मात्र अलगां, न उतारे तेह ॥ कंतजी तो नित्य वारे, पहेरमां तुं एह
॥ क० ॥ २२ ॥ कोइ पवे पहेरीयें ए, चोरनुं इहां जोर ॥ कंतने कहे

नहिं उतारुं, श्यो करो ठो सोर ॥ क० ॥ १३ ॥ राग आणी तेह ताणी, फरि
 न बोळ्यो वोल ॥ कामिनीनो प्रेम गाढो, रंग रातो चोल ॥ क० ॥ १४ ॥
 एक दिवस धाड आवी, वोलती मुख मार ॥ कर्मना संयोगहूंती, विप्र
 ने घरवार ॥ क० ॥ १५ ॥ ऊतरे नहीं नारी केरां, नूपण तेणी वार ॥
 ठेदियां तस अंग सुंदर, खड्ग तींखी धार ॥ क० ॥ १६ ॥ वलवले ते
 नारी ऊजी, ऊरे लोहीधार ॥ चरण ठेदे नूमि ऊपर, पडी ते निरधार ॥ क० ॥
 १७ ॥ आचखां एम आवे उदयें, नहिं को राखणहार ॥ राखो राखो मुखें
 जांखे, नित्यमंमिता नारि ॥ क० ॥ १८ ॥ कंथ तेहनो नासी पेटो, कोइ
 नाव्युं पास ॥ रौडध्यानं ते मरिने, गई नरकावास ॥ क० ॥ १९ ॥ एम
 जे परिजोग उपरें, राखे माया नूरि ॥ तेहनी एह गति होवे, ठांनो माया
 दूर ॥ क० ॥ २० ॥ ठेठे खंमं ए ठत्रीशमी, ढाल जांखी सार ॥ शांतिप्रभुनी
 देशनाथी, पामियें जवपार ॥ क० ॥ २१ ॥ इति सप्तमजोगोपजोगो
 परि जितशत्रुनित्यमंमिताकथानके ॥ २२ ॥ सर्व० ॥ १४१० ॥ श्लो० ॥ ६६ ॥

॥ अथाष्टम अनर्थदंमविरमणव्रत संबंधः ॥

॥ दोहा ॥

॥ हवे त्रीजुं गुणव्रत प्रभु, कहे शांति जिनराज ॥ अनर्थदंम विरमण
 करो, जिम सिजे आतमकाज ॥ १ ॥ अपध्यान पहेलुं वली, पाप तणो
 उपदेश ॥ हिंस्रप्रदान त्रीजुं कहुं, दुःखदायी सुविशेष ॥ २ ॥ तेम आच
 रण प्रमादनुं, चोथो जेद वखाण ॥ चार जेद एम नीपजे, श्रोता सुणो सु
 जाण ॥ ३ ॥ पंच अतिचार एहना, प्रथम कह्यो कंदर्प ॥ रागें हास्या
 दिक वचन, बोले जे धरी दर्प ॥ ४ ॥ कौकुच्चपणुं निवारीयें, मुख नू नेत्र
 विकार ॥ हास्य जनक विटनी परें, ते बीजो अवधार ॥ ५ ॥ ए प्रमा
 दथी नीपजे, मुखरपणुं तेम टाल ॥ असंबंधजापी घणो, जेम तेम
 बोले आल ॥ ६ ॥ महाअनर्थनुं हेतु ए, पहेजो पाप उपदेश ॥ ए वर्जे जे
 मानवी, न लहे तेह किलेश ॥ ७ ॥ यदुक्तं ॥ बहूनां समवाये हि, सिद्धे
 कार्ये समं फलम् ॥ यदि कार्यविपत्तिः स्या, न्मुखरस्तत्र बाध्यते ॥ १ ॥
 अन्यच्च ॥ अविश्राणिय पन्नावं, परचित्तमजस्किरणं जं नणियं ॥
 किंपावयरततोवि, दुःखं अन्नं पि लोच्यमि ॥ २ ॥ पूर्वदाल ॥ वली चतुर्थे
 अधिकरणनो, हल कुणार शकटादि ॥ सज्ज करी मैहजे नहिं, तेम नवि

जोडे आदि ॥७॥ यड्कतं ॥ कार्ये शुभेऽशुभेवापि प्रवृत्तिर्यैः कृतादितः ॥
 ॥ ज्ञेयास्ते तस्य कर्त्तारः, पश्चादप्युपचारतः ॥ ३ ॥ पूर्वढाल ॥ उपनोग
 परिनोग वस्तुने, अधिक न मेले जाण ॥ अधिकें माग्युं आपतां, होय
 अनर्थे गुणहाणि ॥ ए ॥ एह अतिचार पांचमो, वर्जो निरतीचार ॥
 ए अष्टम व्रत पालतां, लहियें नवनो पार ॥१०॥ एह उपर प्रजुजी कहे,
 समृद्धिदत्त संबंध ॥ चक्रायुध नृप सांजले, जाव जक्ति अनुबंध ॥ ११ ॥

॥ ढाल साडत्रीशमी ॥

॥ जीरे जी ॥ ए देशी ॥ जीरे धातकी खंम मजार, क्षेत्र नरत रैपुर जळुं ॥
 जीरे जी ॥ जीरे तिहां रिपुर्मदन राय, यश जगतमां ऊजळुं ॥ जीरे जी ॥१॥
 जीरे समृद्धिदत्त सुविचार, कौटुंबिक तिण पुर वसे ॥जी०॥ जीरे कुटुंबतणो
 स्वामि, हर्षं हियामां उल्लसे ॥जी०॥१॥ जीरे एक दिन सूतो सेज, मनमांहे
 एम चिंतवे ॥जी०॥ जीरे जो हुं थाउं नूप, नरत खंम साधुं सवे ॥जी०॥३॥
 जीरे साधतो जाउं वैताढ्य, दे विद्या ननचर नली ॥ जी० ॥ जीरे विद्यावल
 आकाश, तव ऊहुं हुं मन रली ॥जी०॥४॥ जीरे एम चिंतवतो ताम, सेजथी
 उंचो उठव्यो ॥ जी० ॥ जीरे पडतो ते नूपीठ, पडियो गृहमानवें कव्यो
 ॥ जी० ॥ ५ ॥ जीरे पीडाणो तन जोर, करे आक्रंद अति घणो ॥जी०॥
 जीरे स्वजन मिल्यां तव धाड, गुं थयुं तुम अमने नणो ॥ जी० ॥ ६ ॥
 जीरे रहिया मुज मनमांहे, मनह मनोरथ माहरा ॥ जी० ॥ जीरे उठ
 ली मूढ गमार, पग नांज्या तें ताहरा ॥ जी० ॥७॥ जीरे घणुं निर्नृठयो
 तास, केतेक दिने साजो ययो ॥ जी० ॥ जीरे पाळे ते निजगेह, हिय
 डामां हर्षित हुउं ॥जी० ॥ ८ ॥ जीरे एक दिन लीधुं तेण, खड्ग अमू
 लक उंपतुं ॥जी०॥ जीरे जे खड्गुं तेज, अवर नहिं कोड जीपतुं ॥ जी० ॥
 ए ॥ जीरे पुरमां पसरि वात, खड्ग तणी अतिही घणी ॥ जी० ॥ जीरे
 एक दिन पुरने नूप, सनामां वेठे सुणी ॥ जी० ॥ १० ॥ जीरे एक दिन
 खड्गरतन्न, प्रमादयकी तस विसर्युं ॥जी०॥ जीरे गृहअंगण ते मूक्ति, मांहे
 शयन जई कळुं ॥जी०॥११॥ जीरे सांज्युं तस मध्यराति, पण प्रमादें न
 आणियो ॥ जी० ॥ जीरे चिंतें कुण खेड जाय, रह्यो निश्चिंतो प्राणीयो ॥
 जी० ॥ १२ ॥ जीरे चोरें द्युं तेणी गति, खड्ग खेडने ते चव्यो ॥
 जी० ॥ जीरे शेठनो सुत ग्रही वंदि, जानां नृप ज्ञेयक मिल्या ॥ जी० ॥

नहिं उतासं, श्यो करो ठो सोर ॥ क० ॥ १३ ॥ राग आणी तेह ताणी, फरि
 न वोव्यो वोल ॥ कामिनीनो प्रेम गाढो, रंग रातो चोल ॥ क० ॥ १४ ॥
 एक दिवस धाड आवी, वोलती मुख मार ॥ कर्मना संयोगदूती, विप्र
 ने घरवार ॥ क० ॥ १५ ॥ ऊतरे नहीं नारी केरां, चूषण तेणी वार ॥
 ठेदियां तस अंग सुंदर, खड्ग तीखी धार ॥ क० ॥ १६ ॥ वलवले ते
 नारी ऊची, ऊरे लोहीधार ॥ चरण ठेदे चूमि ऊपर, पडी ते निरधार ॥ क० ॥
 १७ ॥ आचखां एम आवे उदयें, नहिं को राखणहार ॥ राखो राखो मुखें
 जांखे, नित्यमंमिता नारि ॥ क० ॥ १८ ॥ कंथ तेहनो नासी पेटो, कोइ
 नाव्युं पास ॥ रौडध्यानें ते मरिने, गई नरकावास ॥ क० ॥ १९ ॥ एम
 जे परिज्ञोग उपरें, राखे माया चूरि ॥ तेहनी एह गति होवे, ठांमो माया
 दूर ॥ क० ॥ २० ॥ ठेठे खंमें ए ठत्रीशमी, ढाल जांखी सार ॥ शांतिप्रचुनी
 देशनाथी, पामियें नवपार ॥ क० ॥ २१ ॥ इति सप्तमनोगोपनोगो
 परि जितशत्रुनित्यमंमिताकथानके ॥ २२ ॥ सर्व० ॥ १४१० ॥ श्लो० ॥ ६६ ॥

॥ अथाष्टम अनर्थदंमविरमणव्रत संबंधः ॥

॥ दोहा ॥

॥ हवे त्रीजुं गुणव्रत प्रभु, कहे शांति जिनराज ॥ अनर्थदंम विरमण
 करो, जिम सिंके आत्मकाज ॥ १ ॥ अपथ्यान पहेलुं वली, पाप तणो
 उपदेश ॥ हिंस्रप्रदान त्रीजुं कहुं, दुःखदायी सुविशेष ॥ २ ॥ तेम आच
 रण प्रमादनुं, चोथो चेद वखाण ॥ चार चेद एम नीपजे, श्रोता सुणो सु
 जाण ॥ ३ ॥ पंच अतिचार एहना, प्रथम कह्यो कंदर्प ॥ रागें हास्या
 दिक वचन, बोले जे धरी दर्प ॥ ४ ॥ कौकुच्चपणुं निवारीयें, मुख चू नेत्र
 विकार ॥ हास्य जनक विटनी परें, ते बीजो अवधार ॥ ५ ॥ ए प्रमा
 दथी नीपजे, मुखरपणुं तेम टाल ॥ असंबद्धनापी घणो, जेम तेम
 बोले आल ॥ ६ ॥ महाअनर्थनुं हेतु ए, पहेलो पाप उपदेश ॥ ए वजें जे
 मानवी, न लहे तेह किलेश ॥ ७ ॥ यदुक्तं ॥ बहूनां समवाये हि, सिंके
 कार्ये समं फलम् ॥ यदि कार्यविपत्तिः स्या, न्मुखरस्तत्र बाध्यते ॥ १ ॥
 अन्यच्च ॥ अविश्राणिय पन्नावं, परचिन्मलस्किऊण जं नणियं ॥
 किंपावयरततोवि, दुक्क अनं पि लोअंमि ॥ २ ॥ पूर्वटाल ॥ वली चतुर्थ
 अधिकरणनो, हल कुवार शकटादि ॥ सऊ करी मेहले नहिं, तेम नवि

जोडे आदि ॥७॥ यडक्तं ॥ कार्ये शुभेऽशुभेवापि प्रवृत्तियैः कृतादितः ॥
 ॥ ज्ञेयास्ते तस्य कर्तारः, पश्चादप्युपचारतः ॥ ३ ॥ पूर्वदाल ॥ उपनोग
 परिचोग वस्तुने, अधिक न मेले जाण ॥ अधिकें माग्युं आपतां, होय
 अर्थ गुणहाणि ॥ ९ ॥ एह अतिचार पांचमो, वर्जो निरतीचार ॥
 ए अप्रम व्रत पालतां, लहियें नवनो पार ॥१०॥ एह उपर प्रजुजी कहे,
 समृद्धिदत्त संबंध ॥ चक्रायुध नृप सांजले, जाव जक्ति अनुबंध ॥ ११ ॥
 ॥ ढाल साडत्रीशमी ॥

॥ जीरे जी ॥ ए देशी ॥ जीरे धातकी खंम मजार, क्षेत्र नरत रैपुर जलुं ॥
 जीरे जी ॥ जीरे तिहां रिपुर्मदन राय, यश जगतमां ऊजलुं ॥ जीरे जी ॥१॥
 जीरे समृद्धिदत्त सुविचार, कौटुंबिक तिण पुर वसे ॥जी०॥ जीरे कुटुंबतणो
 स्वामि, हर्षे हियामां उल्लसे ॥जी०॥१॥ जीरे एक दिन सूतो सेज, मनमांहे
 एम चिंतवे ॥जी०॥ जीरे जो हुं थाउं नूप, नरत खंम साधुं सवे ॥जी०॥३॥
 जीरे साधतो जाउं वैताढ्य, दे विद्या नचचर नली ॥ जी० ॥ जीरे विद्यावल
 आकाश, तव ऊहुं हुं मन रली ॥जी०॥४॥ जीरे एम चिंतवतो ताम, सेजथी
 उंचो उठयो ॥ जी० ॥ जीरे पडतो ते नूपीठ, पडियो गृहमानवें कळ्यो
 ॥ जी० ॥ ५ ॥ जीरे पीडाणो तन जोर, करे आक्रंद अति घणो ॥जी०॥
 जीरे स्वजन मित्यां तव धाऽ, गुं थयुं तुम अमने नणो ॥ जी० ॥ ६ ॥
 जीरे रहिया मुळ मनमांहे, मनह मनोरथ माहरा ॥ जी० ॥ जीरे उठ
 ली मूढ गमार, पग जांज्या तें ताहरा ॥ जी० ॥७॥ जीरे घणुं निर्नृठयो
 तास, केतेक दिने साजो थयो ॥ जी० ॥ जीरे पाळे ते निजगेह, हिय
 डामां हर्षित हुउ ॥जी० ॥ ८ ॥ जीरे एक दिन लीधुं तेण, खड्ग अमू
 लक उंपहुं ॥जी०॥ जीरे जे खड्गुं तेज.अवर नहिं कोऽ जीपतुं ॥ जी० ॥
 ९ ॥ जीरे पुरमां पसरि वात. खड्ग तणी अतिही घणी ॥ जी० ॥ जीरे
 एक दिन पुरने नूप, सनामां वेठे सुणी ॥ जी० ॥ १० ॥ जीरे एक दिन
 खड्गरतन्न, प्रमादथकी तस निसखुं ॥जी०॥ जीरे गृहअंगण ते मूकि, मांहे
 थयन जई कळुं ॥जी०॥११॥ जीरे सांजगुं तस मध्यराति, पण प्रमादें न
 आणियो ॥ जी० ॥ जीरे चिंते कृण लेऽ जाय, रद्यां निश्चिंतो प्राणीयो ॥
 जी० ॥ १२ ॥ जीरे चोरें हगुं तेणी राति, खड्ग लेऽने ते चळ्यो ॥
 जी० ॥ जीरे शैवनी सुत यही वंदि, जातां नृप सेवक मित्या ॥ जी० ॥

१३ ॥ जीरे जोर कखुं नृप लोक, निधन पमाड्यो चोरने ॥ जी० ॥
 जीरे चोरें मरतां तेह, माख्यो जेठ किशोरने ॥ जी० ॥ १४ ॥ जीरे खड्ग
 ग्रही प्रजात, नेट कखुं जइ रायने ॥ जी० ॥ जीरे समृद्धिदत्तने क्रोध, नांखे
 नृप बोलाइने ॥ जी० ॥ १५ ॥ जीरे केम कीधो ते अन्याय, खड्ग एह ताहारं
 सही ॥ जी० ॥ जीरे वात कही समजाय, पण नृप कहे मेलुं नहिं
 ॥ जी० ॥ १६ ॥ जीरे रायें दंभ्यो तास, केम प्रमाद तें आदखो ॥
 जी० ॥ जीरे निर्धन करि घर वार, मूक्यो ते शोकें नखो ॥ जी० ॥
 १७ ॥ जीरे एक दिन तेण अयाण, विष वेचातुं कोइने ॥ जी० ॥ जीरे
 दीधुं धनने लोच, नृपवैरीने जोइने ॥ जी० ॥ १८ ॥ जीरे लेइ तेणें
 चंमाल, सरवरमां विष घातियुं ॥ जी० ॥ जीरे ते पीधे केइ लोक, पुरमां
 हे मृत्यु पामियुं ॥ जी० ॥ १९ ॥ जीरे नृप जाणी ते वात, जल पीधे
 बहु नर मूत्रा ॥ जी० ॥ जीरे रायें कढावी शुद्धि, कहो एकुण कारण दुआं
 ॥ जी० ॥ २० ॥ जीरे कोइकथी लही वात, विषप्रयोगनी मांहिली ॥ जी० ॥
 जीरे रायें तेड्यो तेह, तुरत न कीधी काहेली ॥ जी० ॥ २१ ॥ जीरे पूठे नर
 तेडावि, को पासें तें विष लियुं ॥ जी० ॥ जीरे शुं हवे जूठे थाय, समृद्धिदत्तें सु
 ळने दियुं ॥ जी० ॥ २२ ॥ जीरे रायें जाणी अनीति, समृद्धिदत्तने दंभियो
 ॥ जी० ॥ जीरे पुरमां तस अप्रीति, सहुको जाणे लंठियो ॥ जी० ॥ २३ ॥ जीरे
 वली एक दिनने योग, कौटुंबिक कोइ आवियो ॥ जी० ॥ जीरे नूतन वत्स
 युग एक, ते संघातें लावीयो ॥ जी० ॥ २४ ॥ जीरे समृद्धिदत्त तेण वार, पूठे
 तेहने प्रेमछुं ॥ जी० ॥ जीरे ए वत्स दमवा योग्य, दमता नथी कारण कि
 श्युं ॥ जी० ॥ २५ ॥ जीरे आर कशा ने घात, निर्दयपरिणामें करी ॥
 जी० ॥ जीरे वत्स दमो सुविज्ञेप, लघुवयमां ऊलट धरी ॥ जी० ॥ २६ ॥
 जीरे वात सुणी वृष दोय, नी उपर कोप्या घणुं ॥ जी० ॥ जीरे नाम
 थकी पण एह, प्राणीने डुख अलखामणुं ॥ जी० ॥ २७ ॥ जीरे ते
 णें जइ ते वत्स दोय, दमवा मांमया निर्दयी ॥ जी० ॥ जीरे ते सुकुमार
 शरीर, वेदन सहै वाणी नहिं ॥ जी० ॥ २८ ॥ जीरे तनु डुर्वल थइ तेह,
 एक दिन काल कखो वने ॥ जी० ॥ जीरे अकामनिर्झरायोग, थया
 व्यंतर सुर एक मनें ॥ जी० ॥ २९ ॥ जीरे ज्ञान तणे उपयोग, अहित
 कारक तस जाणीयो ॥ जी० ॥ जीरे आवी तिहां सुर दोय, सवजो तेहने

ताणियो ॥ जी० ॥ ३० ॥ जीरे मार पड्यो तस जोर, मुखहूँती सुर एम
 कहे ॥ जी० ॥ जीरे कां दीधो उपदेश, जीनथकी जीव डुःख लहे ॥
 जी० ॥ ३१ ॥ जीरे चरण नमीने तेह, निज अपराध खमावतो ॥जी०॥
 जीरे टलवलतो ते देखी, सुरें मूक्यो तेने जीवतो ॥ जी० ॥ ३२ ॥ जीरे
 समृद्धिदत्त मनमाहे, चिंते में मातुं कखुं ॥ जी० ॥ जीरे अनर्थदंम एके
 क, कीधायी बहु डुःख वखुं ॥ जी० ॥ ३३ ॥ जीरे मन आव्यो वैराग्य,
 जावें तेणें संयम ग्रह्यो ॥जी०॥ जीरे पाले निरतिचार, सुर वैमानिक सुख
 लखुं ॥ जी० ॥ ३४ ॥ जीरे पामी नर अवतार, समृद्धिदत्त संयम ग्रही ॥
 जी० ॥ जीरे आगामिक नव सार, शिवलीला लहेशे सही ॥ जी० ॥
 ३५ ॥ जीरे शांतिप्रचुर्यें ए वात, अष्टम व्रत उपर कही ॥ जी० ॥ जीरे
 व्रतपालण उजमाल, नवियण तुम्हें याजो वही ॥ जी० ॥ ३६ ॥ जीरे
 ठठे खंभें एह, ढाल कही साडत्रीशमी ॥जी०॥ जीरे रामप्रचुरी वाणी,
 नवियण मन साकरसमी ॥जी०॥ ३७ ॥ इत्यष्टमानर्थदंमविरमणव्रतोपरिसमृ
 द्धिदत्तकथानकम् ॥७॥ इति त्रीणि गुणव्रतकथानकानि ॥स०॥ १ ४५७ ॥६९॥

॥ अथ नवम सामायिकव्रत संबंधः ॥

॥ दोहा ॥

॥ हवे शिक्षाव्रत जिन कहे, चउ संख्यायें सार ॥ सामायिक व्रत प्रथम
 तिहां, कहे प्रचुर जगदाधार ॥ १ ॥ साम अने सम तिम वली, सम्यग्
 एक विचार ॥ सामायिक एक अर्थ ए, जांख्यो सूत्र मजार ॥ २ ॥
 नाम स्थापना इव्यथी, जाव निद्वेषा चार ॥ प्रचुरी जांखे तेहनो, अर्थ
 अनोपम सार ॥३॥ यतः ॥ महुरपरिणाम सामं, समं तुला सम्म खीर खंभ
 चुरे ॥ दोरे हारस्ततिइग, धम्मे आइ तु दवंमि ॥ १ ॥ आउवमाइ परडु, रक
 मकरणं राग दोत मङ्गळं ॥ नाणाइतिगं तसाइ, पोसणं जावसामाई
 ॥ २ ॥ पूर्वदोहा ॥ मन वच काया योगनो, डुष्टप्रयोग निवार ॥ अनव
 स्थान चोथो वली, स्मृतिविहीन तेम धार ॥४॥ अतिचार पंच एहना, तेम
 वली दोष वत्रीश ॥ सामायिकमां टालियें, तो लहियें सयल जगीश ॥ ५ ॥

॥ ढाल आडत्रीशमी ॥

॥ सामायिक द्वात्रिंशदोषस्वरूपं कथ्यते ॥ चोपाई ॥ आर्त्त रोइ तणो परि
 हार, अतिथि सीम संयम आचार ॥ आणो समतानो परिणाम, सामायिक

करवो अजिराम ॥१॥ तेह तणा जे दोष वत्रीश, ते पनणिशुं मन धरीय
 जगीश ॥ ते सांजली श्रावक खप करे, लीले जिम नवसायर तरे ॥२॥
 वस्त्रे वांहे वाली पालठी, प्रथम दोष ए जुगतो नथी ॥ आधुं पाहुं आसन
 थाय, वीजुं ए दूपण कहेवाय ॥३॥ दृष्टि न राखे एके दिशें, जोवे चपलपणे
 चिहुं दिशें ॥ त्रीजो दोष सामायिक जाण, व्रतधर परिहर हियडे आण
 ॥४॥ अल्प बहुल लागे सावळ, चोथे दोष निवारो कळ ॥ पूठें नींत पाठी
 ने थंन, पंचम दोष जे जे अवष्टंन ॥ ५ ॥ अति संकोडे अंग उवंग, ठाठो दोष
 करे व्रतजंग ॥ आलस मोडे ए सातमो, जांजे करडक ए आठमो
 ॥ ६ ॥ नवमो मल उतारे जेह, मीलतणो व्रत दूपे तेह ॥ खण खणे
 ए दशमो जाण, टालंतां व्रत कहे प्रमाण ॥ ७ ॥ अंगें विश्रामण कारवे,
 दोष अग्यारमे व्रत हारवे ॥ वारम दोष जे निडा करे, वार दोष कायना
 परिहरे ॥ ८ ॥ वचन तणा दश दोष पिठाण, परिहर चतुरपणुं चित्त
 आण ॥ बोलेकुवचन पहेलो दोष, लाग्यो जाण म धर संतोप ॥९॥ वीजो
 म जणीश सहसात्कार, आर्त्तस्वर हुवे त्रीजे वार ॥ आपण ठेंदें जे
 बोलीयें, चोथो दोष विपे तो लीये ॥ १० ॥ जणतां सूत्र म कर संक्षेप,
 पंचम दोष तणो निक्षेप ॥ कलह म मंदिश जा व्रत सार, ठाठो दोष
 तणो परिहार ॥ ११ ॥ विकथा सप्तम दोष निवार, पर उपहास आठमो
 विचार ॥ संपद पद विणु उतावलो, म जणो नवम दोषथी टलो ॥१२॥
 जाव आव एम कहियें नहिं, दशम दोष परहरियें सही ॥ वचन तणा ए
 जाणी दोष, टाली करो सामायिक पोप ॥ १३ ॥ मनना दोष हवे सां
 जली, परिहर नवियण दूरें रली ॥ प्रथम दोष मन नहिंय विवेक, नहु
 जाणो ऊणो अतिरेक ॥ १४ ॥ जस कीर्त्ति वांठे अति घणी, करे सामा
 यिक जे तेह जणी ॥ वीजो दोष ए आगम कह्यो, नवियण जाणीने
 नवि ग्रह्यो ॥ १५ ॥ हियडे वांठे धननो जाह, त्रीजो दोष घणो गुण
 दाह ॥ चोथो दोष जे करे गर्व, एहथी निर्गमियुं फल सर्व ॥१६॥ करे सा
 मायिक जे विहृतो, वारे दोष सुगुण ईहतो ॥ पुत्र धनादिक तणुं नि
 दान, करतां ठाठो दोष निदान ॥१७॥ सामायिक फल विधि जे कही, शुं
 जाणुं होणे वा नहिं ॥ एम संशय हियडे आणियें, सप्तम दोषने श्रुति
 जाणीयें ॥ १८ ॥ अष्टम करे मन आणी रोप, अविनय करतां नवमो

दोप ॥ नकि हीण ए दशमोसही, श्रावक ए आदरवा नहिं ॥ १ ॥ इति सामा
यिकद्वात्रिंशदोपस्वरूपं ॥ काव्यं ॥ वत्तीस दोसेहिं विमुद्धि मेअं, करिऊ सामाइय
मप्प मत्तो ॥ निच्चं नरो जो निस दीस कालं, वरिऊ तं मुत्तिरमा क्कमेणं ॥ १ ॥
॥ दोहो ॥ ए व्रत ऊपर जिन कहे, सिंहश्रावक अणवदात ॥ न
विक जीव सहु सांजले, करि निजमन एकांत ॥ १ ॥ ढाल ॥ स
वाइ गुरु वाहणनी परें तारे ॥ ए देशी ॥ नरतें रमणीय इण नाम, पुर सुंदर
शोना ठाम, बहु जंतुनो विश्राम ॥ १ ॥ जिणंदराय देशना देई तारे, नव
जलनिधि पार उतारे ॥ जि० ॥ ए आंकणी ॥ तिहां हेमांगद अजि
धान, राजा बहु बुद्धिनिधान, सुंदर तन शोने वान ॥ जि० ॥ २ ॥ हे
मश्री तेहने राणी, रूपें जींती इंडाणी, वली जावण्यगुणमणि खाणी
॥ जि० ॥ ३ ॥ श्रावक जिनदेव विचारी, जिनदासी तस घर नारी, शी
जादि गुणें करि सारी ॥ जि० ॥ ४ ॥ सिंह नामें हो अंगज सोहे, रूपें
साजन मन मोहे, कदिये ते न रहे कोहें ॥ जि० ॥ ५ ॥ जीवाऽजीवा
दिक जाण, समजु सवलो गुणखाण, मावित्रने जीवनप्राण ॥ जि०
॥ ६ ॥ विदु टंक आवश्यककारी, सुधो सामायिकधारी, रुडो श्रावक
आचारी ॥ जि० ॥ ७ ॥ इक दिन सारथ संघातें, चाव्यो व्यापारने हेतें,
सिंह लइ करियाणुं खतें ॥ जि० ॥ ८ ॥ साथ उतख्यो अटवीमांहे,
तटिनीतट जोइ उत्साहें, लीधुं सामायिक सिंह शाहें ॥ जि० ॥ ९ ॥
सघलो आरंज निवारी, मुनिनी परें समताधारी, करि मन वच तन
एक तारी ॥ जि० ॥ १० ॥ तटिनी जल शीतल वासें, बहु कडे मशकनी
गणें, कख्यो धूम बहु तव त्रासें ॥ जि० ॥ ११ ॥ रह्यो सिंह अचल गुण
गेह, सहे मशकपरीसह देह, न चले मेरु जिम तेह ॥ जि० ॥ १२ ॥
बहु मशक समूहें विंटाणो, आवी मलियो तव टाणो, ध्यान दीपक नवि
उजवाणो ॥ जि० ॥ १३ ॥ त्वच जेदीने मुख मांहे घाली, पीये रुधिर ते मश
कनी आली, सिंहें काया न संजाली ॥ जि० ॥ १४ ॥ जाणे ए पुज्ज
सार, व्रत पालीजें निर्धार, ए विणु नम्यो बहु संसार ॥ जि० ॥ १५ ॥
फोडनो नहिं तुं तुऊ कोइ, मत रहे तन उपर मोही, रखे जातो ए व्रत
खाइ ॥ जि० ॥ १६ ॥ निश्चल परिणामें रहियो, परिसह उक्कट तेणें
सहियो, एह्यो सिंहो जन कदियो ॥ जि० ॥ १७ ॥ आव्यो दक्षिण

करवो अजिराम ॥१॥ तेह तणा जे दोष वत्रीश, ते पनणिशुं मन धरीय
 जगीश ॥ ते सांजली श्रावक स्वप करे, लीले जिम नवसायर तरे ॥२॥
 वस्त्रे वांहे वाली पालवी, प्रथम दोष ए जुगतो नथी ॥ आधुं पाहुं आसन
 याय, वीजुं ए दूपण कहेवाय ॥३॥ दृष्टि न राखे एके दिशें, जोवे चपलपणे
 चिहुं दिशें ॥ त्रीजो दोष सामायिक जाण, व्रतधर परिहर हियडे आण
 ॥४॥ अल्प बहुल लागे सावळ, चोथे दोष निवारो कळ ॥ पूर्वे जींत पाटी
 ने थंज, पंचम दोष जे जे अवष्टंज ॥ ५ ॥ अति संकोडे अंग उवंग, ठाणे दोष
 करे व्रतजंग ॥ आलस मोडे ए सातमो, जांजे करडक ए आठमो
 ॥ ६ ॥ नवमो मल उतारे जेह, मीलतणो व्रत दूपे तेह ॥ स्वण स्वणे
 ए दशमो जाण, टालंतां व्रत कहे प्रमाण ॥ ७ ॥ अंगें विश्रामण कारवे,
 दोष अग्यारमे व्रत हारवे ॥ वारम दोष जे निज्ञा करे, वार दोष कायना
 परिहरे ॥ ८ ॥ वचन तणा दश दोष पिठाण, परिहर चतुरपणुं चित्त
 आण ॥ बोलेकुवचन पहेलो दोष, लाग्यो जाण म धर संतोप ॥९॥ वीजो
 म जणीश सहसात्कार, आर्त्तस्वर हुवे त्रीजे वार ॥ आपण ठेंडे जे
 बोलीयें, चोथो दोष विपे तो लीये ॥ १० ॥ जणतां सूत्र म कर संक्षेप,
 पंचम दोष तणो निक्षेप ॥ कलह म मंदिश जा व्रत सार, ठाणे दोष
 तणो परिहार ॥ ११ ॥ विकथा सप्तम दोष निवार, पर उपहास आठमो
 विचार ॥ संपद पद विणु उतावलो, म जणो नवम दोषथी टलो ॥१२॥
 जाव आव एम कहियें नहिं, दशम दोष परहरियें सही ॥ वचन तणा ए
 जाणी दोष, टाली करो सामायिक पोष ॥ १३ ॥ मनना दोष हवे सां
 जनी, परिहर जवियण दूरें रली ॥ प्रथम दोष मन नहिय विवेक, नहु
 जाणो ऊणो अतिरेक ॥ १४ ॥ जस कीर्त्ति वांठे अति घणी, करे सामा
 यिक जे तेह जणी ॥ वीजो दोष ए आगम कह्यो, जवियण जाणीने
 नवि ग्रह्यो ॥ १५ ॥ हियडे वांठे धननो लाह, त्रीजो दोष घणो गुण
 दाह ॥ चोथो दोष जे करे गर्व, एहथी निर्गमियुं फल सर्व ॥१६॥ करे सा
 मायिक जे विहत्तो, वारे दोष सुगुण ईहत्तो ॥ पुत्र धनादिक तणुं नि
 दान, करतारं ठाणे दोष निदान ॥१७॥ सामायिक फल विधि जे कही, शुं
 जाणुं होजे वा नहिं ॥ एम संशय हियडे आणियें, सप्तम दोषने श्रुति
 जाणीयें ॥ १८ ॥ अष्टम करे मन आणी रोप, अविनय करतां नवमो

दोष ॥ नक्ति हीण ए दशमोसही, श्रावक ए आदरवा नहिं ॥ १ ॥ इति सामा
यिकघ्रात्रिंशदोषस्वरूपं ॥ काव्यं ॥ वत्तीस दोसेहिं विमुद्धि मेथं, करिऊ सामाश्य
मप्य मत्तो ॥ निञ्चं नरो जो निस दीस कालं, वरिऊ तं मुत्तिरमा कमेणं ॥ १ ॥
॥ दोहो ॥ ए व्रत ऊपर जिन कहे, सिंहश्रावक अचदात ॥ न
विक जीव सहु सांजले, करि निजमन एकांत ॥ १ ॥ ढाल ॥ स
वाइ गुरु वाहणनी परें तारे ॥ ए देशी ॥ नरतें रमणीय इण नाम, पुर सुंदर
शोना वाम, बहु जंतुनो विश्राम ॥ १ ॥ जिणंदराय देशना देई तारे, नव
जलनिधि पार उतारे ॥ जि० ॥ ए आंकणी ॥ तिहां हेमांगद अजि
धान, राजा बहु बुद्धिनिधान, सुंदर तन शोने वान ॥ जि० ॥ २ ॥ हे
मश्री तेहने राणी, रूपें जींती इंझाणी, वली जावण्यगुणमणि खाणी
॥ जि० ॥ ३ ॥ श्रावक जिनदेव विचारी, जिनदास्ती तस घर नारी, शी
जादि गुणें करि सारी ॥ जि० ॥ ४ ॥ सिंह नामें हो अंगज सोहे, रूपें
साजन मन मोहे, कदिये ते न रहे कोहें ॥ जि० ॥ ५ ॥ जीवाऽजीवा
दिक जाण, समजु सवलो गुणखाण, मावित्रने जीवनप्राण ॥ जि०
॥ ६ ॥ विहु टंक आवश्यककारी, सूधो सामायिकधारी, रूढो श्रावक
आचारी ॥ जि० ॥ ७ ॥ इक दिन सारथ संघातें, चाव्यो व्यापारने हेतें,
सिंह लइ करियाणुं खंतें ॥ जि० ॥ ८ ॥ साथ उतखो अटवीमांहे,
तटिनीतट जोइ उक्ताहें, जीधुं सामायिक सिंह शाहें ॥ जि० ॥ ९ ॥
सवलो आरंज निवारी, मुनिनी परें समताधारी, करि मन वच तन
एक तारी ॥ जि० ॥ १० ॥ तटिनी जल शीतल वासें, बहु कडे मशकनी
राशें, कखो धूम बहु तव त्रासें ॥ जि० ॥ ११ ॥ रह्यो सिंह अचल गुण
गेह, सहे मशकपरीसह देह, न चले मेरु जिम तेह ॥ जि० ॥ १२ ॥
बहु मशक समूहें विंटाणो, आवी मलियो तव टाणो, ध्यान दीपक नवि
उजवाणो ॥ जि० ॥ १३ ॥ त्वच जेदीने मुख मांहे घाली, पीयें रुधिर ते मश
कनी आली, सिंहें काया न संजाली ॥ जि० ॥ १४ ॥ जाणो ए पुजज
सार, व्रत पालीजें निर्धारि, ए विणु नम्यो बहु संसार ॥ जि० ॥ १५ ॥
कोइना नहिं तुं तुफ कोइ, मत रहे तन उपर मांही, रखे जातो ए व्रत
खोइ ॥ जि० ॥ १६ ॥ निश्चल परिणामें रहियो, परिसह उक्कट तेंगें
सहियो, एदवो सिंदो जन कहियो ॥ जि० ॥ १७ ॥ आच्यो दक्षिण

दिशि वात, ऊनी गयो मशकनो व्रात, सूणी आव्यां तस गात ॥ जि०
 ॥ १८ ॥ उपसर्ग टव्यो थइ शाता, पारे सामाधिक गुणवंता, एम काम
 पंडे रह्यो तंत ॥ जि० ॥ १९ ॥ अनुक्रमे देशांतरें जाय, बहु लाठीनो
 जान उपाय, घर आव्यो सिंह कमाय ॥ जि० ॥ २० ॥ साते क्षेत्रें वित्तने
 वावे, लखमी सुकृतारथ थावे, देशमां बहुलो यश पावे ॥ जि० ॥ २१ ॥
 गृहधर्म रूडी परें पाली, अंते अणसण संजाली, गयो सुरलोकें रुचि
 शाली ॥ जि० ॥ २२ ॥ लहेरो एक नर अवतार, आदररो संयमचार,
 होरो सिद्धिवधू नरतार ॥ जि० ॥ २३ ॥ एम ए व्रत पाढ्युं सार, आपे नव
 जलनो पार, जव कृण तव ए गुण धार ॥ जि० ॥ २४ ॥ ठेकेआडत्रीशमी
 ढाल, कहे रामविजय उजमाल, व्रतवंतने नमो त्रण काल ॥ जि० ॥ २५ ॥
 इति नवमसामाधिकव्रते सिंहश्रावक कथानकम् ॥ ए ॥ १५०८ ॥ ७२ ॥

॥ अथ दशम देशावकाशिकव्रतसंबंधः ॥

॥ दोहा ॥

॥ वीजुं शिखाव्रत हवे, व्रत दशमुं तेम जाण ॥ शांति प्रभुजी एम
 कहे, नवियणनें हित आण ॥ १ ॥ जावजीव दिशिविरतिनुं, जे व्रत ठहुं
 सार ॥ तेमांहे प्रतिदिन धारवो, संक्षेपें सुविचार ॥ २ ॥ सर्व व्रत संक्षे
 पथी, अथवा ए व्रत जाण ॥ मुहुत्त दिवस वली पकृता, ए व्रतनुं परिमाण
 ॥ ३ ॥ यडुकं ॥ एग मुहुत्तं दिवसं, राई पंचाहमेव पस्के वा ॥ वयमिह
 धारेह दढं, जावइ यं उठहे कालं ॥ ४ ॥ पूर्वदोहा ॥ एणें सघला व्रत
 नियमनो, प्रतिदिन करे संक्षेप ॥ चउद नियम संजारतां, संक्षेपतां
 निलेप ॥ ५ ॥ अतएव ॥ सञ्चित द्रव विगई, वाहण तंबोल वड कुसु
 मेसु ॥ वाणह सयण विलेवण, वंन दिसि न्हाण नत्तेसु ॥ ६ ॥ पूर्वढाल
 ॥ पंच अतिचार एहना, प्रथमानयन प्रयोग ॥ प्रेष्यप्रयोग वीजो वली,
 शब्दानुपाती तिम योग ॥ ७ ॥ रूपानुपाती चोथो कह्यो, पंचम पुजल
 क्षेप ॥ दशमा व्रतमांहे कहे, श्री जिनवर गतलेप ॥ ८ ॥ गंगदत्त आ
 वकपरें, पालीजें निर्धार ॥ परंपरायें ए व्रत सही, शिवमुखनुं दातार
 ॥ ९ ॥ कहे चक्रायुध कुण विजो, गंगदत्त गुणवंत ॥ परेद नारे आगलें,
 जांखे श्री नगवंत ॥ १० ॥

॥ ढाल उंगणचालीशमी ॥

॥ रहो. रहो रे यादव दो घडीयां ॥ ए देशी ॥ सुणो सुणो रे प्राणी
 शीखडीयां ॥ सु० ॥ अक्षय निधि जिनधर्म ए पामी, काहेकुं मागत नीखडियां
 ॥ सु० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ शंखपुरें गंगदत्त व्यवहारी, वास वसे शुन
 चोघडीयां ॥ सु० ॥ २ ॥ जिनवर धर्म करे मन शुद्धे, जाणे ए विं
 तामणि जडियां ॥ सु० ॥ ३ ॥ देशावकाशिक एक दिन घरनुं, लीधुं न
 निसरुं गोरडीयां ॥ सु० ॥ ४ ॥ साथ बहु आव्यो जाणीने, मित्र आवी
 कहे आरडियां ॥ सु० ॥ ५ ॥ साथें चलो बहु लाज होवेगो, कहे गंगदत्त मुज
 आखडियां ॥ सु० ॥ ६ ॥ मित्र कहे व्रत काले करेजो, लाज बहु आज
 सांपडियां ॥ सु० ॥ ७ ॥ कहे गंगदत्त ए लाज न लेखे, व्रत नवि ठोडुं
 पा घडियां ॥ सु० ॥ ८ ॥ धन पुजल बहु वेर मिलेगो, धर्म करो दिन
 रातडियां ॥ सु० ॥ ९ ॥ आज अठे व्रत देशावकाशिक, मूको विकथा वातडियां
 ॥ सु० ॥ १० ॥ मित्र लही तस निश्चय निज घर, आवे उत्साह विणु अडवडि
 यां ॥ सु० ॥ ११ ॥ दुठ प्रजातें निश्चय पूरो, करि आवश्यक पडवडियां ॥ सु०
 ॥ १२ ॥ साथमें आवे वणिज करणकुं, करियाणां बहु ढग पडियां ॥
 सु० ॥ १३ ॥ लिये लाखोके माल मुजावी, उनमें लाज बहुत जडियां
 ॥ सु० ॥ १४ ॥ चिंते सवि ए धर्म महातम, दरिद्र उडी जाये ज्युं
 चिडियां ॥ सु० ॥ १५ ॥ लाजके धनसं चेत्यनक्ति उर, साहामीवत्स
 लसं जुडियां ॥ सु० ॥ १६ ॥ बहु दिन थावक व्रत आराधी, चाखत
 अनुभव सेलडियां ॥ सु० ॥ १७ ॥ अंतें अणसण करि सुरलोकें, विलसे
 अप्तर गोरडियां ॥ सु० ॥ १८ ॥ ॥ एक अवतार करी लहि केवल, च
 ढगे शिवपुर पावडियां ॥ सु० ॥ १९ ॥ दशमा व्रत उपर ए जिनवर, कस्यो संबंध
 रसवेडिलयां ॥ सु० ॥ २० ॥ उंगणचालीशमी खंन ठठे, ढाल तिराडे ए चडियां
 ॥ सु० ॥ २१ ॥ राम कहे व्रतपालक नरकुं, नचनिधि आर्वी रहे खडियां ॥ सु०
 ॥ २२ ॥ इति दशम देशावकाशिकव्रते गंगदत्तकथानकम् ॥ १० ॥ १५३ ॥

॥ अथैकादश पौषधव्रतसंबंधः ॥

॥ दोहा ॥

॥ ब्रीहं शिखाव्रत हवे, कहे जिनत्रिचुवन जाण ॥ व्रतमांदे अम्यारमुं,
 पौषधव्रत मन थाण ॥ १ ॥ पुष्ट करे जे धर्मेने, आदरिचें तिथि पर्व ॥

ते पौषध आराधतां, लहियें वांछित सर्व ॥१॥ प्रथम पौषध आहारनो, देश
 सर्व दोय जेद ॥ चोविहार निवी प्रमुख, तपथी कह्यो गतवेद ॥३॥ वीजो वेह
 सत्कारनो, सर्वदेशथी जोय ॥ ब्रह्मचर्य पौषध तिमज, अव्यापार तिम
 होय ॥ ४ ॥ पंच अतिचार एहना, वर्जो चतुर सुजाण ॥ नाम कहे प्रभु
 तेहनां, शांतिनाथ जगवान ॥ ५ ॥ यत्सूत्रं ॥ अप्पडिलेहिय डुप्पडिलेहिय
 सिक्का संथारए ॥ १ ॥ अप्पमज्जिय डुप्पमज्जिय सिक्का संथारए ॥
 २ ॥ अप्पडिलेहिय डुप्पडिलेहिय उच्चारपासवणजूमी ॥ ३ ॥ अप्पमज्जिय
 डुप्पमज्जिय उच्चारपासवणजूमी ॥ ४ ॥ पोसहोववासस्त सम्मं अणणु
 पालणया ॥ ५ ॥ पूर्वदोहा ॥ ए व्रत पालंतां जलां, सफल होय दिन
 रात ॥ श्रावक साधु जेहवो, निर्मल गुण अवदात ॥ ६ ॥ यडुक्तं ॥ सामा
 यिय पोसहसं, तियस्त जीवस्त जाइ जो कालो ॥ सो सफलो बोधवो,
 सेसो संसारफलहेक ॥ १ ॥ ए व्रत उपरें जिन कहे, जिनचंडनो
 दृष्टांत ॥ चक्रायुध नृप सांजले, जाव धरी एकांत ॥ ७ ॥

॥ ढाल चालीशमी ॥

॥ मेरे जीउमें लागी आशकी ॥ ए देशी ॥ सुप्रतिष्ठपुरमां हुवो, नृप
 अनंतवीर्य बलवान रे ॥ रूपवती राणी मनमोहन, कमनीय कंत
 सुजाण रे ॥ १ ॥ जवि जीउमें व्रत गुण धारियें ॥ जेम सफल फले सवि
 आश रे ॥ एकमनां ए व्रत पालतां, होय आनंद लील विलास रे ॥
 ज० ॥ २ ॥ श्रावक जिनचंड नामथी, तिहां निवसे निश्चलधर्म
 रे ॥ सुंदर आकृति सुंदरी नामें, करे गेहिनी शुभ कर्म रे ॥ ज० ॥ ३ ॥
 जिनमत शुद्ध जाणे जलो, जीवाऽजीवादिक तरव रे ॥ समकित मूल
 श्रावक व्रत पाले, टाले मिथ्यामति तंत रे ॥ ज० ॥ ४ ॥ एक दिन पौषध
 लेइ वेठो, पौषधशालामजार रे ॥ सावद्यवोग पच्चरकाण करीने, एकमने
 निरतिचार रे ॥ ज० ॥ ५ ॥ इण अवसर पहेले सुरलोकें, हरि निरखे जिन
 चंड रे ॥ अहो अहो धन धन एह महामति, एम प्रवांसे इंद रे ॥ ज० ॥
 ६ ॥ पूठे तत्र सुर सेवक स्वामी, श्यो गुण दीठो तास रे ॥ इंद कहे पोसह
 व्रत एहनो, अविचल लीलविलास रे ॥ ज० ॥ ७ ॥ एक सुर मिथ्यावचन
 मिथ्याली, करवा आव्यो ताम रे ॥ श्रावक जिनचंडपासें आवी, वदेन
 थइ कहे आम रे ॥ ज० ॥ ८ ॥ सूरज उदय अकालें कीथो, सुण वांधव

गुणवंत रे ॥ नोजन हुं लावी तुम कारण, पारणुं करो सत्यवंत रे ॥
 रे ॥ न० ॥ ९ ॥ वचन सुणी मनमांहे विचारी, केम एम हुवो प्रजात
 रे ॥ धर्म ध्यानादिक करणीने, अनुसारें हजी रात रे ॥ न० ॥ १० ॥
 कारण कांश्क ए संनवीयें, कौतुकवाली वात रे ॥ कोश्क देवतणी ए लीजा,
 रखे चलतो तिल मात रे ॥ न० ॥ ११ ॥ मौन लही रहियो मनमांहे,
 धरि अरिहंतनुं ध्यान रे ॥ जीव रखे व्रत कर तुं काचुं, एम जांखुं श्री
 जगवान रे ॥ न० ॥ १२ ॥ मित्र थइ कर लेइ विलेपन, वली सुगंधां
 फूल रे ॥ आवी कनो जिनचंइ आगें, ग्रहो ए मित्र अमूल रे ॥ न० ॥
 १३ ॥ ॥ तुं मुज जीवन हुं तुज वहालो, लाव्यो नक्तिने काज रे ॥ अं
 गीकार करो मुज वाधव, जेम थाठ सुखीया आज रे ॥ न० ॥ १४ ॥
 जिनचंइ चित्तमां एम विमासे, न घटे ए मुज फास रे ॥ गंध विलेपन कु
 मुम ए लेतां, होय पोपध व्रतनाश रे ॥ न० ॥ १५ ॥ रही अणवोव्यो
 ध्यानं विचारे, रखे धरे पुजलआश रे ॥ मायाजालें म पड मनपंखी,
 कां थाय तृष्णादास रे ॥ न० ॥ १६ ॥ देवें जाणुं चित्त नवि चलीयुं,
 करी तव पुरुपनुं रूप रे ॥ तस कामिनी लइ जातो देखे, जिनचंइ एह
 स्वरूप रे ॥ न० ॥ १७ ॥ निजनारीनी विडंबन देखे, मूकावो प्राणनाथ
 रे ॥ पण ते ध्यानथकी नवि चूके, समरे एक जगनाथ रे ॥ न० ॥ १८ ॥ एम
 अनुकूलथकी नवि चलियो, तव सुर करे विकराल रे ॥ सिंह पिशा
 चादिक अति विरुआं, रूप घणां ततकाल रे ॥ ॥ न० ॥ १९ ॥ ते तिल
 मात्र न कोच्यो मतमां, देखी जयंकर रूप रे ॥ देहतो नेह न राखे हृदयें,
 समरे एक शुद्ध स्वरूप रे ॥ न० ॥ २० ॥ निश्चल जाणी प्रगट थइ ते, सुर
 नामे निज शीश रे ॥ जय जय तुं पहेजे सुरलोकें, स्तवियो अमारे ईश
 रे ॥ न० ॥ २१ ॥ धन्य तुम्हो कृतपुण्य तुम्हारुं, जीवित जन्म प्रमाण
 रे ॥ कहो मुज लायक कांश्क कारज, शिर वहुं तुमची आण रे ॥ न०
 ॥ २२ ॥ कहे जिनचंइ निरीह सुमतिधर, नहिं मुज जालच कोय रे ॥
 जो कहो ठो तो तिम करो जिम, शासन वन्ननि होय रे ॥ न० ॥
 २३ ॥ अंगीकार करीने सुरवर, थाठ दिवस लगी सार रे ॥ अछाडमहो
 रसव जिनमंदिर, मांमे नक्ति उदार रे ॥ न० ॥ २४ ॥ धूप कुसुम वर गंध
 विलेपन, करे जिननक्ति रसाल रे ॥ पूजा सत्तर प्रकारनी विरची, नाटक

ते पौषध आराधतां, लहियें वांठित सर्व ॥१॥ प्रथम पौषध आहारनो, देश
 सर्व द्योय जेद ॥ चोविहार निवी प्रमुख, तपथी कह्यो गतवेद ॥३॥ बीजो देह
 सत्कारनो, सर्वदेशथी जोय ॥ ब्रह्मचर्य पौषध तिमज, अव्यापार तिम
 होय ॥ ४ ॥ पंच अतिचार एहना, वर्जो चतुर सुजाण ॥ नाम कहे प्रचु
 तेहनां, शांतिनाथ जगवान ॥ ५ ॥ यत्सूत्रं ॥ अप्पडिलेहिय डुप्पडिलेहिय
 सिक्का संथारए ॥ १ ॥ अप्पमज्जिय डुप्पमज्जिय सिक्का संथारए ॥
 २ ॥ अप्पडिलेहिय डुप्पडिलेहिय उच्चारपासवणचूमी ॥ ३ ॥ अप्पमज्जिय
 डुप्पमज्जिय उच्चारपासवणचूमी ॥ ४ ॥ पोसहोववासस्त सम्मं अणणु
 पालणया ॥ ५ ॥ पूर्वदोहा ॥ ए व्रत पालंतां जलां, सफल होय दिन
 रात ॥ श्रावक साधु जेहवो, निर्मल गुण अवदात ॥ ६ ॥ यडुक्तं ॥ सामा
 यिय पोसहसं, विद्यस्त जीवस्त जाइ जो कालो ॥ सो सफलो बोधवो,
 सेसो संसारफलहेक ॥ १ ॥ ए व्रत उपरें जिन कहे, जिनचंडनो
 दृष्टांत ॥ चक्रायुध नृप सांजले, जाव धरी एकांत ॥ ७ ॥

॥ ढाल चालीशमी ॥

॥ मेरे जीउमें लागी आशकी ॥ ए देशी ॥ सुप्रतिष्ठपुरमां हुवो, नृप
 अनंतवीर्य बलवान रे ॥ रूपवती राणी मनमोहन, कमनीय कंत
 सुजाण रे ॥ १ ॥ जवि जीउमें व्रत गुण धारियें ॥ जेम सफल फले सवि
 आश रे ॥ एकमनां ए व्रत पालतां, होय आनंद लील विलास रे ॥
 जण ॥ २ ॥ श्रावक जिनचंड नामथी, तिहां निवसे निश्चलधर्म
 रे ॥ सुंदर आकृति सुंदरी नामें, करे गेहिनी शुभ कर्म रे ॥ जण ॥ ३ ॥
 जिनमत शुद्ध जाणे जलो, जीवाऽजीवादिक तत्व रे ॥ समकित मूल
 श्रावक व्रत पाले, ढाले मिथ्यामति तंत रे ॥ जण ॥ ४ ॥ एक दिन पौषध
 लेइ वेठो, पौषधशालामजार रे ॥ सावद्ययोग पञ्चकाण करीने, एकमने
 निरतिचार रे ॥ जण ॥ ५ ॥ इण अवसर पहेले सुरलोकें, हरि निरखे जिन
 चंड रे ॥ अहो अहो धन धन एह महामति, एम प्रशंसे इंद रे ॥ जण ॥
 ६ ॥ पूठे तव सुर सेवक स्वामी, श्यो गुण दीठो तास रे ॥ इंदकहे पोसह
 व्रत एहनो, अविचल लीलविलास रे ॥ जण ॥ ७ ॥ एक सुर मिथ्यावचन
 मिथ्यात्वी, करंवा आव्यो ताम रे ॥ श्रावक जिनचंडपासें आवी, वहेन
 थइ कहे थाम रे ॥ जण ॥ ८ ॥ सूरज उदय अकालें कीधो, सुण वांधव

गुणवंत रे ॥ नोजन हुं लावी तुम कारण, पारणुं करो सत्यवंत रे ॥
 रे ॥ न० ॥ ९ ॥ वचन सुणी मनमांहे विचारी, केम एम हुवो प्रजात
 रे ॥ धर्म ध्यानादिक करणीने, अनुसारे हजी रात रे ॥ न० ॥ १० ॥
 कारण कांश्क ए संनवीये, कौतुकवाली वात रे ॥ कोश्क देवतणी ए लीला,
 रखे चलतो तिल मात रे ॥ न० ॥ ११ ॥ मौन लही रहियो मनमांहे,
 धरि अरिहंतनुं ध्यान रे ॥ जीव रखे व्रत कर तुं काचुं, एम नांखुं श्री
 जगवान रे ॥ न० ॥ १२ ॥ मित्र थइ कर लेइ विलेपन, वली सुगंधां
 फूल रे ॥ आवी ऊजो जिनचंइ आगे, ग्रहो ए मित्र अमूल रे ॥ न० ॥
 १३ ॥ ॥ तुं मुज जीवन हुं तुज वहालो, लाव्यो नक्तिने काज रे ॥ अं
 गीकार करो मुज वाधव, जेम थार्ठ सुखीया आज रे ॥ न० ॥ १४ ॥
 जिनचंइ चित्तमां एम विमासे, न घटे ए मुज फास रे ॥ गंध विलेपन कु
 सुम ए जेतां, होय पोपध व्रतनाश रे ॥ न० ॥ १५ ॥ रही अणवोव्यो
 ध्यानें विचारे, रखे धरे पुजलआश रे ॥ मायाजालें म पड मनपंखी,
 कां थाय तृष्णादास रे ॥ न० ॥ १६ ॥ देवें जाएणुं चित्त नवि चलीयुं,
 करी तव पुरुपनुं रूप रे ॥ तस कामिनी जइ जातो देखे, जिनचंइ एह
 स्वरूप रे ॥ न० ॥ १७ ॥ निजनारीनी विडंबन देखे, मूकावो प्राणनाथ
 रे ॥ पण ते ध्यानधकी नवि चूके, समरे एक जगनाथ रे ॥ न० ॥ १८ ॥ एम
 अनुकूलधकी नवि चलियो, तव सुर करे विकराल रे ॥ सिंह पिशा
 चादिक अति विरुआं, रूप घणां ततकाल रे ॥ ॥ न० ॥ १९ ॥ ते तिल
 मात्र न ह्योन्यो मनमां, देखी जयंकर रूप रे ॥ देहनो नेह न राखे हृदये,
 समरे एक छुइ स्वरूप रे ॥ न० ॥ २० ॥ निश्चल जाणी प्रगट थइ ते, सुर
 नामे निज शीश रे ॥ जय जय तुं पहेले सुरलोकें, स्तवियो अमारे ईश
 रे ॥ न० ॥ २१ ॥ धन्य तुम्हो कृतपुण्य तुम्हारुं, जीवित जन्म प्रमाण
 रे ॥ कही मुज लायक कांश्क कारण, शिर वहुं तुमची आण रे ॥ न०
 ॥ २२ ॥ कहे जिनचंइ निरीह तुमतिधर, नहिं मुज लालच कोय रे ॥
 जो कही ठो तो तिम करो जिम, शासन उन्नति होय रे ॥ न० ॥
 २३ ॥ अंगीकार करीने सुरवर, आठ दिवस लगी सार रे ॥ अछाइमही
 क्तच जितमंदिर, मांमे नक्ति उदार रे ॥ न० ॥ २४ ॥ धूप कुसुम चर गंध
 विलेपन, करे जिननक्ति रसाज रे ॥ पूजा सत्तर प्रकारनी विरची, नाटक

नक्ति विशाल रे ॥ ज० ॥ २५ ॥ प्रभु आगल नाचे ते सुरवर, येइ येइ शब्द कहंत
 रे ॥ तार तार करुणारससागर, जगतवत्सल जयवंत रे ॥ ज० ॥ २६ ॥
 तुंहिज तत्त्व परमहितकारी, परमनक्तप्रतिपाल रे ॥ देव निररंजन निरुपा
 धिक गुण, जय जय देव दयाल रे ॥ ज० ॥ २७ ॥ लोक सहू देखी चित्त
 हरख्यां, धन जिनशासन एह रे ॥ जिहां एहवा प्रभुने दरवारें, नाचे देव
 सनेह रे ॥ ज० ॥ २८ ॥ देव कहे चिंतामणि सुलहो, कल्पद्रुम सुरकुंज रे ॥ पण
 ए जैनधर्म अति हुलहो, लही सेवो निर्देज रे ॥ ज० ॥ २९ ॥ ये ए सुर
 शिवपद सुख शाश्वत, सुणि एमकेइ नविवृंद रे ॥ वृज्या धर्म नजी जिनव
 रनो, आणी मन आनंद रे ॥ ज० ॥ ३० ॥ करी प्रजावना शासन केरी, सुर
 पहतो निज ठाम रे ॥ इइने कहे जे तुमो परकाश्यो, ते नर गुणमणि
 धाम रे ॥ ज० ॥ ३१ ॥ इणी परें पोपधव्रत आराधो, नवि चालीजें चित्त रे ॥
 तो सुर शिवपद सुख पामीजें, कहे जगगुरु सुपवित्त रे ॥ ज० ॥ ३२ ॥ ठठे
 खंरें चालीशमी ढालें, पोपधव्रत अधिकार रे ॥ रामविजय कहे एम व्रत
 निर्मल, पालतां नवनिस्तार रे ॥ ज० ॥ ३३ ॥ इति एकादश पौपधव्रते जिनचंइ
 कथानकम् ॥ १ ॥ सर्वगाथा ॥ १५७ ॥ श्लोक तथागाथा मली ॥ ७६ ॥

॥ अथ द्वादश अतितिसंविनागव्रत संबंधः ॥

॥ दोहा ॥

॥ हवे अतिथि संविनागनुं, द्वादश व्रत अनिराम ॥ शिक्काव्रत चोथुं
 सह्यी, कहे शांति जगवान ॥ १ ॥ लौकिक तिथि पर्वादिनो, जिणें वरज्यो व्यव
 हार ॥ नांजन कालें आवियो, अतिथि कहियें सार ॥ २ ॥ उक्तं च ॥ तिथि
 पर्वोत्सवाः सर्वे, त्यक्तायेन महात्मना ॥ अतिथि तं विजानीयात्वेपमन्यागतं
 विदुः ॥ १ ॥ पूर्वदोहा ॥ साधुअतिथि कह्यो श्राद्धने, तस निरवद्य आहार ॥
 संविनाग कीजें नजो, इण व्रतें लहे नवपार ॥ ३ ॥ प्रथम यतिने आपीने, पठें
 वावरे आप ॥ मुनि न मले तो पण करे, दिशालोक गतपाप ॥ ४ ॥
 यदुक्तं ॥ पढमं जईण दाउण, अप्पणा पणमिउण पारेई ॥ असइ असु
 विहिआणं, जुंजेइ य कय दिसालोउ ॥ १ ॥ अन्यत्राप्युक्तं ॥ अर्हदन्यः प्रथ
 मं निवेद्य सकलं सत्साधुवर्गाय च, प्राप्ताय प्रविनागतः गृचिधिया दत्त्वा
 यथाशक्तितः ॥ देशायात्तसधर्मचारिनिरलं, सार्द्धं च काले स्वयं, जुंजीतेति
 मुनाजनं गृहवतां पुण्यं जिनैर्नापितम् ॥ ३ ॥ पूर्वदोहा ॥ पंच अतिचार

एहना, सचित्त उपरें निक्षेप ॥ सचित्तें तिम ढांके वली, वीजो कहे गत
लेप ॥५॥ निजने अणदेवानणी, बुद्धें कहे परकीय ॥ मत्तर चोथो जिन
कहे, कालातिक्रम होय ॥ ६ ॥ शूरपाल परें पालियें, ए व्रत निरतिचार ॥
पूठे चक्रायुध तदा, कहे जिन जगदाधार ॥ ७ ॥

॥ ढाल एकतालीशमी ॥

॥ अरज अरज सुणोने रुडा राजीया होजी ॥ ए देशी ॥ कहे जिन कहे
जिन एहिज नरतमां होजी, नयर कंचनपुर नाम ॥ तिहां नृप तिहां
नृप जितरिपु नामथी होजी, गिरुठं गुण अनिराम ॥ १ ॥ सुगुण सु
गुण सनेहा सुणो वातडी होजी, कहे प्रभु शांति दयाल ॥ देतां देतां हो
दान सुपात्रने होजी, सवि सुख लहियें रसाल ॥ सु० ॥ २ ॥ ए आंक
णी ॥ तस घर तस घर राणी सुजोचना होजी, रमणी रूपचंमार ॥
तिहां एक तिहां एक महिपाल नामथी होजी, कृत्रिय निवसे उदार ॥
सु० ॥ ३ ॥ करे नित्य करे नित्य कर्पण कर्मने होजी, तस घर धारिणी
नार ॥ तेहनी तेहनी हो कुखना उपन्या होजी, अंगज ठे तस चार
॥ सु० ॥ ४ ॥ पहेजो हो पहेजो हो धीरपाल नामथी होजी, पृथ्वी
पाल सुजाण ॥ देवपाल देवपाल त्रीजो हो जाणीयें होजी, शूरपाल
चोथो वखाण ॥ सु० ॥ ५ ॥ अंगज अंगज ए सोहामणा होजी, चारे चतुर वि
नीत ॥ रूपें रूपें हो अति रलियामणा हो जी, शेणवजाव व्यतीत ॥
सु० ॥ ६ ॥ यौवन यौवन वय परणाविया होजी, चारेंने वर नारी ॥ पहे
ली पहेली हो चंडमती सती होजी, कीर्त्तिमती सुविचार ॥ सु० ॥ ७ ॥ त्रीजी
त्रीजी हो शांतिमती नणी होजी, शीलमती गुणगेह ॥ निजघर निजघर
काम करे जलां होजी, धरती अविहड नेह ॥ सु० ॥ ८ ॥ एकदिन
एकदिन वर्षाकालमां होजी, चारे महिपाल नंद ॥ पाठली पाठली रथ
णीयें उठीने हो जी, केंद्रं गया सुखकंद ॥ सु० ॥ ९ ॥ पूंठल पूंठलथी
तम कामिनी होजी, जात लेइने हो चार ॥ चाली चाली हो चतुरा
चमकती होजी, क्षेत्र नणी सुविचार ॥ सु० ॥ १० ॥ माग मागमांहे
यचर्यो होजी, चिहुं दिशियी जलधार ॥ गडगड गडगड यन गाजे चणुं
होली, चरमे अखंमित धार ॥ सु० ॥ ११ ॥ पवन पवन ऊकोले अति
पणो होजी, फडी सांमी रे आसार ॥ कंचुक कंचुक चीं चीनां यणुं हो

जी, तव ते चतुरा हो चार ॥ सु० ॥ १२ ॥ वडतलें वडतलें आवी उची
 रही होजी, घहेरी जेहनी हो ढाय ॥ टप टप जल विंडु चूवे होजी,
 वाये शीतल वाय ॥ सु० ॥ १३ ॥ वात करे वात करे उचीयकी होजी,
 मानिनी हसि हसि तेह ॥ एहवे एहवे हो महिपाल पूवथी होजी, आव्यो
 तिहां ससनेह ॥ सु० ॥ १४ ॥ जातां जातां हो क्षेत्रजणी तिहां होजी,
 मार्गे जलदने जोर ॥ ते पण ते पण वडतरुने तलें होजी, ठानो रघो
 एक गोर ॥ सु० ॥ १५ ॥ उथें उथें रहीने सांचले होजी, ते वदूथ रनी
 रे वात ॥ विजन विजन लहीने निराकुली होजी, पहेली बोले निश्चित ॥
 सु० ॥ १६ ॥ अक्सर अक्सर आज मव्यो जलो होजी, कहो मन जे
 हुवे इष्ट ॥ माही माही मापण केजवी होजी, वदूथर बोले कनिष्ट ॥
 सु० ॥ १७ ॥ सुणियें सुणियें हो एहबुं संसारमां होजी, वाडीने पण
 हुवे कान ॥ न घटे न घटे स्वभावनुं जांखबुं होजी, मुज मनमांहे ए शान
 ॥ सु० ॥ १८ ॥ यतः ॥ दिवा निरीक्ष्य वक्तव्यं, रात्रौ नैव च नैव च ॥
 संचरंति महाधूर्ताः, वटे वररुचिर्यथा ॥ ४ ॥ पूर्वढाल ॥ बोले बोले हो
 चंडवती तिहां होजी, नहिं इहां कोइनो प्रचार ॥ गोष्टि गोष्टि करीजें
 दिल खोलीने होजी, मुजने हर्ष अपार ॥ सु० ॥ १९ ॥ कहे तव कहे
 तव शीलवती सती होजी, कहो अनुक्रमें तुमें एह ॥ वारक वारक आ
 वे माहरे होजी, वात कहिश ससनेह ॥ सु० ॥ २० ॥ पहेली पहेली
 कहे मन माहरे होजी, घृत तावुं ततकाल ॥ जो जले जो जले क्षिप्र
 चट ऊणमां होजी, तो जमुं थइ उजमाल ॥ सु० ॥ २१ ॥ वली तेम
 वली तेम शिराववी जली होजी, सुंदर दहिंने संयोग ॥ मजती मजती
 हो आत्रकचूरिणुं होजी, जोजन ए देवयोग ॥ सु० ॥ २२ ॥ बीजी
 बीजी हो कीर्तिमती कहे होजी, सुणो मुज मननी रे आश ॥ वहेनी
 वहेनी हो होंश हियडे रहे होजी, कहियें कोने ए जास ॥ सु० ॥ २३ ॥ साव
 साव दूथ खीर खांमणुं होजी, मांमा सुंदर जोडि ॥ सरहां सरहां घृत
 गाल दालणुं होजी, मुज जीमणनो रे कोड ॥ सु० ॥ २४ ॥ त्रीजी त्रीजी
 हो शांतिमती कहे होजी, मुज मोदकनी रे आश ॥ अवर अवर वली
 सुखनक्षिका हो जी, मुज मन जावे मिठाश ॥ सु० ॥ २५ ॥ वजतुं वज
 तुं हो शीलवती वदे होजी, नहिं मुज जोजन प्रेम ॥ खावुं खावुं हो

वेसी रहे नहिं होजी, सुणो मुज मनमांहे एम ॥ सु० ॥ २६ ॥ नाही
 नाही हो निर्मल नीरगुं होजी, चंदन चर्चित अंग ॥ पहेरी पहेरी हो
 वसन सोहामणां होजी, नूपण नूपित चंग ॥ सु० ॥ २७ ॥ मांमया मां
 मया हो थाल सोहामणा होजी, कनक कचोलां रे मांहे ॥ पिरसुं पिरसुं
 मुसर जेठ कंतने होजी, नोजन मनने उत्साह ॥ सु० ॥ २८ ॥
 पोपी पोपी हो गृहजन सर्वने होजी, देइ दीनादिक दान ॥ केहें केहें
 हो निकुत्सित जे रखुं होजी, अशन अने वली पान ॥ २९ ॥ जमतां ज
 मतां ते नोजन मुज मनं होजी, होवे हर्ष अपार ॥ जांख्यो जांख्यो हो
 अजिप्राय आपणो होजी, शीलवती तिण वार ॥ सु० ॥ ३० ॥ निसुणी निसु
 णी हो कानमांमी करी होजी, सुसरे सघली रे वात ॥ त्रिहु जणी त्रिहु जणी
 फरि बोले तिहां होजी, नवली ताहरी रे धात ॥ सु० ॥ ३१ ॥ आपण
 आपण कौटुंबिक घरं होजी, अशनादिक रे झुंज ॥ वसन वसन आनूपण
 वातही होजी, करवी एह अचंन ॥ सु० ॥ ३२ ॥ करियें करियें मनोरथ
 एहवो होजी, जेहवुं आपणुं जाग्य ॥ करवुं करवुं हो कर्पण कर्मतुं होजी,
 किहांथी एह मिले लाग ॥ सु० ॥ ३३ ॥ चिंते चिंते महिपाल मनमां
 होजी, मुज घर नारी कुहाड ॥ नोजन नोजन वहूने आपे नहिं होजी,
 न सरे मननी रंहाडि ॥ सु० ॥ ३४ ॥ घर जइ घर जइने निज नारीने
 होजी, समजाविश सुविचार ॥ पूरिश पूरिश ए त्रिहु वहूतणा होजी, मन चिं
 तित रे आहार ॥ सु० ॥ ३५ ॥ बोले बोले असमंजस बोलडा होजी,
 चौथी वहू कम जात ॥ केवल केवल एहने पूरवुं होजी, कुत्सित उंदन
 जात ॥ सु० ॥ ३६ ॥ विरमी विरमी हो वृष्टि गइ क्षेत्रमां होजी, वहू
 अर ते गुणवंत ॥ आवी आवी महिपाल नारीने होजी, यान कदी सवि नंत
 ॥ सु० ॥ ३७ ॥ कहिने कहिने गयो निज क्षेत्रमां होजी, जुवो जावीसं
 बंध ॥ न टले न टले हो टाव्यो कोइनो हो जी, जों करे कोटि प्रबंध ॥
 सु० ॥ ३८ ॥ खंभ खंभ ठठे टाल ए नणी होजी, एकतालीशमी सार ॥ राम
 राम कहे जग दोहिला होजी, गुणना जाणणदार ॥ सु० ॥ ३९ ॥ १६३४ ॥ ८० ॥

॥ दोहा ॥

॥ वहूअर जब वेजा अई, तब आवी निज घेर ॥ सासुयें पदेलींथी
 करी, ते नोजननी पर ॥ १ ॥ जमवा वेतारी नवे, उंजा उंजे तदूर ॥

जोजन पिरसें जावतां, आणी आनंदपूर ॥ २ ॥ त्रणे जणी मन चिं
तवे, मन चिंतित आहार ॥ केम मलियो अणचिंतव्यो, ए थयो क
वण प्रकार ॥ ३ ॥ शीलवतीने सासुयें, पिरस्युं आणी कदन्न ॥ पंक्ति
जेद जाणी करी, विलखुं थयुं वदन्न ॥ ४ ॥ मेंकाहीं विणसाडयुं नहिं, न लही
कारणशुद्धि ॥ त्रणे जणी पण चिंतवे, खोटी सासु बुद्धि ॥ ५ ॥ जमी
उठी चारे जणी, पण मन विस्मय नारि ॥ पुनरपि कारजने वरें, चाली
क्षेत्र मजार ॥ ६ ॥

॥ ढाल वहेतालीशमी ॥

॥ सुग्रीव नयर सोहामणुं जी ॥ ए देशी ॥ मारगमांहे चिहु जणी
जी, करती एम विचार ॥ मन गमतो आवी मव्यो जी, आपणने आहार
रे ॥ १ ॥ वहेनी, ए थयो कवण प्रकार ॥ चिंतित फलियुं सार रे ॥ व० ॥
ए० ॥ ए आंकणी ॥ शीलवतीने सर्वे कहे जी, चिंतित सरिखुं रे थाय ॥
तें कदशन जो चिंतव्युं जी, तेवुं मलियुं आय रे ॥ व० ॥ २ ॥
कीजें मनोरथ महोटको जी, तुव न धरियें रे चित्त ॥ शीलवती कहे
सांजलो जी, शी ए वात विचित्र रे ॥ व० ॥ ३ ॥ जोजन सार असार
नो जी, उदरें एकज जाव ॥ शुं फूलो जोजन लही जी, शो ए तुम्ह स्व
जाव रे ॥ व० ॥ ४ ॥ मन गमतुं जव माहरे जी, याज्ञे कारिज तेह ॥
लेखे जनम तव आवज्ञे जी, म म धरजो संदेह रे ॥ व० ॥ ५ ॥ नि
त्यप्रत्ये जोजन जावतां जी, पीरसे सासु रे तास ॥ तव त्रिहु जणीने
जीमतां जी, मनमां दुइ विमास रे ॥ व० ॥ ६ ॥ पूठे सासूने किस्यो
जी, शीलवतीनो रे दोष ॥ जोजन अंतर एवडो जी, नवि कीजें धरि शो
प रे ॥ व० ॥ ७ ॥ कहि सासूयें मूलथी जी, वडनीचें करी जेह ॥ वा
त मुणीने सा दुई जी, म्लानमुखी गुणगेह रे ॥ व० ॥ ८ ॥ नित्य प्रत्ये रहे
ते फूरती जी, न वळे तननो रे वान ॥ मुख करमाणुं फूल स्युं जी, पामी ते
अपमान रे ॥ व० ॥ ९ ॥ यतः ॥ चित्तान्योऽप्यधिका चिंतां, लोके जानामि
निश्चितम् ॥ चित्ता दहति निर्जीवं, चिंता दहति सजीवकम् ॥ १ ॥ पूर्वद्वारा ॥
एक दिन केंतें पूठीयुं जी, कां तुं इवल काय ॥ शी तुज चिंता उपनी
जी, मुज मन आरति थाय रे ॥ वहाली, ए थयो कवण प्रकार ॥ १० ॥
ढलक ढलक आंसू ढले जी, कां एवढी दिलगीर ॥ नीतासो नाखी कहे

जी, आंसु लूही चीर रे ॥ व० ॥ ११ ॥ वात सवे मांकी कही जी, धुर
 हूँती आमूल ॥ शूरपाल मनमां थयो जी, वात सुणी प्रतिकूल रे ॥
 व० ॥ १२ ॥ अहो गुणवंती ऊपरें जी, एहवो अनादर नाव ॥ निर्गुण
 मुज माता पिता जी, जे विपरीत स्वभाव रे ॥ व० ॥ १३ ॥ एह मनो
 रथ अतिजलो जी, आगल ए अनुसार ॥ थाजे सहु नारीशिरें जी, ए
 महारी घरनार रे ॥ व० ॥ १४ ॥ ते माटें देशांतरें जी, जइ मेखुं धन
 कोडि ॥ थोडे दिवसें नारीना जी, पूरुं वांठित कोड रे ॥ व० ॥ १५ ॥
 एम चिंती कहे नारीने जी, जाइश हुं परदेश ॥ तुज मनोरथ पूरवा
 जी, मत दुःख धरे लवलेश रे ॥ १६ ॥ स्वामी, तुम विणु घडी रे ठ
 मास ॥ ए आंकणी ॥ शीलवती कहे साहिवा जी, वहाजेसर अवधार ॥
 तुमें चाजे देशांतरें जी, मुजने कोण आधार रे ॥ स्वामी० ॥ १७ ॥ सा
 त जखुं पण सासरुं जी, पीयर तेम मोशाल ॥ पण प्रीतम विना नारी
 नी जी, न लिये कोइ संजाल रे ॥ स्वा० ॥ १८ ॥ चौवन जर मुज देह
 डी जी, दोपी लोक अनेक ॥ वालम परदेशें चले जी, करि पग पग मुज
 ठेक रे ॥ स्वा० ॥ १९ ॥ अलगीन रहुं अथ घडी जी, आवीश तुम संघात ॥
 नाया अलगी नवि रहे जी, देहषकी तिल मात रे ॥ स्वा० ॥ २० ॥ कहे
 प्रीतम सुण कामिनी जी, तुज पानें मुज प्राण ॥ अंतर नहिं तुज मुज
 विचें जी, सुंदरी सुगुणनिधान रे ॥ वहा० ॥ २१ ॥ पगबंधन परदेशमां
 जी, केम सचवाये नारी ॥ ते माटें मंदिर रहो जी, यो आदेश विचार रे
 ॥ वहा० ॥ २२ ॥ नाकहेतां रुडुं नहिं जी, जाकहेतां निःस्नेह ॥ जाउंम जाउं
 एम कहुं जी, उदासीन पकू एह रे ॥ स्वा० ॥ २३ ॥ नयणें जल चा
 व्यां वही जी, हियहुं न धरे रे धीर ॥ शी गति होजे मादरी जी, सुण
 नणदलरा वीर रे ॥ स्वा० ॥ २४ ॥ तुमें गुणवंता नाहजा जी, जिहां जा
 शो तिहां कृदि ॥ रखे मुजने वीतारता जी, पिणु पामी नव निधि रे ॥
 स्वा० ॥ २५ ॥ सुण सुंदरी नवि विसरे जी, तुज गुण बनिया रे चिन ॥
 चिन गपंदा भावतां जी, उतरे नहिं कल्पांत रे ॥ स्वा० ॥ २६ ॥ तुम
 आवे ए मोटवो जी, कंचुक वेणीबंध ॥ एम प्रतिज्ञा आदरी जी, मन्त्रोदो
 मोह प्रतिबंध रे ॥ स्वा० ॥ २७ ॥ सुगुण स्वनेदा साहिवा जी, नदेजाही
 वनजाह ॥ मृगरजीवी जीवजो जी, उंवर ज्युं फलजाह रे ॥ स्वा० ॥

२७ ॥ नारी मनावी निसखो जी, मंदिरथी शूरपाल ॥ खड्ग लेइ एकण
दिशें जी, हवे जुवो चाग्यविशाल रे ॥ स्वा० ॥ २९ ॥ बहेंतालीशमी
ढालमां जी, नर नारीने रे राग ॥ परदेशें एम नीसखो जी, आगल फलरो
चाग्य रे ॥ स्वा० ॥ ३० ॥ सर्वगाथा ॥ १ ६६० ॥ श्लोक तथा गाथा मली ॥ ७१ ॥

॥ दोहा ॥

॥ शीलवती मन दुःख धरे, पियु चाव्यो परदेश ॥ हडकूदण लागी हिये,
रति न लहे लवलेश ॥ १ ॥ स्वोचित गृहकारज करे, पण मन चिंता
वंत ॥ दूण दूण हियडे सांनरे, शूरपाल निज कंत ॥ २ ॥ मात पिता
यें पृष्ठियुं, किहां गयो सुत शूरपाल ॥ सज्जन सहु को एम कहे, नहिं ते
हनी कांई जाल ॥ ३ ॥ शोध करी तेहनी घणी, मात पिता तेणी वार ॥
पण किहांय लाध्यो नहिं, धरे मन खेद अपार ॥ ४ ॥ करे मांहोमहि
मंत्रणुं, केणें डुहवियो तेह ॥ जे एम रीसावी गयो, कोइक कारण
एह ॥ ५ ॥ आपण डुहवियो नहिं, ते कनिष्ठ गुणगेह ॥ सहुने वाहालो
जीव जेम, केम तेणें दीथो ठेह ॥ ६ ॥ पूढे शीलवती जणी, जडे तुज सं
घात ॥ जुं रीसाणो वल्लहो, ते दाखो अम वात ॥ ७ ॥ आण न लोपी
कंतनी, में कांई तिलमात्र ॥ पण मुज वेणी ए वल्लहे, हाथे गूंथी रात्र
॥ ८ ॥ कखुं मुजने आव्या विना, नवि ठोडेवी वेण ॥ बीजुं कांइ जाणुं
नहिं, कखुं मुज कारण केण ॥ ९ ॥

॥ ढाल त्रेंतालीशमी ॥

॥ नारी रे निरुपम नागिला ॥ ए देशी ॥ वात सुणी रे करे मंत्रणुं,
वांधव मली माय ताय रे ॥ आपण कियें डुहव्यो नहिं, केम गयो एम
रीसाय रे ॥ १ ॥ हा शूरपाल तुं किहां गयो, मोहें कहे एम माय रे ॥ तेम
महिपाल पण वलवले, हियडलां आव्यां नराय रे ॥ हा० ॥ २ ॥ वांधव
त्रिहु एम चिंतवे, नारी केहें अपमान रे ॥ इणे न सहेवाणुं रे वांधवें, ग
यो मन धरि अजिमान रे ॥ हा० ॥ ३ ॥ जननी जनक धन वंधुने, त
जे पलकमांहे सोय रे ॥ न सहे तूंकार कोइनो वली, मानधन जे ज
ग होय रे ॥ हा० ॥ ४ ॥ ए पराजव सहि तेदने, जे कखो ठे तस ना
री रे ॥ मानधन पुरुष सांखे नहिं, नारी अपमान निर्धार रे ॥ हा० ॥ ५ ॥
धिरहातुर घणुं दुःख नखां, नवि लहि वांधवशोध रे ॥ जेम अति क्लेशथी

नवि लहे, प्रथमगुणठाणीया बोधि रे ॥ हा० ॥ ६ ॥ हवे शूरपाल ते
 चालीयो, जोवतो गिरि वन ठाम रे ॥ अनुक्रमें नयर एक आवियुं, महा
 शाल जेहनुं नाम रे ॥ हा० ॥ ७ ॥ जंबुतरु हेठल विश्रम्यो, वसन ना
 खी धरापीठ रे ॥ शयन कीधुं श्रमातुर जणी, उंघ आवी अति मीठ रे
 ॥ हा० ॥ ८ ॥ तास प्रजाव तरुठावडी, तेम रही दिवस मध्याह्न रे ॥
 अहो अहो पुण्य प्रगट हुयुं, ते सुणो सहु सावधान रे ॥ हा० ॥ ९ ॥ ते
 ह नगरी तणो राजियो, काल पहीतो ततकाल रे ॥ पंचदिव्य मंत्री अ
 धिवामियां, पुरमांहे फरे उजमाल रे ॥ हा० ॥ १० ॥ जाग्यने योगें ति
 हां आवीया, पोढीयो जिहां शूरपाल रे ॥ हाथीयें कलशलो ढालियो,
 जागीयो जाग्यविशाल रे ॥ हा० ॥ ११ ॥ हरखी हेपारव ह्य करे, चा
 मर ठत्र धरंत रे ॥ गजवरें खंधें वेसारियो, बंदीजन विरुद उजरंत रे ॥
 हा० ॥ १२ ॥ सर्व सामंत आवी नम्या, देखीयो लक्ष्णवंत रे ॥ स्वामी अ
 मजाग्यें बल ए कखुं, मलीयो तुं गुणवंत रे ॥ हा० ॥ १३ ॥ आविया बहु
 त आमंवेरे, वाजते हर्षनिशाण रे ॥ स्वामी अमचा वणुं जीवजो, वरस
 कोडाकोडि मान रे ॥ हा० ॥ १४ ॥ एम आशीप दिये गोरडी, धवल गा
 ती सुकृमार रे ॥ करिय अन्निपेक वेसारियो, तरुत ऊपर ततकाल रे ॥
 हा० ॥ १५ ॥ वखत फलियो बलें बाधीयो, सीमना सवि नम्या राव रे ॥
 सबल धरा धिंग थइ जोगवे, प्रवल जस पुण्य सखाय रे ॥ हा० ॥ १६ ॥
 एक दिन नारी तस सांजरी, निसखो जेहने काज रे ॥ स्वजन सहुको
 बली सांजखां, चिंतवे एम नरराज रे ॥ हा० ॥ १७ ॥ माहरी आय
 श्या कामनी, जोगवुं एकलो आम रे ॥ पूरवुं जो नहिं नारीनां, सकल
 मनोवांति काम रे ॥ हा० ॥ १८ ॥ यतः ॥ किं तथा क्रियते लक्ष्म्या,
 विदेशागतया ननु ॥ अरयो यां न पश्यन्ति, बंधुनिर्वा न नृन्यते ॥ १ ॥
 पूर्वदाल ॥ एम चिंती नृपें हाथशुं, जख्यो निजनारीने लेख रे ॥ राज्य
 पाम्यो पण ताहरे. पामीश सुख मुख देखि रे ॥ हा० ॥ १९ ॥ लेख
 थापी नृपें मोकल्या, सेवको नेड्या काज रे ॥ नुरत कंचनपुरें ते गया.
 खोलता आविया वाज रे ॥ हा० ॥ २० ॥ पण मद्रिपाल जाधो नहिं,
 कयुं एक नयरने लोक रे ॥ काल इनिंरुमां ने गयो, इहांवकी धरि
 मन शोक रे ॥ हा० ॥ २१ ॥ तेह सह कुटुंब किहां गयां, खवर नहिं

इहां कोइ तास रे ॥ एम सुणि तेह वलिया सवे, आविया नृपतिपास
 रे ॥ हा० ॥ ३३ ॥ वात सुणी राय विलखो थयो, चिंतवे चित्तमां एम
 रे ॥ अहो अहो माहरां सयण ते, वरततां हजो कहो केम रे ॥ हा० ॥
 ३३ ॥ राज्य पाम्यो पण रति नहिं, सांजली सयणनुं दुःख रे ॥ एह वेदण
 रहे अति घणी, जुठ जुठ कर्म अति तिक्क रे ॥ हा० ॥ ३४ ॥ खंम ठठे कही क
 र्मनी, अजवगति ढाल त्रेंताल रे ॥ राम कहे सांजलो हवे कहुं, जे लसुं ते
 महिपाल रे ॥ हा० ॥ ३५ ॥ सर्व गाथा ॥ १ ६ ए ४ ॥ श्लोक तथा गाथा मली ० ३ ॥

॥ दोहा ॥

॥ जिण वरसें ते नीसखो, गेहथकी शूरपाल ॥ तेहथकी बीजे वरस, काठी
 पड्यो दुष्काल ॥ १ ॥ मूलथकी वूठो नहीं, पड्यो काल विकराल ॥
 नृरि लोक ह्य नीपन्यो, वहेचे नूखें बाल ॥ २ ॥ मारग दुःसंचर दुवा,
 फरे तस्करनां वृंद ॥ नूरुव्या नर नदण करे, मानवप्रत्ये अठव ॥ ३ ॥
 कष्टथकी पामे तिहां, मुनिवर पण आहार ॥ रंक मली जिये जूंटीने,
 एहवो हाहाकार ॥ ४ ॥ परणी पण तरुणी तजे, निःस्नेही नरतार ॥ नेहरहे
 नहिं कोइनो, न पले निज आचार ॥ ५ ॥ गति मति सवि जाये गली,
 एहवो जाणी काल ॥ निजकुटुंब लेइ नीसखो, मंदिरथी महिपाल ॥ ६ ॥

॥ ढाल चुम्मालीशमी ॥

॥ हो सायर सुत सोहामणा ॥ ए देशी ॥ हो महिपाल परिवारगुं, प
 रिवारगुं रे हो नीसरियो परदेश ॥ हो संवल नहिं एक दिवसनो, एक दिव
 सनो रे हो नहिं समाधि लवलेश ॥ १ ॥ निजकृत्य आगे रे कोइ बलीयो
 नहीं रे ॥ ए आंकणी ॥ हो गाम नयरपुरमां जमे, पुरमां जमे रे हो कोण
 दिये आवकार ॥ लोक कहे परदेशीया, परदेशीया रे हो कजा न रहो इण
 वार ॥ नि० ॥ १ ॥ हो शून्य मंदिर आवी रहे, आवी रहे हो नूरुव्यां न जाये रात ॥
 हो निंद न आवे नयणले, नयणले रे हो उठी चले प्रजात ॥ नि० ॥ ३ ॥ हो
 पयें पग चाले नहीं, चाले नहिं रे हो सांजले कुवचन तास ॥ करे गुजरान फल
 फूजगुं, फल फूजगुं रे हो चिंते चित्त उदास ॥ नि० ॥ ४ ॥ हो केम कुटुंब
 जीवाडगुं, जीवाडगुं रे हो नहिं कोडी पेदास ॥ सूरज उग्ये उठीने, उ
 उठीने रे हो कग्वी परनी आश ॥ नि० ॥ ५ ॥ हो जेम तेम करतां अनुक्रमें,
 अनुक्रमें रे हो आव्या पुर महाशाल ॥ लोक वमे सुखीयां वणां, सुखीयां

घणां रे हो देखी ययां उजमाल ॥ नि० ॥ ६ ॥ हो करे पुरमां आजी
 विका, आजीविका रे हो चाले सुखें गुजरान ॥ शीलवती कारज करे,
 कारज करे रे हो पति विष्णु न जहे मान ॥ नि० ॥ ७ ॥ हो एक दिन
 सासू एम कहे, एम कहे रे हो जीरण कंचुक कतार ॥ वेणी ठोडाव तुं
 शिर तणी, शिर तणी रे हो कहेण न माने लगार ॥ नि० ॥ ८ ॥ हो
 सासू ससरो थाक्यां कही, थाक्यां कही रे हो पण ते हठीली जाण ॥
 हो थइ सहुने अलखामणी, अलखामणी रे हो कर्म करे ते प्रमाण
 ॥ नि० ॥ ९ ॥ हो पतिविरहें थइ दूवली, दूवली रे हो बीज चांदजीया
 रेह ॥ हो ऋण ऋण प्रीतम सांनरे, सांनरे रे हो साले नवल सनेह ॥
 नि० ॥ १० ॥ हो सुखहूंती बोले नहिं, बोले नहिं रे हो करे सविशेषुं
 काम ॥ हो कुजलजा राखे जली, राखे जली रे हो शीलवती निज
 माम ॥ नि० ॥ ११ ॥ हो हवे सुणो ते पुरराजीयो, राजीयो रे हो शूर
 पाल अनिधान ॥ लोक सहू हितकारणें, कारणें रे हो सरोवर मांमयुं
 सुजाण ॥ नि० ॥ १२ ॥ हो निर्धन जन आवे घणां, आवे घणां रे हो
 तिहां कणे करवा काम ॥ दुःस्थित लोक मजूरियां, मजूरीयां रे हो पामे
 खासा दाम ॥ नि० ॥ १३ ॥ हो वात नगरमां विस्तरी, विस्तरी रे हो थयो
 जाणी रोजगार ॥ हो महिपाल पण आवीयो, आवीयो रे हो खेइ साथें
 परिवार ॥ नि० ॥ १४ ॥ हो करे रोजगार मजूरनो, मजूरनो रे हो
 उदरनरण सुखें आय ॥ हो वान बल्यो वेला वली, वेला वली रे हो
 दिवस सुखें तस जाय ॥ नि० ॥ १५ ॥ हो एक दिन गज चढी रा
 जीयो, राजीयो रे हो सरोवर जोवा काज ॥ हो तेजी तुरिय पलाणिया,
 पलाणिया रे हो साथें सवल्लो साज ॥ नि० ॥ १६ ॥ हो नवरंग नेजा
 फरहरे, फरहरे रे हो नांधन घुरे रे निशाण ॥ हो थइ अस्वार ते आ
 बीयो, आवीयो रे हो जालां ऊजदल जाण ॥ नि० ॥ १७ ॥ हो गज
 साथें चढयो राजवी, राजवी रे हो कजी सुनटनी कोटि ॥ हो करे रे म
 जुरी मजूरीयां, मजूरीयां रे हो चौप धगी मन कोड ॥ नि० ॥ १८ ॥
 हो निरखे नजरें निद्राजीने, निद्राजीने रे हो तच दीठो मद्रिपाल ॥ हो
 शीलवती बीठी प्रिया, बीठी प्रिया रे हो हुवली विरहनी जाल ॥ नि०
 ॥ १९ ॥ हो परनरने निरखे नहिं, निरखे नहिं रे हो शीलवती सुकुमार ॥ न

जर न मामे कोइशुं, कोइशुं रे हो काम करे उजमाल ॥ नि० ॥ ३० ॥ हो
वांधव माता तेम वली, तेम वली रे हो करतां देखी काम ॥ थइ दिलगीर
मन चिंतवे, चिंतवे रे हो मुज कुटुंब थयुं आम ॥ नि० ॥ ३१ ॥ हो कर्म
कमाइ जोगवे, जोगवे रे हो नहिं इहां कोइनो चार ॥ हो गर्व म करशो
मानवी, मानवी रे हो खोटो अथिर संसार ॥ नि० ॥ ३२ ॥ हो राय
कहे पंचकुलप्रत्ये, कुलप्रत्ये रे हो शुं लहे कर्म करे एह ॥ रूपक एक
दिन दिन प्रत्ये, दिन दिन प्रत्ये रे हो पामे एम कहे तेह ॥ नि० ॥ ३३ ॥
हो साहिव तुमची आणथी, आणथी रे हो मध्यम लहे रे आहार ॥ कहे
नृप कुटुंब उदेशिनें, उदेशिने रे हो पंचकुलने तेणि वार ॥ नि० ॥ ३४ ॥ हो ए
माणस घणां कामनां, कामनां रे हो करे मजूरी खास ॥ हो वमणुं वधतुं
एहोने, एहोने रे हो द्यो जेम वधे उच्चास ॥ नि० ॥ ३५ ॥ यतः ॥ साध्वं
साधुजने स्वामी, निर्विज्ञेपो यदा जवेत् ॥ तदा साधुगुणोत्साहः, साधो
रपि न वर्धते ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ हो जात उत्तम देवुं वली, देवुं वली रे हो प्रभु
आदेश प्रमाण ॥ हो कहे तेडी महिपालने, महिपालने रे हो कहे अम तूठयो
राण ॥ नि० ॥ ३६ ॥ हो करि सजाम मुखें उच्चख्यो, उच्चख्यो रे हो महाप्रसाद
महाराज ॥ ते पण तेमहिज मुखें कहे, मुखें कहे रे हो सीध्यां वांठित
काज ॥ नि० ॥ ३७ ॥ हो पहिपालने नृप कहे, नृप कहे रे हो केता तुम अंग
जात ॥ हो ते कहे साहिव माहरी, माहरी रे हो सांजलसवली वात ॥ नि० ॥ ३८ ॥
हो चार तनय प्रभु माहरे, माहरे रे हो वडूअर तेहनी ए चार ॥ एक गया
परदेशमां, परदेशमां रे हो रीसावी निर्धार ॥ नि० ॥ ३९ ॥ हो ते
अमने वहाजो घणुं, वहाजो घणुं रे हो दूतो जीवन प्राण ॥ हो ते परदेश
गया पठी, गया पठी रे हो दुवां अमे घणुं हेरान ॥ नि० ॥ ४० ॥ हो
कोण नगरथी आविया, आवीया रे हो कंचनपुर अमवास ॥ हो तुज
ठया आवी रद्या, आवी रद्या रे हो सुण साहिव अरदास ॥ नि०
॥ ४१ ॥ हो कहे नरपति महिपालने, महिपालने रे हो ए लघु वडू
अम गेह ॥ तक्र लेवाने मूकजो, मूकजो रे हो मत करजो संदेह ॥
नि० ॥ ४२ ॥ हो नृप निजमंदिर आवियो, आवीयो रे हो एम कही
तस आदेश ॥ लोक सहू विस्मय लह्यां, विस्मय लह्यां रे हो अच
रिज एह विज्ञेप ॥ नि० ॥ ४३ ॥ हो कोइ साथें बोले नहीं, बोले नहीं

रें हो आपणो ए राजान ॥ हो एह कर्मकर उपरें, उपरें रे हो एवहुं केम स
न्मान ॥ नि० ॥ ३४ ॥ हो चुम्मालीशमी ढालमां, ढालमां रे हो प्र
कव्यो पुण्यविलास ॥ हो रामविजय कहे सांजलो, सांजलो रे हो मन
माहे धरि उल्लास ॥ नि० ॥ ३५ ॥ सर्व गाथा ॥ १७३५ ॥ श्लोक ॥ ७३ ॥

॥ दोहा ॥

॥ घर आवी सुसरो कहे, शीलवतीने एम ॥ जीरण कंचुक परहरी,
पहेर नवो धरि प्रेम ॥ १ ॥ जातां नृप आवासमां, पोसाये निर्धार ॥
एक नूर कह्यो आदमी, कपडूं नूर हजार ॥ २ ॥ पण नवि माने
ते कहण, सूतां सुखमाहे राति ॥ ठास लेवाने मोकली, ते कग्ये परजात
॥ ३ ॥ राजचुवन ऊची रही, नूतन जाणी तास ॥ प्रतिहारिणी तव जइ,
नृपने करे अरदास ॥ ४ ॥ नृप आवी कहे तेहने, कां तुज एहवो वेश ॥
जीरण कंचुक केम धरे, लाजे नहिं सुविशेष ॥ ५ ॥ लाजें नीचुं जोवती,
नवि बोले ते लगार ॥ कंतें सूधी उल्लाखी, सती शीरोमणि तार ॥ ६ ॥
राजायें देवरावीयुं, गोरस बहुलुं तास ॥ आवी मंदिर लेइने, धरती
अंग उल्लास ॥ ७ ॥ बीजे दिन तेमहिज गइ, शीलवती नृपगेह ॥ नृप
कहे मुज अर्पित ग्रहो, वारवाण धरि नेह ॥ ८ ॥ ते न लिये तव रो
पथी, बोव्यो राजा एम ॥ कहेण न मानिश माहं, तोनहिं तुजने केम
॥ ९ ॥ सा बोली सुंदर अहव, होय असुंदर देव ॥ पण निधें खंहुं
नहिं, जीवजाव नित्यमेव ॥ १० ॥ यतः ॥ आयातु यातु लक्ष्मीवां, यत्तदा
चदता जनः ॥ जीनितं मरणं वाऽस्तु, सतां धर्मात्त विच्युतिः ॥ ॥ १ ॥

॥ ढाल पिस्तालीशमी ॥

॥ मानां दरलणनी लंकानो राजा ॥ ए देशी ॥ कत्रिम कोप करी कहे
रे.सेवकने तव नृप ॥ आण न माने माहरी, ए नारीनुं अकल म्वरूप रे ॥ १ ॥
दियडानी वातो, नृप रीज्यो रे ए निरखी धातो, मन मानी रे मनमानी
ए नारी सुजातो, रे हियडानी वातो ॥ ए आकर्णी ॥ केषां ए कागारमां
रे, अजर न करवो आज ॥ नृप आणा नित्युणी धम्या, लेइ चाव्या क
रत दिवाज रे ॥ दि० ॥ २ ॥ पण न चली निज चित्तथी रे, शीलवती
गुणवंत ॥ नृप अइ पाठी तिहां, नेडाये ते निज कंत रे ॥ दि० ॥ ३ ॥ पृष्ठ
कुण कारण प्रिये रे, नवि मूके वारवाण ॥ वरुण्यकारक एहसुं, केम

रीकी रही तुं अजाण रे ॥ हि० ॥ ४ ॥ शीलवती कहे माहरे रे, वालमजी
 निज हाथ ॥ वेणी रची ए प्रेमगुं, पहेराव्यो कंचुक नाथ रे ॥ हि० ॥
 ५ ॥ पियुहाये ए उतरे रे, शाने कहो कांइ वात ॥ कंत विना हुं कोशुंनवि,
 मानुं कहेण तिलमात रे ॥ हि० ॥ ६ ॥ राय कहे हुं ताहरो रे, जा
 नामिनी तुं नरतार ॥ शीलवती कहे स्वामीने, न घटे कहेवो ए वि
 चार रे ॥ हि० ॥ ७ ॥ सकल प्रजा रक्षक तुम्हे रे, पंचम ठो लोकपाल ॥
 करतां ए अन्यायने, पृथिवी जाय रसाताल रे ॥ हि० ॥ ८ ॥ जे छुः
 शील परानवी रे, सतीयो नो आधार ॥ ते जो शील खंमन करे तो,
 नहिं कोइ राखणहार रे ॥ हि० ॥ ९ ॥ जेहनी रक्षा तेहथी रे, जय
 उपजे जगमांहे ॥ वाड नखे जो चीजडां तो, कुण करे एहनो न्याय रे ॥
 हि० ॥ १० ॥ यडुक्तं ॥ गोत्रं विगोपितं तेन, पौरुषं चरितं तथा ॥ चा
 मितोमेदिनीपीठे, ऽयशःपटहकोऽखिले ॥ १ ॥ महार्घ्यमपि तेन स्वं विहितं
 रजसा समं ॥ परस्त्रीसेवनं येन, निर्लज्जेन कृतं खलु ॥ २ ॥ युग्मं ॥ पूर्व
 ढाल ॥ पासं वाणी तव कहे रे, सुण नइ उजमाल ॥ सहु वांठे जे
 हने त्रिया, लुज वांठे ते नूपाल रे ॥ हि० ॥ ११ ॥ शीलवती कहे मुऊतन्नने
 रे, कंत अने के अगन्न ॥ ते विणु कोइ अमे नहीं, साचुं मानजो मन्न रे ॥
 हि० ॥ १२ ॥ यतः ॥ दोहो ॥ केसरि केश च्यंग मणि, सरणाइ सुहडांइ ॥
 सती पयोधर रूपण धन, चढो हाथ मुआंइ ॥ ४ ॥ पूर्वढाल ॥ राय कहे
 संकेतनां रे, वचन प्रतीतिने काज ॥ साहासुं जोइ निहाल तुं, खोटुं कहेतां
 मुऊ जाज रे ॥ हि० ॥ १३ ॥ आव्यो इहां हुं एकजो रे, शूरपाल अजि
 धान ॥ राय अपुत्रियो इहां मूठ, यइ वेठो हुं राजान रे ॥ हि० ॥ १४ ॥
 प्रत्यय सहित सुणी करी रे, वयण विमासं नारि ॥ कंत सही ए माहरो,
 जाणे इंगित आकार रे ॥ हि० ॥ १५ ॥ तव सन्मुख निरख्युं तेषो रे,
 उलखियो निज कंत ॥ मन विकस्युं तन उद्धस्युं, नाठी मनडानी चांति रे ॥
 हि० ॥ १६ ॥ सा हर्षित मनमां दुई रे, ययुं रोमांचित अंग ॥ जेम
 घनदर्शन मोरडी. तेम वाव्यो अंतररंग रे ॥ हि० ॥ १७ ॥ दामीने
 फरमावीयुं रे, खासी करो एहनी मेव ॥ ए गुणवंती स्वामिनी, सेवो एहने
 जेम देव रे ॥ हि० ॥ १८ ॥ स्नान कराव्युं तेहने रे, चंदन तनु चरचाय ॥
 पट्यांकु पहेरावियां, वर आचूपण शोनाय रे ॥ हि० ॥ १९ ॥ श्यामा ते

शोने घणुं रे, रूपवती रति रंज ॥ नृपण ठवि शोने घणी, दीठे होय न
रने अचंज रे ॥ हि० ॥ ३० ॥ रमज्जम करती कामिनी रे, आवी नृ
पतिं पास ॥ नृप आदर आपे घणो, दीधुं अर्धासन तास रे ॥ हि० ॥
३१ ॥ सामंत मंत्रीश्वर सवे रे, उठी करे प्रणाम ॥ तिण दिन शांति
मती हती, साथें वली गइ निजधाम रे ॥ हि० ॥ ३२ ॥ गुप्तद्वेष वेला
तदा रे. नास्ती गइ निजगेह ॥ निज कुटुंबनी आगलें, वात आवी कही
सवि तेह रे ॥ हि० ॥ ३३ ॥ निज हठथी हठिणी सही रे, वेठी हो का
रगार ॥ सहु कहे जुगतुं एहने, कीधुं एणें किरतार रे ॥ हि० ॥ ३४ ॥ जे हठ
वादी घणुं होवे रे, ते पामे डुख एम ॥ वृद्ध कहुं जे मानजे, ते पग पग
छेहजे हेम रे ॥ हि० ॥ ३५ ॥ ठो घाती ए पाधरी रे, गुं ठोडाव्यानुं काम ॥
एह हठीजीनुं हवे, मत लेजो कोइ नाम रे ॥ हि० ॥ ३६ ॥ एक दिन
ते महिपालने रे, नृपें तेव्यो सकुटुंब ॥ नोजन कारण आवियां, निज
जनक ने बंधव अंब रे ॥ हि० ॥ ३७ ॥ स्नान कराव्यां तेहोने रे, व
सन नजां अति चंग ॥ आनृपण पहेरावियां, राजाचें धरी मन रंग रे
॥ हि० ॥ ३८ ॥ मनमां महिपालादिका रे, वारु विमासे विचार ॥
आपणने ए राजियो, केम एम करे उपचार रे ॥ हि० ॥ ३९ ॥ जेने जे
हथी रे लहेणुं होवे रे, निर्गुण पण तस पास ॥ पामे लाज अचिंतव्यो,
नहिं इहां कोइ अवर विमास रे ॥ हि० ॥ ४० ॥ आसन रम्य बेसा
रियां रे, नोजन काज ते वार ॥ घाल विचित्र मंभावीने, नृप पण वेठो
गुणधार रे ॥ हि० ॥ ४१ ॥ नृप आदेश आवे तिहां रे, शीलवती वर
नारी ॥ पूर मनोरथ आपणा, प्रिये चिरसंचित इण वार रे ॥ हि० ॥
४२ ॥ पिरसे नोजन प्रेमशुं रे, अहो अहो नक्ति अपार ॥ चिंते महि
पाल चिंतशुं, सही इहां कणे कोइ विचार रे ॥ हि० ॥ ४३ ॥ नोजन
करि उठयां सवे रे, बेसाखां आसन्न ॥ शूरपाल महिपालने रे, चरणो
नमे घइ प्रसन्न रे ॥ हि० ॥ ४४ ॥ तात ते हुं तुम अंगजां रे, नामें जे
शूरपाल ॥ मात पिता तुम्हें माहरां, मजियां मुळ जाग्य विवाह रे ॥
हि० ॥ ४५ ॥ राज्य अचिंतित में लखुं रे, ए सवि तुम्ह प्रसाद ॥ हुं मे
वक हुं राजलो, मनमां म धरो विषाद रे ॥ हि० ॥ ४६ ॥ जाणीने पण
तुमकने रे, नीच कराव्युं काम ॥ ते गुनहो सवि माहरो, खमजो तमें कहुं

शिर नामि रे ॥ हि० ॥ ३७ ॥ शीलवती कर जोडीने रे, जांखे हो
नामी शीश ॥ खमजो मुऊ अपराध ए, तुमने जे चढावी रीप रे ॥ हि०
॥३८॥ तुम वचनें नवि मूकियो रे,में कंचुक तेण ठाय ॥ ते मुऊ आदेश
कंतनो, कुलवती केम लोपाय रे ॥ हि० ॥३९॥ महिपाल पण हरखियो
रे, उलखियो निज नंद ॥ जाग्य वहुं वत्स ताहरं, दीठे थयो आनंद रे ॥
हि० ॥ ४० ॥ तुऊ देखी मुऊ मने रे, वाध्या हर्षकछोल ॥ सिंधु उदय
शीतांगुने, जेम पसरे जग कछोल रे ॥ हि० ॥ ४१ ॥ कर जोडी ऊनो
रह्यो रे, जनक आगल गुणवंत ॥ जनक उपाडी शूरने, सिंहासन लेइ
ठवंत रे ॥ हि० ॥ ४२ ॥ सुसरो शीलवती जणी रे, कहे पुत्री तुं धन्य
धन्य ॥ जीवलोकमां तुऊ समी,नवि दीठी में कोइ अन्य रे ॥ हि० ॥४३॥
जेह मनोरथ ताहरा रे, होता घणुं असंजाव्य ॥ तुऊ जाग्ये अणचिं
तव्या, थया संपूर्ण सजाव रे ॥ हि० ॥ ४४ ॥ राख्युं शील तें आपणुं
रे,नवि लोपी पियु आण ॥ तो सवि नारीमां शिरें तुं,वेटी थइ गुणखाण
रे ॥ हि० ॥४५॥ पग पग तुऊने दूहवी रे,ते खमजे अपमान ॥ शीलवती
कहे तातजी,तेहथी मुऊ वाध्या वान रे ॥ हि० ॥४६॥ मात पिता सुसरा
तणी रे, शीख कल्पतरु ठाय ॥ मुऊने मानेवी घटे,जेहथी वांठित सुख
थाय रे ॥ हि० ॥४७॥ सहु परिवार मट्यो तिहां रे, आनंद थंगन माथ ॥
पिस्तालीशमी ढालमां, एम प्रगट्यो पुण्य पसाय रे ॥ हि० ॥४८॥१७९३॥
॥ दोहा ॥

॥ शूरपाल नृपति हवे, तेज्या सवि सामंत ॥ कहे महिपाल ए मुऊ
जनक,ए मुऊ वांधव गुणवंत ॥१॥ ए माताजी माहरी, ए जोजाई सार ॥
कर जोडी प्रणमो तुम्हें,एमाहरोपरिवार ॥२॥ एम कह्याथी सवि नम्या,
स्वामी आण प्रमाण ॥ नयरमांहे उत्तव हुवो, वाज्यां ढोल निशान ॥३॥
निजवांधवने मानचुं, चूरि देशनुं राज्य ॥ आपीने हर्षित कस्या, सीध्यां
वांठित काज ॥ ४ ॥ पुण्य पसायें जोगवे, मनोवांठित वर जोग ॥
शीलवतीचुं प्रीति बहु, सरिखो मट्यो संयोग ॥ ५ ॥

॥ ढाल तेंतालीशमी ॥

॥ दोजी जुंवा जुंवा वरसीजो मेह, आजूनो दद्राढो रे थणरी वीजनो
हो लाल ॥ ए देशी ॥ दोजी जोगवे ते सुख जोग,न्यायधर्म वरते घणो ॥

हो जाल ॥ होजी पुण्य तणे संयोग, तेज सबल ते नृप तणे ॥ हो जाल
 ॥ १ ॥ होजी वैरी नम्या सवि पाय, आवी करे सहु चाकरी ॥ हो ॥
 होजी एके आरे दोय, पाणी पिये वाघ वाकरी ॥ हो ॥ २ ॥ होजी
 वलीयो शूरपाल राय, माय तायनी करे सेवना ॥ हो ॥ होजी साते व्य
 सन निवार, पद प्रणमे जिनदेवना ॥ हो ॥ ३ ॥ होजी एक दिवस
 उद्यान, श्रुतसागर मुनि आविधा ॥ हो ॥ होजी षट्कायना रखवाल,
 सहु ऊपर सम जाविया ॥ हो ॥ ४ ॥ होजी वंदन काज नरेंड, तात
 प्रिया साथें चव्या ॥ हो ॥ होजी आवी वनह मजार, गुरु वंदे हेजे ह
 व्या ॥ हो ॥ ५ ॥ होजी गुरु दिये देशन सार, ए संसार अशाश्वतो ॥
 हो ॥ होजी एक जिनधर्म ए सार, करो दिल राखी हिंसतो ॥ हो ॥
 ६ ॥ होजी तन धन थौवन एह, जाय नदीना पूर ज्युं ॥ हो ॥ होजी का
 रिमो सयण सनेह, उमी जाये अर्कतूल ज्युं ॥ हो ॥ ७ ॥ होजी कू
 डो ए राज्यविलास, आश किसी करो एहना ॥ हो ॥ होजी जलमां
 जेम पतास, तेम पुजलठवि देहनी ॥ हो ॥ ८ ॥ होजी ग्रहे श्रावकनो
 धर्म, निसुणी गुरुनी देशना ॥ हो ॥ होजी पूठे कहो मुज मर्म, कर्म क
 खां श्यां क्लेशनां ॥ हो ॥ ९ ॥ होजी केम दुःखने वली सुख, पाम्यो
 प्रभु परकाशियो ॥ हो ॥ होजी गुरु कहे सुण राजेंड, दानगुणें चित्त
 वासियो ॥ हो ॥ १० ॥ होजी कखो तें अतिथिसंविनाग, पूरवचव ते
 सांजलो ॥ हो ॥ होजी कहे मुनिवर वडनाग, सुणे नृप मूकी आमजो
 ॥ हो ॥ ११ ॥ होजी जरतें नूमिप्रतिष्ठ, नयरें वीरदेव नामथी ॥ हो ॥
 होजी निवसे श्रावक एक, जस मनमां शंका नथी ॥ हो ॥ १२ ॥ हो
 जी तस घरे सुव्रता नारी, चित्त चोखी शुद्ध श्राविका ॥ हो ॥ होजी मा
 ने निजगुरु आण, समजू सूधी जाविका ॥ हो ॥ १३ ॥ होजी अष्टमी
 दिन एक वार, वीरदेव पौषध आदख्यो ॥ हो ॥ होजी पारण दिन उज
 माल, चिंते एम हर्षे जख्यो ॥ हो ॥ १४ ॥ होजी जगमां ते नर धन्य,
 पौषधव्रतने पारणे ॥ हो ॥ होजी पडिलाजे शुद्ध अन्न, मुनिवरने हित
 कारणें ॥ हो ॥ १५ ॥ होजी ऊठी दिशि अवलोक, करवा लाग्यो चिहुं
 दिशें ॥ हो ॥ होजी आवतुं मुनियुग दीठ, देखी दिजडे उल्लसे ॥ हो ॥
 १६ ॥ होजी सहामो जइ वीरदेव, पडिलाजे मुनि जावणुं ॥ हो ॥ हो

शिर नामि रे ॥ हि० ॥ ३७ ॥ शीलवती कर जोडीने रे, जांखे हो
नामी शीश ॥ खमजो मुऊ अपराध ए, तुमने जे चढावी रीप रे ॥ हि०
॥३८॥ तुम वचनें नवि सूकियो रे,में कंचुक तेण ठाय ॥ ते मुऊ आदेश
कंतनी, कुलवती केम लोपाय रे ॥ हि० ॥३९॥ महिपाल पण हरखियो
रे, उलखियो निज नंद ॥ जाग्य वहुं वत्स ताहरुं, दीठे थयो आनंद रे ॥
हि० ॥ ४० ॥ तुऊ देखी मुऊ मने रे, वाध्या हर्षकछोल ॥ सिंधु उदय
शीतांशुने, जेम पसरै जग कछोल रे ॥ हि० ॥ ४१ ॥ कर जोडी ऊनो
रह्यो रे, जनक आगल गुणवंत ॥ जनक उपाडी शूरने, सिंहासन लेइ
ठवंत रे ॥ हि० ॥ ४२ ॥ सुसरो शीलवती जणी रे, कहे पुत्री तुं धन्य
थन्य ॥ जीवलोकमां तुऊ समी, नवि दीठी में कोइ अन्य रे ॥ हि० ॥४३॥
जेह मनोरथ ताहरा रे, होता घणुं असंजाव्य ॥ तुऊ जाग्यें अणचिं
तव्या, थया संपूर्ण सजाव रे ॥ हि० ॥ ४४ ॥ राख्युं शील तें आपणुं
रे, नवि लोपी पियु आण ॥ तो सवि नारीमां शिरें तुं, वेटी थइ गुणखाण
रे ॥ हि० ॥४५॥ पग पग तुऊने दूहवी रे, ते खमजे अपमान ॥ शीलवती
कहे तातजी, तेहथी मुऊ वाध्या वान रे ॥ हि० ॥४६॥ मात पिता सुसरा
तणी रे, शीख कल्पतरु ठाय ॥ मुऊने मानेवी घटे, जेहथी वांठित सुख
थाय रे ॥ हि० ॥४७॥ सहु परिवार मढ्यो तिहां रे, आनंद अंगन माय ॥
पिस्तालीशमी ढालमां, एम प्रगढ्यो पुण्य पसाय रे ॥ हि० ॥४८॥ १७९३॥

॥ दोहा ॥

॥ शूरपाल नृपति हवे, तेढ्या सवि सामंत ॥ कहे महिपाल ए मुऊ
जनक, ए मुऊ वांधव गुणवंत ॥१॥ ए माताजी माहरी, ए जोजाई सार ॥
कर जोडी प्रणमो तुम्हें, ए माहरो परिवार ॥२॥ एम कह्याथी सवि नम्या,
स्वामी आण प्रमाण ॥ नयरमांहे उत्सव हुवां, वाज्यां ढोल निगान ॥३॥
निजवांधवने मानगुं, चूरि देशनुं राज्य ॥ आपीने हर्षित कथा, सीध्यां
वांठित काज ॥ ४ ॥ पुण्य पसायें जोगवे, मनोवांठित वर जोग ॥
शीलवतीं प्रीति बहु, सरिखो मढ्यो संयोग ॥ ५ ॥

॥ ढाल नेंतालीशमी ॥

॥ होजी लुंवा फूवा वरसीलो मेह, आजूनो ददाडो रे धणरी त्रीजनो
हो लाल ॥ ए देशी ॥ होजी जोगवे ते सुख जोग, न्यायधर्म वरते धणो ॥

हो लाल ॥ होजी पुण्य तणे संयोग, तेज सबल ते नृप तणो ॥ हो लाल
 ॥ १ ॥ होजी वैरी नम्या सवि पाय, आवी करे सहु चाकरी ॥ हो ॥
 होजी एके आरे दोय, पाणी पिये वाघ वाकरी ॥ हो ॥ २ ॥ होजी
 बलीयो शूरपाल राय, माय तायनी करे सेवना ॥ हो ॥ होजी साते व्य
 सन निवार, पद प्रणमे जिनदेवना ॥ हो ॥ ३ ॥ होजी एक दिवस
 उद्यान, श्रुतसागर मुनि आविया ॥ हो ॥ होजी पट्कायना रखवाल,
 सहु ऊपर सम जाविया ॥ हो ॥ ४ ॥ होजी वंदन काज नरेंड, तात
 प्रिया सार्थे चल्या ॥ हो ॥ होजी आवी वनह मजार, गुरु वंदे हेजे ह
 ब्या ॥ हो ॥ ५ ॥ होजी गुरु दिये देशन सार, ए संसार अशाश्वतो ॥
 हो ॥ होजी एक जिनधर्म ए सार, करो दिल राखी हिंसतो ॥ हो ॥
 ६ ॥ होजी तन धन थौवन एह, जाय नदीना पूर ज्युं ॥ हो ॥ होजी का
 रिमो सयण सनेह, उमी जाये अर्कतूल ज्युं ॥ हो ॥ ७ ॥ होजी कू
 डो ए राज्यविलास, आश किसी करो एहना ॥ हो ॥ होजी जलमां
 जेम पतास, तेम पुजलठवि देहनी ॥ हो ॥ ८ ॥ होजी ग्रहे श्रावकनो
 धर्म, निसुणी गुरुनी देशना ॥ हो ॥ होजी पूठे कहो मुऊ मर्म, कर्म क
 खां श्यां क्लेशनां ॥ हो ॥ ९ ॥ होजी केम दुःखने वली सुख, पाभ्यो
 प्रभु परकाशियो ॥ हो ॥ होजी गुरु कहे सुण राजेंड, दानगुणें चित्त
 वासियो ॥ हो ॥ १० ॥ होजी कखो तें अतिथिसंविनाग, पूरवन्नव ते
 सांजलो ॥ हो ॥ होजी कहे मुनिवर वडनाग, सुणे नृप मूकी आमलो
 ॥ हो ॥ ११ ॥ होजी नरतें नूमिप्रतिष्ठ, नयरें वीरदेव नामथी ॥ हो ॥
 होजी निवसे श्रावक एक, जस मनमां शंका नथी ॥ हो ॥ १२ ॥ हो
 जी तस घरे सुव्रता नारी, चित्त चोखी शुद्ध श्राविका ॥ हो ॥ होजी मा
 ने निजगुरु आण, समजू सूधी जाविका ॥ हो ॥ १३ ॥ होजी अष्टमी
 दिन एक वार, वीरदेव पौषध आदखो ॥ हो ॥ होजी पारण दिन उज
 माल, चिंते एम हर्षे नखो ॥ हो ॥ १४ ॥ होजी जगमां ते नर धन्य,
 पौषधव्रतने पारणे ॥ हो ॥ होजी पडिलाजे शुद्ध अन्न, मुनिवरने हित
 कारणें ॥ हो ॥ १५ ॥ होजी ऊठी दिशि अवलोक, करवा जाग्यो चिहुं
 दिशें ॥ हो ॥ होजी आवतुं मुनिगुग दीठ, देखी दिलडे उल्लसे ॥ हो ॥
 १६ ॥ होजी सहामो जइ वीरदेव, पडिलाजे मुनि जावगुं ॥ हो ॥ हो

जी अनुमोदे तस नारी, दान मुनिनुं मन वस्युं ॥ हो० ॥ १७ ॥ होजी
 ययां सुकृतारथ दोय, मुनिवर वीरीने वव्या ॥ हो० ॥ होजी दंपतीना ति
 णि वार, मनह मनोरथ सवि फव्या ॥ हो० ॥ १८ ॥ होजी पाव्युं तेणें बहुकाल,
 आवकव्रत जावें करी ॥ हो० ॥ होजी करि अणसण अंतकाल, गयां ईशानें
 ते मरी ॥ हो० ॥ १९ ॥ होजी तिहांथी चवी नरदेव, शूरपाल थयो तुं
 सही ॥ हो० ॥ होजी नारीनो ते जीव, शीलमती इहांकणे थइ ॥ हो०
 ॥ २० ॥ होजी पूरवजव दत्त दान, तास प्रजावें पामिया ॥ हो० ॥ होजी चिंतित
 धन सन्मान, तुम्हें लह्यां सवि सुख कामियां ॥ हो० ॥ २१ ॥ होजी एम
 सांजली ततकाल, जातिसमरण उपन्युं ॥ हो० ॥ होजी दीतुं सवि शूर
 पाल, पूरवजवकृत आपणुं ॥ हो० ॥ २२ ॥ होजी चंडपाल सुतने राज्य,
 सोंपी जनक नारी सही ॥ हो० ॥ होजी त्रिहु जणें लीधी दीख, क्रोध
 कपाय धरे नहिं ॥ हो० ॥ २३ ॥ होजी पाली विद्युद्ध चारित्र, घाती
 करम क्य घातियां ॥ हो० ॥ होजी त्रिहु जण लही वर नाण, मुक्ति
 गयां नव जीतियां ॥ हो० ॥ २४ ॥ होजी कहे एम शांति जगवान, अ
 तिथिसंविजाग व्रत ऊपरें ॥ हो० ॥ होजी निसुणे पर्यद वार, जिनवर वा
 णी ए आदरें ॥ हो० ॥ २५ ॥ होजी ठठे कही ए ढाल, हपें तेंतालीशमी
 ॥ हो० ॥ होजी राम कहे उजमाल, नवि सुणजो साकर समी ॥ हो० ॥ २६ ॥
 इति द्वादश अतिथिसंविजागव्रते शूरपालकथानकम् ॥ १२ ॥ १८२४ ॥
 ॥ दोहा ॥

॥ एम व्रत वारे जिन कह्यां, आवकनां अतिसार ॥ चक्रायुध नृप आग
 लें, नविजनने उपगार ॥ १ ॥ धर्म गृहीनो साधतां, करे निज आत्म
 गृहि ॥ चढते पण्णामें चढी, संयम अहे विवुध ॥ २ ॥ अथवा एकादश
 वली, पडिमा वहे मुजाण ॥ अंतें अणसण आदरे, आवक तेह सुजाण ॥
 ३ ॥ त्रिया चतुर्धा आदरे, अणसण ने सागार ॥ वर्धमान परिणामथी, पाळे
 निरतिचार ॥ ४ ॥ इह लोकाशंसा प्रथम, तिम परलोकाशंस ॥ जी
 वितआशंसा कही. तेम वली मरणाशंस ॥ ५ ॥ काम जोग वांठे
 नहिं. पंच दोष ए ढाल ॥ आराधे संजेखना, आवक थइ उजमाल ॥ ६ ॥
 जवन्य आयु सौधमेनुं, अच्युत नुर उच्छुष्ट ॥ सुरलोकें मुख जोगवी, शिवपद
 लहे अजीष्ट ॥ ७ ॥ धर्म एह आवकतणो, वीजो मुनिवर धर्म ॥ पंच समिति

त्रण गुप्तिगुं,साध्यो दे शिवशर्म ॥७॥ एह अनंतर हेतु ठे,शिवपदनो मुनिधर्म ॥
निश्चय समकितगुं धख्यो, कृणमें दे शिवशर्म ॥८॥यतः॥ एग दिवसंपि जीवो ॥

॥ ढाल सडतालीशमी ॥

॥ नलराजारे देश, होजी पुंगलहून्ती पढ्हाणीया ॥९ देशी ॥ निसुणि
श्री जिनवाण,होजी कहे चक्रायुध नूपति ॥ तारो हो त्रिभुवन स्वामि,हो
जी द्यो मुज दीक्षा जिनपति ॥ १ ॥ नमियो नवमां जोर, होजी चोर
कर्म आठे अड्यां ॥ कडुआ कठिन कषाय, होजी काल अनादिना रहे
नड्या ॥ २ ॥ नांजो ए डुशमन जोर, होजी ऊगारो अरिहंत जी ॥ करुं
प्रभु तुमने निहोर, होजी नक्तवत्सल जगवंत जी ॥ ३ ॥ जन्मजरा
मरणादि, होजी अंगने दीपित अति घणुं ॥ नवगृहथी निस्तार, होजी
प्रभुजीगुं तुम अति नणुं ॥ ४ ॥ प्रभु कहे करुणावंत, होजी धर्म विलंब
न कीजीयें ॥ जो मनहुं होय ठाम,होजी तो शुचि संयम लीजियें॥५॥ सु
त स्थापी निज पाट, होजी पांत्रीश नृपगुं परवख्यो ॥ चक्रायुध जिन हाथ,
होजी नावें संयम आदख्यो ॥ ६ ॥ दीधी जिनजीयें दीख, होजी शीख
ग्रहे जिनवर कने ॥ कर जोडी प्रभु पास, होजी पूठे तत्त्व कहो मुने ॥
७ ॥ तत्त्व कहे उत्पत्ति, होजी जइ एकांतें चिंतवे ॥ समयसमय ए जीव,
नारकी आदिक संजवे ॥७॥ एम उपजता तेह,भुवनत्रय माये नहिं ॥ एम
धरी संशय चित्त, होजी प्रभु पासें पूठे जइ ॥ ८ ॥ प्रभु प्रकाशो तत्त्व,
होजी विगम कहे त्रिभुवन धणी ॥ पुनरपि जइ एकांत, होजी विगम
विचारे बहु गुणी ॥ ९ ॥ सर्व विगम जो होय, हो शून्यपणुं तो जग
नजे ॥ न रहे जगमां कोइ, होजी वस्तु विगमने उपजे ॥ १० ॥ पुनरपि
पूठे तत्त्व, होजी स्थिति नांखे शासनपति ॥ समज्या सकल स्वरूप,
होजी संशय न रह्यो एक रति ॥ ११ ॥ त्रिपदीने अनुसार, होजी अंग
डुवालस ते रचे ॥ एम सघजांएक रीति, हो षादशांग विरचे रुचें ॥१२॥
आवे पठे प्रभुपास, होजी आसनथी जिन उठीया ॥ इइ आवे नरि थाल,
होजी वासैं मन संतुष्टिया ॥ १३ ॥ वास जेई प्रभु हाथ, होजी आपे
संघने मन रुली ॥ दीधे प्रदक्षिणा तीन, होजी प्रभु पूठें ते लली लली
॥ १४ ॥ तस शिर स्थापे वास, होजी संघ सहित जिनवर मुदा ॥ गण
धरपद अधिवास, होजी एम सद्गुनो कीधो मुदा ॥ १५ ॥ अवर वली

नर नार, होजी प्रचुजीयें बहु दीक्षित कथां ॥ ग्रहिया संयमजार, होजी सहेजें नव सायर तथा ॥ १७ ॥ चरण सहस नर नारि, होजी ते दुवा आवक आविका ॥ शुद्ध समकित व्रतधार, होजी ते सहुये मन जाविका ॥ १८ ॥ एम चतुर्विध संघ, होजी शांतिजिणोसर स्थापियो ॥ समकित रयण अमूल, होजी प्रचुजीयें सहुने आपीयो ॥ १९ ॥ पोरिसि अंतें जिनजाण, होजी देववंदक मांहे आविया ॥ बीजा वप्र मजार, होजी जगगुरु सहु मन जावीया ॥ २० ॥ जिनवरने पाद पीठ, वेसे प्रथम तिहां गणधरु ॥ बीजा पोरसीमांहे, होजी करे व्याख्यान मनोहरु ॥ २१ ॥ संघनी आगल म, होजी कहे कथा अघहारिणी ॥ अंतरंग वात विनोद, होजी धर्म नी स्थिरता कारिणी ॥ २२ ॥ सडतालीशमी ढाल, होजी ठेखमें सोहा मणी ॥ रामविजय कहे एम, होजी सांजो आतम हितनणी ॥ २३ ॥ १८५६ ॥

॥ दोहो ॥

॥ मोहराजके राजमां, धर्मराजकी आण ॥ वर्तवि चेतन तदा, जी वित जन्म प्रमाण ॥ १ ॥

॥ ढाल अडतालीशमी ॥

॥ हो प्रष्टु महेर कर महाराज ॥ ए देशी ॥ क्षेत्र मानव लोकमांहे, देह नयर मंमाण ॥ मोहनामा वडो नरपति, जगत सहु जस आण ॥ १ ॥ रे जीव समज सुगुण सुजाण ॥ तुंतो म धर मोहनी आण, हारे जेम लहे कोडि कव्याण ॥ रे जीव ० ॥ ए आंकणी ॥ मोह धरणी रंगें परणी माया नामें नारि ॥ तेह वेहुथी उपन्यो सुत, सबल मदन कुमार ॥ रे जीव ० ॥ २ ॥ लोच नामें महामंत्री, क्रोध दुर्धर पास ॥ राग द्वेष महारथी दो, मिथ्यात्व जास खवास ॥ रे जीव ० ॥ ३ ॥ मान नामें वडो गजवर, मोह वाहन जोर ॥ चड्यो इंडिय अथ्व उपर, करत सबलो शोर ॥ रे जीव ० ॥ ४ ॥ विषय त्रंवीश मोह आगल, खडे रहत चोवदार ॥ एक एकपें उमराव पोढे, चढत पाप अदार ॥ रे जीव ० ॥ ५ ॥ आठ बांधव राज विलसे, रूप शत अ डवन्न ॥ एक पूठे अनंत वर्गीण, मेन चढत अगाण ॥ रे जीव ० ॥ ६ ॥ प्राण वाणिज वमे उनमें, चिन पुर आरहु ॥ राज सबलो मोह केरो, साचवे अइ दहु ॥ रे जीव ० ॥ ७ ॥ निसुणी गुरु उपदेश जींतर, फिरे म न आरहु ॥ देहपुरमां धर्म नृपति. लहे प्रवेश प्रत्यहु ॥ रे जीव ० ॥ ८ ॥

वृत्ति आर्जवनामे राणी, तेहेनी मनोहारि ॥ धर्म नृपति कंत साथें, रहे
 अनेद विचार ॥ रे जी० ॥ ए ॥ सचिव महोठो सबल गुणवंत, नामथी
 संतोप ॥ अहोनिर्गो निज स्वामीसेंती, वाध्यो प्रेमनो पोप ॥ रे जी० ॥
 १० ॥ मंजलेश्वर अठे आगें, नाम समकित धीर ॥ सामंत व्रत गुण मूल
 केरा, रहत पास अनीरु ॥ रे जी० ॥ ११ ॥ अणुव्रतादिक पति व
 हुजा, रहत जास समीप ॥ मातंग मार्व नाम गर्जत, वडो ए अवनीप
 ॥ रे जी० ॥ १२ ॥ योध उपशम आदि जिनके, बहुत हे जूंजार ॥
 चारित्ररथ चढी चलत आगें, श्रुत सेनानी सार ॥ रे जी० ॥ १३ ॥
 करी मानस हाथ अपने, सबल धर्मनरिंद ॥ देहपुरमां आय अ
 पनी, वसति करे अहमिंद ॥ रे जी० ॥ १४ ॥ निर्धाटियो तव मोह
 नृपकों, वरती अपनी आण ॥ मोहकों अवकाश कोइ, देहु मत गुण
 खाणि ॥ रे जी० ॥ १५ ॥ बहुत दिनकी आण उनकी, करत हूवे हे
 रान ॥ विश्वास ए अन्याय नृपको, म कर चतुर सुजाण ॥ रे जी० ॥
 १६ ॥ जो कदाचित् मोहके वश, होत ए अज्ञान ॥ कर्मपरिणति फेरि
 उनकों, लेइ स्थापे ठाण ॥ रे जी० ॥ १७ ॥ जेम अनीतिपुरें विप
 तिमां, वणिकसुत बुद्धि दान ॥ रत्नचूडने उदस्यो यम, घंट गणिका
 जाण ॥ रे जी० ॥ १८ ॥ कुण हुउं ते कवण गामें, कहे संघ कर
 जोडि ॥ कहे गणधर प्रथम तेहनी, कथा मनने कोड ॥ रे जी० ॥ १९ ॥
 खंन ठठे एह जांखी, ढाल ए अडयाल ॥ रत्नचूड तणुं हवे जवि, सुणो
 चरित उजमाल ॥ रे जी० ॥ २० ॥ सर्व गाथा ॥ १८७७ ॥ श्लोक ॥ ८७ ॥

॥ दोहा ॥

॥ नरतक्षेत्रमां अति जली, बहु इन्धनो वास ॥ तामलिनी नगरी
 घणुं, दीठे होय उद्व्वास ॥ १ ॥ गढ मढ मंदिर मालीयां, चोराशी वा
 जार ॥ अमरपुरी मनुं अवतरी, मानव लोकमजार ॥ २ ॥ सदाचार
 वासे वसे, रत्नाकर तिहां शेर ॥ दोलतने दोरें करी, बीजा सहु ए हेव
 ॥ ३ ॥ तस घरणी पुण्यात्तमा, लावण्यरूप निधान ॥ सरस्वती नामें
 जली, प्रीतमनुं बहु मान ॥ ४ ॥ निजकरगत महारत्न शिख, उद्योतित
 निजधाम ॥ निशा शेष देखी सुपन. कहे पियुने अनिराम ॥ ५ ॥ प्रिये
 तनय होशे जलो, हरखी निस्तुणी वाणि ॥ सुत जन्म्यो समयें तिणें,

चत्तचूड अग्निधान ॥ ६ ॥ वालपणें शीखी कला, सकल करी तेणें
चूंप ॥ यौवन वय मन मोहतो, मानिनी तणां अनूप ॥ ७ ॥

॥ ढाल उंगणपञ्चासमी ॥

॥ मन मोहनां लाल ॥ ए देशी ॥ एक दिवस हट शहेरमां रे ॥ मन
मोहनां लाल ॥ चाव्यो रत्नचूड ताम हो ॥ जनरंजनां लाल ॥ मारगमां
सामी मली रे ॥ म० ॥ सोजाग्यमंजरी नाम हो ॥ जन० ॥ १ ॥ नृप मन
मानीती घणुं रे ॥ म० ॥ गणिका ते मदवंत हो ॥ ज० ॥ खंधे तेणें
दूहवी रे ॥ म० ॥ बोले ते एम तंत हो ॥ ज० ॥ २ ॥ पालव साही
तेहनो रे ॥ म० ॥ बोली करी उपहास्य हो ॥ ज० ॥ नंदन सुण तुं
गोठनारे ॥ म० ॥ पंफित जननी जास हो ॥ ज० ॥ ३ ॥ धनें अनेड
मूकापणुं रे ॥ म० ॥ पश्यतने पण होय हो ॥ ज० ॥ जे तुं बाल
दिवसमां रे ॥ म० ॥ न चले सहामुं जोय हो ॥ ज० ॥ ४ ॥ देखे
नहिं सुऊ आवती रे ॥ म० ॥ धनमद न घटे ए तुऊ हो ॥ ज० ॥ ते
माटें कहे नीतिनां रे ॥ म० ॥ जाण वचन ए गुऊ हो ॥ ज० ॥ ५ ॥
जनक उपार्जित वित्तुं रे ॥ म० ॥ न करे कोण विलास हो ॥ ज० ॥
निजभुज अर्जित संपदा रे ॥ म० ॥ विलसे तस सावाश हो ॥ ज० ॥
॥ ६ ॥ एम कही स्थानक गई रे ॥ म० ॥ गणिका गुणनुं पात्र हो
॥ ज० ॥ रत्नचूड मन चिंतवे रे ॥ म० ॥ कहुं हवे परदेशयात्र हो ॥ ज०
॥ ७ ॥ सत्यवचन करवुं सही रे ॥ म० ॥ एहनुं में धनहेत हो ॥ ज० ॥
धन आणी परदेशथी रे ॥ म० ॥ कहुं पूर्ण संकेत हो ॥ ज० ॥ ८ ॥
घर आव्यो रत्नचूडजी रे ॥ म० ॥ मन धरतो विपवाद हो ॥ ज० ॥
पूत्रे पिता आवी तदा रे ॥ म० ॥ धरतो मन आब्हाद हो ॥ ज० ॥
ए ॥ श्याम वदन केम ताहरुं रे ॥ म० ॥ दीसे कां दिलगीर हो ॥ ज० ॥
किस्ती अनुरति ताहरे रे ॥ म० ॥ तुं सुऊ मनडानो हीर हो ॥ ज० ॥
॥ १० ॥ तात जइण परदेशमां रे ॥ म० ॥ धन उपराजण काज हो
॥ ज० ॥ यौवनवय निज जनकनी रे ॥ म० ॥ क्रुद्धि नोगवतां लाज
हो ॥ ज० ॥ ११ ॥ कहे रत्नाकर वत्स तुं रे ॥ म० ॥ नानडियो सुकृ
मार हो ॥ ज० ॥ केम परदेशें एकजो रे ॥ म० ॥ में मोकलाये बाल
हो ॥ ज० ॥ १२ ॥ वत्स विलसो सुख मंदिरे रे ॥ म० ॥ नित्य नवला

ए जोग हो ॥ ज० ॥ बेठां तुज केम उपन्यो रे ॥ म० ॥ परदेशों ज
वानो रोग हो ॥ ज० ॥ १३ ॥ विषमपंथ परदेशनो रे ॥ म० ॥ इंडिय
वश होय जास हो ॥ ज० ॥ नारी लालचें नवि पडे रे ॥ म० ॥ बोले वचन
विमास हो ॥ ज० ॥ १४ ॥ ते परदेशों संचरे रे ॥ म० ॥ वत्स ए ड
प्कर वात हो ॥ ज० ॥ रत्नचूड कहे माहरो रे ॥ म० ॥ न चले नि
श्रय तात हो ॥ ज० ॥ १५ ॥ डव्य लहू लेइ तातनुं रे ॥ म० ॥ उधारे
परदेश हो ॥ ज० ॥ चाले करियाणुं ग्रही रे ॥ म० ॥ कोइक वाहण
बैसि हो ॥ ज० ॥ १६ ॥ श्रेठ शीखामण दे घणी रे ॥ म० ॥ वत्स रहेजो
हुशियार हो ॥ ज० ॥ पुर अनीति मत जायजो रे ॥ म० ॥ ज्यां नहिं न्याय
विचार हो ॥ ज० ॥ १७ ॥ तिहां नृपति अन्याय ठे रे ॥ म० ॥ अवि
चारित प्रधान हो ॥ ज० ॥ सर्वग्राह्य आरहूको रे ॥ म० ॥ लहे नृ
पनुं बहुमान हो ॥ ज० ॥ १८ ॥ नाम अशांति पुरोहितो रे ॥ म० ॥
गृहितनहूक श्रेठ हो ॥ ज० ॥ मूल नाश सुत तेहनो रे ॥ म० ॥ नय
रमांहे बहु वेठ हो ॥ ज० ॥ १९ ॥ रणघंटा गणिका तिहां रे ॥ म० ॥
थमघंटा तस माय हो ॥ ज० ॥ द्यूतकार चोरादिका रे ॥ म० ॥ बहु
निवसे दुःखदाय हो ॥ ज० ॥ २० ॥ लोक वसे तिहां अति घणां रे
॥ म० ॥ उंचा जस आवास हो ॥ ज० ॥ जे अजाण जाये तिहां रे
॥ म० ॥ पाडे तेहने पास हो ॥ ज० ॥ २१ ॥ एवुं अनीतिपुर मूकीने
रे ॥ म० ॥ करजो सुखें व्यवसाय हो ॥ ज० ॥ जनक शीखामण चित्त
धरी रे ॥ म० ॥ चाब्यो ते सुसहाय हो ॥ ज० ॥ २२ ॥ शकुन नलां थयां
तेहने रे ॥ म० ॥ वेठां प्रवहण तेह हो ॥ ज० ॥ चाब्या जलनिधिमां
सुखें रे ॥ म० ॥ धरता हर्ष अठेह हो ॥ ज० ॥ २३ ॥ धीवर इहित
द्वीपने रे ॥ म० ॥ चलव्यां पण ते वाय हो ॥ ज० ॥ जोरावर नवित
व्यता रे ॥ म० ॥ आव्या अनीतिपुर ठाय हो ॥ ज० ॥ २४ ॥ पोत
देखी ते आवतुं रे ॥ म० ॥ हरख्यां सघलां लोक हो ॥ ज० ॥ हेरि कोट
कंची करी रे ॥ म० ॥ रविदरिसण जेम कोक हो ॥ ज० ॥ २५ ॥ हवे न
वियण तुम्हें सांजलो रे ॥ म० ॥ ए संबंध रसाज हो ॥ ज० ॥ ठठे उग
णपञ्चास रे ॥ म० ॥ राम कहे उजमाल हो ॥ ज० ॥ २६ ॥ १९१० ॥ ८४ ॥

॥ दोहा ॥

॥ बंदरकांठे नांगखुं, वाहण तेणी वार ॥ कोइक नरने पूठीयुं, द्वीप
नयर आचार ॥ १ ॥ चित्रकूट ए द्वीप ठे, पूर्वोदित अनिधान ॥ न
गरादिकनुं दाखव्युं, चमक्यो सुणी सुजाण ॥ २ ॥ अहो अजाण्यो
आज हुं, आव्यो एणें ठाम ॥ जिहां जनकें वाख्यो हतो, न थयुं चिंतित
काम ॥ ३ ॥ पण मुज एक आधार ठे, रे शकुनपवन अनुकूल ॥ मन
उत्साह तेम माहरो, शुं करजो प्रतिकूल ॥ ४ ॥ शोच किस्यो करवो
हवे, याज्ञे सघलुं इष्ट ॥ पुण्यदशा जव पाधरी, दूरें टले अनिष्ट ॥ ५ ॥
एम धीरज मनमां धरी, उतरिया तेणी वार ॥ रत्नचूड वेलातटें, करे
निवास उदार ॥ ६ ॥ जाम उताखां यानथी, दिये शुल्क धन तास ॥ राज
पंचकुलने तिहां, रत्नचूड सुविलास ॥ ७ ॥

॥ ढाल पञ्चासमी ॥

॥ जोरावर हाडाना गीतनी देशी ॥ तिण अवसर तेणि गाय रे, पुरमांथी
आया, धन काज उमाह्या, चारे सम जाया, निगुणा दुःखदाया, आवीने उजा
रे चारे वाणीया रे ॥ १ ॥ पूढे कुशल हेम वात रे, जाइ जलें आव्या, देखी
सुख पाव्या, साजनजी सोहाव्या, कहोने शुं लाव्या, लावो रे करियाणुं
ते लेखुं अम्हें रे ॥ २ ॥ निसुणी एहवी वात रे, हरख्यो मनमांहे, चिंते
रे उत्साहें, दीसे ए शाहें, कूडी नहिं प्राहें, मुझा रे दीसे ठे शाहुकारनी
रे ॥ ३ ॥ कहे धूर्त ते चार रे, वाहालेसर मोरा, करीयें तेंयें निहोरा, मुण
साजन ठोरा, करियाणां तोरां, लेखुं रे रंगेंशुं सघलांही अम्हें रे ॥ ४ ॥
देखुं एहनुं मूल रे, जेखुं तमने गमज्ञे, दारिद्र निगमज्ञे, आरति सवि सम
ज्ञे, वांठित सवि सरज्ञे, देखुं रे जरी वाहण जे कहेशो तेंणें रे ॥ ५ ॥
आप्यो सघलो माल रे, लेइने ते चाव्या, मनमांहे माव्या, रंगेंशुं रेल्या,
आव्या पुर तेल्या, माल वहेंची ने घेरे लइ गया रे ॥ ६ ॥ हवे रत्नचूड कु
मार रे, मन धरी आनंदा, देखे नरवृंदा, मुख पूनमचंदा, साजन मुख
कंदा, आवे रे नयरीनो नरपति जेटवा रे ॥ ७ ॥ विचमांहे कारुक एक रे,
सहामो तस आयो, धींगड मल्ल धायो, प्रणमी कहे पायो, कुंवरजी
लायो, अवन तुमारे काजें पाडुका रे ॥ ८ ॥ देवरावी तंत्रोल रे, कहे
कुंवर रंगें, मनने उठरंगें, निसुणो एकंगें, जाणो ए अचंगें, करीश खुशाल

हुं जातां तुऊने रे ॥ ए ॥ आगल चाव्यो कुमार रे, कोइ सहामो आव्यो,
 धूरतमां चावो, काणे कखो दावो, मुऊ लोचन लावो, सहसमाटें रे
 सौप्युं तहारां बापने रे ॥ १० ॥ एम कही आप्युं धन तास रे, हियडामां
 चिंते, कुंवर एकांतें, बोले ए संतें, गिरुठ गुणवंतें, चांखे रे आवासें
 लेवा आवजो रे ॥ ११ ॥ आगल जातां चार रे, व्यंसक वलि मलिया,
 बोले जल फलिया, मांहोमांहे जलिया, कुंवर सांजलिया, वात करे रे
 वाद तणी तिहां रे ॥ १२ ॥ एक कहे समुडनुं नीर रे, गंगाना कणीया,
 ए ठे अणंगणिया, बुद्धिमंत बहु जणिया, तेणें न जाये गणिया, पण
 न गणीजें रे वनिताहृदयने रे ॥ १३ ॥ बीजो बोले उक्ति रे, एहवी ए
 चांखी, हियडामां राखी, सुणजो सहु साखी, कामित आंकांखी, ग्रंथनें
 नारी हृदय न को लहे रे ॥ १४ ॥ त्रीजो बोले ताम रे, कपटी सिरदार,
 वयणां निर्धार, खोटां न लगार, जाणे ए सार, शुक्र गुरुनी सरिखो
 बुद्धेजे हुवे रे ॥ १५ ॥ चोथो बोले ठेक रे, परदेशथी आयो, मोरे
 मन जायो, बालक ए कहायो, सूधो ठे माह्यो, जाणे रे सघली ए सुजा
 वित वारता रे ॥ १६ ॥ बोव्यो अन्य तब दूरें रे, ए गंगा दीसे, मंनहुं
 केम हीसे, साचुं कहीसें, माह्यो जाणीसें, मान करावो रे सायर जल
 तणुं रे ॥ १७ ॥ एम कखो तेणें हठवाड रे, उजम उपायो, न रह्यो मन
 साह्यो, अमर्ष मन आयो, ना एम न कहायो, कुंवर तेणें रे वात अंगी
 करी रे ॥ १८ ॥ सायर जलतणुं मान रे, अमने करि आपो, तुमें बोल ए
 थापो, संशयने कापो, अम धन तुम दापो, नहिंतर लेशुं रे ताहरी संपदा
 रे ॥ १९ ॥ एम कही लीये तस बोल रे, ताली त्रण दीधी, प्रतिज्ञा कीधी,
 कारिज थइ सिद्धि, जुवो उग डुबुद्धि, चाव्यो तें तिहांथी कुंवर आगलें रे
 ॥ २० ॥ चिंते मनमां एम रे, सहु ए उग दीठा, हियडाना मीठा, मु
 हडाना मीठा, लागे ए अनीठा, माहरे रे जनकें ए कहिया तेहवा रे
 ॥ २१ ॥ ए कारिज निर्वाह रे, कहोने केम करणुं, कोने जइ कहेणुं, उ
 त्तर श्यो देणुं, यश केम इहां लहेणुं, चिंते रे चित्तमांहे रत्नचूड एहवुं रे
 ॥ २२ ॥ चिंते एक उपाय रे, गणिका घरे जाउं, बुद्धि कोइ उपाउं,
 जेम सुखीयो थाउं, माणसमां आउं, इस्युं त्रिमासी गयो गणिकाघरे रे
 ॥ २३ ॥ ठठे पच्चासमी ढाल रे, जवियण सांजलजो, कूडुं मंत लवजो, उग बुद्धि

म धरजो, हियडामां मरजो, हुं बलिहारी रे जाउं तेहनी रे ॥१४॥१९४॥
॥ दोहा ॥

॥ रत्नचूड गणिका धरे, आवी ऊजो जाम ॥ रणघंटा ऊजी थइ, आ
दर दीधो ताम ॥ १ ॥ गौरव सहित जमाडियो, देई बहु सन्मान ॥ वात
करे ते प्रेमनी, प्रमदा गुणनी खाण ॥ २ ॥ संध्या काल थयो तदा,
सखर विठावी सेज ॥ सार शृंगार जला कीया, गणिकायें धरि हेज
॥ ३ ॥ मन खोलीने प्रेमनी, करवा लागी वात ॥ मन पाखें उत्तर दीये,
रत्नसार अंगजात ॥ ४ ॥ चिंतायें न गमे किसी, मीठी पण कोइ वात ॥
जेम तावीला पुरुपने, लागे कटुक निवात ॥ ५ ॥ श्रेष्ठ सुणो एणिपरें जणो,
पूहुं तमने एक ॥ ए विवादनी उपरें, कहो उत्तर मुऊ ठेक ॥ ६ ॥ ए
निर्वाह थया विना, न गमे रंगविलास ॥ प्रेम धरी मुऊने तुम्हें, बुद्धि
कहो सुविलास ॥ ७ ॥ तव बोले गणिका तिहां, सांजल चतुर सुजा
ण ॥ देवयोग इण बंदरें, आवे कोइ अजाण ॥ ८ ॥ सर्व मली ए तेह
ना, ले वंचीने दाम ॥ एक अंश ते इव्यनो, पहोंचाडे नृपधाम ॥ ९ ॥
बीजो जाग प्रधाननो, श्रेष्ठनो बीजो अंश ॥ चौथो आरहक तणो, अधि
कारी निस्त्रिंश ॥ १० ॥ लीयें पुरोहित पांचमो, ठणे महारी माय ॥ मति
पूठण ते आगलें, सहु आवे चित्त लाय ॥ ११ ॥ ते माटे तुमने तिहां,
तेडी जावं आज ॥ सांजलजो तुमें चित्त धरी, सहेजें सरजो काज ॥१२॥
॥ ढाल एकावनमी ॥

॥ उचुं देहसुं आदिनाथनुं रे जोजो ॥ ए देशी ॥ रणघंटा कहे ते
हने रे आवो, करी नारीनुं रूप ॥ मोरा साहेवा रे ॥ काम सबल ए बुद्धिनुं
रे जोजो ॥ ए आंकणी ॥ थइ नारी गयो तेहने रे जोजो, केडें ते न
वल स्वरूप ॥ मोरा साहेवा रे ॥ का० ॥ १ ॥ करी प्रणाम अक्का जणी
रे जोजो, पासें वेठी तेह ॥ मो० ॥ पूठे तेहने ताहरी रे केडें, कोण ए
रूपनुं गेह ॥ मो० ॥ २ ॥ ते कहे श्रीदत्तश्रेष्ठनी रे माता, रूपवती कना
एह ॥ मो० ॥ एह सही ठे माहरी रे माता, एहसुं निविड सनेह ॥
मो० ॥ ३ ॥ एक वार एहने मव्या विना रे माता, कल न पडे मुऊ
काय ॥ मो० ॥ ए पण वेठी मंदिरें रे माता, अहांनिश मुऊ गुण गाय
॥ मो० ॥ ४ ॥ इमणां ए सिप करी मुऊने रे माता, मलवा थावी

एणी वार ॥ मो० ॥ तेडी लावी एहने रे माता, ए ठे मुज आधार ॥
 मो० ॥ ५ ॥ एहवे वणिक ते आवियो रे जोजो, प्रणमे अक्का पाय
 ॥ मो० ॥ वात कही रत्नचूडनी रे जोजो, धुरिहंती समजाय ॥ मो० ॥
 ॥ ६ ॥ ग्रह्युं करियाणक एहनुं रे जोजो, अम्हे करी कूड उपाय ॥
 मो० ॥ कहे अक्का तुम अम्हमां रे जोजो, कोडी लाज न थाय ॥
 ॥ मो० ॥ ७ ॥ ते कहे केम अमने कहो रे जोजो, सा कहे जांख्युं
 आम ॥ मो० ॥ तुम चिंतित करियाण्युं रे जोजो, पूर्युं यान निकाम
 ॥ मो० ॥ ८ ॥ इहा अनेक प्रकारनी रे जोजो, कहेरो मशकने हाड ॥ मो० ॥
 पूरो ए प्रवहण माहरुं रे जोजो, तो केम पूरशो लाड ॥ मो० ॥ ९ ॥ चार
 वणिक तब बोलीया रे तेहने, एवडी किहांथी बुद्धि ॥ मो० ॥ कहे
 अक्का मत जाणजो रे जाइ, बाल माटे निर्बुद्धि ॥ मो० ॥ १० ॥ ए धूरत
 पुर आवियो रे होरो, तेह धूरत शिरदार ॥ मो० ॥ कोइक माथानो
 मिले रे नो हे, सयला एक प्रकार ॥ मो० ॥ ११ ॥ लाज थायजो तुम्ह
 ने रे जाई, तो होय मुजनें लाह ॥ मो० ॥ पण मनमांमम राखशो
 रे जाई, मनडामांहे चाह ॥ मो० ॥ १२ ॥ तेह गया निज मंदिरें रे आव्यो,
 कारुक दोडी ताम ॥ मो० ॥ विकसित मुख बोले हसी रे अक्का, आज
 थ्युं मुज काम ॥ मो० ॥ १३ ॥ आज व्यवहारी आवियो रे कोइ, नेट
 उपानह कीध ॥ मो० ॥ करिश खुशाल हुं तुजने रे तेणें, एहवुं वचन मुज
 दीध ॥ मो० ॥ १४ ॥ तस सर्वस्व लीधे सही रे थ्युं, हुं खुशाल दिल
 मांहे ॥ मो० ॥ ए कहेवाने आवियो रे पासें, तुमचे धरि उत्साह ॥
 मो० ॥ १५ ॥ कहे अक्का सुण कारुआ रे कीजें, मनोरथ आप समान
 ॥ मो० ॥ अजुगत एहवुं मागतां रे माथे, पडरो ताहरे उपान ॥ मो०
 ॥ १६ ॥ कहेरो ए नरिंदने रे हूउं, मंदिरमां सुत आज ॥ मो० ॥ तुं खु
 शाल किंवा नहीं रे त्यारें, आफरडो आवीश वाज ॥ मो० ॥ १७ ॥
 ते पण सुणि विलखो थइ रे पाठो, आव्यो निज घरवार ॥ मो० ॥ धू
 रत एकदृग आवियो रे करतो, आपणो गुण विस्तार ॥ मो० ॥ १८ ॥
 यमघंटा बोली हसी रे कूडी, ताहरी शी ए बुद्धि ॥ मो० ॥ आगलथी
 धन आपीयुं रे मातुं, कीधुं किहां गइ शुद्धि ॥ मो० ॥ १९ ॥ कहे तस धन
 लेवा तणो रे ए में, कीधो सत्यंकार ॥ मो० ॥ कहे अक्का इण वातथी रे व

हेजो, याइश सही तुं खुवार ॥ मो० ॥ १० ॥ अन्य लोचन अथवा किसी
 रे तेहवी, वस्तु देखाडशे तुऊ ॥ मो० ॥ तुं मति केलविने तदा रे तेहने,
 कहिश नहिं ए मुऊ ॥ मो० ॥ ११ ॥ कहेशे ते तोलन यंत्रधीरे लेइ,
 तुऊ लोचनगुं तोलि ॥ मो० ॥ सरिखुं थाय तो ताहरुं रे लेजो, श्यो तव
 उत्तर बोल ॥ मो० ॥ १२ ॥ कहे कितव तुम एहवुं रे सूजे, नहिं तस
 बोलण आय ॥ मो० ॥ तेमाटें धन एहनुं रे माहरे, हाथे आवाप्राय
 ॥ मो० ॥ १३ ॥ ते पण उठीने गयो रे आवा, व्यंतक ते वली चार
 ॥ मो० ॥ कहेवा लाग्या आपणी रे आवी, वात सकल विस्तार ॥ मो०
 ॥ १४ ॥ कहे अक्का तुम वातमां रे कांइ, देखुं नहीं सकार ॥ मो० ॥ ते
 बुद्धिमंतनी आगजें रे कांइ, नहिं तुम जोर लगाव ॥ मो० ॥ १५ ॥ कहेशे सा
 थर नीरनुं रे माहरे, करवुं सहि परिमाण ॥ मो० ॥ पण नदीयोनां नीरने
 रे जाइ, करो अलगुं तुमें जाण ॥ मो० ॥ १६ ॥ ते नहिं थाये तुम्हथी रे
 त्यारें, खोशो घरनी आय ॥ मो० ॥ खोटो विचार न कीजियें रे जेहथी,
 न रहे शरम निजहाथ ॥ मो० ॥ १७ ॥ ते पण उठीने गया रे ह
 रव्यो, शैठनंदन गुणवंत ॥ मो० ॥ ठठे एकावनमी जणी रे जोजो,
 बुद्धिवलियो बलवंत ॥ मो० ॥ १८ ॥ सर्व गाथा ॥ १९८१ ॥ श्लोक ॥ ८७ ॥

॥ दोहा ॥

॥ रणघंटागुं उठीयो, शैठ नंदन गुणखाणि ॥ तस मंदिरमां आवियो,
 करतो तास वखाण ॥ १ ॥ लेइ अनुमति तेहनी, आव्यो निज आवास ॥
 अक्का कथित उपायथी, कारिज करे उल्लास ॥ २ ॥ चांमयाही चणिजो
 बकी, लीधुं धन चउ लह ॥ वारिधि जल मितकारथी, तावत वली प्रत्य
 ह ॥ ३ ॥ तिण व्यतिकरथी ते हुउं, पुरमांहे परसिइ ॥ अन्यदिवस
 लेइ चेटणुं, गयो नरपतिनें सविइ ॥ ४ ॥ करि प्रणाम कनो रह्यो, पूठे
 नृप वृत्तांत ॥ रत्नचूम मांमी कह्यो, सघजो ते अवदात ॥ ५ ॥ नरपति
 मन चिंते इस्युं, अद्भुत एहनुं नाग्य ॥ उग अम नगरीलोकने, जेणें ठ
 गिया ए काग ॥ ६ ॥ माग माग राजा कहे, थयो तुऊ ऊपर तुष्ट ॥ बु
 धिमंत तुऊ देखिने, थइ मुऊ मनसुख पुष्टि ॥ ७ ॥ रणघंटा मुऊने दियो,
 प्राणवहना थाय ॥ राजहुकमथी गेहिनी, थइ गणिका सुखदाय ॥ ८ ॥
 वत्ताचरण दीधां वणां, पूरी मननी रुदांड ॥ रणघंटानां रंगगुं, पूछां सघलां

लाम ॥ ए ॥ लान अयो बहु तेहने, जरि करियाणें यान ॥ रत्नचूड निज
पुर जणी, चाढ्यो सुगुणनिधान ॥ १० ॥ थोडे दिवसें आवियो, रत्नचूड
निजगेह ॥ रत्नाकर हरख्यो घणुं, सुत रुद्रि देखि अबेह ॥ ११ ॥ प्रणमे
चरण पिता तणां, माताना वली पाय ॥ सुत जीवो युग कोडि जगें, ये
आशीप पसाय ॥ १२ ॥ मांमीने सघळुं कळुं, निजवृत्तांत अशेष ॥
रत्नाकरना हृदयमां, हर्षे अयो सुविशेष ॥ १३ ॥ ईषत् तस गुणवर्णना,
पिता करे तेणि वार ॥ पुत्रप्रशंसा नवि करे, गुरुजन एम व्यवहार
॥ १४ ॥ यतः ॥ प्रत्यहे गुरुवः स्तुत्याः, परोक्ते मित्रबांधवाः ॥ कर्माते
दासनृत्याश्च, पुत्रा नैव मृताः स्त्रियः ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ आव्यां घणां वधा
मणां, साजन हर्षे अपार ॥ पुत्र पिता वेहू मळ्या, वरत्यो जय जयकार
॥ १५ ॥ आवी सौजाग्यमंजरी, तस देखणने काज ॥ रत्नचूड आसन
ठवी, बहुत वधारी लाज ॥ १६ ॥ नडे तुज उपदेशथी, उपराजी बहु
रुद्रि ॥ जइ परदेश कमाश्यो, अइ मुज कारिज सिद्धि ॥ १७ ॥

॥ ढाल बावनमी ॥

॥ कंसार ते सूधो केळव्यो ॥ ए देशी ॥ सौजाग्यमंजरी कहे एहबुं,
तुम जाग्य हतुं अयुं तेहबुं ॥ तुम शोना आवी अति जली, तुम कीर्ति
वाधी कजली ॥ १ ॥ तुम ऊपर मोही हुं घणुं, तुम गुणसमुदाय केता
जणुं ॥ प्राण जीवन तुम एक माहरे, गृहिणी आइश घर ताहरे ॥ २ ॥
लेइ नेढ्यो उपायन नूपति, घणुं रीज्यो देखि तेहनी रति ॥ हर्षित नृ
पनी आणा वरी, घर राखी सौजाग्यमंजरी ॥ ३ ॥ धन आप्युं पितानुं मूलगुं,
कर जोडी अइ रह्यो उलगुं ॥ जुज उपराज्युं इव्य वावरे, बहु त्याग ने
जोग समाचरे ॥ ४ ॥ अन्य पण परणी तेणें कामिनी, गुणवंती जे गज
गामिनी ॥ करे पुण्यनां काम ते अति घणां, जिनचैत्य करावे सोहा
मणां ॥ ५ ॥ विजसे रूडी जोगसंपदा, सुहणामांहे नहिं आपदा ॥
सुखमांहे काल गयो घणो, यश चावो चिहुं दिशि तेह तणो ॥ ६ ॥
एक दिवस मुनीश्वर आविया, शम दमवंता समजाविया ॥ रत्नचूडे
जई मुनि वंदिया, गुरुदेशना सुणी आनंदिया ॥ ७ ॥ लीये संयम मुनि
वरजी कने, पाले निरतिचार रूडे मनें ॥ करे किरिया मुनिवर निर्मली,
शुद्धनाव सहित मननी रली ॥ ८ ॥ अंतें ते अणसण आदरी, सुर

लोकनी लीला तेणें वरी ॥ पद पाम्या माहानंद अनुक्रमें, धन्य ते जे
 एहवा मुनि नमे ॥ ए ॥ हवे निसुणो उपनय ए सही, अर्च्यंतरनी
 वातो कही ॥ कुल उत्तम मानव नव लह्यो, नविजीव वणिकनो सुत
 कह्यो ॥ १० ॥ हितकारक श्रीगुरु जाणीयें, ते तेहनो तात वखाणीयें ॥
 श्रद्धादि जनित प्रोस्ताहना, ते वेश्यावचन निदाननां ॥ ११ ॥ पुण्य
 लक्ष्मी उपचयकारिणी, आगल पण नवजल तारिणी ॥ मूलद्रव्य चा
 रित्र गुरुयें दियुं, ते राखे ठेकाणें सहजीयुं ॥ १२ ॥ पुर वाखुं अनीतिनुं
 जे तदा, गुरु सारण वारण दे मुदा ॥ संयम प्रवहण ऊपम लही, नव
 सायर तरवो ठे सही ॥ १३ ॥ कर्णधारक तुल्य विमलमत्ता, साधर्मिक
 साथ तपोधना ॥ नवित्तव्य नियोगाच जाणीयें, प्रमाद जे ह्यमां आ
 णीयें ॥ १४ ॥ पुर पाम्युं अनीतिना नामनुं, कुप्रवृत्तितणुं जे प्रवर्तनु ॥
 मोहनूपति नाम अन्यायीयो, पुरमां सघले जे गाड्यो ॥ १५ ॥ जांमग्राहि
 वणिक सम जांखिया, चार डुष्ट कपाय ते राखिया ॥ हरे ड्रव्यविवेक
 ते पापीया, एणें लोक घणा संतापीया ॥ १६ ॥ विपयाशा हो वेश्या
 सम कही, तेहने जाय मले जीवडो सही ॥ कर्मपरिणति अक्का अति
 नली, गुणमतिदायक कृत पूर्वली ॥ १७ ॥ उलंधी अगुण सवि ते
 ह्यथी, प्राणी मलियो निजगेह्यथी ॥ धर्ममारगमां फरि आवियो, जन्म
 नूमिपरें सुख पामियो ॥ १८ ॥ एह उपनय दिलमांहे धारीयें, गुण
 आदरी अवगुण वारियें ॥ कीजें धर्मनुं कारिज धसमसी, धन्य वात ए
 जेहने मन वसी ॥ १९ ॥ चक्रायुध गणधर उपदिस्यो, श्रीसंघतणा
 दिलमां वस्यो ॥ ए उपनय दिलमां राखजो, नवि अनुनव स्वादने चाखजो
 ॥ २० ॥ वाचनमी ढाल ठेके सुणी, अंतर उपनय दाख्यो मुनि ॥ कहे गम
 विजय सहु सांजलो, नवि धर्म करो तजि आमलो ॥ २१ ॥ २०१९ ॥ ७७ ॥

॥ दोहा ॥

॥ दीधी गणधर देशना, सामाचारी सार ॥ साधुने सवि दाखवी,
 जेह्यथी नवनिस्तार ॥ १ ॥ विविरकल्प प्रकाशियो, श्रुत केवली जग
 वान ॥ श्रीचक्रायुध गणधरु, नविकज सूर समान ॥ २ ॥ प्रभु विचरें पु
 हवीतले, पद धरता कज हेम ॥ सुर नर कोडें परिवखा, वरत्युं जगमां
 हेम ॥ ३ ॥ केडक दीहा आदरे, केड ग्रहे आवकधर्म ॥ नडकपरिणा

मी थया, केशक तजी विकर्म ॥ ४ ॥ तम नातुं सवि जगतनुं, जग्यो जि
नवर जाण ॥ कौशिक जिम एक अजव्यने, न थयुं कांइ कव्याण ॥ ५ ॥
अग्रियें पण सीजे नहिं, जे करडू कण होय ॥ तेम अजव्यने तारवा, सम
रथ नहिं जिन कोय ॥ ६ ॥ उपर नूमि न नीपजे, जेम जगमां कांइ
धान्य ॥ बोधि न होय अजव्यने, तेम जिनदेशन वाणि ॥ ७ ॥ अति
शयवंत माहामुनि, महागोप अजिधान ॥ गुण अनंत जिनवरतणा,
कुण कही शके सुजाण ॥ ८ ॥

॥ ढाल त्रेपनमी ॥

॥ त्रिपदीनी देशी ॥ चोत्रीश अतिशयवंत मुणिंद, महीमंमल विचरे
जिनचंद, नवियण मन आनंद तो ॥ १ ॥ जयो जयो नवियण मन आणंद
॥ ए आंकणी ॥ स्वेद मल रोग रहित प्रचु अंग, श्वास पद्मगंध होय सुचंग,
मांस रुधिर सितरंग तो ॥ जयो ० ॥ २ ॥ नवि देखे आहारनीहार, अति
शय जन्म तणा ए चार, होवे अंग मजार तो ॥ ज ० ॥ ३ ॥ योजन नूमि
सुर नर तिरि कोड, वेसे निराकुल मननें कोड, कुण करे एहनी होड तो
॥ ज ० ॥ ४ ॥ सहु समजे योजन लगे वाणी, जलके नामंमल नीशाणी,
श्रीजिनगुणनी खाणि तो ॥ ज ० ॥ ५ ॥ पंचशत कोश लगें छुर्निह, रोग
वैर ईति मारी प्रत्यह, अति वर्षण ने अवर्ष तो ॥ ज ० ॥ ६ ॥ स्वपर चक्र
नय बोल ए आठ ॥ न हुवे ए आगमनो पाठ, एम अग्यारनो ठाठ तो ॥ ज ०
॥ ७ ॥ घातिकर्मह्यथी ए अग्यार, हवे देवकृत उंगणीश विचार, सुणियें नवि
निर्धार तो ॥ ज ० ॥ ८ ॥ धर्मचक्र प्रचु आगल सोहे, चामरयुग नविजन
मन मोहे, मणि सिंहासन जोय तो ॥ ज ० ॥ ९ ॥ ठत्रत्रय इंध्वज प्रवर,
हेमकमल विरचे तिहां सुरवर, त्रिहु गढ अतिहि मनोहर तो ॥ ज ०
॥ १० ॥ चउमुह रचना धर्म प्रकास, चेश्यतरु दीठे उल्लास, अधो होय कंटक
आस्य तो ॥ ज ० ॥ ११ ॥ तरु नमन छुंछुनि ध्वनि सारी, पृष्ठानुपाती पव
न निर्धारी, अतिशय गुण बलिहारी तो ॥ ज ० ॥ १२ ॥ पंखी पण प्र
दक्षिणा दिंती, गंध जलवृष्टि तिहां कणे हुंती, कुसुमवृष्टि विरचंती तो ॥
ज ० ॥ १३ ॥ व्रत लीधे नवि वाधे केश, जघन्यथकी सुरकोटि प्रवेश, क
तु अनुकूल अशेष तो ॥ ज ० ॥ १४ ॥ ए उंगणीश अतिशय सुर कीधा,
एम चोत्रीश थया परसिद्धा, सधला कारिज सिद्धां तो ॥ ज ० ॥ १५ ॥

गुण अर्नंत जिनजीना दीसे, जोतां नवियणनां मन हिंसे, दिन दिन
 चहती जगीश तो ॥ ज० ॥ १६ ॥ अतिशय गुण जिनजीना जेह, जिन
 विण बीजो न लहे तेह, महिमा अतुल अठेह तो ॥ ज० ॥ १७ ॥ विच
 रे महि अचिरानो जायो, चोसठ इंई मली गुण गायो, त्रिचुवनजन म
 न जायो तो ॥ ज० ॥ १८ ॥ चक्रायुध गणधर प्रचुसाथ, सेवे प्रचुने
 जोडी हाथ, जय शिवपुरना साथ तो ॥ ज० ॥ १९ ॥ जाणत पण पूठे
 कर जोडी, गणधर प्रचुजीने मद मोडी, पहाँचे नवियण कोडि तो ॥
 ज० ॥ २० ॥ ठठे खंमं त्रेपनमी ढाल, शांतिप्रचु अतिशय गुणमाल, नवि
 यण सुणो उजमाल तो ॥ ज० ॥ २१ ॥ सर्वगाथा ॥ २०४८ ॥ ८८ ॥

॥ दोहा ॥

॥ विश्वसेन कुलचंद्रलो, अचिरा मात मब्हार ॥ सोलम जिन त्रिचुवन
 धणी, नोधारा आधार ॥ १ ॥ नक्तवत्सल जावठ हरण, सेवकजन सा
 धार ॥ करुणारस सायर प्रचु, कहं तेहनो परिवार ॥ २ ॥

॥ ढाल चोपनमी ॥

॥ केवलीने मुख सांजली ॥ ए देशी ॥ नवियण वंदो रे जावणं, प्रचुनो
 परिवारो रे ॥ गुणवंतजीना गुण स्तब्ये, लहियें नवजल पारो रे ॥ नवियण
 वंदो रे जावणं ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ गुण सत्त्याविश शोचता, शमरस नं
 मारो रे ॥ प्रचुजीना मुनिवर नमुं, वासठ हजारो रे ॥ ज० ॥ २ ॥ एकसठ
 सहस गुणें नरी, पद्मशत अधिकेरी रे ॥ हस्तदीक्षित नमुं साधवी, गुणशील
 नलेरी रे ॥ ज० ॥ ३ ॥ शुद्ध समकित गुणधारका, वारे व्रत पाले रे ॥ न
 चले चलाव्या धर्मथी, व्रत दूषण टाले रे ॥ ज० ॥ ४ ॥ रागें रंगाणा ध
 र्मने, जिनधर्म ए जाणे रे ॥ सार ए अवर असार ठे, न रुगे कोई टाणे
 रे ॥ ज० ॥ ५ ॥ चउदश आठमने दिने, करे पोसह जावें रे ॥ शुद्ध अश
 नादिक साधुने, हणें पडिलाने रे ॥ ज० ॥ ६ ॥ शांतिप्रचुवाणी सुणी,
 सूया प्रतिवुद्धा रे ॥ साधुनी संगत मूकीने, न रहे ते जूदा रे ॥ ज० ॥ ७ ॥
 दौय जाख उपर वली, नेवुं सहस सुणीजें रे ॥ एहवा श्रावक जिन तणा,
 नित्य प्रत्यें समरीजें रे ॥ ज० ॥ ८ ॥ गुणवंती दुइ श्राविका, त्राण ला
 ख उदार रे ॥ त्राणुं सहस उपर वली, प्रणमो नर नारी रे ॥ ज० ॥
 ९ ॥ जिन नहिं पण जिन सारिखा, त्रिहु कालना ज्ञाता रे ॥ थाव सह

स श्रुत केवली, षट्कायना त्राता रे ॥ ज० ॥ १० ॥ जव संख्यात मनु
 प्यनां, रूपी इव्यने देखे रे ॥ अविज्ञानी मुनिवरा, त्रण सहसने लेखे रे
 ॥ ज० ॥ ११ ॥ समय क्षेत्रमांहे संज्ञिता, मनजावने जाणे रे ॥ मनःप
 र्यवनाणी मुनि, सहस चार वखाणे रे ॥ ज० ॥ १२ ॥ केवलज्ञानें
 जाणता, सहलोक अलोक रे ॥ चार सहस त्रणशें वली, वंदो गतशोकें
 रे ॥ ज० ॥ १३ ॥ वैक्रियलब्धिधरा जला, षट्सहस मुणिंद रे ॥ चार
 शें दोय सहस नमो, वादी आणंद रे ॥ ज० ॥ १४ ॥ ए परिवार जिणं
 दनो, कर जोडी जालें रे ॥ मुक्तिमार्ग साधे जलो, वंदो त्रिहु कालें रे ॥
 ज० ॥ १५ ॥ वैयावृत्य करे जलुं, सहलु विघ्न निवारे रे ॥ यद्द गरुड नामें ज
 लो, प्रभुसेवा सारे रे ॥ ज० ॥ १६ ॥ जक्त तणी सान्निध्य करे, निर्वाणी
 नामें रे ॥ शांति प्रभुशासन सुरी, समरो शुभकामें रे ॥ ज० ॥ १७ ॥
 मुख्य सहलुमांहे शिरें, चक्रायुध जात रे ॥ कोणाचल नृप स्वामीनी, करे सेव
 सुजात रे ॥ ज० ॥ १८ ॥ चालिश धनुपनी देहडी, मृगलांठन स्वामी रे ॥
 कांचनवर्ण तनु शोचतुं, प्रणमो शिर नामी रे ॥ ज० ॥ १९ ॥ अप्रति
 रूप जिणंदनुं, वपु सुंदर दीपे रे ॥ एक मनें अवलोकतां, सवि पातक
 ठीपे रे ॥ ज० ॥ २० ॥ सुवनत्रय प्रभुता तणां, सूचक उत्किठां रे ॥
 अथ अशोकादिक तणां, प्रातिहारज दीठां रे ॥ ज० ॥ २१ ॥ यतः ॥
 अशोकवृक्षः सुरपुष्पवृष्टिर्दिव्यध्वनिश्रामरमासनं च ॥ जामंदलं उंडु
 निरातपत्रं, सत्प्रातिहार्याणि जिनेश्वराणाम् ॥ १ ॥ पूर्वढाल ॥ एम प्रभु
 प्रभुता नोगवे, त्रिहुं जगत प्रतिपाल रे ॥ सहजसमाधिनी लीलमां,
 विचख्या बहु काल रे ॥ ज० ॥ २२ ॥ सौख्य अतींद्रियना धणी, वर
 ते समजावें रे ॥ साधक बाधकता मटी, सहजातम जावें रे ॥ ज० ॥
 २३ ॥ घट घट व्यापक जे विभु, अविकल अविनाशी रे ॥ परमातम प्रग
 टी कला, शुभ ज्योतिविलासी रे ॥ ज० ॥ २४ ॥ चोपनमी ए ढालमां, खंढ
 ठठे सुणीजें रे ॥ शांतिप्रभु पद सेवतां, जन्म सफल गणीजें रे ॥ ज० ॥ २५ ॥

॥ दोहा ॥

॥ वरिस पंचविंशति सहस, कुमरपणे जगदीश ॥ मात पिता आं
 गल रह्या, दिन दिन अधिक जगीश ॥ १ ॥ सामानिक राजापणुं,
 वरिस तेठलां जाण ॥ सुखलीला प्रभु नोगवी, अतिशय गुणमणि

खाण ॥ ३ ॥ सहस्र पंचविंशति वली, चक्रवर्त्तिपद जोग ॥ वरस
पंचोत्तेर सहस्र एम, रहिया प्रभु गृहयोग ॥ ३ ॥ पणवीस सहस्र वर
सज जगें, चारित्र पाव्युं सार ॥ वरस न्यून तेतां वरस, केवलीपणे उ
दार ॥ ४ ॥ वर्ष लक्ष एम आउखुं, जोगवियुं जिनराज ॥ हवे कहुं अधि
कार ते, जेम पाम्या शिवराज ॥ ५ ॥

॥ ढाल पंचावनमी ॥

॥ आपो आपोने राज, मोषां मूलां मोती ॥ ए देशी ॥ सेवो सेवोने
राज, शांतिजिनेश्वर स्वामी ॥ सोलम जिनवर सोलम सोवन, वरणे शिव
गतिगामी ॥ सेवो सेवोने राज ॥ शां० ॥ ए आंकणी ॥ जगगुरु जगजो
चन जगदीपक, जगतारण हितकारी ॥ जगजीवन जगबंधव जिनवर,
वंदो सवि नर नारी ॥ सेवो० ॥ १ ॥ निज निर्वाणसमय प्रभु जाणी,
बहु साधु परिवारें ॥ समेतशिखरें पथास्या प्रभुजी, आप तरे पर तारे ॥
सेवो० ॥ २ ॥ मनुं शिव चढवानी नीसरणी, समेतशिखर गिरिंदा ॥
आरोहे अलवेसर जिनवर, अधिरा राणीनंदा ॥ सेवो० ॥ ३ ॥ पद्मासन
पूरी परमेश्वर, वेठा ध्यान समाधि ॥ सुरवर समवसरण तिहां विरचे,
हेजगुं हियहुं वाधे ॥ से० ॥ ४ ॥ तिहां वेसी उपदेश दिये प्रभु, निचुणे
असुर सुरिंदा ॥ जाव अनित्य सकल जवमांहे, दीसे ए सवि फंदा ॥
से० ॥ ५ ॥ म म करशो ममता मनमांहे, सहु संबंधें मजियुं ॥ राखो
जवमांहे रोकनीने, कर्मकटक ए वजियुं ॥ सेवो० ॥ ६ ॥ तुं कुण घरनो
चेतन तहारी, समता सुंदरी नारी ॥ गुं लाग्यो ममता गणिकागुं, होय
रह्यो जीखारी ॥ से० ॥ ७ ॥ चेतन संग तजो ममतानो, करो मम
तागुं चारी ॥ जातें जाति मिले होय युगतुं, असरिस संग निवारी ॥
से० ॥ ८ ॥ काम करो कोइ एहहुं धारी, बंधनो हेतु निवारी ॥ जेम जव
स्थिति ठांमी अति चारी, वरीयें मुक्ति सुनारी ॥ से० ॥ ९ ॥ तव गणधर
गिरुठ गुणवंतो, चक्रायुध मद मोडी ॥ सिद्धस्वरूप कदो प्रभु मुज्जने, पूत्रे
बहु कर जोडी ॥ से० ॥ १० ॥ कहे प्रभु क्षेत्रयकी जोवंतां, लक्ष पणया
जिस मानें ॥ सिद्धशिखा पुढवी ठे उपर, उज्ज्वल कंचन वान ॥ से०
॥ ११ ॥ उत्तान उत्र तणें आकारें, समयक्षेत्र परिमाणें ॥ मध्यपिंम
आठ बोजन जेहनो, ज्ञानी विण कुण जाणे ॥ से० ॥ १२ ॥ माखी केरी

पांख तणी परें, तनु अंतें तें दीसे ॥ जांखे शांतिप्रभु निसुणीने, नविय
एनां मन हीसे ॥ से० ॥ १३ ॥ जे ऊपर योजन चोवीसम, जागें सिद्ध
विराजे ॥ ज्योतिशुं ज्योति मली परमातम, लील अनंती ठाजे ॥ से० ॥ १४ ॥
सिद्ध अनंत चतुष्टय प्रगट्युं, विरम्यो सकल उपाधि ॥ एक जेद पन्नर
उपचारें, सिद्ध नमो सुसमाधि ॥ से० ॥ १५ ॥ नहिं जिहां जन्म जरा
दिक दुःखडां, अनंत अतींद्रिय सुखडां ॥ निराकार निर्देन विलासी, सिद्ध
जपे शुचिसुखडां ॥ से० ॥ १६ ॥ सुग्ध लोक अनुमानें एहनी, उपमा
जग कहेवाय ॥ पण परमारथ सौख्य अतींद्रिय, केम पुजल जोडाय ॥
से० ॥ १७ ॥ जिम सांकेतपुरपति रिपुमर्दन, आण्यो पुलिंदने पुरमां ॥
उपकारी जाणीने हर्षें, राख्यो ते निज घरमां ॥ से० ॥ १८ ॥ उत्तम
अंशुक तस पहेराव्यां, आनूषण अति वारू ॥ मेवा मीठाई वरनोजन,
करतां थयो दीदारू ॥ से० ॥ १९ ॥ एक दिन वर्षाकालें विरहें, थयो
कामातुर गाढो ॥ वनमांहे रमतो क्रीडा करतो, सांज्यो निज आपाढो
॥ से० ॥ २० ॥ यामिकने वंचीने निशिमां, नग्न थई नीसरियो ॥ वनमांहे
आव्यो निज परिकरने, मलियो दुःख विसरियो ॥ से० ॥ २१ ॥ वर्ष
फिरे नवि ते उलखाणो, कोण तुं किहांथी आव्यो ॥ तें कहे हुं तुमचो
संवंधी, जेद सकल वतलाव्यो ॥ से० ॥ २२ ॥ ते पूठे कहेवां सुख दीगां,
ज्यो कीधो आहार ॥ ते कहे कहेणीमांहे न आवे, विण उपमा
निर्धार ॥ से० ॥ २३ ॥ तस प्रतीति ऊपमथी कहेवा, मांणी सुखनी
वात ॥ फल सुखाद कंदादिक जेहवी, मीठी मोदकजाति ॥ से० ॥
२४ ॥ शाट्यादिक नीवार सररीखां, में तिहां नदण कीधां ॥ गुंदी पत्रोपम
अति सुंदर, पत्र अशन प्रसिद्धां ॥ से० ॥ २५ ॥ शाट्मलिकंदोपम पूगी
फल, वसन ए वल्कल सरिसां ॥ पहेल्यां कुसुम तणी जेम माला, तेम
आनूषण सरसां ॥ से० ॥ २६ ॥ गिरिकंदरसम वर आवासें, वसियो हुं बहु
वेला ॥ तेम असार सुखशुं तेणी उपमा, दीधी तेणी वेला ॥ से० ॥ २७ ॥
एम सांसारिक लोकनी आगल, अमें शिवसुख वर्णवियें ॥ लोक तणे अनुमानें
पण ए, नवि कहेवाये न मवियें ॥ से० ॥ २८ ॥ काम जोग संवंधी जे सुख,
तेहथी दिव्य सुख महोदुं ॥ सिद्ध प्रभुने अनंतगणुं सुख, एह वयण नवि
खोटुं ॥ से० ॥ २९ ॥ ए सुखलीजा आगल नवनां, सुख सघलांही

फ्रीकां ॥ जात्यमणि आगल नवि शोने, तुब्ब असार अकीकां ॥ से० ॥
 ॥ ३० ॥ ठठे पंचावनमी ठालें, देशना दीधी जिणंढें ॥ रामविजय कहे
 अहोनिश दिलमां, धरियें मन आनंढें ॥ से० ॥ ३१ ॥ २१११ ॥ ७७ ॥
 ॥ दोहा ॥

॥ देई एणी परें देशना, ऊठ्या त्रिचुवनजाण ॥ शिखर चढ्या शिखरी
 तणे, जाणी निजनिर्वाण ॥ १ ॥ केवलज्ञानी साधुजी, नवशें साथ
 मुण्डं ॥ अणसण कियुं अरिहंतजी, एकमासिक सुखकंद ॥ २ ॥ सपरि
 वार सुरपति सवे, जगत प्रचुनी पास ॥ परम प्रीति संपन्न ते, करे सेवना
 खास ॥ ३ ॥ ज्येष्ठ श्याम तेरश दिने, जरणी उरु विधुयोग ॥ गुक्क चरम
 नेद ध्यावतां, लहे गुणठाण अयोगि ॥ ४ ॥ डुचरिम समय अयोगीने, करी
 वहोत्तरनो नाश ॥ चरम समय ते खेपवी, पहोता शिवपुरवास ॥ ५ ॥ समय
 पएसंतर वली, अण फरसीने ताम ॥ गति परिणामे पंचमी, गति लही त्रि
 चुवनस्वामि ॥ ६ ॥ अनुक्रमें साधु सवि तिहां, पाम्या परमानंद ॥ सिद्धपणुं
 पाम्या मुनि, मोडी नवचयफंद ॥ ७ ॥ नाथ थयो शिवनारीनो, जाणीने
 जगनाथ ॥ अश्रुजलाविल लोचनें, रुदन करे सुरनाथ ॥ ८ ॥ गुण
 संचारे स्वामीना, आब्यां हृदय जराय ॥ हा! प्रचु तुम विरहो पड्यो,
 कहो हवे केम खमाय ॥ ९ ॥ संशयतिमिर विनाशवा, हा! दिनकर
 उपमान ॥ अमने सूकी अनाथपरें, किहां गया हे जगवान! ॥ १० ॥
 सहु जापा संवादिनी, गाजत जेम घनमेह ॥ तुम विण कुण दइ देशना,
 हरजे अम संदेह ॥ ११ ॥ डुर्जिहादिक अशिव सवि, पीडाकर जग
 मांहे ॥ तस उपशम करजे कवण, तुम विणुं तिदुअणनाह ॥ १२ ॥
 काज तजी देवलोकनां, महियल आवी स्वाम ॥ करणुं कोनी चाकरी, तुम
 विणुं प्रचु गुणधाम ॥ १३ ॥ धरता एम मन खेदने, इंड सवे तेणि
 वार ॥ करे उत्सव निर्वाणनो, हवे निमुणो अधिकार ॥ १४ ॥

॥ ढाल ठप्पनमी ॥

॥ महारी सही रे समाणी ॥ ए देशी ॥ जिनवर मुक्तें पथाग्या जाणी,
 मन खेद धरे नविप्राणी रे ॥ प्रचु मुक्ति पथाग्या ॥ प्रचु जगजीवन जइ
 गिव वरिया, घया निरुपाधिक सुखदरिया रे ॥ प्र० ॥ १ ॥ पतित
 पावन परमात्म नामें, यइ वेठो अविचल धामें रे ॥ प्र० ॥ माग न

ले हवे सेवक केरी, रह्यो आपणने मोह घेरी रे ॥ प्र० ॥ ३ ॥ कुण
करज्ञो अम सार संजाल, प्रभु तुम विणुं दीनदयाल रे ॥ प्र० ॥ नक्त
वत्सल प्रभु नाम धरावी, उपगार करो प्रभु आवी रे ॥ प्र० ॥ ३ ॥ शुं
कहेवुं वीतरागने एह, जेहना मनमां नहिं नेह रे ॥ प्र० ॥ चार निकाय
तणा सुर मलिया, जिननक्ति करण जल फलिया रे ॥ प्र० ॥ ४ ॥
क्रीरोदधिनां हो नीर मगावी, पहेलां प्रभुने नवरावी रे ॥ प्र० ॥ गो
शीर्षि चंदन घसि रंगें, सुर लेप करे जिन अंगें रे ॥ प्र० ॥ ५ ॥ मुख म
हेली कर्पूर सुवास, पहेरावे देवडुष्य वास रे ॥ प्र० ॥ अगुरु उखेवे
नक्ति महमूर, पसरे तस परिमल पूर रे ॥ प्र० ॥ ६ ॥ मंदार पारिजा
तकसंतान, फूलें पूजे जगवान रे ॥ प्र० ॥ शिविका रयण तणी विर
चावे, प्रभुजी तनु तिहां पधरावे रे ॥ प्र० ॥ ७ ॥ इंद्रादिक शिविका ऊ
पाडे, नैरुत कूणे पहाँचाडे रे ॥ प्र० ॥ चंदनदारुचिता तिहां विरची,
प्रभुअंग धसुं तिहां अर्ची रे ॥ प्र० ॥ ८ ॥ अपर चिता अणगारने
हेतें, सुरें कीधी मननी प्रीतें रे ॥ प्र० ॥ अशिकुमार सुरें तिहां आवी,
मुखें अग्नि तिहां सलगावी रे ॥ प्र० ॥ ९ ॥ वायुकुमार विकूर्व्या वाय,
प्रजाली प्रभुनी काय रे ॥ प्र० ॥ दाधां शोणित मांसने जाणी, मेघ
सुर वरसावे पाणी ॥ प्र० ॥ १० ॥ चिताअनल शमियो तिण वेला,
सद्दु इंद्र थया तिहां जेला रे ॥ प्र० ॥ दक्षिण ऊर्ध्वदाढ सुचंगा, ग्रहे
पति सौधर्म सुरंगा रे ॥ प्र० ॥ ११ ॥ चमर अपर ग्रहे दक्षिण केरी,
दाढा धरी नक्ति घणोरी रे ॥ प्र० ॥ वाम दाढा अध उपर दोइ, ईशान
बलींइ ले सोइ रे ॥ प्र० ॥ १२ ॥ शेष अथवावीश दंत सुरिंदा, लिये
धरि मनमां आनंदा रे ॥ प्र० ॥ शेष अस्थि अनिमेष विचारी, लिये जा
वशुं करि एक तारी रे ॥ प्र० ॥ १३ ॥ विद्याधर नर ऊजा जोडें, चिता
नस्म ग्रहे मन कोडें रे ॥ प्र० ॥ सकल उपड्व टालणहारी, प्रभु न
क्तिनी जावं वलिहारी रे ॥ प्र० ॥ १४ ॥ एम संस्कार करी प्रभु अंगें,
करे धूप तिहां मनरंगें रे ॥ प्र० ॥ सोवन रयणनुं काम विराजे, दीठे
नवजावठ जांजे रे ॥ प्र० ॥ १५ ॥ ते ऊपर जिनपडिमा स्थापे, दरि
सणथी डुरितनें कापे रे ॥ प्र० ॥ केसर सुखडशुं जे पूजे सवि, अगुन
कर्म तस धूजे रे ॥ प्र० ॥ १६ ॥ नक्ति करे जिनपडिमाणी सारी, ज

गमां धन्य ते नर नारी रे ॥ प्र० ॥ करी निर्वाणमहोत्सव महाव्या,
 नंदीश्वरं यात्रायें चाव्या रे ॥ प्र० ॥ १७ ॥ करि जिनचक्ति तिहां जले
 जावें, कर जोडी जिनगुण गावे रे ॥ प्र० ॥ वावन प्रासादें जिनराया,
 पूजी करे निर्मल काया रे ॥ प्र० ॥ १८ ॥ प्रचुगुणज्ञानमां तान व
 नावी, वणी वार त्यां जावना जावी रे ॥ प्र० ॥ निज निज स्थानक ते
 सुर जावें, दिलमां प्रचुके गुण ध्यावे रे ॥ प्र० ॥ १९ ॥ समकितवंत
 तणी ए करणी, नवसायरपार उतरणी रे ॥ प्र० ॥ कुगति हरी दिये मुक्ति
 सहेली, प्रचुपूजायें दरिसण जेली रे ॥ प्र० ॥ २० ॥ ढाल ठप्पनमी
 खंनं ठठे, प्रचु पूजो चित्त अकुंठे रे ॥ प्र० ॥ रामविजय कहे उत्तम
 तैह, जेहने प्रचु सार्थे सनेह रे ॥ प्र० ॥ २१ ॥ सर्वगाथा ॥ ११४६ ॥

॥ दोहा ॥

॥ जिनवर मुक्ति पधारिया, चक्रायुध गणधार ॥ प्रचुगुण समरंता
 मनें, महियल करे विहार ॥ १ ॥ साधु संघातें परिवखा, सूधा समता
 वंत ॥ नविकजीव प्रतिबोधता, सुरनरसेवित संत ॥ २ ॥ गुण सत्या
 वीश साधुना, अंगें धरे अणगार ॥ समतारसमांहे जीलता, नहिं
 ममता अहंकार ॥ ३ ॥ अरति निवारी चित्तथी, रतिपति न लहे लाग ॥
 चक्रायुध गणधर तणुं, जग प्रसखुं सौजाग्य ॥ ४ ॥ आतम गुण वाडी
 जली, सींचे उपशम नीर ॥ वानर इंडिय चपलता, काढी मूके धीर ॥
 ॥ ५ ॥ कटुक जाड काढयां परां, क्रोधादिक जस नाम ॥ वाडी जली वे
 राग्यनी, चोपरकें अनिराम ॥ ६ ॥ शांतिनाथ जिनराजनी, शिरपर धारे
 आण ॥ न्याहाद मत उपदिसे, नय गम जंग प्रमाण ॥ ७ ॥ इव्यें गुण
 पर्यायनुं, चिंतन करे सुधर्म ॥ अप्रमत्तता नृमिमां, निविड खपाड्यां कर्म
 ॥ ८ ॥ नर्म मट्यो मोहरायनो, चेतन कीधी केडि ॥ करणशस्त्र करमां
 ग्रही, नाख्यो मोह उखेडि ॥ ९ ॥ श्रेणि चढी गुणवाणमां, वरतावे
 निज आण ॥ वीतरागना जावथी, पाम्यो केवलनाण ॥ १० ॥ सुरअ
 सुरादिक सवि मिट्या, उत्सव करे अपार ॥ गगनें गाजे डुंडुनि, वरत्यो
 जय जयकार ॥ ११ ॥ नवस्वरूप नाटक समुं, दीहुं नजरें ताम ॥ नव्य
 जीवनी आगळें, दिये देशना आम ॥ १२ ॥

॥ ढाल सत्तावनमी ॥

॥ डलहो मानवचव लाधो ॥ ए देशी ॥ कहे चक्रायुध केवल नाणी,
सांजलो सहु नवि प्राणी ॥ नव अनादि संयोग ए दीसे, गुं देखि देखी हीसे
रे ॥ १ ॥ नविका, धर्म करो मद मूकी ॥ नहिंतर जाशो नव चूकी रे ॥ न० ॥
ए आंकणी ॥ मनमांहे चिंते मात पिता मुऊ, जाई ने जोजाई ॥ पण कोइ
काम पडे नवि आवे, सार्थे आप कमाई रे ॥ न० ॥ २ ॥ लोन घणो म
नमांहे राखे, मेले धन केइ लाख ॥ पाप परिग्रह जेलो कीधो, पण
अंतें सहु राख रे ॥ न० ॥ ३ ॥ मनमांहे जाणे मान तणे वश, पूरुं हुं सहु
नुं पाहुं ॥ शीख देयंतां जागे अवलो, बोले वायक आहुं रे ॥ न० ॥ ४ ॥
वेहु प्रकारें बालपणुं निज, पोपे बहु आरंजी ॥ निष्कारण जगमांहे बांधे,
कर्म कठिन सारंजी रे ॥ न० ॥ ५ ॥ पुजलनी मूर्त्तमांहे पडियो, पाप
कर्म करे केइ ॥ करे अन्याय रहे वलि अलगा, परने माथे देई रे ॥ न०
॥ ६ ॥ त्रीश महामोहस्थानक वारो, निज आतम साधारो ॥ कहे चक्रा
युध गणधर गिरुठ, ते नवि हृदयमां धारो रे ॥ न० ॥ ७ ॥ जलमांहे पेसी
जे हणो त्रसने, मत्स्यादिकने जलशस्त्रें ॥ पादादिक आक्रमण करीने, प्रथम
स्थानक कह्युं शास्त्रें रे ॥ न० ॥ ८ ॥ वाध लीले त्रस जीवने वींटी, जे हणो
ते डःख लहेरो ॥ हाथे मुख रुंधी हणो त्रसने, कहो तस शी गति होरो
रे ॥ न० ॥ ९ ॥ मंमप वाडादिकमांहे क्षेपी, धूमाकूल करि मारे ॥
महा मोहस्थानक सेवंतो, रुले चिहुंगति संसारें रे ॥ न० ॥ १० ॥ डुष्ट
मनें असि मुजर शस्त्रें, उत्तम अंग विदारे ॥ निर्दय परिणामी त्रस ऊपर,
करतो ए कर्म वधारे रे ॥ न० ॥ ११ ॥ मायायें वेश लेई वणिजादिक,
पंथ चलीने सार्थे ॥ वचमांहे गलकर्त्तन करे पापी, चूंदा कह्या जगनाथें
रे ॥ न० ॥ १२ ॥ गूढाचार निगूढे चूंदा, मायायें परमाया ॥ आह्लादे जिम
शकुन विघातक, उद ढांके निज काया रे ॥ न० ॥ १३ ॥ ए ठहुं स्थानक
मत सेवो, हवे सप्तम सुणो प्राणी ॥ असत्यवादी सूत्रारथनिहव, कह्यो
जिन अथगुण खाणी रे ॥ न० ॥ १४ ॥ डुष्टाचरण रहितने अंतें, आप
करे अपराधे ॥ ठायात्रंश करे ते पापी, आतमगुणथी न वाधे रे ॥
॥ न० ॥ १५ ॥ नवमे जाण हुं तो पर्पदमां, साचां जूठां जे चोले ॥ कल
हथकी अणविरम्यो मानव, नावे कोडी मूलें रे ॥ न० ॥ १६ ॥ नाय

क रहित सचिव नरपतिनो, राज कलत्र विधंसी ॥ अर्थावगम उपाय जणी
 तेम, ध्वंसे ते पुरो मंशी रे ॥ ज० ॥ १७ ॥ सामंतादिक परिकर जेदे, तस
 अधिकार पडावी ॥ धिग थऱ हरे जोगने परना, शुजमति मूके मावी रे ॥
 ज० ॥ १८ ॥ नहिं कुमार कहे बालकुमारो, ब्रह्मचारी लोक आगें ॥ स्त्री
 वशवर्ती अग्यारमुं स्थानक, सेवतो जाणजे आगें रे ॥ ज० ॥ १९ ॥ न
 हिं ब्रह्मचारी कहे ब्रह्मचारी, वारमुं स्थानक मातुं ॥ जस निष्ठा विचरे ते
 हनुं धन, ताके ते पातक कातुं रे ॥ ज० ॥ २० ॥ अणईश्वर ईश्वर जेणें
 कीयो, परिगल वित्त घर पामी ॥ ईर्ष्या द्वेष धरे स्वामीशुं, तेहमां महोटी
 खामी रे ॥ ज० ॥ २१ ॥ जेम सापिण अंमकपुट निहणे, तेम पोपकने
 मारे ॥ सेनापति शास्तार प्रत्यें ते, रूढो नहिं आचारें रे ॥ ज० ॥ २२ ॥
 देश तणो नायक जे दीसे, निगम तणो अधिकारी ॥ जेठ बहुयशने जे मा
 रे, शोलमुं ए ठाण जारी रे ॥ ज० ॥ २३ ॥ बहुजनना नेता प्राणीने, त्रा
 ण जे क्षीप समान ॥ प्रावचनी नरने जे निहणे, सत्तरमुं कयुं ठाण रे ॥
 ज० ॥ २४ ॥ संवतविरति उपस्थित तपसी, धर्मथकी चूकावे ॥ महा
 मोहनो बंध करे ते, मुज मनमां न सुहावे रे ॥ ज० ॥ २५ ॥ जिन अ
 नंत नाणी वरदंशी, तेहनो अपयश बोले ॥ एकोनविंशतितम ए स्थान
 क, सेवतो कहां कुण तोळें रे ॥ ज० ॥ २६ ॥ नैयाधिक मार्ग अपका
 री, बहु जनने जंचेरे ॥ जावयतिनिंदी ए महेजो, फरजे चिहुं गति फेरे
 रे ॥ ज० ॥ २७ ॥ आचारिज उवजायें जणाव्यो, सबल थयो श्रुतपाठी ॥
 बाल करे खिंसा वली तेहोनी, मति तेहनी घणुं माठी रे ॥ ज० ॥ २८ ॥
 आचारिज उवजायने न करे, सम्यग् जे उपगार ॥ अप्रतिपूजक तेहनो जे
 नर, तास अकज अवतार रे ॥ ज० ॥ २९ ॥ त्रेवीशमुं स्थानक अवहुश्रुत,
 बहुश्रुत नाम धरावे ॥ चोवीशमे अतवस्ती तपीयो, हुं एम कीर्ति गवावे रे
 ते ॥ ज० ॥ ३० ॥ ग्लानतणुं वेयावच्च न करे, समरथ दूंतो जेह ॥ एणें
 न कयुं नवि करजे ए माहरे, महामोद वांधे तेह रे ॥ ज० ॥ ३१ ॥ जे
 ह कथा अधिकरण प्रयुंजे, तीरय जेद करंतो ॥ ठवीशमुं महामोदनुं स्या
 नक, बोधि न पामे मरतो रे ॥ ज० ॥ ३२ ॥ जे आचर्मिक योग प्रयुंजे,
 निमित्त वशीकरणादि ॥ श्लाघा मित्र तणे वली देतें, महामोहनो उ
 न्माद रे ॥ ज० ॥ ३३ ॥ जे मानुष्यक जोग अतृतां, पारलौकिकने चाहे ॥

अथवावीशमुं मोहनुं स्थानक, ए दाख्युं जिननाहें रे ॥ ज० ॥ ३४ ॥ देव
तणी द्युति रुद्धि ने वीरज, बल यश वर्णविशेष ॥ तास अवरण जे बालम
ति कहे, नहिं तेहमां गुणरेख रे ॥ ज० ॥ ३५ ॥ नवि देखे ने कहे
हुं देखुं, देव अने वली यद्द ॥ अज्ञानी जन पूजा अर्थी, बांधे मोह प्र
त्यद्द रे ॥ ज० ॥ ३६ ॥ ए त्रीशे स्थानक सेवंतो, महामोहनो अधि
कारी ॥ जाणीने तुमें विरमो एहथी, कहे गणधर उपकारी रे ॥ ज० ॥
३७ ॥ ढाल सत्तावनमी खंम ठे, गणधर देशना दीधी ॥ समकितदृष्टि
जे नर नारी, श्रवणपुटें करी पीधी रे ॥ ज० ॥ ३८ ॥ सर्वगाथा ॥ ११६ ॥
॥ दोहा ॥

॥ श्रीचक्रायुध केवली, देशन अमृतसार ॥ नविक जीव केइ बू
जवी, कृताख्या नवपार ॥ १ ॥ आयु जाणी अवशेष निज, थोडुं गण
धर देव ॥ बहु सायुधुं परिवखा, सारें सुर नर सेव ॥ २ ॥ नरत क्षेत्र
मध्य खंममां, पावन तीरथ सार ॥ कोटिशिलानिध ठे जलुं, नामें नव
निस्तार ॥ ३ ॥ श्री चक्रायुध केवली, विचरंता मुनि साथ ॥ कोटिशिलायें
आविया, जगतारण जगनाथ ॥ ४ ॥ अणसण कीधुं तिहां कणे, बहु
केवलिपरिवार ॥ श्री चक्रायुध गणधरु, पाम्या शिवपद सार ॥ ५ ॥
कालें कोटिशिलाविपे, सिद्धा मुनिवर कोडि ॥ चक्रायुध सिद्धा पठी,
वंदूं वे कर जोडि ॥ ६ ॥

॥ ढाल अष्टावनमी ॥

॥ रूपन जिणंदा रूपन जिणंदा ॥ ए देशी ॥ तीरथ वंदो ए तीरथ वंदो,
कोटिशिलानिध जेम चिर नंदो ॥ कोडि गमे गया जिहां मुनि मुक्तें, ते
तीर्थ प्रणमो नवि नक्तें ॥ ती० ॥ १ ॥ श्री चक्रायुध गणधर सिद्धा,
शांतिप्रचुवारें परसिद्धा ॥ ते पूठें मुनि संख्यात कोडि, मुक्तें गया प्रणमुं
कर जोडी ॥ ती० ॥ २ ॥ कुंथु जिणंद हुच्या नगवंता, सत्तरमा जिन
गिरुच्या गुणवंता ॥ संख्यात कोडी तस तीरथ सिद्धा, मुनि वंदो गुण
रयण समिद्धा ॥ ती० ॥ ३ ॥ श्रीअरनाथें तीरथ तरिया, द्वादश कोडि
मुनि शिवपद वरिया ॥ एह शिला उपरें दुःख वारी, सिद्ध यया जाउं
वलिहारी ॥ ती० ॥ ४ ॥ मल्लि जिणोसर त्रिचुवन स्वामी, सुर नर आवी
नमे शिर नामी ॥ ए प्रचु तीरथें मुनि पद कोडी, शिव पाम्या प्रणमो

मन कोडि ॥ ती० ॥ ५ ॥ श्रीमुनिसुव्रत वारें ए कहियें, कोटिशिला
 देखी गहगहियें, त्रण कोडि मुनिवर मुक्ति पयाखां, ते वंदीने नव दुःख
 वाखां ॥ ती० ॥ ६ ॥ नमि जिन तीरथमां गुण जरिया, एक कोडि मुनि
 पट्काय पीहरिया ॥ एह शिला उपर आलोटी, पाम्या हो शिव पदवी महोटी
 ॥ ती० ॥ ७ ॥ एम अवर पण मुनिवर सिखा, पण ते इहां गणनायें न
 लीधा ॥ कोटि अन्यून जेहने वारे, सिखा तेहनो इहां अधिकारें ॥ ती०
 ॥ ८ ॥ कोटिशिला तिण माटें कहियें, ए तीरथ सेव्ये सुख लहियें ॥ चारण
 भ्रमण मुनि इहां आवे, सुर नर किन्नर मलि गुण गावे ॥ ती० ॥ ९ ॥
 जिहां एक मुनिहुं होय निर्वाण, ते तीरथ नमे कोडि कव्याण ॥ जिहां
 मुनि मुक्ति गया केइ कोडि, ते तीरथ प्रणमो कर जोडी ॥ ती० ॥
 ॥ १० ॥ कोटिशिलानिध तीरथ दीसे, जोतां नवि जननां मन हीसे ॥ तीरथ
 वंदो ए नरतमां वारु, राम कहे सुणो सुगुण श्रोतारु ॥ ती० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥

॥ ढाल ॥

॥ राग धन्याश्री ॥ शांति जिन शांति जिन शांति जिन राजीया,
 पुण्यथी आज तुज सेव पामी ॥ गायतां स्वामिगुण रासलीला घणी,
 आजथी गुन दशा सरस जामी ॥ शां० ॥ १ ॥ मात अचिरातणो तनय
 सोहामणो, तुम तणां नामणां नित्य लीजें ॥ रायविश्वसेसना कुमर
 कुलचंदला, ताहरे नाम गुनकाज सीजे ॥ शां० ॥ २ ॥ धन्य तुं धन्य तुं
 धन्य हुं धन्य हुं, नाग्यथी सरस तुम दरिस दीगो ॥ शोलमा जिन
 वरा दुःखहरा शंकरा, आजथी माहरो पाप नीगो ॥ शां० ॥ ३ ॥
 दिव्य कंचनवने अजव शोजा वनी, धनुष चालीश तनुमान सामी ॥
 देवना देव तुज सेवना मन वसी, माह्रां सुकृतमां नहीय खामी
 ॥ शां० ॥ ४ ॥ दिव्य अनुपम घणुं रूप रलीयामणुं, तुम तणुं नयण जोतां
 निहाली ॥ डुरित दूरें टले लठि बहुली मले, सुजस वेला वले अति र
 साली ॥ शां० ॥ ५ ॥ ताहरुं नाम वरमंत्र मन जेहनं, तेहने रिपु परा
 नव न लागे ॥ सिद्धि नव निधि वर बुद्धि विलसे तिहां, नविजना जे
 रहे तुज रागें ॥ शां० ॥ ६ ॥ गाजती गजघटा तास घर आंगणो, नृपति
 सेवे घई दास नित्यें ॥ विमलकमला वरे कीर्ति जग विस्तरे, जे जना तुम

जपे नाम चित्तें ॥ शां० ॥ ७ ॥ शान्तिजिन सांजलो एक मुज वीनति, हुं
 नति बहु करी एम दाखुं ॥ नेक नजरें करी निरखो मुज सामुहुं, तुम
 विना अवर दिलमां न राखुं ॥ शां० ॥ ८ ॥ हुं सयोगी अयोगी प्रभु तुं
 जयो, हुं सरागो तुमें वीतरागो ॥ हुं सदाशी नीराशी तुमें साहिवा,
 मेलव्यो मेल तुज नक्तिरागो ॥ शां० ॥ ९ ॥ मुज सम सेवका स्वामी
 ताहरे घणा, तुज सम अवर नहिं कोइ महारे ॥ शरण हुं आवियो सेव
 करवा नणी, नक्तवत्सलतणुं विरुद तहारे ॥ शां० ॥ १० ॥ प्रभु तुम
 गुण तणो रास रंगें रच्यो, हर्षणुं हुं मच्यो एह गातां ॥ बोधिप्राप्ति महो
 दय घणी संपदा, पलक नहिं वार तुम चरण ध्यातां ॥ शां० ॥ ११ ॥
 सतर संवत जयो वरस पंचाशियो, राजनगरें रह्या अधिक हेजें ॥
 आदिजिन शान्तिजिन पार्श्वजिन वीरजिन, चार प्रभु दीपता सहज
 तेजें ॥ शां० ॥ १२ ॥ तेह प्रभु सान्निध्यें रास रचना करी, अतिहि आ
 नंद मनमांहे धारी ॥ श्री सुमतिविजय सुगुरुचरणसुपसायथी, रामप्रभु
 शान्तिजिन सौख्यकारी ॥ शां० ॥ १३ ॥ इति शान्तिजिनस्तुतिः ॥ १३३६ ॥

॥ ढाल ॥

॥ शान्तिप्रभु नामणे जाउं ॥ ए देशी ॥ नविषण जाव धरीने
 आवो ॥ शान्ति प्रभु गुण गाउं रे ॥ मोती थाल नरीने लावो,
 प्रभुगुणरास वधावो रे ॥ ज० ॥ १ ॥ जगमांहे अधिक अठे मीठाइ,
 जाति विविध मन जाई रे ॥ तेहथी एहमां अधिक सरसाइ, स्वाद ए
 शिवसुखदायी रे ॥ ज० ॥ २ ॥ पहेले नव श्रीपेण नरिंदा, बीजे युगल
 सुखकंदा रे ॥ त्रीजे सुरसौधर्म सुरिंदा, सुख विलसे आनंदा रे ॥ ज० ॥
 ॥ ३ ॥ चौथे विद्याधरकुलें आया, अमिततेज गुण गाया रे ॥ पांचमे
 प्राणत सुरपद पाया, ठठे राम कहाया रे ॥ ज० ॥ ४ ॥ सातमे अ
 च्युत इइ कहीजें, आठमे चक्री सुणीजें रे ॥ नवमे त्रैवेयक निसुणीजें,
 नवमे नाम जपीजें रे ॥ ज० ॥ ५ ॥ दशमे मेघरथ राय अदीनो, दान
 अचय जिणें दीनो रे ॥ करे प्रशंसा स्वामी शचिनो, जस गुण रसमां
 चीनो रे ॥ ज० ॥ ६ ॥ सर्वास्थसिद्ध सुर अवतारें, सुख पाम्या श्री
 कार रे ॥ नव अग्यारमे धारमे नरतें, प्रयो जिन जगदाधार रे ॥ ज० ॥ ७ ॥
 शान्ति प्रभुना गुणनी माला, गातां रंग रसाजा रे ॥ मनोवांछित लहे लढी

विशाला, मंदिर जाक जमाला रे ॥ ज० ॥ ७ ॥ दुःख दोहग सवि दूर प
 ये, जे ए प्रचुगुण गाये रे ॥ दोपी दुर्मन नाशी जाये, जन्म कृता
 याये रे ॥ ज० ॥ ८ ॥ जिनगुण गणतां नावें जणतां, श्रवणें तेम सांन
 तां रे ॥ अलवे अलगां होय अणमिलतां, आवि मले सवि चलतां रे
 ज० ॥ ९ ॥ मूकी विकथा वात अनेरी, जिनगुण वात जलेरी रे ॥ कर
 कुगति न जूवे हेरी, लहियें मुक्तिनी शेरी रे ॥ ज० ॥ १० ॥ तपगह
 यक सुगुरु सुणिंदा, श्रीहीरविजय सूरिंदा रे ॥ बूजव्यो अकवर शाह न
 दा, मोहनवल्लीकंदा रे ॥ ज० ॥ ११ ॥ पडह अमारी तणा वजडाय
 जजिया कर ठोडाय रे ॥ भावर सरोवर जाल मुकाया, महियल सुज
 गवाया रे ॥ ज० ॥ १२ ॥ साह कुंवरकुल साहस धीरा, नाथीकूखें
 रा रे ॥ अगव्या पूरव पुण्य अंकूरा, धर्म करण थया शूरा रे ॥ ज०
 १३ ॥ अकवर शाह कखो जेणें सीधो, वीरुद जगजुरु दीधो रे ॥ महि
 लमांहे सवलो यश लीधो, चिंतित कारिज कीधो रे ॥ ज० ॥ १४ ॥
 विजयदान गुरु पाट पटोधर, उदयो अधिक सवाई रे ॥ पंच विषय परिह
 कखो जेणें, तप तपिया सुखदायी रे ॥ ज० ॥ १५ ॥ दोय सहस आं
 ल जस कीधां, तिम नीवी तिम जाणो रे ॥ त्रण सहस पटू शत व
 उपरें, तप उपवास वखाणो रे ॥ ज० ॥ १६ ॥ चार कोडि संख्या
 कीधो, श्रीसहगुरु सवायो रे ॥ अष्टोत्तरशत मुनि जिणें दीख्या, ए गु
 पुण्यें पायो रे ॥ ज० ॥ १७ ॥ पंच शत संख्या जस उपदेशें, देहरास
 प्रासादो रे ॥ जविजन नाव धरीने मांमया, दीते हुवे आनंदो रे ॥ ज
 ॥ १८ ॥ विंवप्रतिष्ठा कीथी गुरुजीयें, पचास वार उदारो रे ॥ पाटण
 मुख नयर बहु उत्सव, वरत्यो जय जयकारो रे ॥ ज० ॥ १९ ॥ यात्र
 दोय सिद्धाचल केरी, दोय गिरनीरें कीथी रे ॥ लाख विंव जुहाखां
 ननां, महियल इज्जत लीधी रे ॥ ज० ॥ २० ॥ मान तजी रूपि मेधज
 नामें, लूका मत्तनो स्वामी रे ॥ जिनप्रतिमा आगधक हूठ, हीर गुरुने प
 मी रे ॥ ज० ॥ २१ ॥ मागशिर शुद्धि नवमी दिन सुंदर, साहकुंवर कु
 आयो रे ॥ पन्नर त्र्यासीयें पालणपुरमां, नाथायें कुंवर जायो रे
 ज० ॥ २२ ॥ पन्नर त्र्युयें कार्तिक वदिमां, वीजें वीहा लीथी रे ॥ संव
 गोल साते नागोरे, पंमित पट्टी दीथी रे ॥ ज० ॥ २३ ॥ संवत शॉ

आठें वाचकपद, माहाशुद्धि पंचमी दीधुं रे ॥ विजयदान सूरीश्वर उत्तम,
 चिंतित कारिज कीधुं रे ॥ न० ॥ ३५ ॥ सोल दाहोत्तरें शीरोहीमां, आ
 चारिज पद पायुं रे ॥ सोनागी महिमानिधि महोटा, जिनशासन दीपायुं
 रे ॥ न० ॥ ३६ ॥ समिति गुप्ति सूधी गुरु धारे, समतारस चंमारो रे ॥
 जेणें ए गुरुजी नयणें निरख्या, धन्य तेहनो अवतारो रे ॥ न० ॥ ३७ ॥
 श्रीहीरविजयगुरु पाट पटोधर, साह कमा कुलचंदो रे ॥ मात कोमाइ कुखें
 उपन्ना, श्रीविजयसेनसूरि वंदो रे ॥ न० ॥ ३८ ॥ शाह मनामांहे वाद
 करीने, जिनमत स्थिरता स्थापी रे ॥ बिरुद सवाइ जगजुरु पायो, कीर्त्ति
 लता आरोपी रे ॥ न० ॥ ३९ ॥ तास पाट उदयाचल उदयो, शुद्धप्ररू
 पणकारी रे ॥ श्री राजसागरसूरि जग जयवंता, नवियणने उपकारी रे
 ॥ न० ॥ ४० ॥ देवीदास अंबर कुलदिनमणि, मात कोडिमदे जायो
 रे ॥ मनमोहन सोनागी सद्गुरु, महिमानिधि मुनिरायो रे ॥ न० ॥ ४१ ॥
 संवत सोल ढाशीया वरसें, आचारिज पद पायो रे ॥ श्रीराजसागरसूरि
 नाम जयंकर, सागर गह्व दीपायो रे ॥ न० ॥ ४२ ॥ शाह शिरोमणि
 सहसकिरणसुत, शांतिदास सुजाणो रे ॥ जस उपदेशें बहु धन खरच्युं,
 लख अग्यार प्रमाणें रे ॥ न० ॥ ४३ ॥ कीर्त्तिकमला श्रीगुरुजीनी, जग
 मांहे घणुं पसरि रे ॥ नवियण मनमांहे अति हर्षें, जस गुणमाला
 समरी रे ॥ न० ॥ ४४ ॥ तेह गुरुपाट पटोधर प्रगढ्या, श्रीवृद्धिसागर
 सूरिदा रे ॥ पंचाचार विचारे चतुरा, मोहनवल्लीकंदा रे ॥ न० ॥ ४५ ॥
 रूप अनोपम अंगें विराजे, शुच लक्षण अति रूडां रे ॥ बहु नर नारी
 जेणें प्रतिबोध्यां, वयण न नांखे कूडां रे ॥ न० ॥ ४६ ॥ गुणनिधि तेह
 ने पाट विराजे, श्रीलक्ष्मीसागरसूरि ठाजे रे ॥ कीर्त्ति जेहनी जगमांहे गाजे,
 नवि मन संशय नांजे रे ॥ न० ॥ ४७ ॥ संप्रतिमानविजयते गुरुजी, सोनागी
 शिरदारा रे ॥ वैरागी वहाला नविजनने, शमतारस चंमारा रे ॥ न० ॥
 ४८ ॥ तेह तणें राज्यें ए रचियो, शांतिप्रभुनो रासो रे ॥ नवियण
 नाव धरिने निसुणो, लहियें सुस्क विलासो रे ॥ न० ॥ ४९ ॥ ३२७५ ॥

॥ ढाल ॥

॥ राग धन्याश्री ॥ श्रीगुरु हीरसूरीश्वरशिष्या ॥ ए आंकणी ॥ कव्या
 णविजय उवधाय पुरंदर, दिन दिन चढत जमीशा ॥ श्रीगु० ॥ १ ॥

शा हारखानंदन सोनागी, साचो वड वैरागी ॥ सम्मति अर्थविचारी सज्जुह,
साचो शुभमति रागी ॥ श्री० ॥ २ ॥ मात पुंजीवाइ कूखें जायो, नामें
नवनिधि थाइ ॥ वाचक धर्मविजय वर तेहना, दीपे अधिक सवाई ॥
श्री० ॥ ३ ॥ तस अंतवासी गुणनरिया, बोल न बोले विरुध्या ॥
श्रीजयविजय विबुध श्रुतदरिया, पाले सूधी किरिया ॥ श्री० ॥ ४ ॥ तस
पदपंकज चमर सरीखा, श्रीशुभविजय कवीशा ॥ गुणगंजीरिम मेरुगिरीशा,
श्रुतजलसिंधु मुनीशा ॥ श्री० ॥ ५ ॥ तस चरणांबुज सेवक सुंदर,
शुभकिरियागुणशूरा ॥ साधे योगान्यास अखंमित, नहिं गुणरयणें अधूरा
॥ श्री० ॥ ६ ॥ महिमावंत महंत मुनीश्वर, चरण नमे अवनीशा ॥ श्रीगुरु
सुमतिविजय उपगारी, प्रतपो कोडि वरीसा ॥ श्री० ॥ ७ ॥ ते श्रीगुरु
महिमानिधि सान्निध्य, रास रसिक में निपायो ॥ शांति प्रभुगुणराशि
जणंतां, नवनिधि आनंद पायो ॥ श्री० ॥ ८ ॥ पूर्व चरित्र तणे अनु
सारें, ए संबंध बनाया ॥ जान अनंत लह्यो ए रचतां, दिन दिन
सुजस सवाया ॥ श्री० ॥ ९ ॥ सकल संवने मंगलकारी, शांति जिणंद
सुखदाया ॥ रामविजय कहे ए जिनवरके, हर्ष धरी गुण गाया ॥ श्री०
॥ १० ॥ संवत सत्तर पंचाशीया वर्षें, वैशाख मास कहाया ॥ शुदि
सप्तमी गुरु पुण्य संयोगें, पूरण कलश चढाया ॥ श्री० ॥ ११ ॥ अधिक
न्यून जे कांड एणीमें, अण उपयोगें लिखाया ॥ ते सुकवि सवि शोधी
लेजो, करि सुनजर सुपसाया ॥ श्री० ॥ १२ ॥ श्रीराजनगरनो संघ
सोनागी, तेहने प्रथम सुणाया ॥ रुदि वृद्धि प्रगटी अधिकेरी, आनंद अधि
क उपाया ॥ श्री० ॥ १३ ॥ इति श्रीशांतिजिनप्रबंधे रासबंधे सुठतानुसंधे
प्रनोरवतारजन्म जन्ममहोत्सव नामस्थापन लेखकशालामहोत्सव यौवन
वयःप्रापण राज्यस्थापन राजकनीपाणिग्रहण चक्ररत्नोत्पत्ति पदखंडसा
धन चक्रवर्तिराज्यानिषेकोत्सव पदखंडपालन नवाऽसारतानासन, वार्षि
कदानसमर्पण चारित्रग्रहण केवलोत्पत्ति चतुःषष्टिसुरेंडमिलन समवसरण
निर्माण तद्वर्णन देशनादान तन्मध्ये पंचेंडियविषयवर्णन, तडुपरि गुणध
र्मकुमारसंबंधकथन, तदनंतर कयायोपरि नागदत्तसंबंधकथन तदनंतर विस्त
रतः सम्यक्मूलश्राद्धदशव्रतकथन तन्मध्ये प्रथमव्रतोपरि चमपाग
संबंध तदनंतर द्वितीयव्रतोपरि चण्ड्रेष्टिसंबंधकथन तदनंतर तृतीयव्रतो

परि जिनदत्तकथानक चतुर्थव्रतोपरि करालपिंगलपुरोहितसंबंध पंचमव्रतोपरि सुजससंबंध पष्ठव्रते स्वयंभुदेवसंबंध सप्तमव्रतोपरि जितशत्रुनृपनित्यमंदितानीरीदृष्टांतनिरूपण अष्टमव्रते समृद्धदत्तसंबंधोपदेश नवमव्रते सिंहश्रावकावदातवर्णन दशमदेशावकाशिकव्रते गंगदत्तसंबंधवर्णन, एकादशपौषधव्रतोपरि जिनदत्तसंबंध द्वादशव्रतोपरि शूरपालनृपसंबंधवर्णन इति श्राद्धव्रतसंबंधकथनानंतर शुद्धयतिधर्मस्वरूपश्रवणतः प्रतिबुद्धचक्रायुधनृपचारित्रग्रहण गणधरपदस्थापन द्वादशांगिरचन पाश्चात्यपौरुषसंघस्याग्रे गणधरदेशनासमर्पण तन्मध्ये अंतरंगस्वरूपकथन, तदुपरि रत्नचूडसंबंधनिरूपण तदुपनयमेलन तदनंतर प्रभुविहारावसरे चतुस्त्रिंशदतिशयवर्णन प्रभुपरिवारसंख्याकथन अष्टमहाप्रातिहार्यवर्णन आयुधसंबंधमिलन निजायुरवशेषवहुपरिवारेण सम्मैतगिरिगमन तत्र चतुःषष्टिसुरेण्डमिलन प्रभुदेशनाश्रवण तन्मध्ये सिद्धस्वरूपवर्णनावसरे सिद्धसुखपृष्ठया वनचरसंबंधकथन तदनंतर नवशतकेवलज्ञानिसाधुनिरनशनविधान निर्वाणपदप्रापण निर्वाणकल्याणिकोत्सवकरण तदनंतर चक्रायुध गणधरकेवलोत्सववर्णन देशनायां त्रिंशन्महामोहस्थापननिरूपण अनेकनव्यजीवप्रतिबोधन कोटिशिलातीर्थगमन तत्र मुक्तिपदप्रापण कोटिशिलातीर्थस्तवन शान्तिजिनराजस्तुतिमाहात्म्यवर्णनाद्यनेकसंबंधोपवृंहितः पष्ठः खंमः समाप्तिमगमत् ॥ तत्समतौ च समाप्तोऽयं शान्तिजिनरासः ॥ शुभं भवतु श्री श्रमणसंघस्य ॥ शुभं स्तान्नेखकपाठकयोः ॥ सर्वगाथा ॥ ११७९ ॥ प्रस्ताविक श्लोक तथा गाथा ॥ ७७ ॥ प्रथम खंमे ढाल ॥ १७ ॥ द्वितीयखंमे ढाल ॥ ३० ॥ तृतीयखंमे ढाल ॥ ३३ ॥ चतुर्थखंमे ढाल ॥ ३४ ॥ पंचमखंमे ढाल ॥ ३७ ॥ पष्ठखंमे ढाल ॥ ६१ ॥ सर्वस्मिन् चूत्वा ढाल ॥ ११३ ॥ प्रथमखंमे गाथा ॥ ४३७ ॥ द्वितीयखंमे गाथा ॥ ७१७ ॥ तृतीयखंमे गाथा ॥ ७३४ ॥ चतुर्थखंमे गाथा ॥ १००७ ॥ पंचमखंमे गाथा ॥ ११७७ ॥ पष्ठखंमे गाथा ॥ ११७९ ॥ सर्वस्मिन् चूत्वा गाथासंख्या ॥ ६५७३ ॥ प्रथम खंमे प्रस्ताविक श्लोकगाथा ॥ ४१ ॥ द्वितीयखंमे प्रस्ताविक श्लोक गाथा ॥ १० ॥ तृतीयखंमे प्रस्ताविक श्लोक गाथा ॥ ७६ ॥ चतुर्थखंमे प्रस्ताविक श्लोक गाथा ॥ ४१ ॥ पंचमखंमे प्रस्ताविक श्लोक गाथा ॥ ६३ ॥ पष्ठखंमे प्रस्ताविक श्लोक गाथा ॥

॥ ८८ ॥ सर्वस्मिन् चूत्वा प्रस्ताविक श्लोक तथा गाथा ॥ ३३० ॥ इति
मंथित श्रीरामविजयविरचित शान्तिनाथजगवाननो रास समाप्त ॥

॥ अथ स्त्रीने शीलपालवाना यत्किंचित् बोलो लखीये ठेयें ॥

१ पिता बांधव प्रमुख कोइपण पुरुपनी कोटें बलगी मजबुं नहिं. २ कोइ
परपुरुपने न्हवराववो नहिं. ३ कोइ परपुरुपनुं उवटणादिकथी अंगमर्दन
करवुं नहिं. ४ कोइ परपुरुप साथें पत्रादिकथी खेलवुं नहिं. ५ कोइ पर
पुरुपनो ठेढो पकडी वात करवी नहिं. ६ कोइ परपुरुपसाथें हसीने हाथ
ताली लेवी नहिं. ७ कोइ परपुरुपनी वेणी गुंथवी नहिं. ८ कोइ परपुरुपनां
अंग चांपवां नहिं. ९ कोइ परपुरुपना हाथनी पाननी बीडी लेवी नहिं.
१० कोइ परपुरुपसाथें एक शय्यायें वेसवुं अने सुवुं नहिं. ११ वाटें शरीयें
पुरुपना संघमां जावुं नहिं. १२ घोडा वगेरे आमश विनाना वाहनपर
वेसवुं नहिं. १३ ज्येष्ठ, ससरो, सासु तथा सासरामां कोइ मोटेरानी साथें
वफा वाजी करवी नहिं. १४ कोइ परपुरुप साथें एकांतमां रहेवुं नहिं.
१५ परपुरुपथी दृष्टि मेलावी सरागथी जोवुं नहिं. १६ कोइ परपुरुपसाथें
सांकेतिक चापाथी बोलवुं नहिं. १७ योगी, जरडा, जिह्वाचर, तेनी साथें
चापण करवुं नहिं. १८ कोइ पुरुप देखे तेम वडीनीति लघुनीति करवी
नहिं. १९ ज्यां पुरुप सुता होय, त्यां अनर्गल थड फरवुं नहिं. २० पुरुप
देखतां आलस मरडवुं नहिं. २१ तेम शरीरना अवयव उघाडा करी वता
ववा नहिं. २२ अत्यंत मिष्ट पदार्थ खावापर प्रीति राखवी नही. २३ जोल
न अल्प करवुं. २४ महोटे स्वरथी हसवुं नहिं. २५ अजाणे घेर जावुं नहिं.
२६ पीयर जाजुं रहेवुं नहिं. २७ घरनी वात कोइने कहेवी नही. २८ सासरा
नुं इव्य कपटथी पियरीयाने आपवुं नही. २९ धीरा तथा नीचा स्वरथी बोलवुं.
३० अंग सर्व मंथित राखवुं. ३१ पोताना स्वामीनुं अपमान थाय त्यां जवुं नहिं.

॥ इति श्री जैनकथारत्नकोपस्याष्टमां ॥

जागः समाप्तिमगमत ॥

